

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

*****[ग्रन्थांक ३५]*****

संस्थापक

स्व० श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

*

प्रधान संपादक तथा संचालक

आचार्य जिन विजय मुनि



कविराज - स्वयंभूदेव - विरचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषाप्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

द्वितीय भाग - अयोध्या काण्ड एवं सुन्दरकाण्ड

*

संपादक

डॉ. हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी एम्. ए.; पीएच. डी.

*****[प्रकाशक]*****

सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बंबई

वि. सं. २००९]

卐

[मूल्य १०-८-०

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

१४८३

काल नं०

४८९

२२४.०२ रुचये

खण्ड

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

*****[ग्रन्थांक ३५]*****

कविराज - स्वयंभूदेव - विरचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषामयित महाकान्यात्मक जैन रामायण]



SINGHI JAIN SERIES

*****[NUMBER 35]*****

PAUMACARIU

(A JAINISTIC RAMA-EPIC IN APABHRAMS'A)

Composed by

Kavirāja Svayambhūdeva

PART-SECOND

क ल क त्ता नि वा सी
साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त
प्रतिष्ठापित एषं प्रकाशित

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक - इत्यादि विविधविषयगुम्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगूर्जर-राजस्थानी भादि नानाभाषानिबद्ध; सार्वजनीन पुरातन वाङ्मय तथा नूतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन ग्रन्थावलि.]

प्रतिष्ठाता

श्रीमद् - डालचन्दजी - सिंघीसत्पुत्र

स्व. दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक

आचार्य जिनविजय मुनि

ऑनररी मेंबर, जर्मन ओरिएण्टल सोसाइटी

सम्मान्य नियामक

भारतीय विद्या भवन, बम्बई; तथा, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जयपुर

*

सर्वप्रकार संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रकाशक

सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण, ह. दवे, ऑनररी रजिष्ट्रार, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई नं. ७
मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई २

कविराज - स्वयंभूदेव - रचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषाप्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

विविध विस्तृत पाठभेद, प्रस्तावना, विशिष्ट शब्दकोष, परिशिष्टादि समन्वित

* *
*

संपादक

डॉ. हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी एम. ए.; पीएच्. डी.

(प्राध्यापक, संस्कृत एवं प्राचीन गुजराती साहित्य, भारतीय विद्याभवन)



द्वितीय भाग

(अयोध्या काण्ड एवं सुन्दरकाण्ड)

प्रकाशक

सिंघी जैनशास्त्रशिक्षापीठ

भारतीय विद्या भवन

बंबई

विक्रमाब्द २०१०]

प्रथमावृत्ति, पंचशत प्रति

[ख्रिस्ताब्द १९५३]

ग्रन्थांक ३५]

भारतीय विद्या भवन द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

[मूल्य रु. १०-८-०]

SINGHI JAIN SERIES

*A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL,
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS
IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMŚA AND OLD RAJASTHANI-
GUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT
RESEARCH SCHOLARS*



ESTABLISHED

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA - SAHITYARASIKA - SANSKRITIPRIYA

SRI BAHADUR SINGH SINGHI



DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

ACHARYA JINA VIJAYA MUNI

(HONORARY MEMBER OF THE GERMAN ORIENTAL SOCIETY)

HON. DIRECTOR

BHARATIYA VIDYA BHAVAN, BOMBAY

AND

RAJASTHANA PURATATTVA MANDIR, JAIPUR



UNDER THE EXCLUSIVE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI

AND

SRI NARENDRA SINGH SINGHI



PUBLISHED BY

SINGHI JAIN SHAstra SHIKSHAPITH

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

BOMBAY

PAUMACARIU

OF

KAVIRĀJA SVAYAMBHŪDEVA

(A PRE-TENTH CENTURY JAINISTIC RĀMA-EPIC IN APABHRĀMŚA)

CRITICALLY EDITED FOR THE FIRST TIME WITH AN ELABORATE
INTRODUCTION, INDEX VERBORUM AND APPENDICES

BY

Dr. HARIVALLABH C. BHAYANI, M. A., Ph. D.

Professor of Sanskrit and Old Gujarati
BHARATIYA VIDYA BHAVAN



PART SECOND

(AYODHĀ KĀṆḌA AND SUNDARA KĀṆḌA)

PUBLISHED BY

Singhi Jain Shastra Shikshapith

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

BOMBAY

V. E. 2009]

First Edition: Five Hundred Copies

[1953 A. D.

Vol. 35]

* *
* *

[Price Rs. 10-8-0

॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥

अस्ति बङ्गाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद् इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥	१
बहवो निवसन्त्यत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥	२
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥	३
बाह्य एवागतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिद् । कलिकातामहापुर्यां श्रुतधर्मार्थनिश्चयः ॥	४
कुशाग्रीयस्वबुद्धैव सदृश्या च सुनिष्ठया । उपाज्य विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥	५
तस्य मल्लकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । अभूत् पतिव्रता पत्नी शीलसौभाग्यभूषणा ॥	६
श्रीबहादुरसिंहाख्यो गुणवींस्तनयस्तयोः । अभवत् सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥	७
प्राप्ता पुण्यधता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥	८
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य उयेष्टपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहुवत् पितुः ॥	९
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सुनुर्वीरिन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥	१०
सन्ति त्रयोऽपि सप्तुत्रा भासभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मागानुगामिनः ॥	११
अन्येऽपि बहवस्तस्याभवन् स्वत्वादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥	१२

अन्यच्च -

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तच्चित्रं विदुषां खलु ॥	१३
नाईकारो न दुर्भावो न विलासो न दुर्भयः । दृष्टः कदापि तद्गोहे सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥	१४
भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥	१५
दक्ष-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥	१६
समुच्चलै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥	१७
गत्वा सभा-समित्यादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥	१८
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । अकरोत् स यथाशक्ति सत्कर्मणि सदाशयः ॥	१९
अथान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥	२०
पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥	२१
विचार्यैवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्वमिश्राणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥	२२
जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्ति निकेतने । सिंघीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठमतीष्टिवत् ॥	२३
श्रीजिनविजयः प्राज्ञो मुनिनाम्ना च विश्रुतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥	२४
तस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैर्यौदायोदिसद्गुणैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥	२५
कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रसैर्नागाङ्क-चन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यधीयत ॥	२६
प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सूनां ग्रन्थानां ग्रथनं तथा ॥	२७
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥	२८
उदारश्चेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । व्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यसुसिद्धये ॥	२९
छात्राणां वृत्तिदानेन नैवेष्टां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥	३०
जलवायवादिकानां तु प्रातिकूल्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्र चास्थितः ॥	३१
तत्रापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छ्रुता । ग्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥	३२
नन्द-निध्म्यै-चन्द्राब्दे जाता पुनः सुयोजना । ग्रन्थावल्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नूतना ॥	३३
ततः सुदृष्टपरमात् सिंघीवंशानभस्वता । भाविद्याभवना येयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥	३४
भासीरस्य मनोवाञ्छापूर्वग्रन्थप्रकाशने । तदर्थं व्ययितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकम् ॥	३५
दुर्विलासाद् विधेईन्त ! दौर्भाग्याच्चात्मबन्धूनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गं स सुकृती ययौ ॥	३६
ह्मेन्दु-सै-शून्य-नेत्राब्दे मासे भाषाठसञ्ज्ञके । कलिकाताख्यपुर्यां स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥	३७
पितृभक्तैश्च तरुणैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाश्यतेऽधुना पुनः ॥	३८
इयं ग्रन्थावलिः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भूत्यै सतां सिंघीकुलकीर्तिप्रकाशिका ॥	३९
विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दस्वियं लोके श्रीसैघी ग्रन्थपद्धतिः ॥	४०

*

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतविश्रुतः । रूपाहेलीति सशस्त्री पुरिका तत्र सुस्थिता ॥	१
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीनवृत्तेः समः । श्रीमच्छतुरसिंहोऽत्र राटोऽन्यत्रयभूमिपः ॥	२
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाग्रणीः ॥	३
मुक्ष-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥	४
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-कावण्य-सुवाक् सौजन्यभूषिता ॥	५
क्षत्रियाणीप्रभापूर्णा शौर्योद्दीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वैव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥	६
पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्तथोरतिप्रियः । रणमह्य इति चान्धद् यक्षाम जननीकृतम् ॥	७
श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपुत्र्यो यतीश्वरः । उद्योतिर्भैषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥	८
भागतो मरुदेशाद् यो भ्रमन् जनपदान् बहून् । जातः श्रीवृद्धिसिंहस्य प्रीति-भ्रन्दास्पदं परम् ॥	९
तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सुसुः स्वसन्निधौ । रक्षितः शिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥	१०
दौर्भाग्यात् तच्छिशोर्बाण्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढः स्वगृहात् सोऽथ यदृच्छया विनिर्गतः ॥	११

तथा च-

भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु सेविता च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥	१२
ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तस्वातस्वगवेषिणा ॥	१३
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रज्ञ-नूतनकालिकाः ॥	१४
येन प्रकाशिता नैके ग्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुणिकताः ॥	१५
स बहुभिः सुविद्वन्निस्तम्भलेश्च सस्कृतः । जिनविजयनाम्नाऽसौ ख्यातोऽभवद् मनीषिषु ॥	१६
यस्य तां विश्रुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपक्षनात् स्वयमन्यदा ॥	१७
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥	१८
आचार्यत्वेन तत्रोच्चैर्नियुक्तः स महात्मना । रत्न-मुनि-निर्धीन्द्रदे पुरा तस्वा ख्यमन्दिरे ॥	१९
वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥	२०
तत आगत्य सैल्लमो राष्ट्रकार्ये च सक्रियम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥	२१
क्रमत् ततो विनियुक्तः स्थितः शान्ति निकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥	२२
सिंधीपदयुतं जैनज्ञानपीठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंधीश्रीढालचन्दस्य सुनुना ॥	२३
श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥	२४
प्रतिष्ठितश्च तस्यासौ पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् ग्रन्थयन् जैनवाक्यायम् ॥	२५
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे ह्येषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥	२६
अथैवं विगतं यस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासार्थिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ॥	२७
बाण-रत्न-नैवेन्द्रदे मुंबाईनगरीस्थितः । मुंशीति विरुख्यातः कन्हैयालालधीसखः ॥	२८
प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयत्नः सफलोऽचिरात् ॥	२९
विदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्याभवनसञ्ज्ञया ॥	३०
आहूतः सहाकार्याथ स मुनिस्तेन सुहृदा । ततःप्रभृति तत्रापि सहयोगं प्रदत्तवान् ॥	३१
तद्भवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका ह्यपेक्षिता । स्वीकृता नम्रभावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥	३२
नन्द-निर्धय-चन्द्र-चन्द्रदे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्यैर्यकृत् तेन नव्ययोजना ॥	३३
परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंधीकुलमास्वता । भाविद्याभवायेयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥	३४
प्रदत्ता दशासाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपितृस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥	३५
दैवादभ्ये गते काले सिंधीवर्यो दिवंगतः । यस्तस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥	३६
पितृकार्यप्रगल्भं यक्षशालैस्तदात्मजैः । राजेन्द्रसिंहमुख्यैश्च सस्कृतं तद्वचनस्ततः ॥	३७
पुण्यश्लोकपितुर्नाम्ना ग्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो ह्यर्द्धलक्षं प्रदत्तवान् ॥	३८
ग्रन्थमालाप्रसिद्धयर्थं पितृवत् तस्य काक्षितम् । श्रीसिंधीबन्धुभिः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥	३९
विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्विवर्ध लोके जिनविजयभारती ॥	४०

*

SINGHI JAIN SERIES

Works in the Series already out.

ॐ अद्यावधि मुद्रितग्रन्थनामावलि ॐ

- | | |
|---|---|
| <p>१ मेरुतुङ्गाचार्यरचित प्रबन्धचिन्तामणि
मूल संस्कृत ग्रन्थ.</p> <p>२ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिह्यतथ्यपरिपूर्ण
अनेक निबन्ध संचय.</p> <p>३ प्रबन्धचिन्तामणि - हिन्दी भाषान्तर.</p> <p>४ उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य.</p> <p>५ कीर्तिकौमुदी आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह.</p> <p>६ राजशेखरसूरिरचित प्रबन्धकोश.</p> <p>७ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य.</p> <p>८ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.</p> <p>९ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.</p> <p>१० जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकल्प.</p> <p>११ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा०)</p> <p>१२ भद्राकलङ्कदेवकृत अकलङ्कग्रन्थत्रयी.</p> <p>१३ प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.</p> <p>१४ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.</p> <p>१५ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणितचरित.</p> <p>१६ यशोविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानविन्दुप्रकरण.</p> <p>१७ हरीषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.</p> | <p>१८ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग.</p> <p>१९ हरिभद्रसूरिविरचित भूर्ताख्यान. (प्राकृत)</p> <p>२० शान्त्याचार्यकृत न्याचावतारवार्तिक-वृत्ति.</p> <p>२१ दुर्गदेवकृत रिष्टसमुच्चय.</p> <p>२२ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक.</p> <p>२३ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंग्रह.</p> <p>२४ कवि धाहिलरचित पद्मसिरीचरित. (अप०)</p> <p>२५ महेश्वरसूरिकृत नागपंचमीकथा. (प्राकृत०)</p> <p>२६ श्रीभद्रबाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता.</p> <p>२७ जिनदत्ताख्यानद्वय. (प्रा०)</p> <p>२८ जयसिंहसूरिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा०)</p> <p>२९ जयपाहुडनाम निमित्तशास्त्र. (प्राकृत)</p> <p>३० महासुनिगुणपालविरचित जंबूचरित्र (प्राकृत)</p> <p>३१ कोऊहलविरचित लीलावई कथा. (प्रा०)</p> <p>३२ महेश्वरसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. (प्रा०)</p> <p>३४ स्वयंभूविरचित पद्मचरित. भाग १ (अप०)</p> <p>३५ " " भाग २ (अप०)</p> <p>३६ दामोदरकृत उक्तिव्यक्तिप्रकरण.</p> <p>४० सिद्धिचन्द्रकृत काव्यप्रकाशखण्डन.</p> |
|---|---|

Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

Works in the Press.


ॐ संग्रति मुद्र्यमाणग्रन्थनामावलि ॐ

- | | |
|--|---|
| <p>१ खरतरगच्छबृहद्गुर्वावलि.</p> <p>२ कुमारपालचरित्रसंग्रह.</p> <p>३ विविधगच्छीयपट्टावलिसंग्रह.</p> <p>४ जैनपुस्तक प्रशस्तिसंग्रह, भाग २.</p> <p>५ विश्वसिलेखसंग्रह - विज्ञप्ति महालेख - विज्ञप्ति त्रिवेणी
आदि अनेक विज्ञप्तिरेख समुच्चय.</p> | <p>६ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रबन्ध.</p> <p>७ उद्योतनसूरिकृत कुवलयमालाकथा.</p> <p>८ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र - सटीक. (कतिपयअंश)</p> <p>९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र.</p> <p>१० स्वयंभूविरचित पद्मचरित भाग ३</p> |
|--|---|

Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs

- १ स्व. बाबू श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ [भारतीय विद्या, भाग ३] सन १९४५.
- २ Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume.
BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- ३ Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution
to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara,
M. A., Ph. D. (S. J. S. No. 33.)
- 4-5 Studies in Indian Literary History, Two Volumes.
By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

स्वर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी



बाबू श्रीबहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता

जन्म-वि. सं. १९९१, मार्ग. वदि ६ 卐 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६

दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय
स्व. श्रीबानू बहादुरसिंहजी सिंधी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]

[मृत्यु ता. ७-७-१९४४

SHRI BAHADUR SINGHJI SINGHI

By

Acharya Jina Vijaya Muni

On 7th of JULY, 1944, Babu Shri Bahadur Singhji Singhi left his mortal coils at the comparatively early age of fiftynine. His loss has been widely felt. His aged mother received this rude shock so ill that she did not long outlive him. His worthy sons have lost an affectionate and noble father, the industrialists and businessmen of the country one of their pioneers, the large number of his employees a benevolent master, scholarship one of its best patrons and the poor people of his native district a most generous donor. To me his loss has been personal. My contact with him was a turning point in my life. Whatever I have been able, during the past fifteen years, to achieve in the field of scholarship is due directly to him. The financial assistance with which he backed up my activities was the least of his contributions. But for his love of scholarship with which he inspired me, this chapter of my life would have been entirely different. To his sacred memory I am penning these few lines.

Babu Shri Bahadur Singhji was born in Azimganj, Murshidabad, in Vikram Samvat 1941, in the ancient family of the Singhis, who were of old the treasurers of the Mughal emperors. The family had passed through many vicissitudes of fortune and in the 17th century it migrated from Rajaputana to Bengal, but thanks to the energy and enterprise of Singhiji's father, Babu Dalchandji Singhi, the family firm became a very flourishing concern.

At an early age Singhiji joined the family business and by pushing ahead with father's enterprises, succeeded in making the firm the foremost in the mining industry of Bengal and Central India. Besides he also acquired vast zamindari and had interests in many industrial and banking concerns. This early preoccupation with business affairs prevented his having a college education. But Singhiji was studious and introspective by nature. Unlike many other wealthy men who spend their money and time in such fads as the races, the theatres, and the like, he devoted all his spare time to study and cultural development. He acquired an excellent command over several languages. Art and literature were the subjects of his choice. He was very fond of collecting rare and invaluable specimens of ancient sculpture, paintings, coins, copperplates and inscriptions. His manuscript collection contained a large number of rare works of historical and cultural importance, among which mention must be made of a unique manuscript of the Koran which was handed down from Baber to Aurangzeb and bears the autographs of all of them. It is recorded therein that it was considered by them all as more valuable than the empire.

*

His numismatic collection, especially of Kushan and Gupta coins, is considered the third best in the world. He also had a good and large collection of works of art and historical importance. Singhji was a Fellow of the Royal Society of Arts (London), a member of the Royal Asiatic Society of Bengal, the Bangiya Sahitya Parishad, the Indian Research Institute and a Founder-Member of the Bharatiya Vidya Bhavan. He was also the President of the Jain Shwetambara Conference held in Bombay in 1926. Though he had made no special study of law he was well up in the legal matters. On one occasion when he found that his lawyers were not properly representing his case he himself pleaded out the case successfully, much to the surprise of the bench and the bar who took him for an accomplished advocate.

Though a highly religious and leading figure in the Jain Community he had an outlook which was far from sectarian. More than three fourths of the six lakhs and over of his donations were for non-Jain causes. More often than not he preferred to give his assistance anonymously and he did not keep a list of his donations even when they were made in his name. To the Chittaranjan Seva Sadan, Calcutta, he gave Rs. 10,000/-, when Mahatmajji had been to his place for the collection of funds; to the Hindu Accademy, Daultapur, Rs. 15,000/-, to the Taraqi-Urdu Bangala 5000/-, the Hindi Sahitya Parishad 12,500/-, to the Vishuddhanand Sarasvati Marwari Hospital 10,000/-, several maternity homes 2,500/-, to the Benares Hindu University 2,500/-, to the Jiaganj High School 5000/-, to the Jiaganj London Mission Hospital 600/-, to the Jain Temples at Calcutta and Murshidabad 11,000/-, to the Jain Dharma Pracharak Sabha, Manbhum 5,000/-, to the Jain Bhavan, Calcutta, 15,000/-, to the Jain Pustak Prachar Mandal, Agra, 7,500/-, to the Agra Jain Temple 3,500/-, to the Ambala Jain High School, 2,100/-, for the Prakrit Kosh 2,500/-, and the Bharatiya Vidya Bhavan 10,000/-. At the Singhi Park Mela held at his Ballyganj residence in which Viscount Wavell, then Commander-in-Chief, and Lord John Herbert, Governor of Bengal and Lady Herbert participated, he donated Rs. 41,000/-, for the Red Cross Fund.

The people of the district of Murshidabad, his native place, will ever remain grateful to him for having distributed several thousand maunds of rice at the low price of Rs. 8/- when rice was selling at Rs. 24/- in those terrible years of 1942-44, himself thereby suffering a loss of over three lakhs. In May-June 1944 he again spent Rs. 59,000/- for the distribution of cloth, rice and coins for the people of that place.

My close association with Singhji began in 1931, when he invited me to occupy the Chair for Jain Studies which he was starting at the Vishvabharati. Due to unfavourable climatic conditions of Shantiniketan I could not continue to work there for more than four years, but during those years was founded the Singhi Jain Series. During the period of ten years of my principalship of Gujarat Puratattva Mandir, Ahmedabad, and even before that I had been collecting materials of historical and philological importance and folk-lore etc. which had been lying hidden in the great Jain Bhandars of Patan, Ahmedabad, Baroda etc. I persuaded Singhji to start

a series which would publish works dealing with the vast materials in my possession, and also other important Jain texts and studies prepared on the most modern scientific lines. On the works of the Series he spent through me more than Rs. 75,000/-. During this long period of over a dozen years he not even once asked me as to how and for what works the amount was spent. Whenever the account was submitted he did not ask for even the least information, but sanctioned it casting merely a formal glance on the accounts sheets. But he showed the most discriminating interest in the matter that was being published and on the material and manner in which they were being brought out. His only desire was to see the publication of as many works as possible during his lifetime. In May 1943 at my instance he gave over the Series to the Bharatiya Vidya Bhavan. In September 1943 I had been to Calcutta to negotiate the purchase, for the Bhavan, of a well-equipped library of a retired professor. Singhiji casually asked me what arrangements had been made for meeting the cost. I promptly replied that there was no cause for worry as long as donors like himself were there. He smiled; he had decided. Eventually he persuaded me to go in for the Nahar Collection which was a still more valuable one. He did not live long enough to present this literary treasure to the Bhavan; but his eldest son and my beloved friend, Babu Shri Rajendra Singh has fulfilled his father's wish though he was totally ignorant of it and has got this unique collection for the Bhavan and spent Rs. 50,000/- for the purpose.

By the end of 1943 his health began to decline. In the first week of January, 1944, when I went to him at Calcutta in connection with the work of the Bharatiya Itihasa Samiti I found him extremely unwell. Notwithstanding his ill health he talked to me for more than a couple of hours on the day of my arrival there. The first thing he said in the course of this lengthy, though very sweet talk, was to give me a mild reproof for undertaking the long and tedious journeys to Calcutta, Benaras and Cawnpore in spite of my ill health. He discussed with absorbing interest the details of the Samiti's proposed History of India, a subject of great interest to him. Our talks then drifted to the subject of the History of Jainism in which connection also he expressed his opinion about the material to be utilised for such a work. At the termination of our talks, which this time lasted for over three hours, I found him much exhausted and drooping in spirits.

On the 7th January his health took a turn for the worse. On the 11th January I went to take leave of him, which he, full of emotion, gave with a heavy heart, exclaiming, "Who knows whether we shall meet again or not?" I requested him to take heart and remain buoyant. He would be soon restored to normal health. But while I was stepping out of his room my eyes were full of tears and his last words began to eat into my heart. Ill luck prevented our second meeting. That lofty and generous soul finally left its mortal habitat at mid-day on 7th July, 1944. May his soul rest in peace!

His sons, Babu Rajendra Singh, Babu Narendra Singh and Babu Virendra Singh are treading in the footsteps of their revered father. During

the past year on the Singhi Series alone they have spent over Rs. 20,000/-. I have already mentioned how Babu Rajendra Singh purchased for the Bhavan the valuable Nahar collection. Babu Narendra Singh has also spent Rs. 30,000/- for a foundation of a Jain Bhavan at Calcutta. Babu Rajendra Singh and Babu Narendra Singh have also very generously promised me to continue to meet all the expenses of the Singhi Jain Series and requested me to bring out as many works as possible, at whatever cost so that this unique series founded and cherished by their late lamented father may continue to bring to light the invaluable treasures of Jain literature and culture.

In recognition of his unique assistance the Bharatiya Vidya Bhavan has decided to perpetuate Singhji's memory by naming its Indological library after him. Further, one of its main halls will bear his name. The Bhavan's Jain Department will also be known as the Singhi Jain Shikshapith.†

July 1, 1945.
BHARATIYA VIDYA BHAVANA }
BOMBAY.

Jina Vijaya Muni

† Reprinted from Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial Volume of the *Bharatiya Vidya*, [Volume V] 1945.

GENERAL EDITOR'S NOTE

In my foreword to the First Part of the *Paumacariu* (S.J.S. No. 34), I stated that the Second Part also of that work, containing the next two Kāṇḍas, viz., the Ayodhyā and the Sundara, was likely to be ready in time to be published along with the First Part. With the publication of this Volume, I am now glad that the hope expressed there has been fulfilled.

These two parts of the *Paumacariu* cover up together a little more than three fifths of of the whole text. The remaining portion, comprising the Yuddha-Kāṇḍa and the concluding Uttara-Kāṇḍa, contains thirty-three Sandhis in all. That will make up the third and last part of the *Paumacariu*. Its printing too has been begun and I am trying to bring it out as early as possible.

Vijayādaśamī, 2009,
October 17, 1953.
Bharatiya Vidya Bhavan,

Jina Vijaya Muni

PREFACE

The present volume contains the Ayodhyā-kāṇḍa and the Sundara-kāṇḍa i.e. the second and the third Kāṇḍa of the *Paumacariu* of Svayambhūdeva. It takes up the narrative from the birth of Rāma and stops with the arrival of Rāma's army at the Hamsadvīpa near Laṅkā.

The manuscript material, principles of text-constitution and method of presenting the text used for this part are the same as those for the First Part. The glossary has been limited to registering select words. A brief outline of the narrative is given. It is followed by a table of metres employed in the Ayodhyā and the Sundara.

H. C. Bhayani

A BRIEF OUTLINE OF THE NARRATIVE IN SANDHIS XXI-LVI

AYODHYA KANĀḌA

XXI. Sandhi. The birth and marriage of Rāma and Lakṣmaṇa.

Prediction that Rāvaṇa would die in the battle for Janaka's daughter at the hands of two sons that were to be borne to king Daśaratha of the Raghu dynasty ruling at Ayodhyā. Learning this, Vibhiṣaṇa decided to assassinate Daśaratha and Janaka, who forewarned by Nārada, substituted plaster statues in their places and secretly left. The unsuspecting Vidyādhara's removed the heads of the statues. Daśaratha and Janaka in their ramblings attended the Svayamvara of Princess Kaikayī of the city of Kautukamaṅgala. Kaikayī chose Daśaratha, who, after the marriage ceremony was over, offered her two boons for exceptional services rendered by her at the time of fighting away the alliance of disgruntled suitors. She reserved them for some future use.

To Daśaratha were borne four sons—Rāmacandra of Aparājitā, Lakṣmaṇa of Sumitrā, Bharata of Kaikayī and Śatrughna of Suprabhā. To Janaka and Videhā ruling at Mithilā were borne Bhāmaṅḍala and Sitā. New-born Bhāmaṅḍala was abducted by some revengeful god and abandoned was found by the Vidyhādhara king Candragati, who reared him up as his son. In the meanwhile, young Rāma and Lakṣmaṇa came to Janaka's rescue and fought back the attack of the barbarian hordes on Mithilā. Janaka appreciated their services by betrothing Sitā to Rāma.

Once Nārada unwittingly frightened Sitā and was therefore thrown out of harem by her attendants. Smarting under the insult, he showed her portrait to Bhāmaṅḍala, who at once fell in love with her so madly that to save his life, Candragati had to lay a trap for bringing Janaka before him. The latter expressed his inability to marry Sitā to Bhāmaṅḍala, as she was already betrothed to Rāma, but at last agreed to make the stringing of the divine bows Vajrāvarta and Samudrāvarta as a stipulation to be fulfilled by Sitā's suitors. The bows were removed to Mithilā and a Svayamvara was immediately held. Only Rāma and Lakṣmaṇa could string the bows. Sitā was therefore married to Rāma, who, it was forecast, would destroy many Rākṣasas on account of her. Śaktivardhana married eight of his daughters to Lakṣmaṇa and the remaining ten to the other two brothers. Droṇa's daughter Viśalyā too was given to Lakṣmaṇa. Rāma and Sitā lived happily at Ayodhyā.

XXII. Sandhi. Bhāmaṇḍala's realization: Daśa-ratha's renunciation: Bharata's Coronation.

Once Daśaratha, on a complaint from Suprabhā took to task the old chamberlain in his harem for his negligence. The latter put forth disability due to old age as an explanation. This small incident filled Daśaratha's mind with thoughts of mortality and ephemeral nature of worldly pleasures. He decided to renounce the world and crown Rāma in his place.

Frustrated Bhāmaṇḍala decided to abduct Sitā forcibly. Marching forth with his army, he reached Vidagdhapura, and he remembered his past birth as a ruler at that place. He also got the vision of his real character as the kidnapped twin brother of Sitā.

Remorseful, he came to Ayodhyā, where he was introduced to Rāma, Lakṣmaṇa and others by monk Satyabhūti, who also narrated his whole story.

Now learning that Daśaratha was to crown Rāma the next day, Kaikayī, out of jealousy, asked from the king the kingdom for Bharata as one of the long-promised boons. Rāma handed over the kingdom to Bharata, and to allay the fears of Daśaratha about discord possibly developing among princes accepted a voluntary exile to the forest. Bharata was quite unwilling to accept the reins of the kingdom, but was pressed by Daśaratha, who had decided to become a recluse. Rāma crowned him with his own hands.

XXIII. Sandhi. Rāma, Lakṣmaṇa and Sitā go into exile.

Svayambhū's fresh confession of diffidence in his ability to do full justice to the vast and noble theme of the Rāmāyaṇa.

When Rāma and Lakṣmaṇa took Daśaratha's leave to depart, the latter was remorseful, though he admitted the greatness of truth above everything. When Aparājītā learnt from Rāma about the sudden developments leading to the immediate exile of Rāma and Lakṣmaṇa she cried bitterly along with the whole harem. Pacifying them, the two brothers moved forth. Sitā also joined them. Enraged Lakṣmaṇa showed readiness to capture Bharata and hand over the throne to Rāma, but the latter said that they should honour their father's word and spend sixteen years in the forest. Praying at a shrine, they took the way to the forest. At dawn they were joined by whole of the royal army. All reached the Pāriyātra. Slightly further on was sighted the formidable river Gambhirā, when Rāma persuaded the army to return. Sitā crossed the river by mounting on Rāma's palm. Many feudatory princes from the returning army felt so miserable without Rāma that they at once renounced the world.

XXIV. Sandhi. Daśaratha becomes a recluse: Bharata's unsuccessful effort to bring back Rāma.

Along with Rāma, Lakṣmaṇa and Sitā departed the glory of Ayodhyā. The bereivement was shared equally by all the people, who were constantly haunted by Lakṣmaṇa's memory.

Daśaratha went forth in great pomp to perform the ablution ceremony of the Jina. At that moment Bharata again argued with him as his own love for renunciation was still unabated. But Daśaratha disapproved of such wavering when once a decision was taken. Thus, redeeming his pledge to Kaikayī and tying the royal turban round Bharata's head, Daśaratha, along with one hundred and forty other kings repaired to the Jina-shrine and became a recluse.

News of Rāma's departure reached Bharata. Overwhelmed with sorrow, he swooned. His recovery and lament. He consoled Aparājitā and promised to bring back Rāma and Lakṣmaṇa.

He immediately left and following Rāma's track overtook them after six days. Kaikayī also arrived. Bharata's request to Rāma to return and accept the crown could not be accepted by Rāma as that would be against the plighted word of their father. Accordingly Rāma tied with his own hand the royal turban round Bharata's head and resumed his journey. Bharata took a vow to abdicate when Rāma returned and came back to Ayodhyā.

Moving further on, Rāma, Lakṣmaṇa and Sitā came to the Tāpasavana, where lived all sorts of ascetics. Similarly they crossed forest settlements of hunters and herdsmen. Thence passing through a dense jungle and taking to the eastern direction, they came in the vicinity of mount Citrakūṭa, when four months and a half were completed since their departure from Ayodhyā. They now entered the precincts of the city of Daśapura. Lakṣmaṇa saw some one fleeing in mortal panic, with his head broken. He caught him and brought before Rāma.

XXV. Sandhi. Episode of Vajrakarṇa and Simhodara.

The stranger's account: He was escaping from a deadly battle between king Simhodara and his feudatory Vajrakarṇa, the king of Daśapura, the cause being the latter's vow not to salute anybody except the Jina.

They rewarded him and by and by entered Daśapura. Lakṣmaṇa went to see Vajrakarṇa, who welcomed him warmly and supplied a very sumptuous dinner for all the three. As a return obligation Lakṣmaṇa, as a representative of king Bharata and as an ally of Vajrakarṇa, told Simhodara to make up with his opponent by equally sharing his kingdom with him or otherwise be ready for the worst. Enraged Simhodara ordered to

arrest Lakṣmaṇa, but he killed all who dared to approach him. Finally Siṁhodara attacked Lakṣmaṇa but was himself captured. News reached Vajrakarṇa. Triumphant Lakṣmaṇa taking the captive king along with him fell at the feet of Rāma, who embraced him affectionately.

XXVI. Sandhi. Episode of Kalyāṇamāla.

The kingdom was divided between Vajrakarṇa and Siṁhodara. For his timely service to Vajrakarṇa, thief Vidyudaṅga also was duly rewarded. Lakṣmaṇa consented to marry the three hundred girls offered by Vajrakarṇa and Siṁhodara, at the time when he would return after fixing up a suitable abode for Rāma.

Rāma, Lakṣmaṇa and Sitā left that place at midnight and arrived at the city of Kūvara. It's king Kalyāṇamāla, who was really a woman disguised as a man, was out in the park to enjoy spring sports. Seeing Lakṣmaṇa, Kalyāṇmāla was overcome with pangs of love and calling him at once, honoured him by offering to share the royal seat. Rāma and Sitā also were called there. They all enjoyed water-sports and dined. Revealing her secret, Kalyāṇamāla told that she was forced to live like that because Rudrabhūti, the king of the Vindhya had kidnapped her father, Vālikhilya. Lakṣmaṇa took a vow to kill Rudrabhūti in a battle. They spent that night there. Next morning when Kalyāṇamālā awoke, she was pained to find that her guests were already gone leaving behind a written message for her.

XXVII. Sandhi. Episode of Rudrabhūti and Kapila.

They proceeded towards the Vindhya, and crossed the Narmadā, when, king Rudrabhūti, who came there on a hunting expedition, ordered his men to snatch away beautiful Sitā from Rāma and Lakṣmaṇa. But the latter twanged his bow and the attacking party fled. On learning that the strangers were Baladeva and Vāsudeva, he at once fell at their feet. Vālikhilya was realised.

Rāma, Lakṣmaṇa and Sitā resumed their journey. Crossing the Tāpī, they arrived at Aruṇagrama and entered the house of Brāhmaṇa Kapila in his absence, because Sitā felt thirsty since very long. As they rested there a while, Kapila returned and abused them. To save him from enraged Lakṣmaṇa, they left his house. Proceeding further they entered a dense forest and halted under a huge banyan tree.

XXVIII. Sandhi. The Kapila episode concluded.

During the night time, as they rested there, Pūtana Yakṣa, in order to protect them from the downpour of rains, created by means of his magic powers a city called Rāmapurī and dedicated it to Rāma with the present of precious ornaments. Kapila learnt that the king of that new city granted the wish of everyone who first bowed to the Jina. Kapila became a Jain convert and went to see the king. Seeing Lakṣmaṇa he at once

took to his heels, but on being caught and brought before Rāma he blessed him, admitting the omnipotence of wealth. He was richly rewarded.

XXIX. Sandhi. Episode of Vanamālā.

Leaving that place they arrived at Jivantanagara. The message of Bharata to its ruler Mahidhara to marry his daughter Vanamālā to Lakṣmaṇa when the latter arrived there, had created an intense longing for Lakṣmaṇa in the heart of the princess; but she was already betrothed to someone else. Becoming desperate on account of such an unbearable situation, she secretly went out and was on the point of hanging herself from a tree, but the timely arrival of Lakṣmaṇa saved her. While Lakṣmaṇa talked to Rāma about his new acquisition, the guards in search of the princess surrounded them. They were discomfited in no time by Lakṣmaṇa. Thereupon the king rushed forth threatening with his army, but learning their identity, welcomed them with great joy and married Vanamālā to Lakṣmaṇa.

XXX. Sandhi. Episode of Anantavīrya.

Anantavīrya, the king of Nandāvarta, was outraged by the fact that not only did Bharata flatly reject his demand to be accepted as the Sovereign, but he was proceeding in alliance with many other princes to attack him. He sent a directive to king Mahidhara, who was one of his feudatories, to join him with his forces. A long list of feudatories and allies on his side was also given.

Rāma planned to capture Anantavīrya by means of a stratagem. He along with Lakṣmaṇa and eight others assumed the disguise of women and went to the court of Anantavīrya. They introduced themselves as court panegyrists of Bharata and while giving a performance of dance and music, they praised Bharata in glowing terms. Inflamed at this Anantavīrya got up, sword in hand, but taking a dexterous leap Rāma captured him. As his queens begged for their husband's life, Rāma was willing to release him on condition that he accepted Bharata's sovereignty, but Anantavīrya preferred to become a recluse. Bharata arrived there and bowed to the new recluse. Rāma and others returned to Jivantapura.

XXXI. Sandhi. Episode of Jitapadmā.

They left Jivantanagara, came to Godāvarī and shortly reached Kṣemāñjali city of king Aridamana. In its vicinity could be seen a mound of bones, the remains of the unsuccessful suitors of princess Jitapadmā, who was pledged to be given to him only who can fulfil the test of catching the five Śaktis successively thrown at him. Lakṣmaṇa went to the king and offered to pass even a harder test. Aridamana threw five Śaktis, one after another at Lakṣmaṇa with deadly vehemence. All were caught by Lakṣmaṇa, who challenged Aridamana to withstand even a single blow of Śakti from him, but Jitapadmā intervened. Lakṣmaṇa then revealed his identity and a distinguished reception was accorded to him.

XXXII-XXXIII. Sandhis. Episode of Kulabhūṣaṇa and Deśabhūṣaṇa.

Resuming their peregrinations, they approached Vamśasthala city, whose king along with his subjects was seen running away from the place in panic, as all of a sudden the city had become infested with a concert of calamities like cyclones, stone showers, roars and earthquakes. Ascending the hill there, rich in animals and vegetation, they came across the ascetics deeply engaged in meditation. Suddenly there appeared a big horde of screaming and roaring demons and goblins who showered all sorts of weapons on the ascetics who, regardless of those disturbances remained steadfast in their meditation. Rāma and Lakṣmaṇa dispersed the satanic horde with their arrows. At that moment the sages attained Kevala. Indra with his retinue of gods came to celebrate the occasion. He exhorted people to take to a religious life from which the highest fruit accrued.

At Rāma's request Kulabhūṣaṇa explained the cause of disturbances to their austerities. It was connected with their previous lives. In one of these, as two brothers they had out of compassion saved a bird. The brothers were reborn as Udita and Mudita. Udita killed his mother's paramour who had also murdered their father. King Vijaya, their master, professing heretical views, was converted by a company of Jain monks. Udita and Mudita along with the king renounced the world. In their wanderings they fell in the hands of a Bhilla chief Vasubhūti who was nobody else but their mother's paramour reborn. They were saved by another Bhilla chief who was formerly the bird rescued by them in their previous life. Vasubhūti died and wandering through numerous animal and hellish existences was reborn as Anuddhara at Ariṣṭapura, where Udita and Mudita too were reborn as princes. At the king's death Anuddhara rebelled, but the princes subdued him. Anuddhara was reborn as god Agniketu, while the princes after passing through several existences were reborn as princes Kulabhūṣaṇa and Deśabhūṣaṇa at Siddhārthapura. Returning after their long stay with the teacher they fell in love with a girl, who turned out to be their very sister. Disgusted with the worldly life, they became recluses. The disturbances to their austerities that were seen by Rāma and Lakṣmaṇa were caused by god Agniketu bearing grudge to them from the past lives.

At Rāma's request Kulabhūṣaṇa foretold that he and Lakṣmaṇa would cross the southern ocean, win hundreds of battles and become eventually the lords of three continents.

XXXIV. Sandhi. Kulabhūṣaṇa's sermon. Rāma's life as a forester.

Kulabhūṣaṇa's sermon on the good fruits of religious austerities, vows and penances.

They left that place, entered the Daṇḍaka forest and proceeding well in the interior halted under a creeper bower. They now lived the life of real foresters.

Once two monks arrived there. They were duly worshipped and served with the choicest food. As a result of this pious act gods manifested the five miracles.

XXXV. Sandhi. Episode of Jaṭāyin.

Seeing the shower of precious jewels that poured down as a reward for the pious gift of food to monks, the bird Jaṭāyin present there, remembered his sinful previous existence. Repentant he fell at the feet of the monks. The moment he was sprinkled with the feet-washing water of the monks, his body was transfigured. He got wings of gold and other bodily parts of various jewels. He was adopted as a son by Sitā. At Rāma's request the monks narrated the story of Jaṭāyin's previous existence. Formerly he was Buddhist king Daṇḍaka. Impressed by the forbearance and deep knowledge of a Jain monk, he became a Jain convert and once invited a company of five hundred monks to his city. His queen and prince, as staunch Buddhists, conspired variously to incriminate the monks and win back the king to their fold. Once they made the king an eye-witness to a love-scene got up between the queen and a false Jain monk. Taken in by this, Daṇḍaka killed the monks by getting them pressed in a machine. One of the two monks that were accidentally saved was so much angry at this ghastly deed that he was burnt to ashes by the fire of his wrath, which also consumed the whole city. The king, queen and prince were reborn in different hells and suffered harrowing tortures. Thence wandering through thousands of births, at last the king was reborn as the bird Jaṭāyin.

Rāma and other took the five vows of the householder. Returning, they found their abode filled with jewels. Lakṣmaṇa used them in forging a diamond chariot.

XXXVI. Sandhi. Lakṣmaṇa acquires the magic sword Sūrahāsa and rejects Candranakhā.

Riding in the chariot they proceeded further. The Kṛṣṇā was crossed and they came to the Krauñcanadī, where they made a halt. It was autumn then. Lakṣmaṇa roaming here and there, bow in hand, saw a bamboo thicket and a sword hanging nearby in the air. Taking the sword he tried a stroke at the thicket and there fell before him the thicket along with a severed human head and its trunk. Returning, he narrated the incident to Rāma who could see at once that it was a divine sword and that the incident was a potent source of quarrel.

Rāvaṇa's sister Candranakhā came to the Daṇḍaka forest to witness the fulfilment of the twelve-year austerities of his son Śambu with the acquisition of the magic sword Sūrahāsa. But seeing him lying beheaded, instead, she lamented pathetically and took a vow to kill the culprit. Shortly she saw two men; one of them carried a sword. That was Śambu's murderer. But at the sight of these men, thoughts of taking revenge left her and she fell in love with them. She at once appeared before Rāma and Lakṣmaṇa in the form of a beautiful damsel in distress and proposed to marry one of them. Rāma passed her on to Lakṣmaṇa who rejected her as her person exhibited inauspicious marks and characteristics. Thereupon Candranakhā revealed her real self.

XXXVII. Sandhi. Candranakhā's report to Khara and Dūṣaṇa. Battle with Lakṣmaṇa. Triśiras killed.

She assumed a hideous form of demoniac proportions and threatened to swallow them, but frightened at the Sūrahāsa sword raised by Lakṣmaṇa, she ran to her husbands Khara and Dūṣaṇa and reported how Śambukumāra was killed and she was molested by two strangers in the forest. Much aggrieved by these news, Khara, against the advise of Dūṣaṇa, marched forth to punish the culprits. Dūṣaṇa sent a message to Rāvaṇa regarding these developments. Khara challenged Lakṣmaṇa. Telling Rāma to guard Sitā and come to his help only when he heard a lion-roar from him, Lakṣmaṇa faced Khara. In the first round of battle he cut off the three heads of Triśiras.

XXXVIII. Sandhi. Rāvaṇa abducts Sitā.

Tempted by the mention of a beautiful damsel in the message that arrived from Dūṣaṇa, Rāvaṇa came in his aerial car to the Daṇḍaka forest. He admired the prowess of Lakṣmaṇa who single-handed faced a whole army. Seeing Sitā he was at once infatuated by her extraordinary beauty. He ordered the magic power Avalokanī to suggest some trick for abducting Sitā. She tried to dissuade him but failed. Then taking advantage of the understanding between Rāma and Lakṣmaṇa, Avalokanī sent forth a lion-roar from the battle field, and at once Rāma rushed, disregarding ill-omens, to help Lakṣmaṇa, thinking that he was in trouble.

He saw Lakṣmaṇa victoriously slaughtering the opponents on the battle-field. The latter told him he never made the lion-roar, and suspecting some foul play, he advised Rāma to return at once to Sitā.

Here Rāvaṇa carried off Sitā. Jaṭayin attacked him with beak and claws but fell at a powerful sword blow from Rāvaṇa. Sitā's lament and cries for help. Hearing these, a certain Vidyādhara, loyal to Bhāmaṇḍala, happening to pass that way attacked Rāvaṇa, but eventually the latter

deprived him of his magic powers (Vidyās) and threw him on the Kambū island.

Rāvaṇa tried many ways to tempt Sītā into accepting him, but met with an insulting rebuff. Killing her would defeat his very purpose. Rape was already foresworn by him. The only course open to him was to bide his time.

When they reached Laṅkā, Sītā refused to enter it and took a vow to abstain from taking food until she got news from Rāma. She was kept in a park on the outskirts of Laṅkā.

XXXIX. Sandhi. Rāma's vain search and sorrow.

Returning from Lakṣmaṇa, Rāma found Sītā missing. His fruitless search. He came across Jaṭāyīn who was breathing his last. On recitation of the five sacred salutations, he passed away. Overwhelmed with sorrow, Rāma was consoled by two Cāraṇa sages passing that way. They gave him a sermon on the filthiness of human body and worthlessness of worldly ties and pleasures. Rāma caught the mood of renunciation but only for a moment. Weeping he wandered through the woodland, and like one completely out of his mind, begged for the news of Sītā from the trees and animals. Eventually he returned to his abode and fell down thoroughly shattered.

XL. Sandhi. Lakṣmaṇa kills Khara and Dūṣaṇa. Virādhita is crowned as king in the Alankāra city.

Here Lakṣmaṇa was assisted by Virādhita whose paternal kingdom was usurped by Khara and Dūṣaṇa. At last Lakṣmaṇa killed them. Finishing his job, when he returned, Rāma sorrowfully told him of Sītā's abduction and Jaṭāyīn's sacrifice. Shortly there arrived Virādhita, who sent his army in search of Sītā all around, but it returned unsuccessful.

At Virādhita's suggestion they repaired to the Alankāra city. Candranakha's son Sunda opposed them, but advised by her, gave up fighting and went to Rāvaṇa for help. Rāma and Lakṣmaṇa entered the city in triumph. Virādhita was crowned. But Rāma was quite disconsolate. He went to a Jina-shrine and prayed.

XLI. Sandhi. Rāvaṇa's unsuccessful moves to win Sītā's heart.

Lamenting Candranakhā was somehow consoled by Rāvaṇa. Feeling highly depressed at his rejection by Sītā, he persuaded Mandodarī to go to Sītā as a go-between. Next morning Mandodarī paid a visit to Sītā. She was impressed by her beauty. She talked to her about Rāvaṇa in superlatives and held forth temptations of power and pleasures. When

Sitā spurned her offer, she threatened to cut her to tiny pieces. At that juncture Rāvaṇa arrived there. His approaches too failed to get a favourable response from Sitā, who advised him to seek protection at the feet of Rāma. Enraged at this, Rāvaṇa tried to frighten her by means of ferocious animals and hobgoblins, but Sitā was unmoved. Vibhiṣaṇa coming to know of this misdeed of Rāvaṇa came there and consoled Sitā.

XLII. Sandhi. Vibhiṣaṇa's sympathy for Sitā. Laṅkā circumscribed with the magic fortress Āśāli.

Sitā narrated her story to Vibhiṣaṇa. He admonished Rāvaṇa to give up Sitā. It angered Rāvaṇa.

Rāvaṇa tried to tempt Sitā by showing to her the pomp and riches of Laṅkā from his aerial car. But Sitā considered it worthless. In disgust he gave up his fruitless efforts.

As his condition grew worse due to intense longing for Sitā, the worried ministers built a magic fortress round Laṅkā in the form of Āśāli-Vidyā as a safeguard measure.

SUNDARA-KAṆḌA

XLIII. Sandhi. Defeat of sham Sugrīva.

At Kiṣkindhapura in the fight that ensued for Tārā's sake between Sugrīva and an impostor, the former was worsted. He came to seek help from Khara and Dūṣaṇa, but learning about their fate went to Virādhita to make Rāma and Lakṣmaṇa his allies. There Jāmbūvat narrated Sugrīva's misfortune—how even Hanumat failed to tell real Sugrīva from sham Sugrīva.

On Sugrīva's request for help, Lakṣmaṇa promised to uproot the impostor and restore Tārā to him. Sugrīva also promised to bring news of Sitā within seven days.

They marched to Kiṣkindhapura. The messenger sent to the impostor was insulted. A full-fledged battle was averted by arranging a personal duel between Sugrīva and the impostor. In the duel Sugrīva was defeated once more, as Lakṣmaṇa, failing to distinguish between the two, could not help him.

Now Lakṣmaṇa twanged his bow and the magic power left the impostor. His real form restored, he was at once recognized as the Vidyādhara Sāhasagatī. The army deserted him and pierced with Rāma's arrow he fell dead. Sugrīva entered the city in triumph. Rāma prayed at the shrine of Candraprabha Jina.

XLIV. Sandhi. Sugrīva brings news of Sītā's whereabouts: Lakṣmaṇa lifts the Koṭīśilā.

On receiving a sharp reminder from Rāma, sent through Lakṣmaṇa, Sugrīva shook off his negligence and gave orders to his generals and assistants to undertake a vigorous search for Sītā in all the four quarters. Himself along with Jāmbūvat started in the southern direction. At Kambūdvipa he met Ratnakeśin, who told them how in an attempt to rescue Sītā from Rāvaṇa he got wounded, was deprived of his magic powers and thrown there. Overjoyed with these unexpected news, Sugrīva brought him before Rāma as an eye-witness of Sītā's abduction.

In view of the great strength of Rāvaṇa and inaccessibility of Laṅkā, Sugrīva advised Rāma to give up efforts for recovering Sītā. But Rāma was determined to kill Rāvaṇa, and Lakṣmaṇa offered to finish him single-handed. At Sugrīva's suggestion Lakṣmaṇa lifted the sacred boulder known as Koṭīśilā—that being predicted as the test for one who was destined to kill Rāvaṇa.

XLV. Sandhi. Hanumat is won over by Rāma. He consents to go to Sītā as Rāma's messenger.

Sugrīva at last was convinced about Lakṣmaṇa's superiority over Rāvaṇa. For going to Laṅkā and getting first hand news of Sītā, Hanumat was considered the only capable person. But as he was likely to be ill-disposed towards Rāma for killing Khara and Dūṣaṇa, a messenger was sent to win him over.

The messenger told Hanumat about all the new developments. Hearing the news, two wives of Hanumat experienced opposite feelings. Anāṅgakuṣumā, Khara's daughter, was full of sorrow, while Paṅkajarāgā, Sugrīva's daughter rejoiced. Hanumat was indignant with Rāma and Lakṣmaṇa. But as the messenger gave the real account of all that happened—from Candranakhā's wiles down to lifting of the Koṭīśilā, Hanumat was pacified. He went to see Sugrīva. He was given a grand reception. Rāma honoured him greatly. Hanumat readily consented to go to Laṅkā as a messenger to Sītā. Rāma gave him a message for Sītā and his ring as a token.

XLVI. Sandhi. Hanumat defeats Mahendra.

Hanumat started in his aerial car. On his way he came to the city of king Mahendra, his mother's father. Being reminded of the ill-treatment accorded to his mother Añjanā, he decided to teach him a lesson. He created a magic army and after a hard tussle captured Mahendra's son. In the second round of battle, Hanumat suffered a deadly mace-blow from Mahendra, but eventually he captured the opponent.

Having achieved the desired result, he revealed his identity and begged pardon of Mahendra. The latter highly praised Hanumat's valour, but he was all humility. On his advice Mahendra became Rāma's ally.

XLVII. Sandhi. Episode of the daughters of king Dadhimukha.

The princesses of king Dadhimukha, who were destined to marry the person that would kill Sāhasagati, repaired to a forest to practise Yoga and acquire magic powers. Aṅgāraka, their unsuccessful suitor, set fire to that forest, which also harboured two Cāraṇa sages practising austerities. Hanumat passing through air, saw the calamity to the sages and extinguished the fire by means of magic waters. He saluted the sages and was blessed. The princesses too arrived there and praised Hanumat's action. They also narrated their account. Hanumat informed them of Sāhasagati's death at the hands of Rāma. On his advice Dadhimukha went to Kiṣkindha and married his three daughters to Rāma.

XLVIII. Sandhi. Hanumat destroys Āśālī and Vajrāyudha and marries Laṅkāsundarī.

Hanumat reached Laṅkā. Āśālī was guarding the entrance to it. Club in hand he faced her unaided. Āśālī swallowed him. He battered open her inside and came out triumphant.

As Āśālī was destroyed Vajrāyudha, the keeper of the fortress, fell upon Hanumat. He too was killed. Vajrāyudha's daughter Laṅkāsundarī came to avenge his father's death. It was a close fight. But after a while, fascinated by Hanumat's strength and valour, she expressed her love for him. Hanumat responded. They married. The hostile army unit was held spell-bound, to prevent leaking of news to Rāvaṇa. He spent that night with Laṅkāsundarī and next day took her leave.

XLIX. Sandhi. Hanumat sees Vibhīṣaṇa, meets Sitā.

He entered Laṅkā, went directly to Vibhīṣaṇa and delivered the messages of Jāmbūvat, Nala and Nila, who denounced Rāvaṇa's immoral act and emphasized the great strength, valour and achievements of Rāma, who would attack Laṅkā any day. Vibhīṣaṇa told him that Rāvaṇa was infatuated by Sitā and hence did not listen to reason. He himself might have to leave him some day.

Leaving Vibhīṣaṇa, Hanumat searched through the city and eventually came to the park where Sitā was kept. He saw her sorrowful and emaciated. Remaining concealed in a tree he dropped Rāma's ring in her lap. She recognized it and a smile brightened her face. Her sudden smile was reported to Rāvaṇa. Urged by him, Mandodarī, along with the rest of the harem came to Sitā and once more tried to persuade her. But Sitā sang praises of Rāma and Lakṣmaṇa. Enraged at this, Mandodarī and others threatened to kill her. Sitā remained composed. Hanumat now intervened and introduced himself as Rāma's messenger. Mandodarī taunted him for changing masters for worse. Hanumat gave a befitting retort. Threatening to get him captured next day, Mandodarī left. Hanumat now greeted Sitā with a bow.

L. Sandhi. Hanumat delivers the message. He is given the return message.

He delivered Rāma's message. Sitā was overjoyed at first, but doubts soon arose in her mind as to the genuineness of the messenger. But Hanumat dispelled them by showing his intimate knowledge of various incidents and details of Rāma's life in exile. That night Trijaṭā, guarding Sitā, got a dream in which she saw a hero devastating the royal park and demolishing the royal palace, and another one, throwing Laṅkā into the ocean. This was interpreted favourably by some, unfavourably by others.

On receiving news from Rāma, Sitā broke her twentyone-day fast. Hanumat then offered to carry her on his shoulders but Sitā declined it as involving breach of propriety. She gave a return message for Rāma along with her crest-jewel as a token.

LI. Sandhi. Hanumat devastates the royal park.

Before leaving, Hanumat thought of teasing Rāvaṇa by destroying the royal park. He began uprooting all sorts of trees. The four guards of the park attacked him but were killed. The news reached Rāvaṇa. Mandodarī now told him of Hanumat's arrival as a messenger from Rāma as also of the incident of the previous day. Rāvaṇa dispatched a large battalion to punish the miscreant. A ferocious battle ensued. Eventually Hanumat destroyed his assailants.

LII. Sandhi. Hanumat kills Rāvaṇa's son Akṣaya.

Then Rāvaṇa's son Akṣayakumāra came and attacked him. Though worsted several times he encountered him again and again. Both created magic armies, which fought desperately for a while and then disappeared. Ultimately they fought a duel in which Akṣaya was dashed to pieces. The news made Rāvaṇa furious.

LIII. Sandhi. Indrajit captures Hanumat.

Strongly disapproving Vibhiṣaṇa's advice to return Sitā to Rāma, Indrajit bragged about his own past exploits and took a vow to capture Hanumat alive. Taking along with him Ghanavāhana and a huge army, he surrounded Hanumat. The latter fought bravely and soon the army was put to flight. At once Ghanavāhana rushed forth and became engaged in a deadly struggle with Hanumat. Soon he was defeated. Thereupon Indrajit challenged Hanumat. After a long drawn-out tussle, he attacked him with the magic serpent noose and Hanumat wishing to put an end to the carnage got voluntarily bound therewith.

LIV. Sandhi. Hanumat delivers a Sermon to Rāvaṇa.

Receiving the news of Hanumat's capture Sitā bewailed her unabating misfortune,

Hanumat was produced before Rāvaṇa, who upbraided him for his disloyalty, the bitter fruits of which he was tasting just then. In reply Hanumat exhorted Rāvaṇa to hand over Sitā to Rāma and expounded to him the twelve Anupreksās—modes of religious reflection. His words evoked good appeal in Rāvaṇa's heart.

LV. Sandhi. Hanumat's escape. His return to Kiṣkindha.

Now impressed by dire consequences of committing adultery, now caught by infatuation for Sitā, Rāvaṇa hesitated for a while, but considerations of prestige forced him to make the wrong choice. He abused Hanumat and ordered him to stop mouthing sermons before him. When he gave orders to punish him, Hanumat snapped asunder the serpent bonds and taking a jump over Rāvaṇa's head escaped. Using his arms only, he pulled down Rāvaṇa's palace along with which five hundred surrounding houses also were smashed. The city gate too he broke to pieces.

Happy at Hanumat's exploits Sitā blessed him. Departing thence, he went to Laṅkā, took her leave, boarded his aerial car and arrived at Kiṣkindha. He delivered Sitā's message to Rāma along with the token crest-jewel.

Jāmbūvat then narrated the history of Hanumat and praised his great exploits. King Dadhimukha too harped the same tune. Hanumat's minister then gave an account of his master's mission to Laṅkā. In an upsurge of affection Rāma embraced Hanumat.

LVI. Sandhi. Rāma's march to Laṅkā.

Rāma prepared to march to Laṅkā. Numerous drums and trumpets were sounded for an all-out mobilisation. Generals got sufficiently armed. Various army divisions and magic powers (Vidyās) were properly arranged. As the army started, it was greeted by numerous good omens.

They reached the ocean. As they were crossing it in aerial cars, they were attacked at the Velandhara city by Setu and Samudra, loyal to Rāvaṇa. They were defeated by Nala and Nila. They transferred their allegiance to Rāma. Next day the march was resumed. They reached mount Suvela. On the advice of Setu and Samudra, its ruler came over to Rāma's side. On covering a short distance further, the beautiful Laṅkā came in view. The army encamped at the Hāmsadvīpa. Its ruler was conquered.

All rested there eager to launch an attack on Laṅkā.

Metres Employed in the PAUMACARIU Sandhis 21-56.

A. Metres employed in the commencing piece at the head of the Kaṭavaka.

No. Name of the metre	Type	No. of Pādas in a stanza	Rhyme-scheme	No. of morās per Pāda	Gāṇa-scheme	Employed in vāḥāḥ Sandhi?	Remarks
1. Māñjarī	Sama-dvipadi	2	a/b	21	- u (or uuu) + -u (or uuu) + 4+4 + 4 + u-	46	=No. 4 in Part I.
2. Helā-dvipadi (Helā-duvai)	"	"	"	22	6 + u - u or (u, uuu) + 4 + u-u (or u, uuu) + - -	25	=No. 3 in Part I.
3. Sālabhatjika	"	"	"	24	- u (or uuu) + - u (or uuu) + 4 + 4 + 4 + -u (or uuu) + - u. (Jagāṇa permitted in the second four-moraic Gāṇa, forbidden for others).	46	=No. 54 in the Khaṇḍjaka section, ch. IV, Chandrosmāsaṅga.
4. Dvipadi (Duvai)	"	"	"	26	6 + u - u (or u, uuu) + 4 + 4 + 4 + u - u (or u, uuu) +	40, 51	=No. 2 in Part I.
5. Aranāla	"	"	Internal rhymes— a/b, d/e, c/f— the rhyme-scheme of the Saṭpadi.	30	(1) 6 + u - u (or u, uuu)/4 + u - u (or u, uuu)/4 + u -/- (or uu) + u - u (or u, or or (2) 6 + u - u (or u, uuu) + -/- (or uu) + u - u (or u, uuu) + -/- (or uu) + u - u (or u, uu) + - -	53	Both the schemes are employed even in one and the same stanza.

No. Name of the metre	Type	No. of Pādas in a stanza	Rhyme-scheme	No. of morās per Pāda	Gana-scheme	Employed in which Saṅdhi?	Remarks
6. Jambhettā	Sama-Catupadī	4	b/d	9	4 + - u -, Jagana forbid-den.	48	Here it occurs in all cases as a pair of stanzas with occasional indication of musical notation.
7. Gandhodakadhārā	"	4	a/b, c/d,	13	6 + 4 + uuu	49	=No. 1 in Part I (Identical with the odd Pāda of the Dohā).
8. Pārapaka	"	"	"	15	4 + 4 + 4 + uuu	50	=No. 24 in Part I. The text calls it Paddhaṅṅā-dūveṣi.
9. Nidhyāyikā	"	"	"	19	4 + uuu (or u -) + 4 + - u (or uuu) + - u - (or uuu -)	52	This is slightly different from all the four varieties described in the Chan- donuśāsana, ch. IV.
10. Dohā	"	"	b/d	13, 11	6 + 4 + uuu, 6 + uu - (or - -) + u	54	

B. Metres Employed in the Main Body of the Kaṭavaka.

(a) The Principle Metres.

11. Paddhaṅṅā (Paddhatikā)	Sama-dvipadī	2	a/b	16	4 + 4 + 4 + u - u	22; 23 (18); 24 (9, 10); 25 (2, 5, 9, 10, 17); 27 (15); 29 (9, 10, 11); 30 (8-	=No. 22 in Part I
----------------------------	--------------	---	-----	----	-------------------	--	-------------------

<p>11); 31 (3-10, 13-16); 32 (2,6); 37; 39 (10); 40 (4, 12, 15, 18); 43 (4-10, 12, 15); 45 (1-3, 7, 13); 48; 49(8); 51 (1, 3-10, 12-13, 15); 54 (7, 9, 13-14); 56 (3-6, 8-12, 14-15).</p>		<p>6 + 4 + uu — (or — —) + uu (or —)</p>	<p>21; 23 (2-7, 9, 11-12, 14-15); 24 (1, 3-8, 11-15); 25 (1, 3-4, 6-7, 11-16, 18-20); 26 (1-15, 17-20), 28, 29 (1-lines 1-2, 12, 2-5, 7-8); 30 (2, 4, 7); 31 (1-2, 11-12); 32 (1, 4-5, 8-10, 12-14); 34 (3, 10, 12-13); 35; 38; 40 (5, 11, 14); 41, 42 (1-9, 12); 44 (1-4, 6-13, 15-16); 45 (4, 12, 14, 15); 46 (9); 47 (1, 3-10), 49 (1-7, 9-20); 50; 52; 53 (2, 4-5, 7-12); 54 (8, 10-11, 15); 55 (1-4, 6-12), 56 (2, 13).</p>
	<p>16</p>		
	<p>"</p>		
	<p>"</p>		
	<p>"</p>		
<p>12. Vadanaka</p>			

==No. 23 in Part I.

No. Name of the metre	Type	No. of Pādas in a stanza	Rhyme-scheme	No. of morās per Pāda	Gana-scheme	Employed in which Sañdhi?	Remarks
13. Pārapaka	Sama-dvīpadi	2	a/b	15	4 + 4 + 4 + uuu	23 (1, 10); 25 (8); 26 (16); 27 (1-8, 10-14); 29 (6); 30 (1, 3, 5-6); 32 (7, 11); 33; 34 (1-2, 4-9, 11); 36; 39 (1-9, 11-12), 43 (1-3, 11, 13-14, 16-19); 44 (14); 45 (5-6, 10-11); 47 (2); 53(6); 54 (1-6, 12, 16).	=No. 24 in Part I. The same as No. 8 above.
(b) The Variation Metres.							
14. Karimakarabhujā (a) [=-Paddhatikārdha]	Sama-dvīpadi	2	a/b	8	4 + u - u (or u, uuu)	27 (9); 51 (14); 40 (7).	This is identical with the latter half of the Paddhatijā.
15. Karimakarabhujā (b) [=-Vadanakārdha]	"	"	"	"	4 + - uu (or uuuu)	40 (7).	This is identical with the latter half of the Vadanaka.
16. Vasudvīpadi (?)	"	"	"	8	- u (or uuu) + - - u (or (uu - u)	29 (1, lines 3-11).	
17. ?	"	"	"	15	4 + 4 + 4 + 3, ending in - u -; Jagana forbidden.	56 (7).	
18. Vilāsini	"	"	"	16	- u - u - / - u - u - , the heavy syllables being replace-able by two light ones.	23 (6); 40 (2); 42 (11); 46 (1-3, 5, 7-8); 55 (5).	=No. 27 in Part I

19. Sālabhaṣṭikā	"	"	"	24	(See No. 3 above).	42 (10).	=No. 3 above.
20. Madanāvatāra (a)	"	"	"	20	— u — four times, the heavy syllables in the first three Gāṇas being replaceable by two light ones.	24 (2); 46 (4, 6).	=No. 25 in Part I.
21. Madanāvatāra (b)	"	"	"	"	— u four times, all heavy syllables except the last, being replaceable by two light ones.	46 (10).	This appears to be a variation of the common type.
22. Pramānikā	Sama-dvīpadi Varṇavṛtta	"	"	8 syllables	Four times u —	32 (3); 40 (12); 44 (5); 45 (8); 53 (9, lines 4-7).	=No. 28 in Part I.
23. Samānikā	"	"	"	"	Four times — u	40 (6); 45 (9).	
24. Bhujāṅgaprayāta	"	"	"	12 syllables	Four times u — —	40 (3); 56 (1).	
25. (?)	Vīṣam- drivedi	"	"	16, 8	The first Pāda is the Paḍḍha- diā, the second Pāda is the latter half of the Paḍḍhaḍiā.	40 (9).	
26. (?)	"	"	"	"	The first Pāda is the Vadanā- ka, the second Pāda is the lat- ter half of the Vadanaka.	40 (10).	
27. (?)	Vīṣam- dvīpadi Varṇavṛtta	"	"	4-8 syllables	The first Pāda is twice u —, the second is four times u —.	40 (1).	

Name of the metre	Type	No. of Pādas in a stanza	Rhyme-scheme	No. of morās per Pāda	Gana-scheme	which Sandhi? Employed in	Remarks
28.	Ṣaṭpādi(?)	6	a/b, d/e, c/f	10, 8, 6	4 + 3 + 3 (end u — u), 4 + 4 (end u — u), 6 (end uu or —).	40 (16).	If considered to be a Dvipādi, it is identical with Candralēkhā (Chandonuśāsana ch. IV Khañjakas, No. 60) with internal rhymes at 10, 18.
29.	"	"	"	10, 8, 5	6 + 4 (end — uu), 4 + 4 (end — uu), 5 (— uu or uuuu).	53 (1, 3).	It is equivalent to No. 5 above with six morās cut down from the end.
30.	Dandaka				6 light syllables + thirteen to fifteen groups of — u —.	40 (17).	
31.	"				6 light syllables + eleven to twelve groups of — u —.	51 (2).	

C. Metres Employed in the concluding piece of the Kaṣavaka called Ghattā.

32.	Antarasama-Catupādi	4	a/b	8, 14	Both Pādas end in — uu.	25, 26, 53.
-----	---------------------	---	-----	-------	-------------------------	-------------

23.	Āntarāsamā Catuṣpadi	4	b/d	9, 13	The odd Pāda ends in — u (exceptionally uuu)	The even Pāda is structurally identi- cal with the odd Pāda of the Dohā. This is the same as No. 5 in Part I.
34.	"	"	"	9, 14	The odd Pāda ends in uuu; the even, in — uu.	22, 36, 38, 41, the commencing stan- za of 42; 46.
35.	"	"	"	11, 12	The odd Pāda ends in — u; the even, in — uu (or — —).	23, 24.
36.	"	"	"	11, 14	The odd Pāda ends in — u; the even, in — uu.	55.
37.	"	"	"	13, 14	The odd Pāda ends in uuu; the even, in — uu.	39, 45.
38.	"	"	"	13, 15	Both Pādas end in uuu.	21, 50.
39.	"	"	"	13, 16	The odd Pāda ends in uuu; the even, in — uu.	28, 51.
40.	"	"	"	14, 13	The odd Pāda ends in — uu.	44, 49, 56.
41.	"	"	"	15, 13	Both Pādas end in uuu.	43.
42.	Sarvasamā Catuṣpadi	"	"	9	The odd Pāda ends in — u; the even, in uuu.	33.
43.	"	"	"	15	The end is — uu or uuuuu.	27, 49.
44.	"	"	"	16	The end is — uu.	34, 35, 47.
45.	Ṣaṭpadi	"	a/b, d/e, c/f,	9, 7, 14	a, b, d, e end in uuu; c, f in — uu.	
46.	"	"	"	10, 8, 13	a, b, d, e end in — uu; c, f in uuu.	31, 37, 40, 52.
47.	"	"	"	13, 7, 14	a, b, d, e end in uuu; c, f in — uu.	29, 30.

=No. 7 in Part I.

=No. 10 in Part I.

=No. 11 in Part I.

=No. 12 in Part I.

=No. 14 in Part I.

=No. 20 in Part I.

कइराय-सयम्भुएव-किउ

प उ म च रि उ

बीअं उज्झाकण्डं

[२१. एकवीसमो संधि]

सायरबुद्धि विहीसणेंण परिपुच्छिउं 'जयसिरि-माणणहों ।
कहें केत्तडउ कालु अचलु जँउ जीविउ रज्जु दसाणणहों' ॥

[१]

पभणइ सायरबुद्धि भडारउ कुसुमाउह-सर-पसर-णिवारउ ॥ १
'सुणु अक्खमि रहवंसु पहाणउ दसरहु अत्थि अउज्झहें राणउ ॥ २
तासु पुत्त होसन्ति धुरन्धर वासुएव-वलएव धणुद्धर ॥ ३
तेहिं हणेवउ रक्खु महारणे जणय-गराहिव-तणयहें कारणें ॥ ४
तो सहसत्ति पलित्तु विहीसणु णं घय-घडएँहिं सित्तु हुआसणु ॥ ५
'जाम ण लङ्का-वल्लरि सुक्कइ जाम ण मरणु दसासणे दुक्कइ ॥ ६
तोडमि ताम ताहँ भय-भीसइ दसरह-जणय-गराहिव-सीसइ ॥ ७
तो 'तं वयणु सुणेवि कलियारउ वद्धावणहँ पधाइउ णारउ ॥ ८
'अज्जु विहीसणु उप्परि एसइ तुम्हहँ विहि मि सिरइ तोडेसइ ॥ ९
॥ घत्ता ॥

दसरह-जणय विणीसरिय लेप्पमउ थवेप्पिणु अप्पणँउ ।
'णियइँ सिरइँ विजाहरेंहिं परियँणहों करेप्पिणु चप्पणउ ॥ १०

[२]

दसरह-जणय वे वि गय तेत्तहें पुरवरु कउतुकमङ्गलु जेतहें ॥ १
जेम्मइ जेत्युँ अमगिय-लज्जउ सूरकन्त-मणि-हुयवह-रज्जउ ॥ २

1. 1 P S परिपुच्छिउ. 2 P जाड. 3 P S A पहाणउं. 4 P S A राणउं. 5 P पुत्तु.
6 P तणयहो, 8 तणयहु. 7 P दसासहो, 8 देसासहे. 8 P S ताहँ. 9 A तं वइयरु.
10 A पराइउ. 11 A वे वि गय. 12 P S A अप्पणउं. 13 S परियणहं.
2. 1 A तेत्तहिं. 2 P जेमइ, A जिम्मइ. 3 A तिथु.

[१] १ भट्टारकः. २ नीतानि. *
स० प० च० १

जहिँ जलु चन्दकन्ति-णिज्जरणेहिँ
जहिँ णेउर-झङ्कारिय-चलणेहिँ
जहिँ पासाय-सिहरेँ 'णिहसिज्जइ
तहिँ सुहमइ-णामेण पहाणउ
'पिहुसिरि तहोँ महएवि मणोहर
णन्दणु ताँहोँ दोणु उप्पज्जइ
सयल-कला-कलाव-संपण्णी

सुप्पइ पडिय-पुप्फ-पत्थरणेहिँ ॥ ३
रम्मइ अच्चण-पुप्फ-क्खलणेहिँ ॥ ४
तेण मियङ्कु वङ्कु किंसुँ किज्जइ ॥ ५
णं सुरपुरहोँ पुरन्दरु राणउ ॥ ६
सुरकरि-कर कुम्भयल-पओहर ॥ ७
केकय तणय काँ वणिज्जइ ॥ ८
णं पञ्चक्ख लच्छी अवइण्णी ॥ ९

॥ घत्ता ॥

॥ ताँहोँ सयम्बरेँ मिलिय वर
णाँ समुह-महाँसिरिहेँ

हरिवाहण-हेमप्पह-पमुह ।
थिय जलवाहिणि-पवाह समुह ॥ १०

[३]

तो करेणु आरुहेँवि विणिग्गय
पेक्खन्तहँ णरवर-संघायहुँ
घिस्त माल दंससन्दण-णामहोँ
॥ तहिँ अवसरेँ विरुद्धु हरिवाहणु
'वरुँ आहणहोँ कण्ण उद्दालहोँ
सुँहमइ रेँहु-सुएण विण्णप्पइ
मइ जियन्तेँ अणरण्णहोँ णन्दणेँ
केकइ धुरेँहिँ करेप्पिणु सारहि

णं पञ्चक्ख महासिरि-देवय ॥ १
भूगोयर-विज्जाहर-रायहुँ ॥ २
मणहर-गइएँ रेँइएँ णं कामहोँ ॥ ३
धाइउ 'लेहु' भणन्तु स-साहणु ॥ ४
रयणइँ जेम तेम महिपाँलहोँ ॥ ५
'धीरउ होहि माम को चप्पइ ॥ ६
एउ भणेवि परिट्टिउ सन्दणेँ ॥ ७
तहिँ पयट्टु जहिँ सयल महारहि ॥ ८

२०

॥ घत्ता ॥

तो वोलिज्जइ दसरहेँण

'दूरयर-णिवारिय-रेँवियरइँ ।

रहु वीहेँवि ताँहोँ णेहि पियएँ

धय-छत्तइँ जेत्यु णिरन्तरइँ' ॥ ९

[४]

॥ तं णिसुणेँवि परिओसिय-जणएँ
२ तेण वि सरहिँ परज्जिउ साहणु

वाहिउ रहवरु पिहुसिरि-तणएँ ॥ १
भग्गु स-हेमप्पहु हरिवाहणु ॥ २

4 P जह. 5 A णिवसिज्जइ. 6 P किमु. 7 A उप्पण्णी. 8 P 'महारिसिहे.

3. 1 P S 'रावहु, A 'रायहं. 2 P 'रइए गइए, S 'रइय गइय, A 'गइ रहए. 3 A अवव. 4 P S महिवालहो. 5 P S धुरहं. 6 P S A वाहिणि. 7 S तं. 8 S missing.

[२] १ घर्षते. २ केकर्यायाः (केकर्याः).

[३] १ हस्तिनी. २ दशरथस्य. ३ सुसरो इति लोके प्र[सिद्धः]. ४ दशरथेन. ५ स्वतेजसा रविमयूखा निवारिता येन.

[४] १ केकर्या (केकर्या). २ दशरथेन.

परिणिय केकइ दिण्णु महा-वरु
'सुन्दरि मग्गु मग्गु जं रुच्चइ'
'दिण्णु देव पइं मग्गमि जइयहुं
एम चर्बन्तइ धण-कण-संकुलें
वहु-वासरेंहिं अउज्झ पइइहुं
सयल-कला-कलाव-संपण्णा

रामचन्द्रु अपरंजियहें
भरहु धुरन्धरु केकइहें

एय चयारि पुत्त तहों रायहों
णाइं दन्त गिवाण-गइन्दहों
जणउ वि मिहिला-णयरें पइइउ
ताहें विहि मि वर-विक्रम-वीयउ
पुब-वइरु संभरेंवि अ-खेवें
तहिं रहणेउरचक्रवाल-पुरें
चन्दगइहें चन्दुजल-वयणहों
घत्तिउ पिङ्गलेण अमरिन्दें

ताव रज्जु जणयहों तणउ
वधर-सवर-पुलिन्दएहिं

वेढिय जणय-कणय दुप्पेच्छेंहिं
गरुयासइएँ वाल-सहायहों

4. 1 P °पुरु. 2 A मग्गे. 3 P S मग्गहु. 4 A रमंतइ. 5 A रज्जो. 6 A अपराधिचहे.
7 S सुप्पइहिं.

5. 1 P S °गिरिंदहो. 2 P S मणोहर. 3 P S महिला°. 4 P S A संभरिवि. 5 S उहुहु.
6 P °वासिएहिं, S गिरिवासिएहिं.

6. 1 A °समर°. 2 P °आसंकहे, S °यासंकहोए.

३ लक्ष्मणः.

[५] १ तस्य स्वजनस्य. २ स्वभार्यायाः दत्तः. ३ चन्द्रगति-विद्याधर-नाम्ना.

[६] १ भ्रातरौ.

चवइ अउज्झापुरं-परमेसरु ॥ ३
सुहमइ-सुयएँ णवेप्पिणु वुच्चइ ॥ ४
णियय-सञ्चु पालिज्जइ तइयहुं ॥ ५
थियइं वे वि पुरें कउतुकमङ्गलें ॥ ६
सइ-वासव इव रंजें वइइहुं ॥ ७
ताम चयारि पुत्त उप्पण्णा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सौमिन्ति सुमिन्तिहें एक्कु जणु ।
सुप्पहहें पुत्तु पुणु सत्तुइणु ॥ ९

[५]

णाइं महा-समुद्द महि-भायहों ॥ १
णाइं मणोरह सज्जण-विन्दहों ॥ २
समउ विदेहएँ रज्जे णिविडुउ ॥ ३
भामण्डलु उप्पणु स-सीयउ ॥ ४
दाहिण सेठि हरेंवि णिउ देवें ॥ ५
वहल-धवल-सुह-पङ्गापण्डुरें ॥ ६
णन्दणवण-समीवें तहों सयणहों ॥ ७
पुप्फवइहें अल्लविउ णारिन्दें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उहुहु महाडइ-वासिएहिं ।
हिमवन्त-विञ्ज-संवासिएहिं ॥ ९

[६]

वधर-सवर-पुलिन्दा-मेच्छेंहिं ॥ १
लेहु विसज्जिउ दसरह-रायहों ॥ २

11

11

20

सीयहें देह-रिद्धि पावन्तिहें
पडिमा-कुल्लेण महा-भय-गारउ
जणय-तणय सहसत्ति पणट्ठी
'हा हा माए' भणन्तिहैं सहियहैं
अंमरिस-कुंहुद्धाइय किङ्कर
१० मिलेवि तेहैं^{११} कह कह वि ण मारिउ

एकु दिवसुं दप्पणु जोर्यन्तिहें ॥ ३
आरिस-वेसुं णिहालिउं णारउ ॥ ४
सीहागमणें कुरङ्गि व तंटी ॥ ५
कलयलु किउं संज्झस-गह-गहियहैं ॥ ६
उक्खय-वर-करवाल-भयङ्कर ॥ ७
लेवि अंद्धचन्देहैं णीसारिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गउ सँ-पँराहउ देवरिसि
दरिसाविय भामण्डलहों

पडें पडिम लिहेंवि सीयहें तणिय ।
विस-जुत्ति णाईं णर-घारणिय ॥ ९

[९]

दिट्ठु जं जें पडें पडिम कुमारें
सुंसिय-वयणु घुम्मइय-णिडालउ
वद्ध-केसु पक्खोडिय-वच्छउ
चिन्त पढम-थाणन्तरें लग्गइ
तइयएँ ससइ दीह-णीसाँसें
पँच्चमँ डाहें अङ्गु ण मुच्चइ
सत्तमँ थाणें ण गासु लइज्जइ
णवमँ पाण-संदेहहों दुक्कइ

पञ्चहैं सरहैं विट्ठु णं मारें ॥ १
वलिय-अङ्गु मोडिय-भुव-डालउ ॥ २
दरिसाविय-दस-कामावत्थउ ॥ ३
वीयएँ पिय-मुह-दंसणु मग्गइ ॥ ४
कणइ चउत्थएँ जरु-विण्णासें ॥ ५
छट्ठुएँ मुहहों ण काइ मि रुच्चइ ॥ ६
अट्ठुमँ गमणुम्माएँहैं मिज्जइ ॥ ७
दसमएँ मरइ ण केमँ वि चुक्कइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहिउ णरिन्दहों किङ्करेहैं
कौहें वि कण्णहें कारणेण

'पहु दुक्करु जीवइ पुत्तु तउ ।
सो दसमी कामावत्थ गउ ॥ ९

[१०]

णाग-गरामर-कुल-कलियारउ
'कहि कहों तणिय कण्ण कहैं दिट्ठी जा महु पुत्तहों हियएँ पइट्ठी'
कहइ महारिसि 'मिहिल्ल-राणउ

चन्दगइएँ पडिपुच्छिउ णारउ ॥ १
'कहि कहों तणिय कण्ण कहैं दिट्ठी जा महु पुत्तहों हियएँ पइट्ठी' ॥ २
चन्दकेउ-णामेण पहाणउं ॥ ३

२ A दिवसे. ३ P जोर्यतिहैं. 4 P S वेस. 5 P S णिहालिय. 6 P दिट्ठी. 7 P S कियउ.
8 P भग्गगह°, S सयगह°. 9 P S °कुद्धा धाइय. 10 P S A मिलिबि. 11 P S तेण.
12 P S सवराहउ.

9. 1 P पड, S A पडि. 2 A पुत्तिय°. 3 A °णीसासेहैं. 4 S कर.° 5 P S पंचम. 6 P
चुक्कइ corrected to मुच्चइ, S पहुच्चइ. 7 A भज्जइ. 8 P S णवमए, A णवमि. 9 A केण.
10 P हाके corrected to हा केहैं, S काहि.

10. 1 S णाय°. 2 A महिल°. 3 P S A पहाणउं.

३ सीता. ४ सकोपाः. ५ गले गृहित्वा. ६ सपराभवः.

[९] १ °वक्षस्थलः.

तहों सुउ जणउ तेत्थु मई दिट्ठउ
तं जइ होइ कुमारहों आयहों
तं णिसुणेंवि विज्जाहर-णाहें
'जाहि 'विदेहा-दइउ हरेवउ
' गउ सो चन्दगइहें मुहु जोएँवि
'कोहुँ चडिउ णराहिउ जावेंहिँ
मिहिला-णाहु मुएप्पिणु जिणं-हरें

कण्णा-रयणु तिलोय-वरिडुँउ ॥ ४
तो सिय हरइ पुरन्दर-रायहों ॥ ५
पेसिउ चवलवेउ असगाहें ॥ ६
मई विवाह-संबन्धु करेवउ ॥ ७
मन्दुर दुक्कुं तुरङ्गमु होएँवि ॥ ८
दाहिण सेठि पराइउ तावेंहिँ ॥ ९
चवलवेउ पइसइ पुरें मणहरें ॥ १०

॥ घत्ता ॥

॥ आणिउ जणय-णराहिवइ
वन्दणहत्तिएँ सो वि गउ

णिय-णाहहों अक्खिउ सरहसेंण ।
सहुँ पुत्तें विरह-परवसेंण ॥ ११

[११]

विज्जाहर-णर-णयणाणन्देंहिँ
पभणइ चन्दगमणु तोसिय-मणु
दुहिय तुहारी पुत्तु महारउ
॥ अमरिसु णवर पवँडिउ जणयहों
रामहों जयसिरि-रामासत्तहों
तहिँ अवसरें वड्ढिय-अहिमाणें
'कहिँ विज्जाहरू कहिँ भूगोयरु
माणुस-खेत्तु जें ताम कण्णिउउ

किउ संभासणु विहि मि णरिन्देंहिँ ॥ १
'विण्णि वि किण्ण करहुँ सयणत्तणु ॥ २
होउं विवाहु मणोरह-णारउ' ॥ ३
'दिण्ण कण्ण मई दसरह-तणयहों ॥ ४
संवर-वरुहिणि-चूरिय-गत्तहों ॥ ५
वुत्तु णरिन्दुं 'चन्दर्पस्थाणें ॥ ६
गय-मसंयहुँ वड्ढारउ अन्तरु ॥ ७
जीविउ तहिँ कहिँ तणउं विसिट्ठउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

॥ भणइ णराहिउ 'केत्तिएँणं
जसु पासिउ तित्थङ्करेंहिँ

जगें माणुस-खेत्तु जें अगलउ ।
सिद्धत्तणु लद्धउ केवलउ' ॥ ९

[१२]

तं णिसुणेंवि भामण्डल-वप्पें
॥ 'पगुण-गुणइँ अइ-दुज्जर्य-भावइँ
बज्जावत्त-समुदावत्तइँ

बुच्चइ विज्जा-वल-माहप्पें ॥ १
पुरें अच्छन्ति एत्थु वे चावइँ ॥ २
जक्खारक्खिय-रक्खिय-गत्तइँ ॥ ३

4 A विसिट्ठउ. 5 P जाहे, S जाह. 6 P विवाहु. 7 PS मंदिर. 8 A दुक्कं. 9 S कोहुँहि.
10 P S जिणघरे. 11 S आइणिणउ.

11. 1 P A करहु, S करहो. 2 S होइ. 3 PS पवड्ढिय. 4 PS वड्ढिय°. 5 P णरिंद.
6 P °पथाणें, S °पथाणे. 7 A विज्जाहर. 8 PS °मसयहिँ. 9 PS तणउं. 10 PS कित्तिपण.

12. 1 PS °उज्जय°.

[१०] १ जनकः.

[११] १ भिलसेषा. २ चन्द्रगतिना. ३ अतीव लघुः, तुच्छः.

किं भामण्डलेण किं रामे ताई चडावइ जो आयामें ॥ ४
 परिणउ सो जैं कण्ण ँउ पभणिउ' तं जि परमाणु करेवि पहु भणियउ ॥ ५
 गय स-सरासणु मिहिला-पुरवरु वद्ध मञ्च आढत्तु सयम्वरु ॥ ६
 मिलिय णराहिव जे जमें जाणिय सयल वि 'धणु-पयाव-अवमाणिय ॥ ७
 को वि णाहिं जो ताई चडावइ जक्ख-सर्हासहुँ मुहु दरिसावइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जाम ण गुणहिं चडन्ताई अहिजायइ कउ सुह-दंसणइ ।
 अवसें जणहो अणिट्ठाई कुकलत्तई जेम सरासणइ ॥ ९

[१३]

जं णरवइ असेस अवमाणिय दसरह-तणय चयारि वि आणिय ॥ १ ॥
 हरि-वलएव पढुक्किय तेत्तहें सीय-सयम्वर-मण्डउ जेत्तहें ॥ २
 दूर-णिवारिय-णरवर-लक्खेहिं धणुहराई अलवियइ जक्खेहिं ॥ ३
 'अप्पण-अप्पणाई सु-पमाणइ णिवाडेवि लेहु वर-चावइ' ॥ ४
 लइयइ सायर-वज्जावत्तई गामहंणा इव गुणेहिं चडन्तई ॥ ५
 मेळिउ कुसुम-वासु सुर-सत्थें परिणिय जणय-तणय काकुत्थे ॥ ६ ॥
 जे जे मिलिय सयंवरें राणा णिय-णिय-णयरहो गय विहाणा ॥ ७
 दिवसु वारु णक्खत्तु गणेप्पिणु लगुं जोगुं गह-दुत्थु णिएप्पिणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जोइसिएहिं आएसु किउ 'जउ लक्खण-रामहुँ सरहसहुँ ।
 आयहें कण्णहें कारणेण होसेइ विणासु बहु-रक्खसहुँ' ॥ ९ ॥

[१४]

'ससिवद्धणेण ससि-वयणियउ कुवलय-दल-दीहर-णयणियउ ॥ १
 कल-कोइल-वीणा-वाणियउ अट्टारह कण्णउ आणियउ ॥ २

2 P S पवाणु. 3 A ससरासण. 4 P °सहासहं, S °सहासहिं. 5 P S गुणइ. 6 P अहिजायप,
 S अहिजायह. 7 S को. 8 A जणे अबिसिट्ठाई.

13. 1 P दसरह°. 2 A सुपणामइ. 3 A मागहणा. 4 P S गुणहि, S गुणेहि. 5 P S A
 चडन्तइ. 6 P S सयंवर°. 7 P लग्ग. 8 S missing. 9 P S °रामहो, A °रामहं. 10 P
 कण्णहें, A कण्णहिं. 11 P S दीसइ.

14. 1 P °वयणियाउ, S °वयणेआउ, A °वयणियउं. 2 P S °अयणियाउ, A °णयणियउ.
 3 P S °वाणियाउ, A °वाणियउं. 4 P S आणियाउ, A आणियउं.

[१२] १ धनुषः प्रतापेन. २ शुद्धजात्या.

[१३] १ समर्पितौ. २ रामेण.

[१४] १ शशिदर्शन-नामेन.

दस लहु-भायरहुँ समप्पियउ
दोणेण विसल्ला-सुन्दरियं
वइदेहि अउज्झा-णयरि णिय
रह-^१तिक्क-चउक्किहिं ^२चच्चरिहिं
५ चन्दन-छडोह-दिज्जन्तएहिं
मणिमइयउ रइयउ देहलियउ
सोवण्ण-दण्ड-मणि-तोरणइं

लक्खणहोँ अट्ट परिकप्पियउ ॥ ३
कण्हहोँ चिन्तविय मणोहरिय ॥ ४
दसरहेण महोच्छव-सोह किय ॥ ५
कुङ्कुम-कप्पूर-पवर-वरहिं ॥ ६
गायण-गीयहिं गिज्जन्तएहिं ॥ ७
मोत्तिय कणएहिं रङ्गावलिउ ॥ ८
वद्धइं ^१सुरवर-मण-चोरणइं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१० सीय-वलइं पइसोरियइं जीणे जय-जय-कारिज्जन्ताइं ।
थियइं अउज्झहोँ अविचलइं रइ-सोक्ख-संयं भुज्जन्ताइं ॥ १०

*

[२२. वावीसमो संघि]

कोसलणन्दणेण
आसाढट्टमिहिं

स-कलत्तें णिय-घरु आएं ।
किउ ण्हवणु जिणिन्दहोँ राएं ॥

[१]

१६ सुर-समर-सहासेहिं दुम्महेण
पट्टवियइं जिण-तणु-धोवयाइं
सुप्पहहेँ णवर कञ्चुइ ण पत्तु
‘कहँ काइं णियम्बिणि मणे विसण्ण
पणवेप्पिणु बुच्चइ सुप्पहाएँ
२० जइ हउँ जेँ पाणवल्लहिय देव
तहिँ अवसरें कञ्चुइ टुकु पासु

किउ ण्हवणु जिणिन्दहोँ दसरहेण ॥ १
‘देविहिं दिव्वइं गन्धोदयाइं ॥ २
पहु पभणइ रहसुच्छलिय-गत्तु ॥ ३
चिर-चित्तिय भित्ति व थिय विवण्ण’ ॥ ४
‘किर काइं महुँ तणियएँ कहाएँ ॥ ५
तो गन्ध-सलिलु पावइ ण केम’ ॥ ६
छण-ससि व णिरन्तर-धवलियासु ॥ ७

5 P S °भायरहु, A भायरहं. 6 P S समप्पियाउ. 7 P S परिकप्पियाउ. 8 P °सुंदरीय.
9 A लक्खणे. 10 S °चउक्किहिं. 11 P °चच्चरेहिं, S चच्चरिहिं, A चच्चरहि. 12 P S °वरेहिं.
13 A छडेहिं. 14 P S देहलियउ. 15 P S रंगावलियउ. 16 P S °तोरणाइं. 17 P S घरे
घरे सुमणोहराइं; P marginally ‘सुरवरमणचोरणाइ’ पाठे. 18 S पइसारियउ. 19 P S
जण. 20 P S अउज्झहो. 21 P S सुर°. 22 P S °सयइं, A सइं.

1. 1 P आसाढट्टमिहिं, S आसाढट्टमिहि. 2 P S A पट्टवियइ. 3 P S °तोवयाइं, A °रोव.
याइं. 4 P S देवहि. 5 P दिव्वहिं, S दिव्वेहिं, A दिण्णइं. 6 P S A महुं. 7 P S तणियए.
8 P A केव.

२ भरत-शत्रुहण(शत्रुघ्न)योः. ३ रथ्यामार्गः. ४ त्रिपथ्याः. ५ येषु प्रदेशेषु कथकाः कथां कथयन्ति.

[१] १ रामचन्द्रेण.

गय-दन्तु अयंगमु(?) दण्ड-पाणि

अणियच्छिय-पहु पक्खलिय-वाणि ॥ ८

॥ वत्ता ॥

गरहिउ दसरहेण
जलु जिण-वयणु जिह

‘पइँ कञ्चुइ काइँ चिराविउ ।
सुप्पहहेँ देवस्ति ण पाविउ’ ॥ ९

[२]

पणवेप्पिणु तेण वि वुत्तु एम
पढमाउसु जर धवलन्ति आय
गइ तुट्ठियं विहडिय सन्धि-वन्ध
सिरु कम्पइ मुहेँ पक्खलइ वाय
परिगलिउ रुहिरु थिउ णवर चम्मु
गिरि-णइ-पवाह ण वहन्ति पाय
वयणेण तेण किउ पहु-वियप्पु
‘सञ्जउ चहु जीविउ कवणु सोक्खु

‘गय दियहा जोबणु ल्हसिउ देव ॥ १
पुणु अंसइ व सीस-वल्लग जाय ॥ २
ण सुणन्ति कण्ण लोयण णिरन्ध ॥ ३
गय दन्त सरीरहोँ णहु छाय ॥ ४
महु एत्थु जेँ हुउ णं अवरु जम्मु ॥ ५
गन्धोवउ पावउ केम राय’ ॥ ६
गउ परम-विसायहोँ राम-वप्पु ॥ ७
तं किज्जइ सिज्जइ जेण मोक्खु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

सुहु महु-विन्दु-समु
वरि तं कम्मु किउ

दुहु मेरु-सरिसु पवियम्भइ ।
जं पउ अजरामरु लब्भइ ॥ ९

[३]

कं दिवसु वि होसइ ‘आरिसाहुँ
को हउँ का महि कहोँ तणउ दव्वु
जोबणु सरीरु जीविउ धिगत्यु
विसु विसय वंन्धु दिढ-वन्धणाइँ
सुय संत्तु विढत्तउ अवहरन्ति
जीवाउ वाउ हेय हय वराय
तणु तणु जेँ खण्णहेँ खयहोँ जाइ
दुहिया वि दुहिय भाया वि माय

कञ्चुइ-अवत्थ अम्हारिसाहुँ ॥ १
सिंहासणु छत्तइँ अथिरु सव्वु ॥ २
संसारु असारु अणत्थु अंत्यु ॥ ३
घर-दारइँ परिहव-कारणाइँ ॥ ४
जर-मरणहँ किङ्कर किं करन्ति ॥ ५
संन्दण सन्दण गय गय जेँ णाय ॥ ६
धणु धणु जि गुणेण वि वक्कु थाइ ॥ ७
सम-भाउ लेन्ति किर तेण भाय ॥ ८

१ s °कंचुहं, A °कंचुन.

2. 1 A दिवहा. 2 P S गय. 3 S तुट्ठी. 4 S चल.

3. 1 P S कदिवसु. 2 P S आरिसाहं. 3 P S अहारिसाहं. 4 S इत्थु. 5 P S वरु.
6 P S अत्थ. 7 P S °मरणहं.

२ अनिरीक्षितः. ३ शीघ्रम्.

[२] १ दुश्चारिणी इव.

[३] १ इष्टप्रभूतानाम्. २ बान्धवाः. ३ वाताहत-जल-कल्लोलवत् वक्त्रकाः. ४ रथाः सम्यक्-
ण्डनाः, ‘दोव’ खण्डने धातुः. ५ गजा गदा रोगा ज्ञाताः. ६ तृणमिव. ७ दुहिताऽपि दुष्टहृदया इत्यर्थः.
८ वधना.

॥ घत्ता ॥

आयइँ अवरँइ मि
अप्पुणु तउ करमि'

सबइँ राहवहों समप्पेवि ।
थिउ दसरहु एम वियप्पेवि ॥ ९

[४]

६ तहिँ अवसरें आइउ सवण-सङ्कु
दुम्महमह-वम्मह-महण-सीलु
अहि-विसम-विसय-विस-वेय-संमणु
तवसिरि-वररामालिङ्गियङ्कु
तित्थङ्कर चरणम्बुरुह-भमरु
१० तहिँ सच्चभूइ णामेण साहु
मगहाहिउ विसय-विरत्त-देहु
गिबाण-महागिरि धीरिमाएँ

पर-समयसमीरण-गिरि-अलङ्कु ॥ १
भय-भङ्गुर-भुअणुँद्वरण-लीलु ॥ २
खम-दम-णिसेणि-किय-मोक्ख-गमणु ॥ ३
कलि-कलुस-सलिल-सोसण-पेयङ्कु ॥ ४
किय-मोह-महासुर-णयर-डमरु ॥ ५
जाणिय-संसार-समुइ-थाहु ॥ ६
अवहत्थिय-पुत्त-कलत्त-णेहु ॥ ७
रयणायर-गुरुँ गम्भीरिमाएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१६ रिसि-सङ्गाहिबइ
'सिखपुरि-गमणु करि'

मो आउ अउज्झ भडारउ ।
दसरहहों णाइँ हक्कारउ ॥ ९

[५]

पडिवण्णएँ तहिँ तेत्तडएँ कालें
भामण्डलु मण्डलु परिहरन्तु
वइदेहि-विरह-वेयण सहन्तु
२१ पडिहँन्ति ण विज्जाहर-तिथाउ
ण जलइ ण चन्दण कमल-सेज्ज
वाहिज्जइ विरहें दूसहेण
णीसांसु मुएप्पिणु दीहुँ दीहु
'भूगोयरि' भुञ्जमि मण्ड लेवि'

तो 'पुरें रहणेउरचक्कवालें ॥ १
अच्छइ रिसि सिद्धि व संभरन्तु ॥ २
दस कामावत्थउ दक्खवन्तु ॥ ३
णउ खाण-पाण-भोयण-कियाउ ॥ ४
हुक्कन्ति जँन्ति अण्णोण्ण वेज्जँ ॥ ५
णउ फिट्टइ केण वि ओसहेण ॥ ६
पुंणरवि थिउ थक्केवि जेम सीहु ॥ ७
णीसरिउ स-साहणु सण्णहेवि ॥ ८

४ ४ अवरह.

४. १ P S A °समीरण. २ A °भंगुरु. ३ A जगउद्वरण°. ४ P S °सीलु. ५ P S A तहि.
६ P S रयणायरु गुण°. ७ P S णाह, A नाइ.

५. १ P S पुर. २ F marginally 'परिणेह' पाटे. ३ S ण सहु. ४ P S A विज्ज. ५ P S
णीसास. ६ P S दीह. ७ A पुणु थियउ वि थक्किवि. ८ P S भूगोयर भंजेवि.

[४] १ गरुडः. २ सूर्यः.

[५] १ न स्वीकरोति, नेच्छतीति. २ बलात्.

पत्तु वियह्व-पुरु
'अण्णहिं भव-गहणे

मुच्छाविड तं पेक्खेवि पएसु
सन्भावें पभणिउं तेण ताउ
हउं होन्तु एत्थु अखलिय-भरट्टु
संसिकेउं-दुहिय अवहरेंवि आउ
उहालिउ मइं तहों तं कलत्तु
मुउ हउं मि विदेहहें देहें आउं
वणे घत्तिउं कण्ठेण वि ण भिण्णु

वद्धिउ तुम्ह घरे
जणउ जणेरु मह

वित्तन्तु कहेप्पिणु गिरवसेसु
जहिं वसइ महारिसि सच्चभूइ
वइरग-कालु जहिं दसरहासु
सत्तुहण-भरह जहिं मिलिय वे वि
जिणु वन्दिउ मोक्ख-वल्लग-जङ्गु
पुणु किउ संभासणु समउ तेहिं
जाणाविउं सीयहें भाइ जेम
सुउ परम-धम्मु सुह-भायणेण

9 P S A हउ.

6. 1 S पणविउ, A पभणिउं. 2 P ससकेउ, A भायरिय. 3 P S तहो मह. 4 P S विदे-
हिहे. 5 A जाउ. 6 A जमलु. 7 A घित्तउ. 8 P S A पइ. 9 P S वद्धिउ. 10 P S missing.
11 P परिआणइ, S A परियाणइ.

7. 1 S 'विभूइ, A 'विह्वइ. 2 P पडिवाडिइ. 3 P समण°. 4 P S जाणाविउ. 5 P S
सुय°.

३ विद्वरधनगरम्. ४ कुण्डलमण्डितनामा.

[६] १ कुवेराख्य-ब्राह्मणोपाध्यायः. २ चन्द्रध्वज-राज्ञः पुत्री चित्रोत्सवा नाम्ना. ३ तृणपृष्ठे
४ अहं वृत्वाऽपि. ५ भो चन्द्रगति पिता. ६ भगिनी सीता.

[७] १ अयोध्यायाम्. २ चन्द्रगति-विद्याधरेण.

॥ घत्ता ॥

तं णिँएवि जाउ जाईसरु ।
हँउं होन्तु एत्थु रँजेसरु' ॥ ९

[६]

संभरेंवि भवन्तरु गिरवसेसु ॥ १
'कुण्डलमण्डिउ णामेण राउ ॥ २
पिङ्गलु णामेण कुवेर-भट्टु ॥ ३
परिवसइ कुंडीरएँ फिर वराउ ॥ ४
सों वि मरेंवि सुरत्तणु कहि मि पत्तु ॥ ५
णिउ देवें जाणइ-जमल-जाउ ॥ ६
पुप्फवइहें पइं सायरेंण दिण्णु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जणु सयलु वि¹⁰ एउ परियाणइ ।
मायरि विदेह 'सस जाणइ' ॥ ८

[७]

गउ वन्दणहत्तिँ तं पएसु ॥ १
जहिं जिणवर-णहवण-महाविभूइ ॥ २
जहिं सीय-राम-लक्खण-विलासु ॥ ३
गउ तहिं भामण्डलु जणणु लेवि ॥ ४
पुणु गुरु-परिआडिँ सवण-सङ्गु ॥ ५
सत्तुहण-भरह-वल-लक्खणेहिं ॥ ६
जिह हरि-वल-साला सावलेव ॥ ७
तवचरणु लयउ चंदायणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दसरहु अण्ण-दिणें
केकय ताव मणें

किर रामहों रज्जु समप्पइ ।
उण्हालएँ धरणि व तप्पइ ॥ ९

[८]

६ णरिन्दस्स सोउण पव्वज्ज-यज्जं
संसा दोणरायस्स भग्गाणुराया
स-पालम्ब-कञ्ची-पँहा-भिण्ण-गुज्झा
णवासोय-वंच्छच्छयाछाय-पाणी
महा-मोरपिच्छोह-संकास-केसा
१० गया केकया जत्थ अत्थाण-मग्गो
वरो मग्गिओ 'णाह सो एस कालो
'पिए होउ एव' तँओ सावलेवो

सं-रामाहिरामस्स रामस्स रज्जं ॥ १
तुँलाकोडि-कन्ती'-लयाँलिद्ध-पाया ॥ २
थणुत्तुङ्ग-भारेण जा णित्त-मज्झा ॥ ३
वरालाविणी-कोइलालाव-वाणी ॥ ४
अणङ्गस्स भल्ली व पच्छण्ण-वेसा ॥ ५
णरिन्दो सुरिन्दो व पीढं वलग्गो ॥ ६
'मँहं णन्दणो ठाउ रज्जाणुपालो ॥ ७
संमायारिओ लक्खणो रामएवो ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१५ 'जइ तुहँ पुत्तुँ मह
छत्तइँ वइसणेंउ

तो एत्तिउ पेसणु किज्जइ ।
वसुमइ भरहहों अप्पिज्जइ ॥ ९

[९]

अहवँइ भरहु वि आसण्ण-भव्वु
घरु परियणु जीविउ सरीरु वित्तु
पइँ मुएँवि तासु जइ दिण्णु रज्जु
२० ण वि हँउँ ण वि भरहु ण केकया वि सत्तुहणु
तं णिसुणेंवि पप्फुल्लिय-मुहेण
'पुत्तहों पुत्तत्तणु एत्तिउं जें

सो चिन्तइ अथिरु असारु सब्बु ॥ १
अच्छइ तवचरण-णिहित्त-चित्तु ॥ २
तो लक्खणु लक्खइँ हणइ अज्जु ॥ ३
तो सत्तुहणु कुमारु ण सुप्पहाँ वि' ॥ ४
वोल्लिज्जइ दसरह-तणुरुहेण ॥ ५
जं कुलु ण चडाँवइ वसण-पुज्जेँ ॥ ६

8. 1 P S °भिरामस्स. 2 P °कंतिल्लया°, S °कंतिल्लया°. 3 S वच्छथया. 4 P S °केसं.
5 P S °वेस. 6 S महो. 7 After line 7 P reads वरं वारसं वच्छरं जाव मोणं । निओ
चित्तए आस्ति दिण्णं पवाणं ॥ 8 P S तवो. 9 P S रामएउ. 10 A पुत्त. 11 P S A वइसणउं.

9. 1 The following two lines are read in the beginning by P only.

दोदह-वरिसइँ ता वळि ण उतु कइ मइँ दिण्णउ चउ-वरिस-मित्तु ॥ १ ॥
पुणु पमणइ वससन्दणु विराउ किं करइ न करइ वि रज्जु राउ ॥ २ ॥

2 P वीसइँ. 3 S लक्खणो वि इह. 4 A सुप्पया. 5 P S A वोल्लिज्जइ. 6 P एत्तिउ,
S एत्तिओ. 7 S चडावइ.

[८] १ स्वकीय-रामाभिरामस्स. २ भगिनी. ३ नूपुरम्. ४ आळिद्धं आळिङ्गितम्. ५ वज्रप्रभा°. ६ नतम्. ७ मे पुत्रः. ८ सविषादः. ९ आकारितः.

जं गिय-जणणहों आणा-विहेउ
किं पुसैं पुणु पयपूणेण

लक्खणु ण वि हर्णइ
भुज्जउ भरहु महि

हकारिउ भरहु णरेसरेण
'तउ छत्तइँ तउ वइसणउ रज्जु
तं वयणु सुणेंवि दुम्मिय-मणेण
'तुहुँ ताय धिगतथु धिगतथु रज्जु
णउ जाणहुँ महिलहँ को सहाउ
णउ बुज्झहि तुहु मि महा-मयन्धु
सप्पुरिस वि चच्चल-चित्त होन्ति
माणिकुँ मुणेंवि को लेइ कच्चु

अच्छहु पुणु वि धरें
अलिउ म होहि तुहुँ

सुय-वयण-विरेमें दससन्दणेण
'केकयहें रज्जु रामहों पवासु
तुहुँ पालें धंरासउ परम-रम्मु
दिज्जइ जइवरहुँ महप्पहाणु
रक्खिज्जइ सीलु कुसील-णासु
जिण-वन्दण 'वारापेक्ख-करणु
एहु संबहुँ धम्महुँ परम-धम्मु
तं वयणु सुणेंवि सइत्तणेण

8 S के. 9 A धरइ. 10 A पगासहो.

10. 1 A हकारिवि. 2 S साहेवउ. 3 A अप्पणउं. 4 A जाणहं. 5 PS महिकुँ. 6 S पहु. 7 A चित्तवित्ति. 8 PS माणिक. 9 A अउउहुँ. 10 PS अप्पणु.

11. 1 PS °विरसि, A विरसि. 2 PS केकयहो. 3 A जग. 4 A भडारा. 5 PS जइ-वरहं. 6 SA महप्पयाणु. 7 PS °भसेउ. 8 A दारा°. 9 PS सउवहु, A सउवहं. 10 PS धम्महु, A धम्महो. 11 A असइत्तणेण. 12 PS °दोहित्तेणेण.

[११] १ महत्त्व उपवासं च तो द्वौ; महोत्सव उपवासं च. २ अतिथि-द्वाराप्रेक्षणम्. ३ बह-दयेण. ४ भरतेन.

जं करइ विवक्खहों पाण-छेउ ॥ ७
गुण-हीणें हियय-विसूरणेण ॥ ८
॥ घत्ता ॥

तउ भावहों सच्चु परींसहों
हउँ जामि ताय वण-वासहों ॥ ९

[१०]

पुणु बुच्चइ णेह-महाभरेण ॥ १
साहेवउ मइँ अप्पणउ कच्चु ॥ २
धिक्कारिउ केकय-गन्दणेण ॥ ३
मायरि धिगतथु सिरें पडउ वज्जु ॥ ४
जोबण-मएण ण गणन्ति पाउ ॥ ५
किं रामु मुणेंवि महु पट्टे-वन्धु ॥ ६
मणें जुत्ताजुत्तु ण चिन्तवन्ति ॥ ७
कामन्धहों किर कहिँ तणउ सच्चु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सत्तुहणु रामु हउँ लक्खणु ।
महि भुज्जे भडारा अप्पुणु ॥ ९

[११]

बुच्चइ अणरणहों गन्दणेण ॥ १
पव्वज्ज मज्जु एउ जेणें पगासु ॥ २
णउ आयहों पासिउ को वि धम्मु ॥ ३
सुअ-भेसह-अभयाहार-दाणु ॥ ४
किज्जइ जिण-पुज्ज मंहोववासु ॥ ५
सल्लेहण-कालु समाहि-मरणु ॥ ६
जो पालइ तहों सुर-मणुय-जम्मु ॥ ७
बुच्चइ सुँहमइ-दोहित्तेणेण ॥ ८

‘जइ घर-वासैं सुहु
तो तिण-समु गणेंवि

॥ घत्ता ॥

एउं जें ताय पडिबज्जहि ।
कज्जेण केण पव्वज्जहि’ ॥ ९

[१२]

६ तो खेडु मुएँवि दसरहेंण वुत्तु
तो किं पव्वज्जहें करहि विग्घु
केकयहें सच्चु जं दिण्णु आसि
तो कोसल-दुहिया-दुल्लहेण
‘गुणु केवल्लु वसुहएँ भुत्तियाएँ
॥ पालिज्जउ तायहों तणिय वाय
तो एम भणन्तें राहवेण
खीरोवमहण्णव-णिम्मलेण

‘जइ सच्चउ तुहँ महु तणउ पुत्तु ॥ १
कुलवंस-धुरन्धरु होहि सिग्घु ॥ २
तं णिरिणु करहि गुण-रयण-रासि’ ॥ ३
वोल्लिज्जइ सीया-वल्लहेण ॥ ४
किं खणें खणें उत्त-पँउत्तियाएँ ॥ ५
लइ महु उवरोहें पिहिविं भाय’ ॥ ६
णिबूढाणेय-महाहवेण ॥ ७
गिवाण-महागिरि-अविचलेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेक्खन्तहों जणहों
॥ पट्टु णिवद्धु सिरें

सुरकरि-कर-पवर-पचण्डेहिँ ।
रहु-सुएँण सैं यं भु वं-दण्डेहिँ ॥ ९

*

[२३. तेवीसमो संधि]

तहिँ मुणि-सुवय-तित्थे
रावण-रांमहँ जुंज्जु

वुहयण-कण्ण-रसायणु ।
तं णिसुणहु रामायणु ॥

[१]

११ णमिउंण भडारंउ रिसह-जिणु
जंगे लोयहुँ सुयणहुँ पण्डियहुँ
किं चित्तइँ गेणहेंवि सक्कियइँ

पुणु कव्हों उप्परि करंमि मणु ॥ १
सदत्थ-संत्य परिचड्डियहुँ ॥ २
‘वासेण वि जाइँ णं रञ्जियइँ ॥ ३

13 P S एउं.

12. 1 A किर. 2 S पव्वज्जहिँ. 3 S कुलवंसु धणुद्धरु. 4 P केकयहो. 5 A करणु. 6 A पट्टुत्तियाएँ. 7 P S पालिज्जइ, A पालिज्जइ corrected to पालिज्जउ. 8 P S पिहिसि. 9 A खीरोय°. 10 A सइँ. 11 P S भुय°.

1. 1 S रामण. 2 P °रामहु, S रामहो. 3 S marginally adds जं after जुंज्जु. 4 A णविज्जण. 5 S भडारा. 6 P S करेवि. 7 P S जए. 8 P marginally ‘छंद’ पाटे, A °छंद°. 9 P S A न रंजियाइँ.

[१२] १ कोसलो नाम राजा, तस्य दुहिताऽपराजिता, तस्याः दुर्लभेन रामेण.

[१] १ व्यासेन.

तो कवणु गहणु अम्हारिसेहिं
कइ अत्थि अणेय भेय-भरिय
चकलएहिं कुलएहिं खन्धएहिं
मञ्जरिय-विलासिणि-गकुडोहिं
हउं किं पि ण जाणमि मुक्खु मणे
जं सयलें वि तिहुवणे बित्थरिउं

वायरण-विहूणेहिं आरिसेहिं ॥ ४
जे सुयण-सहासेहिं आयेरिय ॥ ५
पवणुदुअं-रासालुद्धएहिं ॥ ६
सुह-छन्दोहिं सदेहिं खडहडोहिं ॥ ७
णिय बुद्धि पर्यांसमि तो वि जणे ॥ ८
आरम्भउ पुणु राहवचरिउ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

भरहहो वद्धए पट्टे
पट्टणु उज्झ मुएवि

तो णिबूढ-महाहउ ।
गउ वण-वासहो राहउ ॥ १०

[२]

जं परिवद्धु पट्टु परिओसें
दसरह-चरण-जुयलु जयकारेवि
सम्पय रिद्धि विद्धि अवगणेवि
णिग्गउ वलु वलु णाई हरेप्पिणु
संचलेहिं तेहिं विहाणउ
हियवए णाई तिसूले सल्लिउ
धिगधिगत्यु जणएण पवोल्लिउ
अहवइ जइ मइ सच्चु ण पालिउ
वरि गउ रामु ण सच्चु विणासिउ
सच्चें अम्वरे तवइ दिवायरु
सच्चें वाउ वाइ महि पच्चइ

जय-मङ्गल-जय-तूर-णिघोसें ॥ १
दाइय-मच्छरु मणे अवहारेंवि ॥ २
तायहो तणउ सच्चु परिमणोवि ॥ ३
लक्खणो वि लक्खणइ लएप्पिणु ॥ ४
ठिउ हेट्टामुहु दसरहु राणउ ॥ ५
राहउ किह वण-वासहो घल्लिउ ॥ ६
लद्धिउ कुल-कमु वि सुमहल्लउ ॥ ७
तो णिय-णामु गोत्तु मइ मइलिउ ॥ ८
सच्चु महन्तउ सबहो पासिउ ॥ ९
सच्चें समउ ण चुक्कइ सायरु ॥ १०
सच्चें ओसहि खयहो ण वच्चइ ॥ ११

॥ वत्ता ॥

जो णं वि पालइ सच्चु
णिवडइ णरय-समुद्धे

मुहें दाढियउ वहन्तउ ।
वसु जेम अलिउ चवन्तउ ॥ १२

10 SA °भरिया. 11 SA °आयरिया. 12 PS पवणदुब्. 13 PS जाणउ. 14 PS पयासिय. 15 A बित्थरियउ. 16 P °महाहउ, S °महादुइ. 17 P उज्झ, A अवज्झ.

2. 1 S °मंगल. 2 P णिरवोसें. 3 A तणउं. 4 P परिपणोवि. 5 PS संचलिएहिं. 6 S सुयहि. 7 PA विहाणउं. 8 PA राणउं. 9 PS °णउ. 10 A महु. 11 P पासिउं. 12 PS सबइ. 13 P चुक्कइ, S चुक्कइ. 14 PS वि ण. 15 A जिम.

[१] २ रासालुब्धकैः. ३ समर्थः.

[२] १ निराकृत्य. २ वचनं चाङ्गीकृत्य. ३ साहसं कृत्वा, नरस्य बलं चतुरङ्ग-बलं वा अपहृत्य. ४ नगरस्य रक्षणानि इतानीव. ५ अपभोमुखं कृत्वा.

चिन्तावणु णराहिउ जावैहिं
 दुम्मणु एन्तु णिहालिउ मायए
 'दिवे दिवे चडहि तुरङ्गम-णाएहिं
 दिवे दिवे वन्दिण-विन्देहिं थुव्वहि
 दिवे दिवे धुव्वहि चमर-सहासेहिं
 दिवे दिवे लोयहिं बुव्वहि राणउ
 तं णिसुणेवि वलेण पजम्पिउ
 जामि माए दिढ हियवए होज्जहि

11

जे आउच्छिय माय
 अपराइय महएवि

रामे जणणि जं जे आउच्छिय
 16 लज्जियाहिं 'हा माए' भणन्तिहिं
 चमरुक्खेवैहिं किय पडिवायण
 अङ्गु वलन्ति समुट्ठिय राणी
 णीलक्खण णीरामुम्माहिय
 'हा हा काइं वुत्तु पइं हलहर
 20 पइं विणु को पलङ्के सुवेसइं
 पइं विणु को हय-गयहुं चडेसइं
 पइं विणु रायलच्छि को माणइं
 पइं विणु को पर-वलु भज्जेसइं

21 तं कूवीरु सुणेवि
 लक्खण-राम-विओएं

[३]

वलु णिय-णिलउ पराइउ तावैहिं ॥ १
 पुणु विहसेवि वुत्तु पिय-वायए ॥ २
 अज्जु काइं अणुवाहणु पापेहिं ॥ ३
 अज्जु काइं थुव्वन्तुं ण सुव्वहि ॥ ४
 अज्जु काइं तउ को वि ण पासेहिं ॥ ५
 अज्जु काइं दीसहि विहाणउ ॥ ६
 'भरहहो सयलु वि रज्जु समप्पिउ ॥ ७
 जं दुम्मिय तं सब्बु खमेज्जहि' ॥ ८

॥ वत्ता ॥

'हा हा पुत्त' भणन्ती ।
 महियल्ले पडिय रुयन्ती ॥ ९

[४]

णिरु णिच्छेयण तक्खणे मुच्छिय ॥ १
 हरियन्दणेण सित्त रोवन्तिहिं ॥ २
 दुक्खु दुक्खु पुणु जाय स-चेयण ॥ ३
 सप्पि व दण्डाहय विहाणी ॥ ४
 पुणु वि सदुक्खउ मेल्लियं धाहियं ॥ ५
 दसरह-वंस-दीव जग-सुन्दर ॥ ६
 पइं विणु को अत्थाणे वईसइ ॥ ७
 पइं विणु को झिन्दुएणं रमेसइ ॥ ८
 पइं विणु को तम्बोलु समाणइ ॥ ९
 पइं विणु को मइं साहारेसइ ॥ १०

॥ वत्ता ॥

अन्तेउरु मुह-वुण्णंउ ।
 धाह मुएवि परुण्णंउ ॥ ११

3. 1 In the present Kadavaka the ending °हि of the forms is mostly found as °हिं in P s. 2 P पुव्वंतु, S थुव्वन्ति. 3 P SA विहाणउं. 4 A वूमिय. 5 This line is missing in A.

4. 1 A omits the first line. 2 A कज्जिएहिं. 3 S सदुक्खु. 4 P उम्मेच्छिय, S उम्मिच्छिय. 5 P धाहय. 6 P S वंसे. 7 S जगे. 8 A सुएसइ. 9 P S हो म्हुएहिं. 10 P SA समाणइं. 11 P कूवारउ. 12 P सुहवणणउ, S सुहवणणउ, A सुहवणणउं. 13 P परुण्णउं, A हव णणउं.

[३] १ हस्तिभिः. २ अपराजिता.

[४] १ म्लानमुक्कः.

[५]

ता एत्थन्तरेँ असुर-विमहेँ
 "धीरियं होहि माएँ किं रोवँहि
 जिह रवि-किरणेँहिँ ससि ण पहावइ
 तेँ कजेँ वण-वासैँ वसेवउ
 दाहिण-‘देसेँ करेविणु थत्ति’
 एम भणेपिणु चलिउ तुरन्तउ
 धवल-कसण-णीलुप्पल-सामेँहिँ
 सोह ण देइ ण चित्तहोँ भावइ
 णं किय-उद्ध-हत्थु धाहावइ
 भरह-गरिन्दहोँ णं जाणावइ
 पुणु पाआर-भुयउ पसरेपिणु

धीरियं णिय-जणेरि वलहहेँ ॥ १
 लुहि लोयण अप्पाणु म सोयहि ॥ २
 तिह मइँ हान्तेँ भरहु णं भावँइ ॥ ३
 तायहोँ तणउ सच्चु पालेवउ ॥ ४
 तुमहँ पासेँ एइ सोमिन्ति ॥ ५
 सयलु वि परियणु आउच्छन्तउ ॥ ६
 धरु मुच्चन्तउ लक्खण-रामेँहिँ ॥ ७
 णँहु णिच्चन्दाइच्चउ णावइ ॥ ८
 वलहोँ कलत्त-हाणि णं दावइ ॥ ९
 ‘हरि-वलँ जन्त णिवारहि णरवइ’ ॥ १०
 णाँइँ णिवारइ आलिङ्गेपिणु ॥ ११

॥ घत्ता ॥

चाँव-सिलीमुह-हत्थ
 तहोँ मन्दिरहोँ रुयन्तहोँ

वे वि समुण्णय-माणा ।
 णाँइँ विणिग्गय पाणा ॥ १२

[६]

तो एत्थन्तरेँ णयणाणन्देँ
 सीयाएविहेँ वयणु णिहालिउ
 णिय-मन्दिरहोँ विणिग्गय जाणइ
 णं छन्दहोँ णिग्गय गायत्ती
 णाँइँ कित्ति सण्णुरिस-विमुक्की
 सुललिय-चलण-जुयल-मल्हन्ती
 णेउर-हार-डोर-गुप्पन्ती
 हेड्डा-मुह कर्म-कमलु णियच्छेँवि

संचलन्तेँ राहवचन्देँ ॥ १
 णं चित्तेण चित्तु संचालिउ ॥ २
 णं हिमवन्तहोँ गङ्ग महा-णइ ॥ ३
 णं सइहोँ णीसरिय विहत्ती ॥ ४
 णाँइँ रम्भ णिय-थाणहोँ चुक्की ॥ ५
 णं गय-घड भड-थड विहडन्ती ॥ ६
 बहु-तम्बोलँ-पङ्केँ खुप्पन्ती ॥ ७
 अवराइय-सुमिन्ति आउच्छेँवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिग्गय सीयाएवि
 रामहोँ दुक्खुप्पत्ति

सियँ हरन्ति णिय-भवणहोँ ।
 असणि णाँइँ दहवयणहोँ ॥ ९

5. 1 A सेरी. 2 P S A रोवहिँ. 3 A पावइ. 4 P 'देस, S A 'देसि. 5 P S थत्ति, A थत्ते. 6 P S A पासि. 7 P S सोमिन्तेँ, A सौमिसे. 8 S वज्जंत.

6. 1 P सुपुरिसे, S सुपुरिसहो. 2 S मुक्की. 3 P S तंबोलु. 4 S A मुह°. 5 A सिरि.

[५] १ स्वस्था भव. २ न शोभते. ३ नमः. ४ धनुष स(श)रा: इत्सौ.

[६] १ गावित्री. २ विभक्तिः.

राय-वारुं वलु बोलिउं जावैहिं
 उड्डिउ धगधगन्तु जस-लुद्धउ
 णाई मइन्दु महा-घण-गज्जिऐ
 'कें' धरणिन्द-फणा-मणि तोडिउ
 कें' पलयाणलें अप्पउ ढोइउ
 कें' रयणायरु सोसेवि' सक्किउं
 कें' महि-मण्डलु वाहहिं टालिउ
 कें जिउ कालुं कियन्तु महाहवें

॥

अहवइ किं बहुएण
 रामहों णीसावणु

तो फुरन्त-रत्तन्त-लोयणो
 दुण्णिवारु दुवार-वारणो
 भणइ रामु तइलोक-सुन्दरो
 जसु पडन्ति गिरि सिंह-णाएणं
 कवणु चोज्जु जं दिवि' दिवायरे
 सोक्खु मोक्खें दय-धम्मु जिणवरे
 धणै रिय्धि सोहग्गु वम्महे
 पउरुसं च पइ कुविऐ लक्खणे'

'रज्जे किज्जइ काइं
 सोलह वरिसइं जामे

[७]

लक्खणु मणें आरोसिउ तावैहिं ॥ १
 णाई घिएण सिन्नु धूमद्धउ ॥ २
 तिह सोमिच्चि कुविउं गमैं संजिऐ ॥ ३
 कें सुंर-कुलिस-दण्डु भुंऐ मोडिउ ॥ ४
 कें आरुद्धउ सँणि अवलोइउ ॥ ५
 कें आइच्चहों तेउ कलङ्किउ ॥ ६
 कें तइलोक-चक्कु संचालिउ ॥ ७
 को पहु अण्णु जियन्तैए राहवें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भरहु धरेप्पिणु अज्जु ।
 देमि सहत्थें रज्जु' ॥ ९

[८]

कलि-कियन्त-कालो व भीसणो ॥ १
 सुंउ चवन्तु जं एम लक्खणो ॥ २
 'पइं विरुद्धें किं को वि दुद्धरो ॥ ३
 कवणु गहणु तो भरह-राएणं ॥ ४
 अमिउ चन्दें जल-णिवहु सायरे ॥ ५
 विसु भुयङ्गें वर लील गयवरे ॥ ६
 गइ मरालें जय-लच्छि महुमहे ॥ ७
 भणैवि एम करे धरिउं तक्खणे ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तायहों सच्च-विणासें ।
 वे' वि वसहुं वण-वासें' ॥ ९

7. 1 P रायवाय, S रायवार. 2 P वोळिउ. 3 P S कुइउ. 4 A गसु. 5 P S किं. 6 S A किं. 7 P भुवि मोडिउ, S उप्पाडिउ. 8 P S आरुद्धउ मणे. 9 P S सोसिचि, A सासेवि. 10 P घळिउ. 11 P °सक्कु. 12 P S काल°. 13 S जियंतें.

8. 1 A दुण्णिवार. 2 P विरुद्धें. 3 P °णाइणा, S °णायणा. 4 P S रावणा. 5 P दिवि corrected to दित्ति, A missing. 6 P घणये, S A घणय. 7 P S पउरुसु कंपइ. 8 P धरिउउ. 9 P S सच्चु. 10 P marginally जिणवर (२४) वरिसइ जाम । वारह वा. 11 A वे वि. 12 A भमहं. 13 P वसहु, S भमहु, A ताव.

[७] १ राज्ञा (?) प्रतिज्ञा-वचनानि (Reading राय-वाय). २ रामचन्द्रे. ३ समस्तम्.

[८] १ श्रुतम्.

[९]

एहं बोळ णिम्माइय जावेंहिं
जाय सञ्ज आरत्त पदीसियं
सूर-मंस-रुहिरालि-चञ्चिय
गलिय सञ्ज पुणु रयणि पराइय
कहि मि दिव दीवर्य-सय बोहिय
तित्थु कालें णिरु णिच्चं दुग्गमं
वासुएव-वलएव महवल
रण-भर-णिवाहण णिवाहण
विगयपओलि पवोलेंवि खाइय
जं पायार-वार-विप्फुरियंउ
गङ्ग-तरङ्गहं रङ्ग-समुज्जलु

दुकु भाणु अत्थवणहों तावेंहिं ॥ १
णं गय-घड सिन्दूर-विहूसिय ॥ २
णिसियरि व आणन्दु पणञ्चिय ॥ ३
जगु गिलेइ णं सुसु महाइय ॥ ४
फणि-मणि व पजलन्त सु-सोहिय ॥ ५
णीसरन्ति रयणिहें चन्दुग्गमं ॥ ६
साहम्मिय साहम्मिय-वच्छल ॥ ७
णिग्गय णीसाहण णीसाहण ॥ ८
सिद्धकूडु जिण-भवणु पराइय ॥ ९
पोत्थासित्थ-गन्थं-वित्थरियंउ ॥ १०
हिमंइरि-कुन्द-चन्द-जस-णिम्मलु ॥ ११

॥ घत्ता ॥

तहों भवणहों पासेहिं
णं संसार-भएण

विविह महा-दुम दिट्ठा ।
जिणवर-संरणे पइट्ठा ॥ १२

[१०]

तं णियेवि भुवणु भुवणेसरहों
जय गय-भर्यराय-रोस-विलर्यं
जय खम-दम-तव-वय-णियम-करण
जय काम-कोहं-अरि-दप्प-दलण
जय जय तव-सूर तिलोय-हिय

पुणु किउ पणिवाउ जिणेसरहों ॥ १
जय मयण-महण तिहुवण-तिलय ॥ २
जय कलि-मल-कोह-कसाय-हरणं ॥ ३
जय-जाइ-जरा-मरणत्ति-हरण ॥ ४
जय मणं-विचित्त-अरुणें सहिय ॥ ५

9. 1 P S एम. 2 P S पदरिसिय. 3 P S A सुत्त. 4 P S दीवा°. 5 A रयणी. 6 P S णिग्गय पउलि पवोलिबि खाइय, A विगय पओलि अखाइय. 7 A °विप्फारिउ. 8 P पोत्थासियु, S पोत्थसियु. 9 P S गन्थ°. 10 A वित्थरिउ. 11 A हिमयरविदकुंद°. 12 A °सरणु.

10. 1 P S पणवाउ. 2 S जय, A इय°. 3 S गय. 4 A गयमयणलिलया. 5 Onwards from this all the hemistichs end in a long vowel in s. 6 S समजम°. 7 A °कर. 8 In A line 3 b = 4 a and 4 b = 3 b. 9 A °दम. 10 A °मोह°. 11 S °दप्पदमण, A °दमणदम. 12 A °मरणतकरा. 13 P illegible, S मणे. 14 S °अरुणहिं.

[९] १ गरिष्ठा. २ निखं दुग्गमे. ३ साखामितौ विभिन्न-जननी-जातौ. ४ वाहन-रहितौ. ५ साधनं मण्डनं प्रसाधनं तेन रहितौ. ६ सिंहद्वार-प्रतोल्यां निर्गतौ (Reading णिग्गय). ७ तत्र स्वाति-काऽपि लक्षिता.

[१०] १ मनःपर्यायः चित्रो अरुणः.

जय धम्म-महारह-वीढे ठिय
 जय संजम-गिरि-सिहरुगमिय
 जय सत्त-महाभय-हय-दमण
 जय दुक्किय-कम्म-कुमुय-डहण
 ५ जय इन्दिय-दुहम-दणु-दलण
 जय केवल-किरणुज्जोय-कर
 जय जय भुवणेक्क-चक्क-भमिय

जय सिद्धि-वरङ्गण-रण-पिय ॥ ६
 जय इन्द-गरिन्द-चन्द-गमिय ॥ ७
 जय जिण-रवि णाणम्बर-गमण ॥ ८
 जय चउ-गइ-रयणि-तिमिर-महँण ॥ ९
 जय जक्ख-महोरग-थुय-चलण ॥ १०
 जय-भविय-रँविन्दाणन्दयर ॥ ११
 जय-मोक्ख-महीहरँ अत्थमिय ॥ १२

॥ घत्ता ॥

१० भावें तिहि मि जणोहिँ
 पर्यहिण देवि तिवार

वन्दणं करेवि जिणेसहों ।
 पुंणु चलियइँ वण-वासहों ॥ १३

[११]

रयणिहें मज्जेँ पयट्टइ राहँवु
 कुद्धइँ विद्धइँ पुलय-विसट्टइँ
 'वलु वलु' एकमेक्क कोकन्तइँ
 १५ सर हुक्कार-सार मेळन्तइँ
 खणें ओवडियइँ अहर डसन्तइँ
 खणें वहु वालालुञ्चि करन्तइँ
 तं पेक्खेप्पिणु सुरय-महाहउ
 पुणु वि हसन्तइँ केलि^{१५} करन्तइँ

ताम णियच्छिउ परमु महाहँवु ॥ १
 मिहुणइँ वलइँ जेम अब्भिट्टइँ ॥ २
 'मरु मरु पहरु पहरु' जम्पन्तइँ ॥ ३
 गरुअ-पहारह उरु उडुन्तइँ ॥ ४
 खणें किलिविण्डि हिण्डिँ दैरिसन्तइँ ॥ ५
 खणें णिप्फन्दइँ सेउ फुंसन्तइँ ॥ ६
 सीयहें वयणु पजोर्यइँ राहउ ॥ ७
 चलियइँ हँट्ट-मग्गु जोयन्तइँ ॥ ८

२०

॥ घत्ता ॥

जे^{१६} वि रँमन्ता आसि
 णावइ सुरयासत्त

लक्खण-रामहुँ सङ्केवि ।
 आवण थिय मुँहु ढङ्केवि^{१६} ॥ ९

15 Sixth line and the first half of the seventh line are omitted in A 16 A °हरण. 17 P S वंदणहत्ति. 18 P S पर्याहिण. 19 A तिवारउ. 20 omitted in A.

11 1 P A रयणिहिँ. 2 S राहउ, A राहिउ. 3 S A °महाहउ. 4 A कुद्धविउद्धइँ. 5 A °हार. 6 A उरुडुन्तइँ. 7 P हडि, इ added marginally. 8 P S चालाकं पि. 9 P S पुसंतइँ. 10 P पेक्खेप्पिणु, S पिक्खेप्पिणु. 11 A पजोर्यउ. 12 P लेवि. 13 P मि. 14 A विसयासत्त. 15 P S मुह, A मुहँ. 16 A संपेवि.

२ अश्व. ३ कमल.

[११] १ काण्डाः; कामोत्पादक-शब्दाः. २ निपतितानि. ३ शरीरखुदम्. ४ आपणः इहमार्गः. ५ बोडपि रत्युत्पादकार्थं, अत्र हाव-भावादिभिः.

[१२]

उज्ज्वलहो दाहिणं-दिसएँ विणिगय
ण सहइ पुरि वल-लक्खण-मुक्की
पुणु थोवन्तरें वित्थय-गामहो
उट्टिय 'विहय वमालु करन्ता
अङ्ग-कोसु संपाइय जावेंहि
णिसि-णिसियरिएँ आसि जं गिलियउं
रेहइ सूर-विम्बु उगन्ताउ
पच्छएँ साहणु ताम पधाइउ

णाइँ गिरक्कुस मत्त महा-गय ॥ १
मुक्क कु-णारिं व पेसण-चुक्की ॥ २
तरुवरं णमिय सुभिच्चं व रामहो ॥ ३
णं वन्दिण मङ्गलइँ पढन्ता ॥ ४
विमलु विहाणु चउदिसु तावेंहि ॥ ५
णाइँ पडीवउ जउ उगिलियउ ॥ ६
णावइ सुकइ-कवु पव-वन्तउ ॥ ७
लहु हँलहेइहें पासु पराइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सीय-सलक्खणु रामु पणमिउ णरवर-विन्देंहि ।
णं वन्दिउ 'अहिसेएँ' जिणु वत्तीसहिँ इन्देंहि ॥ ९

[१३]

हेसन्त-तुरङ्गम-वाहणेण
णं दिस-गउ लीलएँ पयइँ देन्तु
अणु वि थोवन्तरु जाइ जाम
'परिहच्छं-मच्छ-पुच्छुच्छलन्ति
कारणड-डिम्भ-डुंभिभयं-सरोह
हंसावलि-पक्ख-समुल्लहसन्ति
सोहइँ बहु-वणगय-जूह-सहिय
उच्छलइ वलइ पडिखलइ धाइ

परियरिउ रामु णिय-साहणेण ॥ १
तं देसु पराइउ 'पारियत्तुं ॥ २
गम्भीर महाणइ दिट्ठ ताम ॥ ३
फेणावलि-तोय-तुसार देन्ति ॥ ४
वर-कमल-करम्बिय-जलपओह ॥ ५
कल्लोल-वोल-आवत्त दिन्ति ॥ ६
'डिण्डीर-पिण्ड दरिसन्ति अहिय ॥ ७
मल्लहन्ति महागय-लीलणाइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ओहर-भयर-रउइ सा सरि णयण-कडक्खिय ।
दुत्तर-दुप्पइसार णं दुगइ दुप्पेक्खिय ॥ ९

12. 1 P S वक्खणदिसिए, 2 P सुक्कु, 3 P S कुमारि, 4 P तरुवर, 5 P S सुभिच्चु, 6 P मवालु corrected as रवालु, 7 A करंति, 8 A पढंति, 9 A गलियउ, 10 P S उयवं-तउ, 11 P S सुकयकवु पवहंतउ, 12 P हलहे corrected as हलपवहे, 13 P S अहिपहिँ.

13. 1 S A हिंसंत°, 2 P S पारिअंतु, 3 S थोवंतरि, 4 A परिहत्थ°, 5 A 'डुंभियस-ओह, 6 P A omitted, 7 P A जूहसमूहसहिय.

[१२] १ विदग्धा स्त्री (Reading कुमारि), २ पक्षी (पक्षी), ३ अभिषेकेन (?).

[१३] १ पर्वते, २ वेगवन्तः, ३ विदोलिताः, ४ लहरीसंधाताः, ५ फेन, ६ अधिकाः.

[१४]

सरि गम्भीर गियच्छिय जावैहिं
 'तुम्हेहिं एवैहिं आणवडिच्छा
 उज्झ मुएप्पिणु दाहिणएसहो
 ५ एम भणेप्पिणु समरं-समत्था
 पइसरन्ति तहिं सलिले भयङ्करे
 'सिय अरविन्दहो उप्परि णावइ
 णं उज्जोउ करावइ गयणहो
 लहु जलवाहिणि-पुलिणु पवणणइ

॥

वलिय पडीवा जोह
 कु-मुणि कु-बुद्धि कु-सील

सयलु वि सेणु गियत्तिउ तावैहिं ॥ १
 भरहहो भिच्च होहं हियइच्छा ॥ २
 अम्हेहिं जाएवउ वण-वासहो ॥ ३
 सायर-वज्जावत्त-विहत्था ॥ ४
 रामहो चडिय सीय वामए करे ॥ ५
 णावइ गियय-कित्ति दरिसावइ ॥ ६
 णाई पदरिसइ धेण दहवयणहो ॥ ७
 णं भवियइ णरयहो उत्तिण्णइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जे पहु-पच्छले लगा ।
 णं पव्वज्जहो भग्गा ॥ ९

[१५]

वलु 'वोलावेवि राय गियत्ता
 १५ वलिय के वि णीसासु मुअन्ता
 के वि महन्ते दुक्खे लइया
 के वि तिमुण्ड-धारि वम्भारिय
 के वि पवण-धुय-धवल-विसालए
 थिय पव्वज्ज लएप्पिणु णरवर
 २० विजय-वियह-विओय-विमद्दण
 पुज्जम-पुण्डरीय-पुरिसुत्तम

णावइ सिद्धि कु-सिद्ध ण पत्ता ॥ १
 खणे खणे 'हा हा राम' भणन्ता ॥ २
 लोउ करेवि के वि पवइया ॥ ३
 के वि तिकाल-जोई वय-धारिय ॥ ४
 गम्पिणु तहिं हरिसेण-जिणालए ॥ ५
 सँढ-कढोर-वर-मेरु-महीहर ॥ ६
 धीर-सुवीर-सच्चे-पियवद्धण ॥ ७
 विउल-विसाल-रणुम्मिय-उत्तम ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय एकेक-पहाण जिणवर-चलण णमसेवि ।
 संजम-णियम-गुणेहिं अप्पउ थिय से इ भू सेवि ॥ ९

*

14. 1 S णरवइ. 2 S होहु, A होह भिच्च. 3 S समरि. 4 A उप्परे. 5 P S 'पुल्लु.
 6 P S कुसील कुबुद्धि. 7 P पव्वज्जहि, S पव्वज्जहिं.

15. 1 P S वोलाएवि, A वोलाविवि. 2 P को वि corrected as के वि, S को वि.
 3 P S वम्भारिय 4 P S 'जोमि. 5 A लएप्पिणु. 6 S A 'धर'. 7 A 'सँढ'. 8 A पुंगव'.
 9 P S 'पुरुसोत्तम. 10 A सारणुम्मिय. 11 P S सयं.

[१४] १ लक्ष्मीः. २ सीता. ३ तटम्.

[१५] १ व्यक्तः (?). २ व्याघ्रटिताः. ३ शठ-कठोराद्युत्तमपर्यन्ताः सर्वेऽपि राजानो भमी, विजयनामेदम् (?).

[२४. चउवीसमो संधि]

गएँ षण-वासहों रामें उज्झ ण चित्तहों भावइ ।

थिय णीसासं मुअन्ति महि उण्हालएँ गावइ ॥

[१]

सयलु वि जणु उम्माहिज्जन्तउ
उब्वेळ्ळिज्जइ गिज्जइ लक्खणु
'सुइ-सिद्धन्त-पुराणेंहिँ लक्खणु
अणुणु वि जं जं किं पि स-लक्खणु
का वि णारि सारङ्गि व वुण्णी
का वि णारि जं लेइ पसाहणु
का वि णारि जं परिहइ कङ्कणु
'का वि णारि जं जोयइ दप्पणु
तो एत्थन्तरेँ पाणिय-हारिउ
'सो पल्लङ्कु तं जें उँवहाणउ

खणु वि ण थक्कइ णामुं लयन्तउ ॥ १ 5

मुरव-वज्जेँ वाइज्जइ लक्खणु ॥ २

ओङ्कारेण पढिज्जइ लक्खणु ॥ ३

लक्खण-णामें वुच्चइ लक्खणु ॥ ४

वड्डी धाह मुएवि परुण्णी ॥ ५

तं उल्हावइ जाणइ लक्खणु ॥ ६ 10

धरइ सु-गौढउ जाणइ लक्खणु ॥ ७

अणुणु ण पेक्खइ मेल्लेँवि लक्खणु ॥ ८

पुरेँ वोळ्ळन्ति परोप्परु णारिउ ॥ ९

सेज्ज वि स जेँ तं जेँ पच्छाणउ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

15.

तं धरु रयणइँ ताइँ

'णवरं ण दीसइ माएँ

तं चित्तयम्मु स-लक्खणु ।

रामु ससीय-सलक्खणु' ॥ ११

[२]

ताम पडु पडह पडिपहय पहु-पङ्गणे
रसिय सय सङ्ग जायं महा-गोन्दलं
ताल-कंसाल-कोलाहलं काहलं
डमरु-तिरिडिक्किया-झल्लरी-रउरवं
घण्ट-जयघण्ट-संघट्ट-टङ्कारवं
तेण सहेण रोमञ्च-कञ्जुआ
सुहड-संघाय सवा य थिय पङ्गणे
पणइ-फम्फाव-णड-छत्त-कइ-वन्दणं

णाइँ सुर-दुन्दुही दिण्ण गयणङ्गणे ॥ १

टिविल-टण्टन्त-धुम्मन्त-वरमन्दलं ॥ २ 20

गीय संगीय गिज्जन्त-वर-मङ्गलं ॥ ३

भम्भ-भम्भीस-गम्भीर-भेरी-रवं ॥ ४

घोल-उल्लोल-हलवोल-मुहलारवं ॥ ५

गोन्दलुदाम-वहुँ-वहल-अच्चन्भुआ ॥ ६

मेरु-सिहरेसु णं अमर जिण-जम्मणे ॥ ७ 25

'णन्द जय भइ जय जयहिँ वर-सदणं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खण-रामहुँ वप्पु

जिण-अहिसेयहों कज्जेँ

णिय-भिच्चेंहिँ परियरियउ ।

णं सुरवइ णीसरियउ ॥ ९

1. 1 A णीसासु. 2 P S णाउ. 3 S परइ. 4 P S सगावउ. 5 P पच्छाणउ. 6 A omits lines 8-11 a. 7 A णवरि. 8 P S ससीयउ लक्खणु.

2. 1 A °कञ्जुआ. 2 A omits. 3 P S भणइ. 4 A णंवि°. 5 A जयसहेणं. 6 P °रामहु, 8 रामहो, A °रामहं. 7 P परिगरियउं.

[१] १ आचारात्तावि. २ गन्दुकम् (?) ३ चित्रकर्म सद-लक्षणम्. ४ साम्प्रतम्.

[३]

जं णीसरिउ राउ आणन्दे
 'हउ मि देव पई सहुँ पव्वज्जमि
 रज्जु असारु वारु संसारहो
 १ रज्जु भयङ्करु इह-पर-लोयहो
 रज्जे होउं होउ महु सरियउ
 रज्जु अकज्जु कहिउ मुणि-छेर्यहिँ
 दोसवन्तु मयलञ्छण-विम्बु व
 तो वि जीउ पुणु रज्जहो कङ्कइ

वुत्तु णवेप्पिणु भरह-णरिन्दे ॥ १
 दुग्गइ-गामिउ रज्जु ण भुज्जमि ॥ २
 रज्जु खणेण णेइ तम्वारहो ॥ ३
 रज्जे गम्मइ णिच्च-णिगोयहो ॥ ४
 सुन्दरु तो किं पई परिहरियउ ॥ ५
 दुँदुँ-कलत्तु व भुत्तु अणेयहिँ ॥ ६
 वहु-दुक्खाउरु दुँगा-कुडुम्बु व ॥ ७
 अणुदिणु आउ गलन्तु ण लक्खइ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

१०

जिह महुविन्दुहे कज्जे करहु ण पेक्खइ कक्करु ।
 तिह जिउ विसयासत्तु रज्जे गउ संय-सक्करु ॥ ९

[४]

भरहु चवन्तु णिवारिउ राए
 १० अज्ज वि रज्जु करहि सुहु भुज्जहि
 अज्ज वि तुहुँ तम्बोलु समाणहि
 अज्जु वि अङ्गु स-इच्छएँ मण्डहि
 अज्ज वि जोगगउ सव्वाहरणहो
 जिण-पव्वज्ज होइ अइ-दुसहिय
 २० केँ जिय चउ-कसाय-रिउ दुज्जय
 केँ किउ पञ्चहुँ विसयहुँ णिग्गहु
 को दुँम-मूलेँ वसिउ वरिसालएँ
 केँ उण्हालएँ किउ अत्तावणु

'अज्ज वि तुज्जु काई तव-वाएँ ॥ १
 अज्ज वि विसय-सुक्खु अणुहुज्जहि ॥ २
 अज्ज वि वर-उज्जाणइँ माणहि ॥ ३
 अज्ज वि वर-विलयउ अवरुण्डहि ॥ ४
 अज्ज वि कवणु कालु तव-चरणहो ॥ ५
 केँ वावीस परीसह विसहिय ॥ ६
 केँ आयामिय पञ्च महव्वय ॥ ७
 केँ परिसेसिउ सयलु परिग्गहु ॥ ८
 को एकङ्गेँ ^{१०}थिउ सीयालएँ ॥ ९
 एँउ तव-चरणु होइ भीसावणु ॥ १०

॥ वत्ता ॥

२५ भरह म वट्ठिउँ वोळि
 भुज्जहि विसय-सुहाइँ

तुहुँ सो अज्ज वि बालु ।
 को पव्वज्जे कालु ॥ ११

3. 1 PS जा. 2 S गमइ, A गम्मइ. 3 S णिगोयहो. 4 PS जइ सुँवरु. 5 PS omit. 6 P दुहु. 7 A दुक्खावरु. 8 A दुहु. 9 P कंखए. 10 P कक्खए.

4. 1 PS अज्जु. 2 PS सवाणहि, A समाणहि. 3 PSA माणहि. 4 PS पवर विलय. 5 PS लोउ. 6 PA किं, S के. 7 PSA किं. 8 SA किं. 9 P केँ, S किं. 10 PS एकंति विवउ. 11 P उण्हालेँ कियउ अत्तावणु, S किअ आत्तावणु. 12 P वट्ठिउँ.

[३] १ पूर्वता पूर्वताम्. २ अवसाने अकार्यकरम् (?). ३ दुश्चारिण्या इव. ४ दरिद्री. ५ शत-सङ्गम्.

[५]

तं णिसुणेवि भरहु आरुड्डुउ
 'विहयउ ताव वयणु पइँ वुत्तउं
 किं वालहोँ पवज्ज म होओ'
 किं वालहोँ सम्मत्तु म होओ
 किं वालहोँ जंर-मरणु ण दुक्कइ
 तं णिसुणेवि भरहु णिभच्छिउ
 एवहिँ सयलु वि रज्जु करेवउ
 मत्त-गइन्दु व चित्तं दुड्डुउ ॥ १
 किं वालहोँ तव-चरणु ण जुत्तउं ॥ २
 किं वालहोँ दय-धम्मु ण रुच्चइ ॥ ३
 किं वालहोँ दूसिउ पर-लोओ ॥ ४
 किं वालहोँ णउ इड्डु-विओओ ॥ ५
 किं वालहोँ जंमु दिवसु वि चुक्कइ' ॥ ६
 'तो किं पहिलउ पट्टु पडिच्छिउ ॥ ७
 पच्छलें पुणु तव-चरणु चरेवउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एम भणेप्पिणु राउ 'सच्चु' सम्पेवि भज्जेहँ ।
 भरहहोँ वन्धेवि पट्टु दसरहु गउ पवज्जेहँ ॥ ९

[६]

सुरवर-वन्दिऐ धवल-विसालऐ
 दसरहु थिउ पवज्ज लएप्पिणु
 तेण समाणु सणेहँ लइयउ
 कण्ठा-कडर्य-मउड अवयारेवि
 थिय णीसङ्ग णाग णं विसहर
 णं केसरि गेय-मासाहारिय
 'केण वि कहिउ ताम भरहेसहोँ
 तं णिसुणेवि वयणु धुय-वाहउ
 गम्पिणु सिद्धकूडेँ चइतालऐ ॥ १
 पञ्च मुट्ठि सिरेँ लोउ करेप्पिणु ॥ २
 चालीसोत्तरु सउ पवइयउ ॥ ३
 दुद्धर पञ्च महव्वय धारेवि ॥ ४
 अहवइ समय-वालं णं विसहर ॥ ५
 णं परदार-गमण परदारिय ॥ ६
 'गय सोमिस्सि-राम वण-वासहोँ' ॥ ७
 पडिउ महीहरो व वज्जाहउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जं मुच्छाविउ राउ सयलु वि जणु मुह-कायरु ।
 पलयार्णल-संतत्तु रसेँवि लग्गु णं सार्यरु ॥ ९

5. 1 P S वुरुड्डुउ. 2 P S वुत्तउं. 3 P S जुत्तउं. 4 P होउं, A होउ and similarly
 उ at other three places. 5 P जम°. 6 P S जम. 7 P A चुक्कइ. 8 S सयलु. 9 P S
 भज्जेहो. 10 P S पवज्जेहो.

6. 1 P S A सिरे. 2 A कडा°. 3 P S ओयारेवि, A अवयारिवि. 4 A महावय. 5 S
 वइस. 6 A को पविगंवि कहिउ भरहेसहो. 7 P S पलयार्णल°. 8 A रसहं. 9 A सवह.

[५] १ पूर्वोक्तं वरं दत्त्वा.

[६] १ सर्प इव. २ विषहराः सर्पाः; अन्यत्र वृषो धर्मः, तं धरन्तीति विषहराः. ३ समुत्पत्ति-
 वर्षाकालः, आगमश्च. ४ मेघा इव. ५ हस्तिमांसम्, मासोपवासाश्च यतयः. ६ परस्त्री=मुक्ति-गमिनः;
 परदार-गमनं च.

स० प० न० ४

१४२४

[७]

चन्दणेण पद्मालिज्जन्तउ
 दुक्खु दुक्खु आसासिउ राणउ
 अविरल-अंसु-जलोह्लिय-णयणउ
 'णिवडिय अज्जु असणि आथासहो
 अज्जु जाउ हउं सूडिय-पक्खउ
 अज्जु णयरु सिय-सम्पय-मेल्लिउ
 एमं पलाउ करेवि सहगंए
 केस-विसण्डुल दिट्ठ रुअन्ती

चमरुक्खेवेहिं विज्जिज्जन्तउ ॥ १
 जरढं-मियङ्कु व थिउ विहाणउ ॥ २
 एम पजम्पिउ गग्गर-वयणउ ॥ ३
 अज्जु अमङ्गलु दसरह-वंसहो ॥ ४
 दुह-भायणु पर-मुहं उवेक्खउ ॥ ५
 अज्जु रज्जु पर-चक्के पेह्लिउ' ॥ ६
 राहव-जणणिहं गउ ओलगंए ॥ ७
 अंसु-पवाह धाह मेल्लन्ती ॥ ८

॥

॥ घत्ता ॥

धीरिय भरह-णरिन्दे 'होउ माए महु रज्जे ।
 आणमि लक्खण-रामे रोवहि काइ अकज्जे' ॥ ९

[८]

एम भणेवि भरहु संचल्लिउ
 ॥ दिण्णु सह्हु जय-पडहु पवज्जिउ
 पहु-मग्गेण णराहिउ लग्गउ
 छट्ठए दिवसें पराइउ तेत्तहं
 छुडु छुडु सल्लिउ पिएवि णिविट्ठइ
 चलणेहं पडिउ भरहु तग्गय-मणु
 ॥ 'थक्कु देव मं जाहि पवासहो
 हउं सत्तुहंणु भिच्च तउ 'वे वि'

'तुरिउं गवेसहो' हत्थुत्थिल्लिउं ॥ १
 णं चन्दुग्गमे उवहि पगज्जिउ ॥ २
 जीवहो कम्मु जेम अणुलग्गउ ॥ ३
 सीय स-लक्खणु राहउं जेत्तहं ॥ ४
 सरवर-तीरे लयाहरे दिट्ठइ ॥ ५
 णाइं जिणिन्दहो दससय-लोयणु ॥ ६
 होहि तरण्डउ दसरह-वंसहो ॥ ७
 लक्खणु मन्ति सीय महएवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह णक्खत्तेहं चन्दु इन्दु जेम सुर-लोएं ।
 'तिहं तुहुं भुज्जहि रज्जु परिमिउ वन्धव-लोएं' ॥ ९

7. 1 P S °हक्खेविहिं, A °हक्खेवहिं. 2 P A राणउं. 3 A जरहमयंङ्कु. 4 P A विहाणउं.
 5 A °पलोह्लिय'. 6 P A °णयणउं. 7 P S गविग'. 8 P A °वयणउं. 9 P परमुहं, S परमु-
 हह, A परमुह°. 10 A °उपेक्खउ. 11 P एव, S थेउ, A एवं. 12 A सहमग्गए. 13 P S
 °जणणिए. 14 P उलग्गए, A ओलगउ. 15 P S A °रामु.

8. 1 P S तुरिय. 2 S हत्थुत्थिल्लिउ. 3 A राहवउ. 4 P S सत्तुहण. 5 P S वेए वि.
 6 P महएव वि. 7 A णक्खत्तहो. 8 P S °लोए. 9 A तह.

[७] १ वृद्धितपक्षः. २ पूर्यताम्.

[८] १ दत्ताज्ञः. २ द्वौ भ्रातरौ.

[९]

तं वयणु सुणेंवि दसरह-सुएण
 'सच्चउ माया-पिय-परम-दासु
 अवरोप्परु ए आलाव जाम
 लक्खिज्जइ भरहहों तणिय माय
 णं तिलय-विहूसिय वैच्छराइ
 णं भरहहों सम्पय-रिद्धि-विद्धि
 णं भरहहों सुन्दर-सोक्ख-खाणि
 णं भणइ भरहुँ 'तुँहुँ आउ आउँ

अवगूहु भरहु हरिसिय-भुएण ॥ १
 पैइँ मेळेंवि अण्णहों विणउ कासु' ॥ २
 तैहिँ जुवइ-सयहिँ परियरिय ताम ॥ ३
 णं गय-घड भड भञ्जन्ति आय ॥ ४
 स-पओहर अम्बर-सोह णाइँ ॥ ५
 णं रामहों गमणहों तणिय सिद्धि ॥ ६
 णं रामहों इट्ठ-कलत्त-हाणि ॥ ७
 वण-वासहों राहउ जाउ जाउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सु-पय सु-सन्धि सु-णाम
 कह वायरणहों जेम

वयण-विहत्ति-विहूसिय ।
 केकय 'एन्ति पदीसिय' ॥ ९

[१०]

'सहुँ सीयएँ दसरह-णन्दणेहिँ
 पुणु बुच्चइ 'सीर-प्पहरणेण
 सुणुँ माएँ महारउ परम-तच्चु
 णउ तुरएँहिँ णउ रहवरेँहिँ कज्जु
 जं दिणु सच्चु ताएँ ति-वार
 एँउ वयणु भणेप्पिणु सुह-समिद्धु
 आउँच्छेवि पर-वल-मइय-वहु
 गउ भरहु 'णियत्तु सुँ-पुजमाणु

जोकारिय राम-जणइणेहिँ ॥ १
 'किं आणउ भरहु अकारणेण ॥ २
 पालेवउँ तायहों तणउ सच्चु ॥ ३
 णउ सोलह वस्सिइँ करमि रज्जु ॥ ४
 तं मइ मि दिणु तुमहँ 'सय-वार' ॥ ५
 सइँ हत्थेँ भरहहों पडु वज्जु ॥ ६
 वण-वासहों राहउ पुणु पयडु ॥ ७
 जिण-भवण पत्तु भिच्चेहिँ' समाणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

^{११}विहुँ मुणि-धवलहुँ पासेँ
 'दिट्ठएँ राहवचन्देँ.

भरहें लइउ अवगहु ।
 मैहु णिवित्ति हयँ-रज्जहों' ॥ ९

9. 1 s मइं. 2 P तिहि. 3 A भर. 4 A हुं. 5 P A आउं. 6 A इति. 7 P S पदरिसिय.

10. 1 P S A सहु. 2 P corrects as जयकारिय. 3 S सुणि. 4 S पालेवउ. 5 P S राएँ. 6 P S omit. 7 P सयवारवार, A सयवार. 8 A वय. 9 S सुणेप्पिणु, A सुणेविणु. 10 S आउँच्छि. 11 P S A स°. 12 P S भिच्चें. 13 P S विहि. 14 P मुहु. 15 P S इह.

[९] १ आलिङ्गितः. २ वृक्षविशेषः, मण्डनं च. ३ वृक्षपङ्क्तिः. ४ आगच्छन्ती.

[१०] १ रामेण. २ व्याघ्रटितः.

एम च्वेवि उच्चलिउ महाइउ
विणउ करेप्पिणु पासु पंदुक्किउ
हँउँ तुम्हेवहिँ आणवडिच्छउ
१ धीरेंवि एम जणणि दंणु-दमणहों
जाणइ हरि हलहरु विहरन्तइँ
तावस के वि दिट्टु जड-हारिय
के वि तिदण्डि के वि धाडीसर
के वि रुँइ रुँइकुस-हत्था

११ तहिँ पइसन्ती सीय
विहिँ पक्खेहिँ समाण

अण्णु वि थोवन्तरु विहरन्तइँ
१२ जहिँ जणवउ मंय-वत्थ-णियत्थउ
कन्द-मूल-वहु-वणफल-भुञ्जउ
जहिँ जुवइउ छुडुँ जाय विवाहउ
मयकरि-कुंभु करेप्पिणु उक्खलु
मोत्तिय-चाउल-दलणोवइयँउ
२० तं तेहउ वणु भिल्लुँ केरउ

तं मेलेवि घरँवारु
छाइय लक्खण-राम

२५ स-हरि स-भज्जउ रामु धणुद्धरु

[११]

राहव-जणणिहें भवेणु पराइउ ॥ १
'रामु माएँ मइँ धरेंवि ण सक्किउ ॥ २
पेसणयारउ चलण-णियच्छउ' ॥ ३
भरहु णराहिउ गउ णिय-भवणहों ॥ ४
तिण्णि मि तावस-वणु संपत्तइँ ॥ ५
कु-जण कु-गाम जेम जड-हारिय ॥ ६
कुविय णरिन्द जेम धाडीसर ॥ ७
मेट्टु जेम रुँइकुस-हत्था ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खण-राम-विहूसिय ।
पुण्णिम णाँ पदीसिय ॥ ९

[१२]

वणु धाणुक्कहँ पुणु संपत्तइँ ॥ १
वरहिण-पिच्छ-पसाहिय-हत्थउ ॥ २
सिरें वड-माल वद्ध गलें गुञ्जउ ॥ ३
मंयकरि-रय-वल्लयक्किय-वाहउ ॥ ४
लेवि विसाण-मुसलु धवलुज्जलु ॥ ५
चुम्बिय-वयणउ मयणभइयँउ ॥ ६
हरि-वल्लपेविहँ किउ विवरेरउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

लोयहिँ हरिसिय-देहेहिँ ।
चन्द-सूर जिम मेहेहिँ ॥ ८

[१३]

अण्णु वि जाम जाइ थोवन्तरु ॥ १

11. 1 A पासु. 2 P पदुक्कउ. 3 PS एवहिँ तुम्हहँ. 4 A समाणु.

12. 1 PS वरहिणि°. 2 PS मूलवणफल भुंजंतउ, A °भुंजिउ. 3 P गुंजिउ. 4 A वडहु
OR थडु. 5 PS °कुंम. 6 P °दलणोवाइउ, S °दलणोवाइउ, A °दसणोवइँउ. 7 PS मयणु°. 8 A घरु वारु. 9 A जिह.

[११] १ शत्रुदमनस्य रामस्य. २ तीर्थयात्रागामिनः. ३ छत्रप्रहारिणः. ४ द्रो देवता वेषाम्. अङ्कटिका (?).

[१२] १ मृगचर्मावृतः. २ निवृत्तः कावली वा (?). ३ मदोपलक्षित-दृष्टि-वन्त-वल्लयाः.

दिदु 'गोट्टय णाई सु-वेसई
जुञ्जन्तई ढेकार मुअन्तई
कत्थइ वैच्छ-हणई 'णीसङ्गई
कत्थइ जणवउ 'सिसिरे चच्चिउ
कत्थइ मन्था-मन्थिय-मन्थणि
कत्थइ गारि-णियम्बे सुहासिउ
कत्थइ डिम्भउ परियन्दिज्जइ

णं णरवइ-मन्दिरई सु-वेसई ॥ २
णलिणि-मुणाल-सणउ तोडन्तई ॥ ३
पवइयाई व णिरु णीसङ्गई ॥ ४
'पढम-सूई सिरे धरेवि पणच्चिउ ॥ ५
कुणई सहु सुरए व विलासिणि ॥ ६
णावइ कुंडउ कुणइ मुहवासिउ ॥ ७
अम्माहीरउ गेउ झुणिज्जइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं पेक्खेप्पिणुं गोट्टु णारीयण-परियरियउ ।
णावइ तिहि मि जणेहिं वीलत्तणु संभरियउ ॥ ९

[१४]

तं मेल्लेप्पिणु गोट्टु रवणणउ
जं फल-पत्त-रिद्धि-संपणणउ
वणं जिणालयं जहा स-चन्दणं
महा-रणङ्गणं जहा सवासणं
णरिन्द-मन्दिरं जहा स-माउयं
'जिणेस-णहणयं जहा महसंरं
मुणिन्द-जीवियं जहा स-मोक्खियं
मियङ्क-विम्बियं जहा मयासियं

पुणु वणु पइसरन्ति आरणणउ ॥ १
तरल-तमाल-ताल-संछणणउ ॥ २
जिणिन्द-सासणं जहा स-सावयं ॥ ३
मइन्द-कन्धरं जहा स-केसरं ॥ ४
सुसञ्च-णच्चियं जहा स-तालयं ॥ ५
कु-तावसे तवं जहा मयासवं ॥ ६
महा-णहङ्गणं जहा स-सोमयं ॥ ७
विलासिणी-मुहं जहा महसंरं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं वणु मेल्लेवि ताई इन्द-दिसिणं आसण्णई ।
मासेहिं चउरउहेहिं चित्तकूडु वीलीणई ॥ ९

13. 1 A गोट्टइयणाई. 2 A असेसई. 3 P °मुलाणसंड, S °मुणासइंड, A °मुणालसंड.
4 S पवइयाइ व (or पवइया इव), A पवइयाई मुणि व. 5 A omits. 6 A °सुरइ. 7 S
मंघो; A मंथो. 8 A करइ. 9 P S सुरएस्थु. 10 A पेक्खेविणु. 11 A omits this pāda.

14. 1 P S गोट्टु, A omits. 2 P S °संछणणउ, A संछिणणउ. 3 S सवाणयं, A सवाणयं.
4 S समुहयं. 5 P सुसञ्च, S सुसञ्च, A सुसं. 6 A omits this line. 7 P S °णहणकालयं.
8 A ससोमयं. 9 P S °विवियं. 10 A मयासमं. 11 A महासंरं. 12 P इंदविणु, S इंद-
दिसइ, A इंदसिणु.

[१३] १ गोट्ट-भूमिकाः. २ शोभन-द्वार-सम्पनानि. ३ लघु-वत्सकाः. ४ सप्तो रज्जु-बन्धनं
शृङ्गाणि वा; अन्यत्र परिग्रहं. ५ दध्ना चर्चितः, शीतार्तश्च. ६ प्रथम-धान्य-मञ्जरी शीर्षे धृत्वा गोपाव (?)
जनो नर्तिताः. ७ कामभोग-प्रस्तावे. ८ पर्वतकटिन्याम्. ९ शोभितम्. १० नागच्छति. ११ कुटजवृक्षः.

[१४] १ पीपल. २ सिंहा; वृक्षाश्च. ३ मञ्जरी (?) वृक्षाश्च. ४ प्रासाद, वृक्षविशेषश्च.
५ स्वरः शब्दः, सरोवरं च. ६ कर्मभोचनं, वृक्षाश्च. ७ चन्द्रः, बलीविशेष-वृक्षाश्च, बहुलैति केष्वित्.
८ मृगश्रयः, मदाश्रयश्च. ९ रसो मुखलाला, लावण्यं जलं च.

[१५]

तं चित्तउडु मुएवि तुरन्तइ
 दिट्ट महासरं कमल-करम्बिय
 उज्जाणइँ सोहन्ति सु-पत्तइँ
 सालिवर्णइँ पणमन्ति सु-भत्तइँ
 उच्छुवणइँ दल-दीहर-गत्तइँ
 पङ्कय-णव-णीलुप्पल-सोमोहिँ
 सीरकुडुम्बिउ मणुसु पदीसिउ
 हडहड-फुट्टे-सीसु चल-णयणउ

"

सो णासन्तु कुमारें
 आणिउ रामहों पासु

दससरपुर-सीमन्तरु पत्तइँ ॥ १
 सारस-हंसावलि-वर्ग-चुम्बिय ॥ २
 मुणिवरं इव सु-हलाइँ सु-पत्तइँ ॥ ३
 णं सावयइँ जिणेसर-भत्तइँ ॥ ४
 णिय-वइ-लङ्घणइँ व दुकलत्तइँ ॥ ५
 तहिँ पइसन्तेहिँ लक्खण-रामोहिँ ॥ ६
 बुण्णं कुरङ्गु व वैहुत्तासिउ ॥ ७
 पाणक्कन्तु समुम्भड-वयणउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुरवर-करि-कर-चण्डेहिँ ।
 धरेंवि स^१इँ भु व-दण्डेहिँ ॥ ९

*

[२५. पञ्चवीसमो संधि]

धणुहर-हत्थेण
 सीरकुडुम्बिउ

"

दुब्बार-वइरि-आयामें ।
 मम्भीसेँवि पुच्छिउ रामें ॥ १

[१]

दुद्धम-दाणविन्द-महण-महाहवेणं ।

'भो भो किं विसन्थुलो' बुत्तु राहवेणं ॥ १

तं णिसुणेवि पजम्पिउ गहवइ
 सीहोयरहों भिञ्चु हियइच्छिउ
 दसरंर-णाहु जिणेसर-भत्तउ
 जिणवर-पडिर्मङ्गुएँ लेप्पिणु
 ताम कु-मन्तिहिँ कहिउ णरिन्दहों
 तं णिसुणेवि वयणु पहु कुद्धउ

"

'वज्जयण्णु णामेण सु-णरवइ ॥ २
 भरहु व रिसहहों आणवडिच्छिउ ॥ ३
 पियवद्धणहों पासेँ उवसन्तउ ॥ ४
 अण्णहों णवइ णाहु मुएप्पिणु ॥ ५
 "पइँ अवगण्णेवि णवइ जिणिन्दहों" ॥ ६
 णं खय-कालें कियन्तु विरुद्धउ ॥ ७

15. 1 A महासरि. 2 A °वय°. 3 A पसत्त. 4 A omits. 5 PS सहलाइँ सपत्तइँ. 6 S सीलवणइँ. 7 PS °लंघाइँ व, A लंघणइँ व. 8 PS °वण°, A °नव°. 9 PS सीर-कुडुम्बिउ. 10 PS बुण्ण. 11 P °फुट्टे°, S °पुट्टे°. 12 PS सयं.

1. 1 P corrects as °दाणवविन्द°. 2 S हिययंच्छिउ. 3 A आणवडिच्छिउ. 4 A दह-उर°. 5 A °भंगुट्टेहिँ कप्पिणु. 6 P corrects as जिण.

[१५] १ निज-भर्ता, निज-वादी च. २ सदशाभ्याम्. ३ व्याधेन. ४ अतीव-मुक्त-केशो भोजन-वञ्जादि-रहितो वा.

[१] १ कुट्टम्बी.

कोवाणल-पलित्तु सीहोयरु
'जो मइँ मुएँवि अण्णु जयकारइँ

णं गिरि-सिहरें मइन्द-किसोयरु ॥ ८

सो किं ह्य गय रज्जु ण हारइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अह किं बहुएँण
जइ ण वि मारमि

कल्लएँ दिणयरें अत्थन्तएँ ।

तो^१ पइसमि जलणें जलन्तएँ' ॥ १०

[२]

पइज करेवि जाम पहु आहवे अभङ्गो ।

ताम पइडु चोरु णामेण विज्जुलङ्गो ॥ १

पइसन्तेँ रयणिहें मज्झयालें

अलिउल-कज्जल-सण्णिह-तमालें ॥ २

तेँ दिडु णराहिउ विप्फुरन्तु

पलयाणलो व धगधगधगन्तु ॥ ३

रोमञ्च-कञ्चु-कञ्चुइय-देहु

जल-गब्धिणु णं गज्जन्तु मेहु ॥ ४

संणञ्च-वञ्च-परियर-णिवन्धु

रैण-भर-धुर-धोरिउँ दिण्ण-खन्धु ॥ ५

वलिण्ड-मण्ड-णिडुरिय-णयणु

दट्टोडुँ सुट्टु-विप्फुरिय-वयणु ॥ ६

"मारेवउ रिउ" जम्पन्तु एमँ

खय-कालें सणिच्छरु कुँविउ जेम ॥ ७

"तं पेक्खेंवि चिन्तइ भुअ-विसालु

"किं मारमि णं णं सामिसालु ॥ ८

साहम्मिय-वच्छलुँ किं^{१४} करेमि

सवायरेण गम्पिणु कहेमि" ॥ ९

गउ एम भणेंवि कण्टइय-गत्तु

णिविसद्धें दसउँर-णयरु पत्तु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

छुँडु अरुणुगमें

सो विज्जुलङ्गु धावन्तउ ।

दिडु णरिन्देण

जस-पुञ्जु णाँ आवन्तउ ॥ ११

[३]

पुच्छिउ वज्जयणेंणं हसेवि विज्जुलङ्गो ।

"भो भो कहिँ पयडु वहु-वहल-पुलइयङ्गो" ॥ १

7 A णवकारइ. 8 A णव. 9 P corrects as सो वि तो.

2. 1 PS रोमञ्चु. 2 PS गज्जंत. 3 PSA णिवडु. 4 A धोरिय. 5 PS दिण्णु. 6 S खंभु. 7 S वलिमंड. 8 PS दतोडु, A दट्टोडुडु. 9 PS णयणु. 10 S जेम. 11 A कुइउ.

12 Between lines 8 and 9 P S read the following Dohā.

देहें (S दिहं) विज्जुलंणु चित्ताविउ किह परिरक्खि(क्ख)उ मित्तु ।

किं वेसें (S वेसहि) किं कुंडलेहिँ एम भणेवि णियत्तु (P gloss निमत्तः चौरः) ॥

13 A संवच्छलु. 14 A omits. 15 PS दसउर. 16 PS छुडु छुडु.

3. 1 A वज्जयणेंणं.

[२] १ अन्धकार-स्थाने. २ अतीव-प्रगुणीभूतः. ३ संग्राम-सामग्री-समुदाय-युक्तः.

[३] १ अतीव घनम्.

तं णिसुणेपिणु वयण-विसालें
 “कामलेह-गामेण विलासिणि
 ‘तहें आससउ अत्थ-विवज्जिउ
 पुणु विजाहर-करणु करेपिणु
 ४ किर वर-भवणु पईसमि जावेंहिं
 हउं वयणेण तेण ‘आदण्णउ
 साहम्मिउ जिण-सासण-दीवउ
 पुणु वि वियड-पय-छोहेंहिं’ धाइउ

बुद्धइ वज्जयणु कुंसुमालें ॥ २
 तुङ्ग-पओहर जण-मण-भाविणिं ॥ ३
 कारणें मणि-कुण्डलहं विसज्जिउ ॥ ४
 गउ सत्त ‘वि पायार ‘कमेपिणु ॥ ५
 पइज करन्तु राउ सुउ तावेंहिं ॥ ६
 वट्टइ वज्जयणु उच्छण्णउ ॥ ७
 एम भणेपिणु वलिउं पडीवउ ॥ ८
 णिविसें तुम्हहं पासु पराइउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१० किं ओलगायें जाणन्तु वि राय मं मुज्झहि ।
 पाण लएपिणु जेंमं णासहि जेंमं रणें जुज्झहि ॥ १०

[४]

अहवइ काइं एण वहु जम्पिएण राया ।

पर-वल्ले पेक्खु पेक्खु उट्टन्ति धूलि-छाया ॥ १

१० पेक्खु पेक्खु आवन्तउ साहणु गलगजन्तुं महागयं-वाहणु ॥ २
 पेक्खु पेक्खु हिंसन्तिं तुरङ्गम णहयलें विउलें भमंन्ति विहङ्गम ॥ ३
 पेक्खु पेक्खु चिन्धइं धुबन्तइं रह-चक्कइं महियलें खुप्पन्तइं ॥ ४
 ‘पेक्खु पेक्खु वज्जन्तइं तूरइं णाणाविह-णिणाय-गग्भीरइं ॥ ५
 ‘पेक्खु पेक्खु सय सङ्ग रसन्ता णाइं सदुक्खउं सयण रुअन्ता ॥ ६
 १० पेक्खु पेक्खु पचलन्तउ णरवइ गह-णक्खत्तं-मज्जे संणि णावइ” ॥ ७
 दसउर-णाहु णिहालइ जावेंहिं पर-वल्लु सयलु ‘विहावइ तावेंहिं ॥ ८
 “साहु साहु” तो एम भणेपिणु विज्जुलङ्गु णिउ आलिङ्गेपिणु ॥ ९

२ A णिसुणेपिणु. ३ A °हासिणि. ४ P S तहो. ५ S सत्त वि ण. ६ P पइसेवि, S पइसमि.
 ७ P A चलिउ. ८ A पुणु वियडपयच्छोहेहिं. ९ A तुम्हहं. १० A जाणन्तु राय मा. ११ P
 जिम, A जिव. १२ A जिव.

४. १ A एण काइं. २ S मरुगजंत. ३ P S महगयं. ४ P A हिंसंत. ५ P S भवंति.
 ६ P S धूअंतइं. ७ Between the line 4. and 5. P S read the following
 extra line:

पेक्खु पेक्खु कट्टियअसिवत्तइं धाणुक्खियफारक्खियपत्तइं ॥

८ Between the lines 5. and 6. P S read the following extra line:

गलगजन्तधणुहटंकारउ सुहडविमुक्कपोक्ककारउ ॥

९ P सुदुक्खउ. १० P S गहचक्कहहो. ११ A ससि. १२ A विहाविउ.

२ चौरण. ३ लङ्घित्वा. ४ श्रुतम्. ५ आकूलितः.

[४] १ पश्यति.

थिउ रण-भूमि पसाहेंवि जावेंहिँ सयलु वि सेणु पराइउ तावेंहिँ ॥ १०

॥ घता ॥

अमरिस-कुञ्जेंहिँ
वेह्तिँ पट्टणु

अउंपासेंहिँ णरवर-विन्दहिँ ।
जिर्म महियलु अउहिँ समुँइहिँ ॥ ११

[५]

किय गय सारि-सज्ज पक्खरिय वर-तुरङ्गा ।

कवय-णिवद्ध जोह अग्भिद्ध पुलइयङ्गा ॥ १

अग्भिद्ध जुञ्जु विण्ह वि वलाहँ

अवरोप्परु वह्णिय-कलयलाहँ ॥ २

वज्जन्त-तूर-कोलाहलाहँ

उँवसोह-अडाविय-मयगलाहँ ॥ ३

मुक्केकमेक-सर-सच्चलाहँ

भुअ-छिण्ण-भिण्ण-वच्छत्थलाहँ ॥ ४ १०

लोट्टाविय-धय-मालाउलाहँ

पडिपहर-विहुर-विहलङ्गलाहँ ॥ ५

णिङ्कुरिय-णयण-डसियाहराहँ

असि-झस-सूर-सत्ति-पहरण-धराहँ ॥ ६

सुपमाण-आव-कडिय-कराहँ

गुण-दिट्ठि-मुट्ठि-सन्धिय-सराहँ ॥ ७

दुग्घोट्ट-थट्ट-लोट्टावणाहँ

कायर-णर-मण-संतावणाहँ ॥ ८

जयकारहों कारणेँ दुअराहँ

रणु वज्जयण्ण-सीहोयराहँ ॥ ९ १०

॥ घता ॥

विहि मि भिडन्ताहँ
विहि मि णरिन्दहँ

समरङ्गणेँ दुन्दुहि वज्जइ ।

रणेँ एक्कु वि जिणइ ण जिज्जइ ॥ १०

[६]

“हणु हणु [हणु]” भणन्ति हम्मन्ति आहणन्ति । १०

पउ वि ण ओसरन्ति मारन्ति रणेँ मरन्ति ॥ १

उहय-वलेहँ पडियगिम-खन्धइँ

उहय-वलेहँ णञ्चन्ति कवन्धइँ ॥ २

उहय-वलेहँ मुसुमूरिय धयवड

उहय-वलेहँ लोट्टाविय भड-थड ॥ ३

13 A अउपासिउ. 14 B वेडिउ. 15 A जिह. 16 A समुरेहिँ.

5. 1 P S सारिसेज्ज, A सारिसज्ज. 2 S अग्भिद्ध जुञ्ज. 3 P S वेणि. 4 P omits this half. 5 A omits these lines. 6 A °परस°. 7 A °थोट्ट°. 8 A गुण°. 9 Between the lines 8. and 9. P S read the following extra lines:

रणे एहउ दाहणु जाम घोह णगण्णण्णंतु तुहंतदोरु ॥

हणुहणुहणंत पहरंत वीर सत्तट्ट णट्ट भजंत भीर ॥

कियकाहलकलयलु गुलगुलंत अग्भिद्ध सुहउ रणे भुवि हसंत ॥

10 A भिडताहँ. 11 A एक्को वि ण णवइ ण जिज्जइ.

6. 1 Metre requires two moras more. 2 P ममंति. 3 A वीर. 4 P S °वल्ह, A °वल्हिँ. 5 P occasionally reads उभय°.

उहय-बलेहिं हय गय विणिवाइय
उहय-बलेहिं गित्तंसिय खगइ
उहय-बलेहिं 'णीसइ तूरइ
उहय-बलइ गय-दन्तेहिं भिण्णइ
उहय-बलइ रुहिरोल्लिय-गत्तइ
'एम पक्खु वट्टइ संज्ञामहों'

उहय-बलेहिं रुहिरोहं पधाइय ॥ ४
उहय-बलेहिं डेवन्ति विहङ्गइ ॥ ५
उहय-बलइ पहरण-खर-विहुरइ ॥ ६
उहय-बलइ रण-भूमि-णिसण्णइ ॥ ७
हक्क-डक्क-ललक्क मुअन्तइ ॥ ८
अक्खइ सीरकुडुंभ्विउ रामहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं गिसुणेप्पिणु
दिणु स-हत्थेण

मणि-भरगय-किरण-फुरन्तइ ।
कण्ठउ कडउ कडिसुत्तइ ॥ १०

॥

[७]

पुणु संचल्लं वे वि
जाणइ-करिणि-सहिय

वलएव-वासुएवा ।
गय गिल्ल-गण्ड जेवां ॥ १

आव-विहत्थ महत्थ महाइय
जं इट्ठाल-धवल-सुह-पङ्किउं
॥ 'जं उत्तङ्ग-सिहरुं' सुर-कित्तिउं
तं जिणभवणु णियवि परितुट्टइ
तहिं चन्दप्पह-विम्बु णिहालिउ
१० जं णागेन्द-सुरेन्द-णरिन्दहिं
दिट्ठु सु-सोहिउ सोम्मु सु-दंसणु
॥ छत्त-त्तउ असोउ भा-मण्डलु

सहसकूडु जिणभवणु पराइय ॥ २
सज्जण-हियउ जेम अकलङ्किउं ॥ ३
वण्ण-विचित्त-चित्त-चिर-चित्तिउं ॥ ४
पयहिण देवि ति-वार वइइइ ॥ ५
जं सुरवरतरु-कुसुमोमालिउ ॥ ६
वन्दिउ मुणि-विजाहर-विन्दहिं ॥ ७
अण्णु मि सेय-चमरु सिंहासणु ॥ ८
लच्छि-विहसिउ 'वियड-उरत्थलु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

किं वहुं(एं)-चविण्ण
पुणु वि पडीवउ

जगे को ११ पडिविम्बु ठविज्जइ ।
जइ णाहें णाहुवमिज्जइ ॥ १०

6 A रुहिरणइ. 7 A कडियइ. सखगइ. 8 S बलइ. 9 PS उहयबलेहिं सुपहारसुविहुरइ.
10 PS उहयबलेहिं गयदन्तुभिण्णइ. 11 A 'दन्तिहिं. 12 A 'बलहिं. 13 PS read
the following extra hemistich between the lines 8. and 9.: वहरिहुं
कम्पु दन्ति पहरंतइ. 14 PSA सीरिक्कुडुंभ्विउ. 15 PS 'फुरंतइ. 16 PS कडिसुत्तइ.

7. 1 A संचल्लिय. 2 PS जेम. 3 A 'पंकउ. 4 A अकलंकउ. 5 A जे. 6 PS 'सिहर.
7 A 'कित्ति. 8 A 'चित्तं. 9 A पइइइ. 10 A जं नागिंदरिंदहि वंदिउ मुणिविजाहरवंदहि
वंदिउ. 11 S णरिंदसुरेंदहिं. 12 PS 'विदिहिं. 13 P वहुए. S वहुयं. 14 A पडिविम्बु ठविज्जइ.
15 P णाहिं, S णाहि, A णहि. 16 PS णाहु उवमिज्जइ, A णाहु उवमेज्जइ.

[६] १ भ्रमानि, शब्दरहितानि वा.

[७] १ देवैः कीर्ति कृता जिजात्वा. २ पञ्चवर्षा शोभा. ३ पूजितः. ४ विस्तीर्णः.

[८]

जं जग-गाहु दिट्टु बल-सीय-लक्खणेहिं ।

तिहि मि जणेहिं वैन्दिओ विविह-वन्दणेहिं ॥ १

‘जय रिसह दुसह-परिसह-सहण	जय अजिय अजिय-वम्मह-महण ॥ २
जय संभव संभव-णिदलण	जय अहिणन्दण णन्दिय-चलण ॥ ३
जय सुमइ-भडारा सुमइ-कर	पउमप्पह पउमप्पह-पवर ॥ ४
जय सामि सुपास सु-पास-हण	चन्दर्पह पुण्ण-चन्द-वयण ॥ ५
जय जय पुप्फयन्त पुप्फच्चिय	जय सीयल सीयल-सुह-संचिय ॥ ६
जय सेयङ्कर सेयंस-जिण	जय वासुपुज्ज पुज्जिय-चलण ॥ ७
जय विमल-भडारा विमल-मुह	जय सामि अणन्त अणन्त-सुह ॥ ८
जय धम्म-जिणेसर धम्म-धर	जय सन्ति-भडारा सन्ति-कर ॥ ९
जय कुन्धु महत्थुइ-थुअ-चलण	जय अर-अरहन्त महन्त-गुण ॥ १०
जय मल्लि महल्ल-मल्ल-मल्लण	मुणि सुवय सु-वय सुद्ध-मण’ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

वीस वि जिणवर
जहिं सीहोयरु

वन्देप्पिणु रामु वैईसइ ।
तं णिलउ कुंमारु पईसइ ॥ १२ ॥

[९]

ताम णरिन्द-वारे थिर-थोर-वाहु-जुअलो ।

सो’ पडिहारु दिट्टु सहत्थ-देसि-कुसलो ॥ १

पइसन्तु सुहडु तें धरिउ केम	णिय-समए लवणसमुद्धु जेम ॥ २
तं कुविउ वीरु विप्फुरिय-वयणु	विहुणन्तु हत्थ णिड्डुरिय-णयणु ॥ ३
मणे चिन्तइ वइरि-समुह-महणु	‘किं मारमि णं णं कवणु गहणु’ ॥ ४
गउ एम भणेवि भुअ-दण्ड-चण्डु	णं मत्त-महागउ गिल्ल-गण्डु ॥ ५
तं दसउर-णयरु पइट्टु केम	जण-मण-मोहन्तु अणङ्गु जेम ॥ ६
दुव्वार-वइरि-सय-पाण-चोरु	णीसरिउ णाईं केसरि-किसोरु ॥ ७
जं लक्खणु लक्खिउ राय-वारें	पडिहारु वुत्तु ‘मं मं णिवारें’ ॥ ८

8. 1 P S वैदिउ. 2 P अहिणंदिय°. 3 P S जय पउमप्पह. 4 P पउमरावणहर, S पउमप्पहर. 5 S °हर, A °हरण. 6 S जय चंदर्पह. 7 S चण्ण°. 8 A °महण. 9 A मुणि वैदिक्खि राहउ वइसह. 10 P उववइसह, S उवपईमइ.

9. 1 P S °वारें, A वारि. 2 P S सो वि. 3 P S दिट्टउ रायवारि. 4 P S णिवारि.

[८] १ कामः. २ लक्ष्मणः.

तं वयणु सुणेवि पइहु वीरु

चकवइ-लच्छि-लञ्छिय-सरीरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दसउर-गाहेंण
रिसह-जिणिन्देंण

लक्खिज्जइ एन्तंउ लक्खणु ।
णं धम्मु अहिंसा-लक्खणु ॥ १०

[१०]

हरिसिउ वज्जयणु दिट्ठेण लक्खणेणं ।

पुणु पुणु णेह-णिम्भरो चविउ तक्खणेणं ॥ १

- ‘किं देमि हत्थि रह तुरय-थट्ट विच्छुरिय-फुरिय-मणि-मउड-पट्ट ॥ २
किं वत्थेहिं किं रयणेहिं कज्जु किं णरवर-परिमिउ देमि रज्जु ॥ ३
१० किं देमि स-विम्भमु पिण्डवासु किं स-सुंउ स-कन्तउं होमि दासु’ ॥ ४
तं वयणु सुणेवि हरिसिय-मणेण पडिबुत्तु णराहिउ लक्खणेण ॥ ५
‘कहिं मुणिवरु कहिं संसार-सोक्खु कहिं पार्व-पिण्डु कहिं परम-मोक्खु ॥ ६
कहिं पायउ केत्थु कुडुक्क-वयणु कहिं कमल-सण्डु कहिं विउलुं गयणुं ॥ ७
कहिं मयगलें हलु कहिं उट्ठे धण्ट कहिं पन्थिउ कहिं रह-तुरय-थट्ट ॥ ८
११ तं वोल्लहि जं ण घडइ कलौएँ अम्हइं वाहिय भुक्खएँ खलौएँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तुहुं साहम्मिउ
भोयणु मग्गिउ

दय-धम्मु करन्तु ण थक्कहि ।
तिहुं जणहुं देहि जइ सक्कहि’ ॥ १०

[११]

११ वुच्चइ वज्जयणेणं सजल-लोयेणेणं ।

‘मग्गिउ देमि रज्जु किं गहणुं भोयेणेणं’ ॥ १

एम भणेप्पिणुं अण्णुच्चाइउ
खणे कच्चोल थाल ओयारिय
वहुविह-खण्ड-पयारोहिं वट्ठिउ

णिविसें रामहो पासु पराइउ ॥ २
परियल-सिप्पि-सङ्ग वित्थारिय ॥ ३
उच्छु-वणं पिव मुह-रसियहिउ ॥ ४

5 P S चककउरु सिरिलंकियसरीरु. 6 P एंतउं, S यंतउ, A एंतउ.

10. 1 P S लक्खणेण. 2 P S तक्खणेण. 3 A ससुव. 4 P S सक्कत्तउ. 5 A हसिय°. 6 P S पावकम्मु. 7 P S कुडुक्क°. 8 P S विउल°. 9 S °गमणु. 10 P S घंडु. 11 P S वहु. 12 P S कयावि. 13 P खळावे, S कलाइ.

11. 1 P S A °लोयेणेण. 2 A मग्गिउ सजलु देमि. 3 P S omit, A गहणु. 4 A भणेविणु. 5 P S A पयारिहिं.

[१०] १ दुष्टया; मनागपि.

[११] १ विस्तरिताः. २ सुष्ठु भाजनेषु निक्षिप्तः.

उज्जाणं पिव सुदु सुअन्धउ
रेहइ अँसण-वेल् वलहहहों
धवल-प्पउर-कूर-फेणुज्जल
घिय-कळोल-वोल् पवहन्ती
सालण-सय-सेवाल-करम्बिय

सिद्धहों सिद्धि-सुहं पिव सिद्धउं ॥ ५
णाइँ विणिग्गय अमय-समुहहों ॥ ६
पेज्जावत्तं दिन्तिं चल् चञ्चल ॥ ७
तिम्मण-तोय-तुसार मुअन्ती ॥ ८
हरि-हलहर-जलयर-परिचुम्बिय ॥ ९

॥ घत्ता ॥

किं वहुँ-चविण्ण
इह-कलत्तु व

सच्छाउ सलोणु सविज्जणु ।
तं भुत्तु जहिच्छणँ भोयणु ॥ १० ॥

[१२]

भुज्जेवि रामचन्देणं पँभणिओ कुमारो ।

‘भोयणु ण होइँ ँउ उवयार-गरुअ-भारो ॥ १

पडिवयारु किं पि विण्णासंहि
तं सीहोयरु गम्पि णिवारहि
बुद्धइ भरहें दूउ विसज्जिउ
तेण समाणु कवणु किरँ विग्गहु
तं णिसुणेवि वयणु रिउ-महणु
‘अज्जु कियत्थु अज्जु हउँ धण्णउ
एम भणेवि पर्यँहु महाइउ
मत्त-गइन्दु जेम गल्लगज्जेवि

उभय-वल्लेहिँ अप्पाणु पगासंहि ॥ २
अद्धे रज्जहों सन्धि समारँहि ॥ ३
दुज्जउ वज्जयणु अपरज्जिउ ॥ ४
जेँ आयामिउ सँमरेँ परिग्गहु’ ॥ ५
रामहों चलणोंहिँ पडिउ जणहणु ॥ ६
जं आएसु देव पइँ दिण्णउ’ ॥ ७
गउ सीहोयर-भवणु पराइउ ॥ ८
तं पडिहारु करग्गें तज्जेवि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तिण-समु मण्णैवि
पइँहुँ भयाणणु

अत्थाणु सयलु अवगण्णैवि ।
गय-जूहें जेम पञ्चाणणु ॥ १०

6 A सिद्धहं. 7 PS सिद्धउं. 8 A धवल. 9 P पवर, S A पउर. 10 PS कुरु फेणुज्जल.
11 PS पेज्जावत्तु. 12 PA दिंतु. 13 P चलचंचलु, S फेणुज्जल. 14 S वोह. 15 P
corrects as पवहन्ती. 16 S सेय हरिहलहसँ परिचुम्बिय. 17 A पँभणु. 18 P वहणं, S
वहुपं. 19 PS सद्धच्छणं.

12. 1 PS रामचंदेण. 2 PS पभणिउ, A पभणिउं. 3 Metro requires to read
होइँ. 4 P गहभाभारो, A गहयाभारो. 5 PS पडिवयार. 6 PS विण्णासंहि. 7 PS
पयासंहि, A पगासंहि. 8 PS समारंहि. 9 A करि. 10 P समर, S A समरि. 11 S परग्गहु.
12 PA धणणउं. 13 S A दिण्णउं. 14 PS पइँहु. 15 P सिहोयर, S सीहोयर. 16 PS
णयर. 17 PS A गल्लगज्जिवि. 18 PS पइँहु.

१ भोजनसमय; अन्यत्र, प्रसिद्ध-समुद्रवेला,

[१३]

अमरिस-कुङ्कण बहु-भरिय-मच्छरेणं ।

सीहोर्यरु पलोईओ जिह सणिच्छरेणं ॥ १

कोवाणल-सय-जाल-जलन्तें	पुणु पुणु जोइउ णाई कयन्तें ॥ २
१ जउ जउ लक्खणु लक्खइ संमुहु	तउ तउ 'सिमिरु थाई हेट्टा-मुहु ॥ ३
चिन्तिउ 'को वि महा-वँलु दीसइ	णउ पणिवाउ करइ णउ वइसइ' ॥ ४
तं जि णिमित्तु लएवि कुमारें	वुत्तु राउ 'किं बहु-वित्थारें ॥ ५
एम विसज्जिउ भरह-णरिन्दें	करइ केलि को' समउ मइन्दें ॥ ६
को सुर-करि-विसाण उप्पाडइ	मन्दरसेल-सिद्धु को पाडइ ॥ ७
११ कोऽमयवाहु करगें ढङ्कइ	वज्जयणु को मारेंवि सक्कइ ॥ ८
सन्धि करहों परिभुञ्जहों मेइणि	हियय-सुहङ्कुरि जिह वर-कामिणि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अहवइ णरवइ

जइ रज्जहों अद्दु ण इच्छहि ।

तो समरङ्गणें

सर-धोरणि १४ एन्ति पडिच्छहि' ॥ १०

१५

[१४]

लक्खण-वयण-दूसिओ अहर-विप्फुरन्तो ।

'मरु मरु मारि मारि हणु हणु' भणन्तो ॥ १

उट्टिउ पहु करवाल-विहत्थउ	'अच्छउं ताम भरहु वीसत्थउ ॥ २
दूवहों दूवत्तणु दरिसावहों	छिन्दहों णासु सीसु मुण्डावहों ॥ ३
२० लुणहों हत्थं विच्छारेंवि धाडहों	गदहें चडियंउ णयरें भमाडहों' ॥ ४
तं णिसुणेवि समुट्टिय णरवर	गलगज्जन्त णाई णव जलहर ॥ ५
'हणु हणु हणु' भणन्त बहु-मच्छर	णं कलि-काल-कियन्त-सणिच्छर ॥ ६
णं णिय-समय-चुक्क रयणायर	णं उम्मेट्टु पधाइय कुञ्जर ॥ ७
करें करवालु को वि उग्गामइ	भीसण को वि गयासणि भामइ ॥ ८
२५ को वि भयङ्करु चाउ चडावइ	सामिहें मिच्चत्तणु दरिसावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एव णरिन्देंहिं

फुरियाहर-भिउडि-करालेंहिं ।

वेडिउ लक्खणु

पञ्चाणणु जेम सियालेंहिं ॥ १०

13. 1 P S °मच्छरेण. 2 P सीहोर्यरो. 3 P S पलोइउ. 4 P S सणिच्छरेण. 5 P S ठाइ. 6 P S महव्वलु. 7 P S जो. 8 P S मोडइ. 9 A दुक्कइ. 10 P S A मारिवि. 11 P S वर भुंजहु. 12 A °सुहंकर. 13 S वज्जहो अथुउ ण इच्छहिं. 14 P S पंति.

14. 1 P reads दुवइ in the beginning. 2 P S °दूसिउ. 3 P S अहरपुरन्तो, A इविप्फुरन्तो. 4 This pāda is metrically defective. 5 A अच्छइ. 6 P S भरहु ताव. 7 P S हत्थु. 8 P चडावि, S चाडिवि.

[१३] १ खंभारः (=स्कन्धावारः). २ चन्द्रः. ३ अर्धराज्यं न ददाति.

[१५]

सूरु व जलहरेहिं जं वेढिओ कुमारो ।

उट्टिउ धरं दलन्तु दुवार-वइरि-वारो ॥ १

रोकइ वलइ धाइ रिउ रुम्भइ
णं सुरवर-गइन्दु मय-विम्भलुं
दरमलन्तु मणि-मउड गरिन्दहुं
को वि मुसुमुरिउ चूरिउ पाएँहिं
को वि करगोँहिं गयणं भमाडिउ
को वि जुज्झविउ मेस-झडकएँ
गयवर-लगण-खम्भुँप्याडेँवि
गाइँ जमेण दण्डु पम्मुकउ

णं केसरि-किसोरु पवियम्भइ ॥ २
सिर-कमलइँ तोडन्तु महा-वँलु ॥ ३
सीहु पढुक्किउ जेम गइन्दहुं ॥ ४
को वि णिसुम्भिउ टकर-घाएँहिं ॥ ५
को वि रसन्तु महीथलें पाडिउ ॥ ६
कोँ वि कडुवाविउ हक-दडँकएँ ॥ ७
गयण-मगें पुणु भुअहिं भमाडेँवि ॥ ८
वइरिहिं णं खय-कालु पढुक्कउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आलण-खम्भेण
तेण पडन्तेण

भामन्तेँ पुहइ भमाडिय ।
दस सहस गरिन्दहुं पाडिय ॥ १०

[१६]

जं पडिवक्खु सयलु णिहँलिउ लक्खणेणं ।

गयवरें पट्टवँन्धणे चडिउ तक्खणेणं ॥ १

अहिमुहु सीहोयरु संचल्लिउ
सेण्णावत्तं दिन्तुं गजन्तउ
तुङ्ग-तुरङ्ग-तरङ्ग-समाउलुं
उब्भिय-धवल-उत्त-फेणुज्जलु
रिउ-समुहु जं दिट्ठु भयङ्करु
चलइ वलइ परिभमइ सु-पच्चलु

पलय-समुहु णाइँ उत्थल्लिउ ॥ २
पहरण-तोथ-तुसार-मुअन्तउ ॥ ३
मत्त-महागीय-घड-वेलाउलु ॥ ४
धय-कल्लोल-चलन्त-महावलु ॥ ५
लक्खणु दुक्कु णाँइँ गिरि मन्दरु ॥ ६
णाँइँ विलासिणि-गणु चलु चञ्चलु ॥ ७

15. 1 P SA वेठिउ. 2 PS हणु भणंतु. 3 PS °भिभलु. 4 PS महव्वलु. 5 P गरिँवहु, S गरिँवहो, A गरिँवहं. 6 PS गइँवहु, A गइँवहं. 7 A जुज्झाहउ. 8 S कु. 9 A °मडकए. 10 P SA °भुपाडि. 11 P वइरिहे, S A वइरिहि. 12 P corrects as आलाण°, A आलाण°. 13 PS गरिँवहु, A गरिँवहं.

16. 1 P णिहँलिउ, S A णिहलियउ. 2 PS लक्खणेण. 3 PS पट्टवँधे. 4. PS तक्ख-णेण. 5 PS णाइ, A णाँइ. 6 P उच्छल्लिउ. 7 PS सेणावत्त. 8 P वेसु, S विणु. 9 P °तमा-उलु. 10 A °महरगय°. 11 A °महव्वलु. 12 A erroneously inserts between णाँइ (folio 101 a, 4 th line) and गिरिमंदर (folio 101 b, last line) some portion of the text from other context.

गेणेंहेवि पहउ णरिन्दु णरिन्दें
रहिणं रहिउ रहङ्गं रहङ्गें

तुरएं तुरउ गइन्दु गइन्दें ॥ ८
छत्तें छत्तु धयग्गु धयग्गें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जउ जउ लक्खणु परिसक्कइ भिउडि-भयङ्करु ।
तउ तउ दीसइ महि-मैण्डलु रुण्ड-णिरन्तरु ॥ १०

[१७]

जं रिउ-उअहि महिउ सोमिस्सि-मन्दरेणं ।
सीहोयरु पधाइओ समउ कुञ्जरेणं ॥ १

अब्भिट्ठु जुज्जु विण्णिं वि जणाहं उज्जेणि-णराहिव-लक्खणाहं ॥ २
११ दुष्कार-वईरि-गेणहण-मणाहं उग्गामिय-भामिय-पहरणाहं ॥ ३
मयमत्त-गइन्दुद्वारणाहं पडिवक्ख-पक्ख-संधारणाहं ॥ ४
सुरवहुअ-सत्थ-तोसावणाहं सीहोयर-लक्खण-णरवराहं ॥ ५
भुअ-दण्ड-चण्ड-हरिसिय-मणाहं ॥ ६
एत्थन्तरें सीहोयर-धरेणं उरें पेळ्ळिउ लक्खणु गयवरेण ॥ ७
१२ रहसुभडु पुलय-विसट्ट-देहु णं सुक्कें खीलिउ स-जलु मेहु ॥ ८
तें लेवि भुअग्गें थरहरन्त उप्पाडिय दन्तिहें वे वि दन्त ॥ ९
कडुआविउ मयगलु मणेंण तट्टु विवरम्भुहु पाण लएवि णट्टु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

ताम कुमारेंण विजाहर-करणु करेप्पिणु ।
२० धरिउ णराहिउ गय-मत्थएँ पाउ थवेप्पिणु ॥ ११

[१८]

णरवइ जीव-गाहि जं धरिउ लक्खणेणं ।
केण वि वज्जयण्णहो कहिउ तंक्खणेणं ॥ १

१३ 'हे णरणाह-णाहं अच्छरियउ पर-वल्लु पेक्खु केम जज्जरियउ ॥ २
२१ रुण्ड णिरन्तरु सोणिय-चच्चिउ णाणाविह-विहङ्ग-परियच्चिउ ॥ ३
को वि पयण्ड-वीरु वलवन्तउ भमइ कियन्तु व रिउ-जगडन्तउ ॥ ४
गय-घड भड-थड सुहड वहन्तउ, करि-सिर-कमल-सण्डं तोडन्तउ ॥ ५

13 P S तुरंग तुरंगें. 14 P S परिगहियलु.

17. 1 P S मंदरेण. 2 P S पधाइउ. 3 P S A कुञ्जरेणं. 4 P विण्ण, A वेण्णि. 5 A वेरि. 6 P S वरेण. 7 P S तं, A ते. 8 P भुअग्गें, S भुअग्गें. 9 A हरिधे. 10 A विवरामुहु. 11 A ठवेप्पिणु.

18. 1 S कहिय वज्जयणहो. 2 P कहिय. 3 P S वत्त तक्खणेणं. 4 P S गेह. 5 P संड, S सोड.

रोकइ कोकइ दुकइ थकइ
मिर्वाडि-भयङ्करु कुरुडु समच्छरु
णउ जाणहुँ किं गणु किं गन्धवु
किणेरु किं मारुवु विजाहरु
तेण महाहवें माण-मंडन्दहँ
अणु वि वुज्जउ मच्छर-भरियउ

णं खय-कालु समरें परिसकइ ॥ ६
थिउ अवलोयणें गाइँ सणिच्छरु ॥ ७
किं पच्छणु को वि तउ वन्धवुँ ॥ ८
किं वंभाणु भाणु हरि हलहरु ॥ ९
विणिवाइय दस सहस णरिन्दहँ ॥ १०
जीव-गाहि सीहोयरु धरियउ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

एकें होन्तेण
मन्दर-वीढेण

वलु सयलु वि आहिन्दोलिउ ।
णं सायर-सलिलु विरोलिउ' ॥ १२

[१९]

तं णिसुणेवि को वि परितोसिओ मणेणं ।
को वि णिणहँ लगु उड्ढेण जम्पणेणं ॥ १

को वि पजम्पिउ मच्छर-भरियउ
जो मारेवउ वईरि स-हत्थें
वन्धव-सयणहँ परिमिउ अज्जु
को वि विरुद्धु पुणु पुणु णिन्दइ
को वि भणइ 'जे' मग्गिउ भोयणुं
ताम कुमारें रिउ उक्खन्धेवि
सालङ्कारु स-दोरु स-णेउरु
धाइउ अंसु-जलोत्थिय-णयणैउ

'वज्जउ जं सीहोयरु धरियउ ॥ २
सो परिवद्धु पाउं पर-हत्थें ॥ ३
वज्जयणु अणुहुज्जउ रज्जु' ॥ ४
'धम्मु मुएवि पाउ 'किं णन्दइ' ॥ ५
दीसइ सो जें गाइँ एहु वम्भणु' ॥ ६
चोरु व रीउलेण णिउ वन्धेवि ॥ ७
दुम्मणु दीण-वयणु अन्तेउरु ॥ ८
हिम-हर्यं-कमलवणु वं कोमाणंउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

केस-विसन्धुलु
थिउ चउपासेहँ

मुह-कायरु करुणु रुअन्तउ ।
भत्तार-भिव्ख मग्गन्तउ ॥ १०

6 PS मिच्छिउ. 7 PS कुरुइ. A कुरुइ. 8 S कें. 9 PS गंधउ. 10 PS बंधउ. 11 PS किंणरु, A किंणउ. 12 PS मारुव, A missing. 13 P वंभाणु भाणु जसु हरिहरु, S वंभाणु जसु हरिहरु, A वरभाणु वरभाणु हरि हलहरु. 14 P °मयंइहो, S °मइंइहो. 15 P णरिंइहो, S णरेंइहो, A णरेंइहो. 16 P SA होंतएण. 17 A °पीढेण.

19. 1 PS तोसियमणेण. 2 PS णिवहु. 3 P SA जम्पणेण. 4 PS मिलिबि. 5 PS परापं हरथें. 6 SA कें. 7 SA भणइं. 8 PS जं, A जे. 9 A जेवणु. 10 S राउ धरिउ णं. 11 PS वीणु. 12 P SA °णयणउं. 13 A °हउं. 14 P भ. 15 P SA कोमाणउं. 16 A विसंइलु.

[१८] १ कूर।

[१९] १ ऊर्ध्वमुखे. २ धृत्वा.

स० प० च० ६

[२०]

ताम मणेण सङ्क्रिया राहवस्स घरिणी ।

णं भय-भीय काणणे वुण्णुर्यण्ण हरिणी ॥ १

- ‘पेक्खु पेक्खु वलु वलु आवन्तउ सायर-सलिलु जेम गज्जन्तउ ॥ २
 १ लइ धणुहरु मे अच्छि णिच्चिन्तउ मञ्जुडु लक्खणु रणे अत्थन्तउ ॥ ३
 तं णिसुणेवि णिवूढ-महाहवुं जाम चाउ किर गिण्हइ राहवु ॥ ४
 ताम कुमारु दिट्ठु सहुं णारिहिं परिमिउ हत्थि जेम गणियारिहिं ॥ ५
 तं पेक्खेपिण्ण सुहडु-णिसामे भीय सीय मम्भीसिय रामे ॥ ६
 ‘पेक्खु केम सीहोयरु वद्धउ सीहेण व सियालु उट्ठुद्धउ ॥ ७
 १० एवं वोळ्ळं किर वट्ठइ जावेहिं लक्खणु पासु पराइउ तावेहिं ॥ ८
 चलणेहिं पडिउ वियावड-मत्थउ भविउ व जिणहो कियंज्जलि-हत्थउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

‘साहु’ भणन्तेणं

स इं भु अ-फलिहेहिं

सुरभवण-विणिग्गय-णामे ।

अवरुण्डिउ लक्खणु रामे ॥ १०

*

[२६. छवीसमो संधि]

लक्खण-रामहुं
 एक्कहिं मिलियइ

धवल्लुज्जल-कसणे-सरीरइं ।
 णं गङ्गा-जउणहें णीरइं ॥

[१]

- अवरोप्परु गज्जोल्लिय-गत्तेहिं सरहंसु साइउ देवि तुरन्तेहिं ॥ १
 १० सीहोयरु णमन्तु वइसारिउ तक्खणे वज्जयण्णु हक्कारिउ ॥ २
 सहुं णरवर-जणेण णीसरियउ णाइं पुरन्दरु सुर-परियरियउ ॥ ३
 रेहइ विज्जुल्लु अणुपच्छएँ पडिवा-इन्दु व सूरहो पच्छएँ ॥ ४
 तं इट्ठाल-धूलि-धुअं-धवलउं सहसकूडु गय पत्त जिणालउं ॥ ५
 चउदिसु पयहिण देवि तिवारएँ पुणु अहिवन्दण करइ भंडारएँ ॥ ६
 १० तं पियवद्धण-मुणि पणवेप्पिणु वलहो पासें थिउ कुसलु भणेप्पिणु ॥ ७

20. 1 A सं. 2 P णिचंतउ, S णिचंतउ, A निचितउ. 3 SA महाहउ. 4 S राहभो, A राहउ. 5 A पेक्खेविणु. 6 PS सुहडु. 7 A ओठडुउ. 8 PS एय. 9 A वोळु. 10 A कवंजलि. 11 P भणंते, S भणते. 12 PS फलिहिहिं, A फलिहिं.

1. 1 PS °कसणघण°. 2 P सहरसु. 3 A पाठिमयंदु. 4 S पेच्छए. 5 A °धुव°. 6 PS °धवलउं. 7 PS जिणालउं. 8 PS तिवारउ. 9 PS भंडारउ. 10 PS पासे, A सु.

[२०] १ मुक्ती. २ सुमटविषये निर्ग[त ?]सामेन (?)

[१] १ आलिङ्गनम्.

दसउर-पुर-परमेसरु रामें

साहुकारिउ सुहड-णिसामें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘सच्चउ णरवइ
दिहँ-सम्मत्तेण

मिच्छत्त-सरेंहिं णंउ मिज्जहिं ।
पर तुज्जु जे तुहँ उवमिज्जहिं ॥ ९

[२]

तं णिसुणेवि पयम्यिउ ‘राएँ
पुणु वि तिलोय-विणिग्गय-णामें
‘भो दिहँ-कट्ठिण-वियड-वच्छत्थल
सुन्दरु किउ जं णरवइ रक्खिउ
तो एत्थन्तरेँ वुत्तु कुमारेँ
हे दसउर-णरिन्देँ विसंगइ-सुअ
जो खलु खुहु पिणुणु मच्छरियउ
किं मारमि किं अप्पुणुं मारहि

‘एउ सव्वु महु तुम्ह पसाएँ’ ॥ १
विज्जुलङ्कु पोमाइउ रामें ॥ २
साहु साहु साहम्मिय-वच्छल ॥ ३
रणेँ अच्छन्तु ण पइँ उव्वेक्खिउ’ ॥ ४
‘जम्पिएण किं बहु-वित्थारेँ ॥ ५
जिणवर-चलणं-कमल-फुल्लण्डुअ ॥ ६
अच्छइ एँहु सीहोयरु धरियउ ॥ ७
णं तो दय करि सम्धि समारहि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आण-वडिच्छउ
रिसह-जिणिन्दहों

एँहु एवहिं भिच्चु तुहारउ ।
सेयंसु वं पेसणयारउ’ ॥ ९

[३]

पभणइ वज्जयणु बहु-जाणउ
णवर एक्कु वरुँ मइँ पालेवउ
तं णिसुणेविणु लक्खण-रामेँहिं
दसउरपुर-उज्जेणि-पहाणा
वेण्णि वि हत्थेँ हत्थु धराविय
अद्धोअँद्विऐँ महि भुज्जाविय
कामिणि कामलेह कोक्काविय
इण्णइँ मणि-कुण्डलइँ फुरन्तइँ

‘हउँ पाइक्कु पुणु वि एँहु राणउ ॥ १
जिणु मेहेवि अप्पु ण णमेवउ’ ॥ २
सुरवर-भवणं-विणिग्गय-णामेँहिं ॥ ३
वज्जयणुं-सीहोयर-राणा ॥ ४
सरहसुं कण्ठग्गहणुं कराविय ॥ ५
अण्णु वि जिणवर-धम्मु सुणाविय ॥ ६
विज्जुलअङ्गहों करयलेँ लाविथेँ ॥ ७
चन्दाइच्चहुँ तेउ हरन्तइँ ॥ ८

11 A ज. 12 P S भिज्जहिं. 13 A विट्ठ°. 14 P S उवमिज्जहिं.

2. 1 P S सच्चु. 2 A दह°. 3 A उप्पेक्खिउ. 4 A विहगइ°. 5 A °वयण°. 6 P S अप्पुणु. 7 P पविच्छइ, 8 वडिच्छइ. 8 P S अ.

3. 1 S A पभणइ. 2 P S बहुजाणउ. 3 P A राणउ. 4 A मइँ धुउ. 5 P S णवेवउ. 6 P S °भुवण°. 7 P S वज्जयणु. 8 P S सहरसु. 9 P S कंठागहणु, A कंठागहणु. 10 A अद्धोवद्विय. 11 P S लाइय.

[२] १ वज्जकणेन. २ विश्वगति-वृष-सुत. ३ भ्रमर.

ताम कुमारु वुत्तु विक्खाएँहिं
 'णव-कुवलय-दल-दीहर-णयणहुं
 उच्च-णिलाडालङ्किय-तिलयहुं
 विब्भम-भाउब्भिण्ण-सरीरहुं

वज्जयण्ण-सीहोयर-रीएँहिं ॥ ९
 मयगल्ल-गइ-गमणहुं ससि-वयणहुं ॥ १०
 वहु-सोहम्म-भोग्ग-गुण-णिलयहुं ॥ ११
 तणु-मज्झहुं थण-हर-गम्भीरहुं ॥ १२

॥ घत्ता ॥

अहिणव-रुवहुं
 लइ भो लक्खण

लायण्ण-वण्ण-संपुण्णहुं ।
 वैर तिण्णि सयइ तुहुं कण्णहुं ॥ १३

[४]

तं णिसुणेपिणु दसरह-णन्दणु
 ११ 'अच्छउ ति-यणुं ताम 'विलवन्तउ
 मइं जाएवउ दाहिण-देसहो
 तहिं वलहहहो णिलउ गवेसमि
 एम कुमारु पजम्पिउ जं जे
 दहु हिमेण व णलिणि-समुच्चउ
 १२ जाम ताम तूरेहिं वज्जन्तेहिं
 वन्दिणेहिं 'जय जय' पभणन्तेहिं
 सीय स-लक्खणु वलु पइसारिउ
 तहिं णिवसेपिणु णयरे रवण्णएँ

एम पजम्पिउ हसेवि जणहणु ॥ १
 'भिसिणि-णिहाउ व रवियर-छित्तउ ॥ २
 कोङ्कण-मलय-पण्डि-उहेसहो ॥ ३
 पच्छएँ पाणिग्गहणु करेसमि' ॥ ४
 मणे विसण्णु कण्णायणु तं जे ॥ ५
 मुहे मुहे गाइं दिण्णु मसि-कुच्चउ ॥ ६
 'विविहेहिं मङ्गलेहिं गिज्जन्तेहिं ॥ ७
 खुज्जय-वामणेहिं णच्चन्तेहिं ॥ ८
 वीया-इन्दु व जयजयकारिउ ॥ ९
 अद्धरत्ति-अवसरे पडिवण्णएँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

१३ वल-णारायण
 चेत्तहो मासहो

गय दसउरु मुएँवि महाइय ।
 तं कुँवर-णयरु पराइय ॥ ११

[५]

कुँवर-णयरु पराइय जावेहिं
 पइठु वसन्त-राउ आणन्दे
 १४ अलि-मिहुणेहिं वन्दिणेहिं पढन्तेहिं

फग्गुणे-मासु पवोलिउ तावेहिं ॥ १
 कोइल-कलयल्ल-मङ्गल-सहे ॥ २
 वरहिण-वावणेहिं णच्चन्तेहिं ॥ ३

12 P S विक्खायहुं. 13 P S रायहुं. 14 P S मयगल्लगमणहुं णं. 15 P S तिण्णि सयइं
 घरकण्णहुं.

4. 1 A तिययणु. 2 P विलवन्तउ, S विलत्तउ, A विक्कित्तउ. 3 A °वित्तउ. 4 A °पुसहो.
 5 A omits this pāda. 6 A omits this line. 7 A °बंदु. 8 P S अद्धरत्ते. 9 P S
 चइत्तहो, A चइत्तहो. 10 A कुँवरु.

5. 1 P S फागुण°. 2 P S पइठु. 3 P S °कलयल्ल.

[४] १ तापः खेद उषणत्वं च (?). २ कमल (?)-समूह. ३ समूहः.

[५] १ गतः.

अन्दोला-सय-तोरण-वारोहिं
 कत्थइ खूअ-वणइँ पल्लवियइँ
 कत्थइ गिरि-सिहरइँ विच्छायइँ
 कत्थइ मोहव-मासहोँ मेइणि
 कत्थइ गिज्जइ वज्जइ मन्दलु
 तं तहोँ णयरहोँ उत्तर-पासेहिं
 दिट्ठु वसन्ततिलउ उज्जाणउ

दुक्कु वसन्तु अणेय-पयारोहिं ॥ ४
 णव-किसलय-फल-फुल्लम्भहियइँ ॥ ५
 खल-मुहइँ व मसि-वण्णइँ णाथइँ ॥ ६
 पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि ॥ ७
 णर-मिहुणेहिं पणोच्चिउ गोन्दलु ॥ ८
 जण-मणहरु जोयण-उद्देसेहिं ॥ ९
 सज्जण-हियेउ जेम अ-पमाणउ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सुहल्लु सुंयन्धउ
 अग्गएँ रामहोँ

डोह्लन्तु वियावड-मेत्थउ ।
 णं थिउँ कुसुमज्जलि-हत्थउ ॥ ११

[६]

तहिं उववणेँ पइसेवि विणु खेवेँ
 'भो असुरारि-वइरि-मुसुमूरण
 लक्खण कहि मि गवेसहि तं जलु
 दूरागमणेँ सीय तिसाइय
 तं णिसुणेँवि वड-दुम-सोवाणेँहिं
 तावँ महासरु दिट्ठु रवण्णउ
 सारस-हंस-कुञ्च-वग-चुम्बिउ
 तं पेक्खेवि कुमार पधाइउ

पभणिउँ वासुएबु वलएवेँ ॥ १
 दसरह-वंस-मणोरह-पूरण ॥ २
 सज्जण-हियउ जेम जं णिम्मलु ॥ ३
 हिम-हय-णव-णलिणि व विच्छाइय ॥ ४
 चडिउ महारिसि व गुणथाणेँहिं ॥ ५
 णाणाविह-तरुवर-संछण्णउ ॥ ६
 णव-कुवलय-दल-कमल-करम्बिउ ॥ ७
 णिविसेँ तं सर-तीरु पराइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पइट्टु महावल्लु
 माणस-सरवरैँ

जलेँ कमल-सण्डु तोडन्तउ ।
 णं सुर-गइन्दु कीलन्तउ ॥ ९

4 A दुक्क. 5 P फुल्लम्भहियइँ corrected to s °फुल्लम्भरिअइँ, s फुल्लम्भहियइँ. 6 This pāda missing in A. 7 A पणच्चिउं. 8 A तहो णयरहो अबहत्तरवासैँ. 9 A जणमणहरु-उद्देसे. 10 PSA उज्जाणु. 11 PS हियउं. 12 PSA अपमाणु. 13 S सुहुडु. 14 PS सुयंभउं. 15 A डोह्लन्तउ. 16 P °मत्थउं. 17 PS आगय, A अग्गइ. 18 PS णविउ.

6. 1 A संखेवेँ. 2 A पभणिउं. 3 PA वासुएब. 4 PS तं. 5 PS विच्छाइय. 6 PS वर°. 7 P सोम्बणिहिं, S सोमूणिहिं, A सोवाणिहिं. 8 A ताम. 9 PSA रवण्णउं. 10 P °तरुवर°. 11 PSA °संछण्णउं. 12 A °सरवर°. 13 P पराविउ, S परायउ, A पगइउ. 14 PS पइट्टु महावल्लु, A पइट्टु महावल्लु. 15 A सुरइ°.

१ वैशाखे. ३ सुरत-व्यापार-संग्रामः.

[७]

लक्खणु जलु आडोहइ जावैहिं
 छुडु छुडु वण-कीलएँ णीसरियउ
 तरुवरें तरुवरें मञ्जु णिवद्धउ
 मञ्जे मञ्जे आरुढं णरेसर
 मञ्जे मञ्जे आलावणि वज्जइ
 मञ्जे मञ्जे जणु रंसय-विहत्थउ
 मञ्जे मञ्जे कीलन्ति सु-मिहुणइ
 मञ्जे मञ्जे अन्दोलइ जणवउ

कुबर-णयर-गराहिउ तावैहिं ॥ १
 मयण-दिवसें णरवर-परियरियउ ॥ २
 मञ्जे मञ्जे थिउं जणु समलद्धउ ॥ ३
 मेरु-णियम्बे^१ णाइं विजाहर ॥ ४
 महु पिज्जइ हिन्दोलउ गिज्जइ ॥ ५
 घुर्ममइ घुलइ वियावड-मत्थउ ॥ ६
 णव-मिहुणइ कैहिं णोह-विहूणइ ॥ ७
 कोइल वासइ भज्जइ दर्माणउ ॥ ८

१०

॥ घत्ता ॥

कुबर-णाहेण
 सूरु व चन्देण

किउ मञ्जारोहणु जावैहिं ।
 लक्खिज्जइ लक्खणु तावैहिं ॥ ९

[८]

लक्खिउ लक्खणु लक्खण-भरियउ
 ११ रूउ णिएँवि सुर-भवणाणन्दहों
 मयण-सरासणि धरेवि ण सक्किउ
 पहिलएँ कहों वि समाणु ण वोल्लइ
 तइयएँ सयलु अङ्गु परितप्पइ
 पञ्चमे पुणु पुणु पासेइज्जइ
 १२ सत्तमे जलु वि जलइ ण भावइ
 णवमएँ पाण पडन्त ण वेयइ

णं पच्चक्सु मयणु अवयरिउ ॥ १
 मणु उल्लोलेहिं जाइ णरिन्दहों ॥ २
 वम्महु दस-थाणेहिं पंदुक्किउ ॥ ३
 वीयएँ गुरु णीसासु पमेलइ ॥ ४
 चउथएँ णं करवत्तेहिं कप्पइ ॥ ५
 छट्ठएँ वारवार मुच्छिज्जइ ॥ ६
 अट्ठमे मरण-लील दरिसावइ ॥ ७
 दसमएँ सिरु छिज्जन्तु ण चेयइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एम वियम्भिउ
 तं अच्छरियउ

कुसुमाउहु दसहिं^१ मि थाणेहिं ।
 जं मुक्कु कुमारु ण पाणेहिं ॥ ९

7. 1 PS अडोहइ, 2 PS थिय, 3 P आरुढ, 4 PS °णियंवेहिं णं, 5 A वसइ, 6 A पुम्मइ, 7 A णउ, 8 PS तहिं, 9 P वासइ, 10 PS दमणउं, A दवणउं, 11 A संचारोहणु, 12 A सुर.

8. 1 PS पहुक्कउ, 2 P करवत्तिहिं, S करवत्तेहि, A करवत्तिहिं, 3 PA दसहिं मि, S दसहे मि, 4 PS अच्छरिउ.

जं कण्ठ-ट्टिउ जीवुं कुमारहों
 पहु आणएँ पाइक पधाइय
 पणवेंवि वुत्तु ति-खण्ड-पहाणउ
 तं गिसुणेंवि उच्चलिउ जणहणु
 वियड पओह देन्तु णं केसरि
 दिट्ठु कुमारु कुमारेँ एन्तउ
 खणें कल्लाणमालु रोमच्चिउ
 पुणु वइसारिउ हरि अद्दासणें

वइट्ठुं जणहणु
 णव-वरइत्तु व

वे वि वइट्ठु वीर एकासणें
 एकु पचण्डुं तिखण्ड-पहाणउ
 एकहों चलण-जुअलु 'कुम्मणुणउ
 एकहों ऊरु(?)-जुअलु सुं-वित्थरु
 पञ्चाणणं-कंडि-मण्डलु एकहों
 एकहों सुललिउ सुन्दरु अङ्गउ
 एकहों सोहइ वियडुं उरत्थलु
 एकहों वाहउ दीह-विसालउ
 वयण-कमलु पप्फुलिउ एकहों
 एकहों गो-कमलइं वित्थरियइं
 एकहों सिरु वर-कुसुमैहिं वासिउ

[९]

सण्णएँ वुत्तु 'पहिउ हकारहों' ॥ १
 णिविसद्धें तहों पासु पराइय ॥ २
 'तुम्हहँ काइँ मि कौकइ राणउ' ॥ ३
 तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दणु ॥ ४
 कन्दइ भारकन्त वसुन्धरि ॥ ५
 मयणु जेम जण-मण-मोहन्तउ ॥ ६
 णंडु जिह हरिस-विसाएँहिं णंच्चिउ ॥ ७
 भविउ जेम थिउ दिट्ठु जिण-सासणें ॥ ८

॥ वत्ता ॥

आलीढएँ मच्चें रवणणेंएँ ।
 पच्छणुणु मिलिउ सहुं कण्णएँ ॥ ९

[१०]

चन्दाइच्च जेम गयणङ्गणें ॥ १
 अण्णेक्कु वि कुव्वर-पुर-राणउ ॥ २
 अण्णेकहों रत्तुप्पल-वण्णउ ॥ ३
 अण्णेकहों सुकुमारु सु-मच्छरु ॥ ४
 णारि-णियंभ्व-विम्बु अण्णेकहों ॥ ५
 अण्णेकहों तणु-तिवल्लि-तरङ्गउ ॥ ६
 अण्णेकहों जोवणु धण-चकलु ॥ ७
 अण्णेकहों णं मालइ-मालउ ॥ ८
 पुण्णिम-चन्द-रुन्दु अण्णेकहों ॥ ९
 अण्णेकहों बहु-विबभम-भरियइं ॥ १०
 अण्णेकहों वर-मउड-विहूसिउ ॥ ११

9. 1 SA जीउ. 2 S °आणइं. 3 SA °पहाणउं. 4 S तुम्हइ. 5 PSA काइं. 6 A °राणउं. 7 PS गिसुणेविणु चलिउ. 8 A फंदइ. 9 A जडु. 10 A णच्चिउं. 11 PS वइट्ठु. 12 S रवणणएँ. 13 S कण्णइं.

10. 1 PS पचंड. 2 PA °पहाणउं. 3 PSA °राणउं. 4 A कुम्मणुणउं. 5 PS A °वण्णउं. 6 PS सवित्थरु. 7 P समच्छरु, S सुमंगलु. 8 PS पंचाणणु. 9 A °करि°. 10 A गियंभु विं. 11 PS वियड. 12 A अण्णेकहें. 13 P reverses a and b here. 14 PS °चंतु, A °इट्ठु. 15 PS °मउडु.

[९] १ आगच्छन्तः (= आगच्छन्).

[१०] १ कूर्मोजतः. २ नारी-नितम्ब-सदशम्. ३ चक्षुःकमलाणि.

॥ घत्ता ॥

एकु स-लक्खण
अण्णेकु वि पुणु

लक्खिज्जइ जणेण असेसें ।
पच्छण्ण गारि णर-वेसें ॥ १२

[११]

१ देणु-दुग्गाह-गाह-अवगाहें
णयण-कडक्खिउ लक्खण-सरवरु
जो कत्थूरिय-पक्कुप्पक्किउ
जो सुर-सेउण-सहासेहिं मण्डिउ
तहिं तेहएँ सरें 'सेय-जलोळिउ'
११ कण्ठ-मणोहर-दीहर-णालउ
दसण-सकेसरु अहर-महादलु
लोयण-फुल्लंधुय-परिचुम्बिउ

पुणु पुणरुत्तेहिं कुवर-णाहें ॥ १
जो सुर-सुन्दरि-गलिणि-सुहङ्करु ॥ २
जो अरि-करिहिं ण डोहेंवि सक्किउ ॥ ३
जो कामिणि-थण-चक्केहिं चडिउ ॥ ४
लक्खण-वयण-कमलु पप्फुलिउ ॥ ५
वर-रोमञ्च-कञ्चु-कण्टालउ ॥ ६
वय-मयरन्दउ कण्णीवत्तलु ॥ ७
कुडिल-वाल-सेवाल-करम्बिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

११ लक्खण-सरवरु
तं मुह-पक्कुउ

हउ भुक्ख-महाहिम-वाएं ।
लक्खिज्जइ कुवर-राएं ॥ ९

[१२]

जं मुह-कमलु दिट्ठु ओहुळिउं
'हे णरणाह-गाह भुवणाहिव
स-गुलु स-लोणउ सरसु स-इच्छउ
२० तं भुञ्जेप्पिणु पढम-पियासणु
तं णिसुणेवि पजम्पिउ लक्खणु
'उहु जो दीसइ रुक्खु रवणणउ
आयहो विउलें मूले दणु-दारउ

वालिल्लि-तणएण पवोळिउं ॥ १
भोयणु भुञ्जहुं सु-कलत्तं पिव ॥ २
महरु सुअन्धु स-णेहु सु-पच्छउ ॥ ३
पच्छलें किं पि करहु संभासणु' ॥ ४
अमर-वरङ्गण-णयण-कडक्खणु ॥ ५
पत्तल-वहल-डाल-संछणणउ ॥ ६
अच्छइ सामिसालु अम्हारउ' ॥ ७

11. 1 P S 'दुग्गाह'. 2 S 'करेहि. 3 A 'सवण. 4 S 'चडिउ, A 'चडिउ. 5 P S 'जलोळिउ. 6 P S 'कमल'. 7 P S 'रोमञ्चु. 8 A 'डक्कंटोलउ. 9 P S दसणु. 10 P S अहरु. 11 P S A 'मयरंदिउ. 12 A कण्णउवत्तलु. 13 P फुल्लंधुय.

12. 1 P S दिट्ठु. 2 P उहळिउ, S ओहळिउ. 3 P पवोळिउं. 4 P भुञ्जहुं, A भुञ्जह. 5 P सगणु corrected to सगुलु. 6 P S A सलोणउं. 7 P S सइच्छउ. 8 P S 'वरंगणे, 9 P S एहु. 10 P S रवणणउं, A रवणउं. 11 P S A संछणणउं.

[११] १ दानवा एव दुष्टप्रहा येषामपि यो प्राहो लक्ष्मणस्तत्रावगाह आग्रहो यस्य. २ खगुणैः. ३ प्रसेदः. ४ वचनानि. ५ प्रत्र (?) प्रमरी.

लक्षण-वयणोर्हि
करिणि-विहसिउ

गुलुगुलन्तु हलहेइ मेहगण
सेय-पवाह-गलिय-गण्डत्थल
पिच्छावलि-अलिउल-परिमालिउ
विथिय-वाण-विसाण-भयङ्करु
धणवर-लग्गणस्सम्भुम्मूलणु
सैर-सिक्कार करन्तु महावल्लु
छाहिहे वेज्झाई देन्तु विरुद्धउ
जाणइ-वीर-गणियारि-विहसिउ

मञ्जारुहणहो
मेरु-णियम्बहो

हरि-कलाणमाल दणु-दलणोर्हि
'अच्छहुं ताव देव जल-कीलए
एम भणोप्पिणु दिण्णइं तूरइं
पईठ स-साहण सरवर-गहयलें
धवल-कमल-गक्खत्त-विहसिए
उत्थल्लन्त-सैफरि-चल-विज्जुलें
कुवलय-दल-तमोह-दरिसावणें
जल-तरङ्ग-सुरचावारम्भिणें

12 P कोकिउं, 13 P S सुकं तउ, A सेकंतउ.

13. 1 P S गंडत्थल. 2 P S कुम्भत्थल. 3 P पिच्छाउलि, S पिच्छाउले, A पिच्छावलि.
4 P विच्छिउ corrected to विरिथउ, S विच्छिउ. 5 S °पडिहलणु. 6 A सरि°. 7 P S
महवत्थु. 8 P छाहिहे, S छाहिहिं. 9 P S वेज्झइ. 10 P S वण°. 11 P उद्धसिउं. 12 P S
रावयणु. 13 S wanting.

14. 1 P वलएवहं. 2 P इच्छहुं. 3 A भुंजहो. 4 S °ओणव°. 5 P S पइठ.
6 P S उच्छल्लन्त°.

[१२] १ हस्ते यो द्वौ बाणौ (?).

[१३] १ हलयुधः. २ महागजः. ३ भजा. ४ कटिमेजल. ५ हस्ते यौ बाणौ. ६ सूच्छि.
७ शब्दः. ८ हर्षितः.

[१४] १ भेरीपटहः. २ मत्सी. ३ चक्र-मूल्यजना एव ताराचक्रम्.

॥ घत्ता ॥

वल्लु कोकिउं चलिउ स-कन्तउ ।
णं वण-गइन्दु मल्लहन्तउ ॥ ८

[१३]

तरुवर-गिरि-कन्दरहो विणिग्गउ ॥ १ ५
'तोणा-जुयल-विउल-कुम्भत्थलु ॥ २
किक्किणि-गेज्जा-मालोमालिउ ॥ ३
थोर-पलम्ब-वाहु-लम्बिय-कैरु ॥ ४
दुद्धारुद्ध-मेट्ट-पडिहूलणु ॥ ५
तिस-भुक्खए खलन्तु विहल्लल्लु ॥ ६ ॥
जिणवर-वयणङ्कुसेण णिरुद्धउ ॥ ७
तं पेक्खेवि जणवउ उद्धसिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उत्तिण्णु असेसु वि राथे-गणु (?) ।
णं णिवडिउ गहं-तारायणु ॥ ९ ॥

[१४]

पडिय वे वि वलएवहो चलणोर्हि ॥ १
पच्छए भोयणु भुंजहुं लीलए ॥ २
झल्लरि-तुणोव-पणव-दडि-पहरइ ॥ ३
फुल्लन्धुअ-भमन्त-गहमण्डलें ॥ ४ ॥
मीण-मयर-कक्कडए पदीसिए ॥ ५
णाणाविह-विहङ्ग-घण-सङ्कुलें ॥ ६
सीयर-णियर-वरिस-वरिसावणें ॥ ७
वल्ल-जोइसिय-चक्क-पवियम्भिणें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ सर-गहयलें
रोहिणि-रण्याहिँ

सं-कलत्त वे वि हरि-हलहर ।
णं परिमिय चन्द-दिवायर ॥ ९

[१५]

१ तहिँ तेहएँ सरें सलिलें तरन्तइँ
णाइँ विमाणइँ सगगहों पडियइँ
णत्थि रयणु जहिँ जन्तु ण घडियँउ
णत्थि मिहुणु जहिँ णेहु ण वड्डिउ
तहिँ णर-णारि-जुवइ जल-कीलएँ
११ सलिलु करंगोहिँ अफ्फालन्तइँ
खलिँएँहिँ वलिँएँहिँ अहिणव-गेँएँहिँ
छन्देँहिँ तालेँहिँ बहु-लय-भङ्गेँहिँ

संचरन्ति चामीयर-जन्तइँ ॥ १
वण्ण-विचित्त-रयण-वेयडियइँ ॥ २
णत्थि जन्तु जहिँ मिहुणु ण चडियउ ॥ ३
णत्थि णेहु १जो णउ सुरयड्डिउ ॥ ४
कीलन्ताइँ ण्हन्ति सुर-लीलएँ ॥ ५
मुँरव-वज्ज-घायइँ दरिसन्तइँ ॥ ६
वन्धहिँ सुरयक्खित्तिय-भेँएँहिँ ॥ ७
करणुच्छित्तेहिँ गाणा-भङ्गेँहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चोक्खु सरागँउ
पुक्खेर-जुज्जु व

सिङ्गार-हार-दरिसावणु ।
तं जल-कीलणँउ स-लक्खणु ॥ ९

[१६]

जलें जय-जय-सदें ण्हाय णर
एत्थन्तरेँ समरें समत्थएँण
तणु-लुहणइँ देवि पहाणएँण
११ पँच्छणें भवणें पइसारियइँ
वित्थारिउँ वित्थरु भोयणँउ
रज्जं पिव पट्ट-विहूसियँउ
सुरयं पिव सर-सु स-तिम्मणँउ
तं भुत्तु सइच्छएँ भोयणँउ

पुणु णिग्गय हल-सारङ्ग-धर ॥ १
सिरं-णामिय-कयञ्जलि-हत्थएँण ॥ २
पुणु तिण्णि वि कुड्ढर-राणएँण ॥ ३
चामियरं-वीढेँ वइसारियइँ ॥ ४
सुकलत्तु व इच्छं ण भङ्गणउ ॥ ५
तूरं पिव थालालंक्कियउ ॥ ६
वायरणु व सहइ स-विज्जणँउ ॥ ७
णं किउ जग-गाहें पारणँउ ॥ ८

7 S ससकलत्त, A संकलत्त.

15. 1 A सलिलु. 2 PSA घडियउं. 3 PS जहिँ सुरउ ण वड्डिउ. 4 PS करगहिँ.
5 PS सुरव वज्जघाय व. 6 PS १गेयहिँ. 7 P वद्धहिँ, S वद्धइ. 8 PS १सुरयक्खित्तियतेयहिँ.
9 PS १णुच्छित्तेहिँ. 10 PS सरागउं. 11 PS पुक्खरं. 12 PSA १कीलणउं.

16. 1 P सिरि, A सिरे. 2 PS पँच्छण. 3 P चामीयर. 4 PS १पीढे. 5 PS वित्थारि-
रिय. 6 PSA भोयणउं. 7 A इत्थु न. 8 PSA भंजणउं. 9 PS विहूसियउं. 10 S कूरं.
11 PS १क्कियउं. 12 P सत्तिम्मणउं, S तिम्मणउं. 13 PS सर्वेजणउं, A सर्विजणउं.
14 PSA पारणउं.

[१५] १ अंगहारः.

दिष्णु बिलेवणु
सालङ्कारइं

तीहिं मि परिहियाइं देवङ्गइं
दुल्लह-लर्मभइं जिण-वयणाइं व
दीहर-छेर्यइं अत्थाणाइं व
णिच्छिंदइं कइ-कव-पयाइं व
लण्हइं कामिणि-मुह-कमलाइं व
समसुत्तइं किण्णर-मिहुणाइं व
तो एत्थन्तरें कुवर-सारें
सुरवर-कुलिस-मङ्ग-तणु-अङ्गें

तिहुअण-गाहेंण
मोक्खहों कारणें

ताहिं एक्कन्त-भवणें पच्छण्णाए
पुच्छिय राहवेण परिओसें
तं णिसुणोप्पिणु पगलिय-णयणी
'रुहभुत्ति-गामेण पहाणंड
तेण धरेप्पिणु कुवर-सारउ
तें कज्जे थियें हउं णर-वेसें

॥ घत्ता ॥

दिष्णइं देवङ्गइं वत्थइं ।
णं सुकइ-कियइं सुइ-सत्थइं ॥ ९

[१७]

उवहि-जलाइं व वहल-तरङ्गइं ॥ १
पसरिय-पट्टइं उच्छ-वणाइं व ॥ २
फुल्लिय-डालइं उज्जाणाइं व ॥ ३
हलुवइं चारण-जण-वर्यणाइं व ॥ ४
वडुइं जिणवर-धम्म-फलाइं व ॥ ५
अह-संमत्तइं वायरणाइं व ॥ ६
ओयारिउ सण्णाहु कुमारें ॥ ७
णावइ कञ्जुउ मुक्कु भुअङ्गें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुरजण-मण-णयणाणन्दें ।
संसारु व मुक्कु जिणिन्दें ॥ ९

[१८]

जं अप्पाणु पगोसिउ कण्णणें ॥ १
'अक्खु काइं तुहुं थिय णर-वेसें' ॥ २
एम पर्जम्पिय गगिर-वयणी ॥ ३
दुज्जउ विङ्ग-महीहर-राणंड ॥ ४
वालिखिल्लु णिउ जणणु महारंड ॥ ५
जिह ण मुणिज्जमि जणेंण असेसें ॥ ६

17. 1 P तीहिं मि, A तीहिं मि. 2 P S °लामहं. 3 P S have mostly °इ throughout this Kadavaka. 4 P S °छेत्तइं. 5 P णिच्छिंदुइ, S णिच्छिंदुइं. 6 This hemistich wanting in A. 7 P S °वयणाइ. 8 S नण्हइं, A नन्हइं. 9 P S सुहका-मिणि°. 10 P S A °कमलाइ. 11 P S A वायरणाइ. 12 P S ओसारिउ. 13 A णावइं. 14 P S कारणेण.

18. 1 A पयासिउ. 2 S कण्णइं. 3 P S पुच्छिउ. 4 P परिउसें, S A परिओसि. 5 A पयंथिय. 6 A गगार°. 7 P S पहाणंडं. 8 P A °रणदं. 9 P S A महारंडं. 10 P S हउं थिय.

[१६] १ निर्दोष-शास्त्राणि.

[१७] १ जन्-सारणी इच्छु-पक्षे. २ संप्रामाः भसा(सभा)स्थानव. ३ परिपूर्णाणि.

तं णिसुणेवि वयणु^{११} हरि कुद्धउ
अञ्चन्तेन्त-णेत्तु फुरियाहरु

गं पञ्चाणणु आमिस-लुद्धउ ॥ ७
एम पजेम्पिउ कुंरुंहु समच्छरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘जइ समरङ्गणे
तो सहूँ सीयएँ

तं रुद्धमुत्ति णउ मारमि ।
सीराउहु णउ जयकारमि’ ॥ ९

[१९]

जं कल्लाणमाल मम्भीसिय
ताव दिवायरु गउ अत्यवणहो
णिसि-णिसियरि दस-दिसहिँ पधाइय
१० गह-णक्खत्त-दन्त-उदँन्तुर
घण-लोयण-ससि-तिलय-विहूसिय
तिहुयण-वयण-कमलु दरिसेप्पिणु
ताव महावल-वलु विण्णासेवि
सीयएँ सहूँ वल-कण्ह विणिग्गय

लहु णर-वेसु लइउ आसासिय ॥ १
लोउ पटुक्कउ णिय-णिय-भवणहो ॥ २
महि-गयणोदु डसेवि संपाइय ॥ ३
उवहि-जीह-गिरि-दाढा-भासुरं ॥ ४
सञ्झा-लोहिय-दित्त-पदीसियं ॥ ५
सुत्त णाई रवि-मडउ गिलेप्पिणु ॥ ६
तालवत्ते णिय-णामुं पगासेवि ॥ ७
णिसुरङ्ग णीसन्दण णिग्गय ॥ ८

॥

॥ घत्ता ॥

ताव विहाणँउ
गउँ अच्छन्ति व

रवि उट्टिउ रयणि-विणासेउ ।
गं दिणँयरु आउ गवेसउ ॥ ९

[२०]

उट्टेवि कुवरपुर-परमेसरु
११ ताव तिलोयहो अतुल-पयावइँ
दुद्धम-दाणवेन्द-आयामइँ
खणे कल्लाणमाल मुच्छंगय
दुक्खु दुक्खु आसासिय जावेहिँ
‘हा हा राम राम जग-सुन्दरं

जाव स-हत्थे वायइ अक्खरु ॥ १
सुरवर-भवण-विणिग्गय-णावइँ ॥ २
दिट्टइँ लक्खण-रामहुँ णावइँ ॥ ३
णिवडिय केलि व खर-पवणाहय ॥ ४
हाहाकारु पमेळिँउ तावेहिँ ॥ ५
लक्खण लक्खणलक्ख-सुहक्कर ॥ ६

11 P S wanting. 12 A उच्चंतं । व. 13 A पयंपिउ. 14 P S कुद्धउ. 15 P जोकारमि
changed to जय°, s जोकारमि.

19. 1 s णिसियरिय. 2 P S °दिसेहिँ. 3 P S °उदंतुरु. 4 A °गय°. 5 P S °भासुरु.
6 A °ल्लिप्ति. 7 P पदरिसिय, s पदरिसिया. 8 P S महब्बक°. 9 P णाउं, s णाउ. 10 P S A
विहाणउं. 11 P S °विणासिउ. 12 P S गय. 13 A दिणयर.

20. 1 P S णावइ. 2 A °रामहं. 3 S मेळिउ. 4 A °सुंदरु. 5 A लक्खणवत सुहक्कर.

[१८] १ अत्यन्त-रक्तनेत्रः. २ क्रूरः.

[१९] १ निद्राबलम्.

[२०] १ वाचते. २ नामानि ययोः.

हा हा सीएँ सीएँ 'उप्पेक्खमि
एँम पलाउ करन्ति ण थक्कइ

तिहि मि जँणहुँ एक्कं पि ण पेक्खमि' ॥ ७
खणें णीससइ ससँइ खणें कोक्कइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

खणें खणें जोयइ
खणें खणें पहणँइ

चउदिसु लोयणेंहिँ विसालेंहिँ ।
सिर-कमलु सँ इँ भु व-डालेंहिँ ॥ ९

*

[२७. सत्तवीसमो संधि]

'तो सायर-वज्जावत्त-धर
णारायण-राहँव रणें अजय

सुर-डामर असुर-विणासयर ।
णं मत्त महागय विञ्जु गय ॥

[१]

ताणन्तरें णम्मय दिट्ठु सरि
करि-मयरँ-कराहय-उहर्यँ-तड
झड-भीमँ-णिणाएं गीढ-भय
हय-हिंसिय-गज्जिय-मत्त-गय
मय-मुक्क-करम्विय वहइ मँहु
तहों धाइय गन्धर्वँ-पवह-गण
मणहर ढेक्कारें मुअन्ति वल
दँलें भमर परिट्ठिय केसरहों

सरि जण-मण-गयणाणन्द-करि ॥ १
तडर्यँड पडन्ति णं वज्झँ-झड ॥ २
भय-भीय-समुट्ठिय-चक्कहँय ॥ ३
गयवर-अणवरय-विसट्ठ-मय ॥ ४
महुयर रुण्टन्ति मिलँन्ति तँहु ॥ ५
गँण-भरिय-करञ्जलि तुट्ठ-मण ॥ ६
वँल-कमल-करम्विय सँङ्ग-दल ॥ ७
केसरु णिउ णवर जिणेसरहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो^{१०} सीराउह-सारङ्गधर
उवयारु करेप्पिणु रेवयएँ

सहुँ सीयएँ सलिलें पइट्ठु णर ।
णं तारिय सासण-देवयएँ ॥ ९

6 A जणहं. 7 s एउ. 8 s wanting, A सुसइ. 9 s A पहणहं. 10 P s सयं.

1. 1 A reads the following Dohā in the beginning.

जं जीवें दिण्णडं अन्न-भवे जीवहों कहिँ मि थियासु ।
तासु कि नासिथि सक्कियइ कम्महों पुब्ब-कियासु ॥ ४ ॥

2 A °राचव. 3 P s °मकरवराहय°. 4 A °उभय°. 5 P s तडियड. 6 s मत्त°. 7 P s भीस.
8 P s °चक्कहर. 9 s मुहुँ. 10 A णिलँति. 11 P s तहुँ. 12 s गंधपवाह°. 13 s गव°. 14 P s °ढिक्कार. 15 s दक्क. 16 A ते.

१ ऊर्ध्वं पदयामि.

[१] १ नर्मदा. २ चक्रवाकाः. ३ कस्तूरिका. ४ गान्धर्व, ° प्रथम-देव-विशेष-गणाः, ५ वृषभ,
६ शृङ्गयुगलम्.

थोवन्तरे 'महिहर भुअणे-सिरि
'इरिणप्पहु ससिपहु कणहपहु
मुंरवो व स-तालु स-वंसहरु
मयणो व महाणल-दंद्ध-तणु
तहिं तेहएँ 'सेलें अहिद्वियइँ
फेक्कारइ सिव वायसु रसइ
सरु सुणेंवि पकम्पिय जणय-सुअ
'किं' णं सुउ चवन्तु वि को वि णरु

[२]

सिरिवच्छें दीसइ विज्झइरि ॥ १
पिहुलप्पहु णिप्पहु शीणपहु ॥ २
'विसहो व स-सिङ्गु महन्त-डरु ॥ ३
'जलउ व स-वारि भडुँ व से-वणु ॥ ४
दुणिमित्तइँ तारुँ समुद्वियइँ ॥ ५
भीसावणु भण्डणु अहिलसइ ॥ ६
थिय विहि मि धरेप्पिणु भुँएँहिं भुअ ॥ ७
जिह 'सउणंउ माणिउ देइ वरु' ॥ ८

॥

॥ घत्ता ॥

१४ तं णिसुणेंवि असुर-विमद्दणेंण
'सिय लक्खणु वलु पच्चक्खु जहिं

मम्भीसिय सीय जणद्दणेंण ।
कउ सउण-विसउणेंहिं गणुँ तहिं ॥ ९

[३]

१ एत्थन्तरे रहस-समुच्छलित
१५ ति-संहासेंहिं रहवर-गयवरेंहिं
संचलें विज्झ-पहाणएँण
पप्फुलिय-धवल-कमल-वयण
तणु मज्जेँ णियम्वें वच्छें गरुअ
उम्मायण-मयणेंहिं मोहणेंहिं
१६ 'आंयलित सलित मुच्छियउ
कर मोडइ अङ्गु वलइ हसइ

आहेडएँ रुद्धुत्ति चलिउ ॥ १
तद्दण-तुरङ्गेहिं णरवरेंहिं ॥ २
लक्खिज्जइ जाणंइ राणएँण ॥ ३
इन्दीवर-दल-दीहर-णयण ॥ ४
जं णयण-कडक्खिय जणय-सुअ ॥ ५
वाणेंहिं संदीवण-सोसणेंहिं ॥ ६
पुणु दुक्खु दुक्खु ओमुँच्छियउ ॥ ७
ऊससइ ससइ पुणु णीससइ ॥ ८

2. 1 S भुवण०. 2 A हरिणप्पहु. 3 P ससिप्पहु. 4 PS मुरउ. 5 PS सताळ. 6 A मसहो. 7 PS 'दुहु०. 8 PS भड. 9 A ताम. 10 A भुयहिं. 11 S कें. 12 A निमुउ को वि चवंतु णरु. 13 P सवणउं माणिउ, S सवणउ माणिउं, A सउणोमाणिउं. 14 PS consider these two distichs as part of the main body of this Kadavaka and take distichs 1 and 2 of the next Kadavaka as the Ghattā of this Kadavaka. 15 P marginally 'गहणु' पाटे, A गहणु.

3. 1 The first two distichs of this Kadavaka are considered by P S as the Ghattā of the preceding Kadavaka. 2 P S तिसहासें. 3 The portion from णइ up to जं in 5 is missing in A. 4 S णयणेहिं दिट्ठी. 5 P आइम्मिय S जावम्मिय. 6 P उमुच्छियउ, S उम्मुच्छियउ.

[२] १ हे राजन् श्रेणिक. २ ईरण-प्रमृति विन्ध्य-गिरि-समीपे षट् पर्वताः; विन्ध्यगिरेरप्यमी नामानि केचित् प्रतिपादयन्ति. ३ वृषभः. ४ मेघ इव. ५ सत्रणो वनसहितश्च. ६ पर्वते. ७ खनिनः. (१)

[३] १ रुद्रभुजेन. २ पीठितः.

॥ घत्ता ॥

मयरद्धय-सर-ज्जारिय-तणु
'धलिर्मण्डपे वैणवसि वणवसहुं

पहु एम पज्जम्पिउ कुइय-मणु ।
उदालेवि आणहो पासु महु' ॥ ९

[४]

तं वयणु सुणेप्पिणु णर-णियरु
गज्जन्त-महागय-घण-पवळु
हय-पंडह-पगज्जिय-गयणयलु
धुअ-धवल-छत्त-डिण्डीर-वरु
सय-सन्दण-वीढ-भयावहुलु
ओरसिय-सङ्ग-दहुर-पउरु
तं पेक्खेवि गुञ्ज-पुञ्ज-णयणु
आवद्ध-तोणु धणुहरु अभउ

उत्थरिउ णाई णव-अम्बुहरु ॥ १
तिक्खग्ग-खग्ग-विज्जुल-चवळु ॥ २
सर-धारा-धोरणि-जल-वहळु ॥ ३
मण्डलिय-चाव-सुरचाव-करु ॥ ४
सिय-चमर-वलाय-पन्ति-विउलु ॥ ५
तोणीर-मोर-णच्चण-गहिरु ॥ ६
दट्ठोदु-रुदु-रोसिय-वयणु ॥ ७
धाइउ लक्खणु लेहु लेद्ध-जउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं रिउ-केङ्काल-विणासयरु
जण-मण-कम्पावणु सर-पवणुं

हलहेइहे भायरु सीर्य-वरु ।
हेमन्तु पढुंकिउ महुमहणु ॥ ९

[५]

अप्फालिउ महुमहणेण धणु
खर-पवण-पहय जलयरं रडिय
पडिया गिरि सिहरं समुच्छलिय
णिहलिय भुअङ्ग विसग्गि मुक्कं
दुक्कन्तेहिं वहल फुलिङ्ग वित्त
धगधगधगन्ति मुत्ताहलाइं
हसहसहसन्ति पुलिणन्तराइं
ते धणुंहरु-सहें णिट्टुरेण

धणु-सहें समुट्ठिउ खर-पवणु ॥ १
रडियागमे वज्जासणि पडिय ॥ २
उच्छलिय चलिय महि णिहलिय ॥ ३
मुक्कन्त णवर सायरंहुं दुक्क ॥ ४
घण सिप्पि-सङ्ग-संपुड पलित्त ॥ ५
कढकढकढन्ति सायर-जलाइं ॥ ६
जलजलजलन्ति भुअणन्तराइं ॥ ७
रिउ मुक्क पयाव-मडप्फरेण ॥ ८

7 A धलिर्वडप. 8 PS जाणहुं.

4. 1 PS °महागय°. 2 A °पवल. 3 A °चवल. 4 A °पहयसगज्जिय; PS °पगज्जिउ.
5 PS °पवलु. 6 PS °छत्तु. 7 S °वर, A °घर. 8 S °चावकर. 9 A °भयवहुलु. 10 S
missing. 11 S लद्धउ अजउ. 12 PS सियपवणु. 13 P °पउरु. 14 A पढंकिउ.

5. 1 A जलवर. 2 S सिहरि, A सिह. 3 PS मुक्क. 4 A मुत्तंत. 5 PS सायरहु दुक्क.
6 S बहण. 7 S भुवण°. 8 A धणुवर°.

३ वनवासिनी.

[४] १ मेषः. २ शत्रुः वर्षाकालक. ३ शीतवातः (Reading सियपवणु).

॥ वत्ता ॥

भय-मीय विसण्डुल णर पवर लोटाविय हय गय धय चमर ।
घणुहर-टङ्कार-पवण-पहय रिउ-तरुवर णं सय-खण्ड गय ॥ ९

[६]

१ एत्थन्तरे तो विञ्झाहिवइ सहुँ मन्तिहिँ रुद्धभुत्ति चवइ ॥ १
‘इमु काइँ होज्ज तइलोक-भउ किं मेरु-सिहरु सय-खण्ड गउ ॥ २
किं दुन्दुहि हय सुरवर-जणेण किं गज्जिउ पलय-महाघणेण ॥ ३
किं गयण-मगेँ तँडि तडयडिय किं महिहरेँ वज्जासणि पडिय ॥ ४
किं कालु कयन्त-मित्तु हसिउ किं वलयामुहु समुहु रसिउ ॥ ५
१० किं इन्दहोँ इन्दत्तणु टलिउ खय-रक्खसेण किं जगु गिलिउ ॥ ६
किं गउ पायालहोँ भुवणयलु वम्भण्डु फुट्टु किं गयणयलु ॥ ७
किं खय-मारुउ ठाणहोँ चलिउ किं असणि-णिहाउ समुच्छलिउ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

किं सयल स-सायर चलिय महि किं दिसि-गय किं गज्जिय उवहि ।
११ एँउ अक्खु महन्तउ अँच्छरिउ कहोँ सहेँ तिहुअणु थरहरिउ’ ॥ ९

[७]

जं णरवइ एव चवन्तु सुउ पभणइ सुभुत्ति कण्टइय-भुउ ॥ १
‘सुणि अक्खमि जं तइलोक-भउ णउ मेरु-सिहरु सय-खण्ड गउ ॥ २
णउ दुन्दुहि हय सुरवर-जणेण णउ गज्जिउ पलय-महाघणेण ॥ ३
१० णउ गयण-मगेँ तँडि तडयडिय णउ महिहरेँ वज्जासणि पडिय ॥ ४
णउ कालु कियन्त-मित्तु हसिउ णउ वलयामुहु समुहु रसिउ ॥ ५
णउ इन्दहोँ इन्दत्तणु टलिउ खय-रक्खसेण णउ जगु गिलिउ ॥ ६
णउ गउ पायालहोँ भुवणयलु वम्भण्डु फुट्टु णउ गयणयलु ॥ ७
णउ खय-मारुउ थाणहोँ चलिउ णउ असणि-णिहाउ समुच्छलिउ ॥ ८
११ णउ सयल स-सायर चलिय महि णउ दिसि-गय णउ गज्जिय उवहि ॥ ९

9 P s consider these two distichs as part of the main body of this Kaḍavaka and take distichs 1 and 2 of the next Kaḍavaka as the Ghattā of this Kaḍavaka. 10 A सयखंडु.

6. 1 The first two distichs of this Kaḍavaka are considered by P s as the Ghattā of the preceding Kaḍavaka. 2 A तड. 3 P S काल. 4 P S कियंतु, S कियंतु. 5 This hemistich is missing in A. 6 P गज्जिउ. 7 P अच्छरिउं.

7. 1 S णं. 2 A तड. 3 P S काल. 4 P S A कियंतु. 5 P A वलयामुहुं. 6 A सइळ. 7 P उवहि, S उरय.

[७] १ मञ्जी.

॥ घत्ता ॥

सिय-लक्खण-वल-गुण-वन्तएण गीसेसु वि जँउ धवलन्तएण ।
सु-कलत्ते जिम जण-मणहरेण एँउ गज्जिउ लक्खण-धणुहरेण ॥ १०

[८]

सुणो णरवइ असुर-परायणहुँ	जं चिण्हइँ वल-णारायणहुँ ॥ १
तं अत्थि असेसु वि वर्णवसहुँ	सुरभुवणुच्छलिय-महाजसहुँ ॥ २
एक्कहो ससि-णिम्मल-धवलुँ तणु	अण्णेक्कहो कुवल-य-धण-कंसणु ॥ ३
एक्कहो मँहि-माणदण्ड चलण	अण्णेक्कहो दुहम-दणु-दलण ॥ ४
एक्कहो तणु मज्झु पदीसियउ	अण्णेक्कहो कमल-विहूसियउ ॥ ५
एक्कहो वच्छत्थलु सिय-सहिउ	अण्णेक्कहो सीयाणुगगहिउ ॥ ६
एक्कहो भीसावणु हेइ हलु	अण्णेक्कहो धणुँहरु अतुल-वलु ॥ ७
एक्कहो मुहु ससिकुन्दुज्जलउ	अण्णेक्कहो णव-धण-सामलँउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥¹⁸

तं वयणु सुणोप्पिणु विगयँ-मउ	णीसन्दणु णिग्गउ णित्तुरउ ।
वलएवहो चलणोहिँ पडिउ किह	अहिसेएँ जिणिन्दहो इन्दु जिह ॥ ९

[९]

जं रुद्धुत्ति चलणोहिँ पडिउ	तं लक्खणु कोवाणलँ चडिउ ॥ १
धगधगधगन्तु	धरधरधरन्तु ॥ २
'हणु हणु' भणन्तु	णं कलि कियन्तु ॥ ३
करयँल धुणन्तु	महि णिइलन्तु ॥ ४
विप्फुरिय-वयणु	णिड्डुरिय-णयणु ॥ ५
महि-माणदण्डु	परवल-पचँण्डु ॥ ६
सो चविउ एव	'रिउ मेळि देव ॥ ७
जं पइज एण	पुज्जइ हएण' ॥ ८

8 A °गुणवल°. 9 P S जय, A जस.

8. 1 P S चिण्हउं. 2 P S वर्णवसहो. 3 P S °महाजसहो. 4 P S A °धवल. 5 A मणि
6 S मज्झि. 7 P °सहिअउं. 8 P S एक्कहे. 9 A वलु. 10 A धणुधणु. 11 A सुहुँ. 12 P S
°सामलउं. 13 P S treat this and the following Kaḍavaka as one and
hence the following Ghattā lines as part of the present Kaḍavaka.
14 P सुणोविणु. 15 P विगयगउ and glossed as विगतगवः. 16 P S अहिसेय, A अहिसेइ.

9. 1 This Kaḍavaka is treated by P S as a part of the preceding
Kaḍavaka. 2 A कोवाणलज्जलिउ. 3 P S हणंतु. 4 S A करयलु. 5 A पयँहु. 6 P S एम.

[८] १ कृष्णम्. २ मानदण्डौ. ३ आशुधं हलः. ४ विगतगवः (reading विगतगउ).

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेपिणु अतुल-वलु
‘मुक्काउहु जो चलणोहिं पडइ

‘सुणु लक्खण’ पचविउ एव वलु ।
तें णिहएं को जसु णिवडइ ॥ ९

[१०]

५ थिउ लक्खणु वलेण णिवारियउ
णं सायरु मज्जायएँ धरिउ
‘खल खुह पिसुण तउ सिर-कमलु
वैरि वालिखिल्लु मुँएँ वन्दि लहु
तं णिसुणोवि णिविसें मुक्कुं पहु
१० णं गेह-कल्लोलें अमिय-तणु
णं मुक्कु सुअणु दुज्जण-जणहों
णं मुक्कु भविउ भव-सायरहों

णं वर-गइन्दु कण्णारियउ ॥ १
पुणु पुणु वि चविउ मच्छर-भरिउ ॥ २
एत्तडेण चुक्कु जं णविउ वलु ॥ ३
णं तो जीवन्तु ण जाहि महु’ ॥ ४
णं जिणवरेण संसार-‘पहुं ॥ ५
णं गरुड-विहङ्गें उरंगमणु ॥ ६
णं वारणु वारि-णिवन्धणहों ॥ ७
तिह वालिखिल्लु दुक्खोयरहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१ते रुद्धुत्ति-वल-महुमहण
१५ थियँ जाणइ ११तेहिं समाणु किह

सँहुँ कुबर-णिवेण चयारि जण ।
चउ-सायर-परिमिय पुहइ जिह ॥ ९

[११]

तो१ वालिखिल-विज्झाहिवइ
कम-कमलेहिं णिवडिय हलहरहों
सइँ हत्थें वलेण समुट्टविय
२० भरहहों पाइँक्क वे वि थवियँ
उत्तिण्णइँ तिणिण वि महिहरहों
णं मेरु-णियम्बहों किण्णरइँ
विणु खेवें तांवि पराइयइँ
णवरुण्हउ रवियर-तावियउ

अवरोप्परु णेह-णिवद्ध-मइँ ॥ १
णमि-विणमि जेम चिरु जिणवरहों ॥ २
उवँहि व समएहिं परिट्टविय ॥ ३
लहु णिय-णिय-णिलयँहुँ पट्टविय ॥ ४
णं भवियइँ भव-‘दुक्खोयरहों ॥ ५
णं सग्गहों चवियइँ सुरवरइँ ॥ ६
किर सलिलु पियँन्ति तिसाइयइँ ॥ ७
सु-कुडुम्बु व खल-संतावियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

२५ दिणयर-वर-किरण-करम्बियउ
पइसन्तु ण भावइ मुहहों किह

जलु लेवि भुएँहिं परि-‘चुंम्वियउ ।
अण्णाणहों जिणवर-वयणु जिह ॥ ९

७ P S लक्खणु एव पचविउ वलु.

१०. १ A नमिउं. २ A धरि. ३ P S सुह. ४ A मुक्क. ५ P S वहु. ६ P S उरगगणु.
७ A दुक्खायरहो. ८ A तें. ९ P S सहु. १० A तह. ११ A तेण.

११. १ A ता. २ P S रइ. ३ P एवहि वे समइहिं, ४ एवहि व समइहि. ४ S पाविह
५ A ठविय. ६ P S णिलयहु, A णिलयहिं. ७ S भावियइ. ८ A दुक्खायरहो. ९ P S पियंत
१० P S णवरुण्हउ. ११ P S करंम्वियउं. १२ P परिचुंम्वियउं, ४ पचुंम्वियउ, A परिउवियउ

[१०] १ मार्गः. २ राहुणा चन्द्र इव. ३ गर्ता-सकाशात.

[११] १ दुःखोदरात. २ तापी नदी.

[१२]

पुणु तावि तरेप्यिणु णिग्गयइँ
वइदेहि पर्जम्पिय हरिवलहों
'जल्लु कहि मि गवेसहों णिम्मलउ
तं इच्छमि भविउ व जिण-वयणु
वल्लु धीरइ 'धीरी होहि धणें
थोवन्तरु पुणु विहरन्तएँहिँ
लक्खिज्जइ अरुणंगामु पुंरउ
कप्पदुमो व चउदिसु सुहलु

णं तिण्णि मि विज्झं-महागयइँ ॥ १
सुरवर-करि-कर-धिर-करयलहों ॥ २
जं तिस-हरु हिम-संसि-सीयलउ ॥ ३
णिहि णिद्धणु जच्चन्धु वं णयणु' ॥ ४
मं कायरु मुहु करि मिगणयणें' ॥ ५
मल्हन्तेहिँ पउ पउ देन्तएँहिँ ॥ ६
वय-वन्ध-विहूसिउ जिह मुंरउ ॥ ७
णट्टावउ व णाडय-कुसलु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तं अरुणगामु संपाइयइँ
सो णउ जणु जेण ण दिट्ठाइँ

मुणिवरं इवँ मोक्खं-तिसाइयइँ ।
घरु कविल्लहों गम्पि पइट्ठाइँ ॥ ९

[१३]

णिज्झाइउ तं घरु दियवरहों
णिरवेक्खु 'णिरक्खरु केवलउ
णिबत्थु णिरत्थु णिराहरणु
तहिँ तेहएँ भवणें पइट्ठाइँ
कुञ्जर इव गुहें आवासियइँ
अच्छन्ति ताव तहिँ एकु खणु
'मरु मरु णीसरु णीसरु' भणन्तु
भय-भीसणु कुंरुडु सणिच्छरु व

णं परम-थाणु थिरु जिणवरहों ॥ १
'णिम्माणु णिरंजणु णिम्मलउ' ॥ २
'णिद्धणु णिंभत्तं णिम्महणु ॥ ३
छुडु छुडु जलु पिँवि णिविट्ठाइँ ॥ ४
हरिणा इव वाहुत्तासियइँ ॥ ५
दिउ तायं पराइउ कुइय-मणु ॥ ६
धूमंज्जउ व धगधगधगन्तु ॥ ७
वहु उवविस विण्णउ विसहँरु व ॥ ८

॥ वत्ता ॥

'किं कौलु कियन्तु मित्तु वरिउं किं केसरि केसरिगें धरिउ ।
को जम-मुह-कुहरहों णीसरिउ जो भवणें महारएँ पइसरिउ' ॥ ९

12. 1 PS विंझु महगयइँ. 2 PS पजंपिउ, A पयंपिय. 3 PS णिम्मलउं. 4 PS 'सम.
5 S इच्छिउ. 6 S अ. 7 PS करि मुहु. 8 A जंतएँहिँ. 9 PS अरुणगाम. 10 A पुरउ.
11 A संपाइयउं. 12 PS मुणिवरइँ व. 13 P मोक्खु. 14 P कविल्लुं.

13. 1 A णिज्झाइयउ. 2 A णिबलउ. 3 PS णिंभत्तं. 4 S आवासियइँ. 5 P वाहें
तासिआह, S वाहें तासिआह. 6 A ताम. 7 PS कुरुड. 8 PS सणिच्छरो. 9 PS विसहरो.
10 S काल. 11 PS धरिउ. 12 A केसरिगि वरिउ. 13 PS भवणु. 14 S महारइ.

[१२] १ अग्ने. २ वाटी चर्मवर्ध्नी च. ३ देवसा... कर्माभावश्च द्वाभ्यां ल्यकम्.

[१३] १ अक्षर-विनादयाभ्यां ल्यकम्. २ समीप-गृह-रहितं ज्ञानमयं च. ३ गौरवहीनम्.
४ अलिञ्जर-पापाभ्यां ल्यकम्. ५ धूलि-कर्माभ्यां ल्यकम्. ६ धण-चापाभ्यां ल्यकम्. ७ भक्ति-भोजन;
व्यपेतं हीनम्. ८ मन्थन-रहितम्. ९ अभिबत्. १० क्रूर.

[१४]

तं वयणु सुणेपिणु महुमहणु,
 णं धाइउ करि थिरं-थोर-करु
 उग्गामेवि भामेवि गयणयले
 १ करे धरिउ ताव हलपहरणेण
 दिय-वाल-गोलं-पसु-तवसि-तिय
 तं गिसुणेवि दियवरु लक्खणेण
 ओसरिउ वीरु पच्छामुहउ
 पुणु हियएँ विसूरइ खणे जे खणे

आरुहु समर-भर-उवहणु ॥ १
 उम्भूलिउ दियवरु जेम तरु ॥ २
 किर धिवइ पडीवउ धरणियले ॥ ३
 'मुएँ मुएँ मा हणहि अकारणेण ॥ ४
 छ वि परिहरु मेलेवि^१ माण-किय' ॥ ५
 णं मुक्कु अलक्खणु लक्खणेण ॥ ६
 अक्कुस-णिरुहु णं मत्त-गउ ॥ ७
 'सय-खण्ड-खण्डु वरि हूउ रणे ॥ ८

१०

॥ घत्ता ॥

वरि पहरिउ वरि किउ तवचरणु वरि विसु हालाहलु वरि मरणु ।
 वरि अच्छिउ गम्पिणु गुहिल-वणे णवि णिविसु वि णिवसिउ अवुहयणे' ॥ ९

[१५]

तो तिण्णि वि एमं चवन्ताइ
 १० दिण-पच्छिम-पहरे विणिग्गयाइ
 वित्थिण्णु रण्णु पइसन्ति जाव
 गुरु-वेसु करेवि सुन्दर-सराइ
 वेक्कण-किसलय क-का रवन्ति
 वण-कुक्कुड कु-क्कु आयरन्ति
 २० 'पियमाहवियउ को-कउ लवन्ति
 सो तरुवरु गुरु-गणहर-समाणु

उम्माहउ जणहो जणन्ताइ ॥ १
 कुञ्जर इव विउल-वणहो गयाइ ॥ २
 णग्गोहु महादुमु दिहु ताव ॥ ३
 णं 'विहय पढावइ अक्खराइ ॥ ४
 वाउलि-विहङ्ग कि-की भणन्ति ॥ ५
 अण्णु वि कलावि के-कइ चवन्ति ॥ ६
 कं-का वप्पीह समुल्लवन्ति ॥ ७
 फल-पत्त-वन्तु अक्खर-णिहाणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पइसन्तेहिँ असुर-विमहणेहिँ सिरु णामेवि राम-जणहणेहिँ ।
 परिअञ्जेवि दुमु दसरह-सुएँहिँ अहिणन्दिउ मुणि व सँ इं भु एँहिँ ॥ ९

*

14. 1 S आरुहु. 2 S थिरकर. 3 A ताम. 4 P S परिहर मेलेवि मणुस इय, A मिच्छिवि.
 5 A पच्छामुहउ. 6 P S अच्छउ. 7 P S णिविसउ, A अच्छिउ.

15. 1 P S एव. 2 A ककार भणन्ति. 3 P S °विहंगु. 4 P S A कलाव. 5 A पियमाह-
 विभो. 6 P S सयं.

[१४] १ गो-पञ्च-वृक्षाश्च (!).

[१५] १ पक्षिणाम्. २ काकः. ३ चवन्ति. ४ मयूराः. ५ कोकिलाः.

[२८. अट्टावीसमो संधि]

सीय स-लक्खणु दासरहि तरुवर-मूलें परिट्टिय जावेंहिं ।
पसरइ सु-कइहें कव्वु जिह मेह-जालु गयणङ्गणें तावेंहिं ॥

[१]

पसरइ मेह-विन्दु गयणङ्गणें	पसरइ जेम सेणु समरङ्गणें ॥ १	5
पसरइ जेम तिमिरु अण्णाणहों	पसरइ जेम बुद्धि वहु-जाणहों ॥ २	
पसरइ जेम पाउ पाविट्टहों	पसरइ जेम धम्मु धम्मिड्डहों ॥ ३	
पसरइ जेम जोण्ह मैयवाहहों	पसरइ जेम कित्ति जगणाहहों ॥ ४	
पसरइ जेम चिन्त धण-हीणहों	पसरइ जेम कित्ति सुकुलीणहों ॥ ५	
पसरइ जेम सहु सुर-तूरहों	पसरइ जेम रासि णहें सूरहों ॥ ६	10
पसरइ जेम दवग्गि वणन्तरे	पसरइ मेह-जालु तिह अम्वरें ॥ ७	
तडि तडयडइ पडइ घणु गज्जइ	जाणइ रामहों सरणु पवज्जइ ॥ ८	

॥ यत्ता ॥

अमर-महाधणु-गहिय-करु	मेह-गइन्दे चडेवि जस-लुद्धउ ।	
उप्परि गिम्भ-णराहिवहों	पाउस-राउ गाइँ सण्णद्धउ ॥ ९	15

[२]

जं पाउस-णरिन्दु गलगज्जिउ	धूली-रउ गिम्भेण विसज्जिउ ॥ १	
गम्पिणु मेह-विन्दे आलगउ	तडि-करवाल-पहारेंहिं भग्गउ ॥ २	
जं विवरम्महु चलिउ विसालुउ	उट्टिउ 'हणु' भणन्तु उण्हालउ ॥ ३	
धगधगधगधगन्तु उद्धाइउ	हसहसहसहसन्तु संपाइउ ॥ ४	20
जलजलजलजलजल पचलन्तउ	जालावलि-फुलिङ्ग मेळन्तउ ॥ ५	
धूमावलि-धयदण्डुभेपिणु	वर-वाउलि-खग्गु कट्ठेपिणु ॥ ६	
झडझडझडझडन्तु पहरन्तउ	तरुवर-रिउ-भड-थड भजन्तउ ॥ ७	
मेह-महागय-घड विहडन्तउ	जं उण्हालउ दिट्ठु भिडन्तउ ॥ ८	

1. 1 P S बुद्धि जेम. 2 Between ५ and ६ P S read this extra pāda:
पसरइ जेम किलेसु णिहीणहों. 3 P S पसरिउ. 4 P S °महद्धउ गहिय करे.

2. 1 P करवाडु. 2 P A विवरामुहुं. 3 A विसालुउ. 4 P S °खग्ग. 5 P S तरुवर.
6 P S °महग्गय°. 7 Between ८ and ९ P S read the following extra
lines:

पाउस-राउ ताव संपत्तउ जलकल्लोकसन्ति पयडंतउ ॥

[१] १ चन्द्रस. २ दुन्दुभिः. ३ रसमयः. ४ सीता.

॥ घत्ता ॥

धणु अप्फालिउ पाउसेण
 चोएँवि^१ जलहर-हत्थि-हड

तडि-टङ्कार-फार दँरिसन्ते ।
 णीर-सरासेणि मुक्क तुँरन्ते ॥ ९

[३]

१ जल-वाणासणि-धायहिँ घाइउ
 दहुर रडेँवि लग्ग णं सज्जण
 णं पूरन्ति सरिउ अक्कन्देँ
 णं परहुय विमुक्क उग्घोसेँ
 णं सरवर बहु-अंसु-जलोह्लिय
 ११ णं उण्हविअ दवग्गि विओएँ
 णं अत्थमिउँ दिवायरु दुक्खेँ
 रत्त-पत्त तरु पवणाकम्पिय

१ गिम्भ-णराहिउ रणेँ विणिवाइउ ॥ १
 णं णच्चन्ति मोर खल दुज्जण ॥ २
 णं कइ किलिकिलन्ति आणन्देँ ॥ ३
 णं वरहिण लवन्ति परिओसेँ ॥ ४
 णं गिरिवर हरिसेँ गज्जोह्लिय ॥ ५
 णं णच्चिय महि विविह-विणोएँ ॥ ६
 णं पइसरइ रयणि सइँ सुक्खेँ ॥ ७
 'केण वि वहिउ गिम्भु' णं^{१०} जम्पिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेहएँ कालेँ भयाउरएँ
 १५ तरुवर-मूलेँ स-सीय थिय

वेणिँ मि वासुएव-वलएव ।
 जोगु लएँविणु मुणिवर जेम ॥ ९

[४]

हरि-वल रुक्ख-मूलेँ थिय जावेँहिँ
 गउ णिय-णिवहोँ पासु 'वेवन्तउ
 'णउ जाणहुँ किं सुरवर किं णर
 २० धणुधर धीर चडायउ उडभेँवि
 तं णिसुणेविणु वयणु महाइउ
 विञ्ज-महीहर-सिहरहोँ आइउ
 ताम णिहालिय वेणि वि दुद्धर
 अवही-णाणु पउञ्जइ जावेँहिँ

गयमुहु जक्खु पणासेँवि तावेँहिँ ॥ १
 'देव देव परिताहि' भणन्तउ ॥ २
 किं विज्जाहर-गण किं किण्णर ॥ ३
 सुत्त महारउ णिलउ णिरुम्भेँवि' ॥ ४
 पूर्वणु मम्भीसन्तु पंधाइँउ ॥ ५
 तक्खणेँ तं उडेँसु पराइउ ॥ ६
 सायर-वज्जावत्त-धणुद्धर ॥ ७
 लक्खण-राम मुणिय मणेँ तावेँहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

२५ पेक्खेँवि^१ हरि-वल वे वि जण
 मणि-कञ्चण-धण-जण-पउरु

पूवण-जक्खेँ जय-जस-लुद्धेँ ।
 पट्टणु किउ 'णिमिसद्धहोँ अद्धेँ ॥ ९

८ P S दसिसंतउ. ९ P S A चोइवि. १० A सरासणु. ११ P S तुँरंतउ.

३. १ S °वाणासण°. २ P घाइहिँ, A °घायं. ३ P S णिणु. ४ P S विमुक्क. ५ A उण्हविउ.
 ६ A पओएँ. ७ P S अत्थविउ. ८ A केँ नरि. ९ P S कहिउ. १० P उजंपिय. ११ A लएँपिणु.

४. १ A वडाविउ. २ A पूअणु. ३ P S पराइउ. ४ P S A पेक्खवि.

[२] १ प्रेर्य.

[३] १ बाणैः. २ नष्टाः.

[४] १ कम्पमानः. २ रक्षां कुरु. ३ प्रकर्षेण राजितः ? (Reading पराइउ). ४ निमिषार्धेण

पुणु रामउरि पघोसिय लोएं
दीहर-पन्थ-पसारिय-चलणी
खाइय-तिवलि-तरङ्ग-विहूसिय
विउलाराम-रोम-रोमस्त्रिय
गिरिवर-सरिय-पसारिय-वाही
सरवर-णयण-घणैज्जण-अस्त्रिय
देउल-वयण-कमलु दरिसेप्पिणु
णाइं णिहालइ दिणयर-दप्पणु
वइसेवि वलहों पासें वीसत्थउ

एकवीस-वर-मुच्छणउ
'बुंजिं भडारा दासरहि

सुप्पहाउ उच्चारिउ जावेहिं
दिट्ठु णयरु जं जक्ख-समारिउ
सं-घणुं स-कुम्भु सं-सवणु सं-सङ्कउ
पुणु वि पडीवउ णयरु णिहालिउ
णाइं सुकइहे कवु पयइत्तिउ
णाइं सेणु रहवरहं अमुक्कउ
णाइं सुरेउ चच्चरि-चरियालउ
अह किं वणिणएण खणें जे खणें

5. 1 PS °तरंति°. 2 A °चस्त्रिय. 3 PS जण°. 4 A °पिंजिय. 5 A विणिग्गिउं. 6 A आलाविणि°. 7 A °मुच्छणउं. 8 PS विउज्जि.

6. 1 PSA वलिवि. 2 S सुरि°. 3 PSA सधणु. 4 PS सुकइक्खु व. 5 A °वित्तउ
6 PS °चरियालउं. 7 A सुट्टु°. 8 PS °छुहालउं. 9 A तं न अत्थिय जं पट्ठेण.

[५] १ चन्द्रवधूटिका. २ प्रवाहेति (?). ३ 'चूडों' लोके. ४ नाभिः (?). ५ मेघ-कज्जल.
६ संस्कृता. ७ विस्रब्धः. ८ गायति. ९ वीणाहस्तः. १० जागृतो भव (Reading विउज्जि).

[६] १ हे देव तव सुप्रभातोऽस्तु. २ घनराजिः. ३ श्रवणः. ४ संपक्कमः (?) चंद्रः. ५ सह
संक्रमेण संक्रान्त्या व[र्त]ते, नगरं सह शङ्कया वर्तते, अकस्मादुत्पन्नत्वात् । वा, सह[सं]क्रमेण
मार्गेण वर्तते । द्वितीयोऽर्थः, सं सुखं, कं तदर्थं कं पानीर्थं संकं, सह संकेन वर्तते, संकं शब्दो जलवा-
चकः. ६ प्रजा पदानि च. ७ चिन्ता-चित्राभ्याम्. ८ चतुष्पथे भूमिमण्डनं च. ९ शोभन-खः शब्दः,
सुरतं वा. १० उभयमपि बर्करचेष्टिताभ्याम्. ११ छुहा बुसुक्षा चूर्णश्च.

[५]

णं गारिहे अणुहरिय णिओएं ॥ १
कुसुम-णियत्थ-वत्थ-साहरणी ॥ २
गोउर-थणहर-सिहर-पदीसिय ॥ ३
इन्दगोव-सय-कुक्कुम-अस्त्रिय ॥ ४
जलं-फेणावलि-वैलय-संणाही ॥ ५
सुरधणु-भउह-पदीसिय-पस्त्रिय ॥ ६
वर-मयलज्जण-तिलउ छुहेप्पिणु ॥ ७
एम विणिग्गिउं सयलु वि पट्ठणु ॥ ८
आलावइ आलावणि-हत्थउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सत्त वि सर ति-गाम दरिसन्तउ ।
सुप्पहाउ तउ' एव भणन्तउ ॥ १०

[६]

रामें वल्लेवि पलोइउ तावेहिं ॥ १
णाइं णहइणु सूर-विहूसिउ ॥ २
स-वुहु स-तारउ स-गुरु-संसङ्कउ ॥ ३
णाइं महावणु कुसुमोमालिउ ॥ ४
णाइं णरिन्द-चित्तु वहुं-चित्तउ ॥ ५
णाइं विवाह-गेहु स-चउक्कउ ॥ ६
णावइ डिम्भउ अहिय-छुहालउ ॥ ७
तिहुअणें णत्थिय जं पि तं पट्ठेणें ॥ ८

तं पेक्खेप्पिणु रामउरि
मञ्छुडु उज्झाउरि-णयरु

॥ घत्ता ॥

भुअण-संहास-विणिग्गय-गामहो ।
जाय महन्त भन्ति मणे रामहो ॥ ९

[७]

१ जं किउ विम्भउ सासय-लेक्खे
'तुम्हारउ वण-वसणु णिएप्पिणु
एम भणेवि सुवित्थय-गामहो
दिणु मउडु साहरणु विलेवणु
पुणु वि पजम्पिउ जक्ख-पहाणउ
१० एव वोळु णिम्माइय जावेहि
जण-मणहरु सुर-सग-समाणउ
तं पेक्खेवि आसङ्किउ वम्भणु

वुत्तु णवेप्पिणु पुअण-जक्खे ॥ १
किउ मैइ पट्टणु भाउ धरेप्पिणु ॥ २
दिणु सुघोस वीण तं रामहो ॥ ३
मणि-कुण्डल कडिसुत्तउ कङ्कणु ॥ ४
'हउं तउ भिच्चु देव तुहुं राणउ' ॥ ५
कविले णयरु णिहालिउ तावेहि ॥ ६
वासवपुरहो वि खण्डइ माणउ ॥ ७
'केहिं वित्थिणु रणु केहिं पट्टणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

थरहरन्तु भय-मारुएण
मम्भीसन्ति मियङ्कमुहि

समिहउ धिवेवि पणासइ जावेहि ।
पुरउ स-माय जक्ख थिय तावेहि ॥ ९

[८]

'हे दियवर चउवेय-पहाणा
जण-मण-वल्लहु राहव-राणउ
तङ्कव-भमर-सएहिं ण मुच्चइ
२० जोयइ(?) जिणवर-गामु लएइ
एउं जं वासव-दिसए विसालउ
तहिं जो गम्पि करइ जयकारु
तं णिसुणेप्पिणु दियवरु धाइउ
तं चारित्तसूरु मुणि वन्देवि

किण्ण मुणहि रामउरि अयाणा ॥ १
मत्त-गइन्दु व पंगलिय-दाणउ ॥ २
देइ असेसु वि जं जसु रुच्चइ ॥ ३
तहो कट्टेप्पिणु पाणइ देइ ॥ ४
दीसइ तिहुअण-तिलउ जिणालउ ॥ ५
पट्टणे णवरि तासु पइसारु ॥ ६
णिविसे जिणवर-भवणु पराइउ ॥ ७
विणउ केरेवि अप्पाणउ णिन्देवि ॥ ८

10 S अत्ति.

7. 1 A साहस°. 2 P S पुणु पणवेप्पिणु. 3 P S तुम्हारउं. 4 P S सइ. 5 P S सवि-
थय°. 6 P S A दिणु. 7 P S सघोस. 8 A °पहाणउं. 9 A राणउं. 10 A णिहालिउं. 11
P S A °समाणउं. 12 S A माणउं. 13 P S A कहि. 14 S A समाउ.

8. 1 P S A °रणउं. 2 A परिणिय°. 3 P S A °दाणउं. 4 P जोवइ corrected to
जोयइ, S जोइ, A जोपइ. 5 The portion from °इ देइ up to पट्टणे णव° in line 6 is
missing in A. 6 P एउं. 7 P S जिणालउं. 8 P S A वंदेवि. 9 A करेइ. 10 A अप्पाणउं.

१२ स्वभाषया.

[७] १ निष्पन्दनेत्रेण यक्षेण. २ समिधीनां (?) काष्ठभारः. ३ चन्द्रवदनी यक्षिणी.

[८] १ 'तर्कक' याचकाः. २ पूर्वदिशा.

॥ घत्ता ॥

पुच्छिउ मुणिवरु दियवरेंण
धम्मं लइपं कवणु फलु

‘दाणहों कारणें विणु सम्मत्तें ।
एउ देव महु अक्खि पयत्तें’ ॥ ९

[९]

मुणिवरु कहेंवि लगु ‘विउलाइँ
धम्मं भड-थड हय गय सन्दण
धम्मं सगु भोगु सोहंगु
धम्मं रिद्धि विद्धि सिय संपय
धम्मं कडय-मउड-कडिसुत्ता
धम्मं रज्जु करन्ति णिरुत्ता
धम्मं वर-पलङ्कें सुत्ता
धम्मं णर देवत्तणु पत्ता
धम्मं णर रमन्ति वर-विलयउ
धम्मं सुन्दरु अज्जु णिवद्धउ

किं जणें ण णियहि धम्मफलाइँ ॥ १ 5
पावें मरण-विओयकन्दण ॥ २
पावें रोगु सोगु दोहंगु ॥ ३
पावें अत्थ-हीण णर विहय ॥ ४
पावें णर दालिहें भुत्ता ॥ ५
पावें पर-पेसण-संजुत्ता ॥ ६ 10
पावें तिण-संथारें विभुत्ता ॥ ७
पावें णरय-घोरें संकन्ता ८
पावें दूहविउ दुह-णिलयउ ॥ ९
पावें पङ्गुलउ वि वहिरन्धउ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

धम्म-पाव-कप्पहुमहुँ
वेण्णि मि असुह-सुहङ्करइँ

आयइँ जस-अवर्जस-वहुलाइँ ।
जाइँ पियइँ लइ ताइँ फलाइँ’ ॥ ११

[१०]

मुणिवर-वयणोंहें दियवरु वासिउ
पञ्चाणुवय लेवि पधाइउ
गम्पिणु पुणु ‘सोम्महें वज्जरियउ
कहिं वणु कहिं पट्टणु कहिं राणउ
कहिं मइ कहिं लद्धइँ जिण-वयणइँ
तं णिसुणेवि सोम्म गज्जोलिय
पुणु संचलइँ वे वि तुरन्तइँ
साहु णवेप्पिणु पासें णिविट्ठइँ

लइउ धम्मु जो जिणवरें भासिउ ॥ १
णिय-मन्दिरु णिविसेण पराइउ ॥ २ 20
‘अज्जु महन्तु दिट्ठु अच्चरियउ ॥ ३
कहिं मुणि दिट्ठु अणेयइँ जाणउ ॥ ४
वहिरें कण्णन्धेण व णयणइँ’ ॥ ५
‘जाहुँ णाहुँ तहिं’ एम पवोलिय ॥ ६
तिहुयण-तिलउ जिणालउ पत्तइँ ॥ ७ 25
धम्मु सुणेप्पिणु णयरें पइट्ठइँ ॥ ८

9. 1 P SA कहिवि. 2 PA ०विउय०. 3 SA तहो सोक्खु. 4 SA दुक्खु. 5 A संपत्ता. 6 P ०अजसं, A ०अवसं. 7 PA फलहं, S फलह.

10. 1 P जिणवरि. 2 A मंदिरु णिवरु णिविसेण. 3 A वज्जरिअउं. 4 SA राणउं. 5 PA जाणउं. 6 PA मइं. 7 P S णाहु, A णाहुं. 8 S गंपि तं यत्तइं.

[९] १ विगतदयाः. २ यानि प्रियानि.

[१०] १ स्वमार्यया सह (१).

स० प० अ० ९

॥ घत्ता ॥

दिट्टु णरिन्दत्थाणु णंहु
णर-णक्खत्तहिं परियरिउ

जाणइ-मन्दाईणि-परिचिउ ।
हरि-वल-चन्द-दिवायर-मण्डिउ ॥ ९

[११]

१ हरि अत्थाण-मग्गे जं दिट्टुउ
णहु कुरङ्कु व वारणवारहो
णहु मियङ्कु व अब्भपिसायहो
णहु मुअङ्कु व गरुड-विहङ्गहो
णहु अणङ्कु व सासय-गमणहो
१० णहु महीहरो व सुर-कुलिसहो
तिह णासन्तु पदीसिउ दियवरु
मण्ड धरेवि करेण करग्गए
दुक्खु दुक्खु अप्पाणउ धीरेवि
दुइम-दाणविन्द-वल-मइहो

दियवरु पाण लएवि पणहुउ ॥ १
णहु जिणिन्दु व भव-संसारहो ॥ २
णहु दवग्गि व णीर-णिहायहो ॥ ३
णहु खरो व मत्त-मायङ्गहो ॥ ४
णहु महाघणो व खर-पवणहो ॥ ५
णहु तुरङ्गमो व जम-महिसहो ॥ ६
मम्भीसन्तु पधाइउ सिरिहरु ॥ ७
गंभि धित्तु वलएवहो अग्गए ॥ ८
सयलु महब्भउ मणे अवहेरेवि ॥ ९
पुणु आसीस दिण्ण वलहइहो ॥ १०

१५

॥ घत्ता ॥

जेम समुहु महाजल्लेण
चन्द-कुन्द-जस-णिम्मल्लेण

जेम जिणेसरु सुक्किय-कम्मं ।
तिह तुहुं वड्डु णराहिव धम्मं ॥ ११

[१२]

तो एत्थन्तरे पर-वल-मइणु
२० 'भवणे पइट्टु तुहारए जइयहुं
एत्थु काले पुणु दियवरु कीसा
तं णिसुणेवि भणइ वेयायरु
जिह आणन्दु जणइ सीयालए
काल-वसेण कालु वि सहेवउ

केहकह-सदे हसिउ जणइणु ॥ १
पइ अवगणेवि घल्लिय तइयहुं ॥ २
विणउ करेवि पुणु दिण्ण असीसा ॥ ३
'अत्थहो को ण वि' करइ महायरु ॥ ४
तिह किण रुच्चइ रवि उण्हालए ॥ ५
एत्थु ण हरिसु विसाउ करेवउ ॥ ६

9 P S A णरिंदु. 10 P S A °मंदायणि°. 11 P परिचिउं, S परिचिउ, A परिचिउयउ.

11. 1 P S तहिं. 2 A धित्तु गंभि वलहइहो. 3 A अप्पाणउं.

12. 1 missing in A. 2 P S भवण. 3 A दियवर. 4 P S A कीस. 5 A विणउं.
6 P S A असीस. 7 P S वि ण. 8 P S जणेइ सिवा°. 9 S सहेवउ.

१ नमः. ३ गङ्गा.

[११] १ हरेः. २ राहोः.

[१२] १ वाक्पणः.

अत्थु विलासिणि-जण-मण-वल्लहु
अत्थु वियहु अत्थु गुणवन्तउ
अत्थु अणहु अत्थु जगें 'सूहउ
अत्थु सँइच्छिउ भुञ्जइ रज्जु

अत्थ-विह्वर्णउ बुद्धइ धल्लहु ॥ ७
अत्थ-विह्वणु भमइ मगन्तउ ॥ ८
अत्थ-विह्वणु दीणुं गरु दूहउ ॥ ९
अत्थ-विह्वर्णे किं पि ण कज्जु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

'साहु' भणन्ते राहवेण
कडय-मउड-कडिसुत्तयहिं

इन्दणील-मणि-कञ्चण-खण्डेहिं ।
पुज्जिउ कविलु सँ इं भु व-दण्डेहिं ॥ ११

*

[२९. एगुणतीसमो संधि]

सुरडामर-रिउ-डमरकर कोवण्ड-धर सहुँ सीयएँ चलिय महाइय ।
घल-णारायण वे विजण परितुट्ट-मण जीवन्त-णयरु संपाइय ॥ १०

[१]

पट्टणु 'तिहि मि तेहिं आंविज्जिउ
णवर होइ जइ कम्पु धँएसु
घाउ मुरवेसु
जँड रुहेसु
खलु खेत्तेसु
(बहु-)कर गहणेसु
धँणु दाणेसु
सुर सग्गेसु
कँलहु गएसु
डँरु वसहेसु
वणु रुक्खेसु

दिणयर-विम्बु व दोस-विवज्जिउ ॥ १
हउ तुरएसु जुज्जु सुरएसु ॥ २
भङ्गु चिहुरेसु ॥ ३
मलिणु चन्देसु ॥ ४
दण्डु छत्तेसु ॥ ५
पहरु दिवसेसु ॥ ६
'चिन्त ज्ञाणेसु ॥ ७
सीहु रण्णेसु ॥ ८
अङ्कु कवेसु ॥ ९
'वेलु गयणेसु ॥ १०
ज्ञाणुं मुक्खेसु ॥ ११

अहवइ कित्तिउं णिवं वणिज्जइ जइ पर तं जि तासु उवमिज्जइ ॥ १२

॥ घत्ता ॥

तहों णयरहों अवरुत्तरेण कोसन्तरेण उववणु णामेण पसत्थउ ।

णाइँ कुमारहों एन्ताहों पइसन्ताहों थिउ णव-कुसुमञ्जलि-हत्थउ ॥ १३

10 P विह्वर्णउ. 11 PS मुच्चइ. 12 S वल्लहु. 13 A न रुच्चइ दूहउ. 14 A सइच्छिउं. 15 PS सधं.

1. 1 A अदयजिउ. 2 PS जडउ. 3 A जाणु मोक्खेसु. 4 S णिउ, A णिविण्णिज्जइ.
5 P S कोसम्भंतरेण. 6 P S पसत्थउं.

२ सौमारयम्.

[१] १ जि(त्रि)भिः. २ दृष्टम्. ३ न तु नगरे. ४ श्रव्यं धनुश्च. ५ घ्यानं उद्वेगाश्च. ६ सुरा मधः
(मद्यम्), लघु हस्ती मगटक(Guj मगडा, Hem.4. मकट)श्च. ८ देशीभाषा[यां] वृषभः शब्दो
वा, अन्यत्र भयम्. ९ मूर्खैः, वातूलः (देशीभाषा), अन्यत्र नमे प्रसिद्धः. १० भो अणिक.

[२]

तहिँ उबवणें थिय हरि-वल जावेंहिँ भरहें लेहु विसजिउ तावेंहिँ ॥ १
 अगगएँ धित्तु णरेण णरिन्दहों भविउ व च्चलणेंहिँ पडिउ जिणिन्दहों ॥ २
 लइउ मंहीहरेण सइँ हत्थें जिणवर-धम्मु व मुणिवर-सत्थें ॥ ३
 वारि-णिवन्धहों मुक्कु गइन्दु व दिट्ठु अट्ठु ताहिँ णहयलें चन्दु व ॥ ४
 'रज्जु मुएवि वे वि रिउ-महण को जाणइ हरि कंदिउ आवइ गय वण-वासहों राम-जणहण ॥ ५
 लेहु धिवेप्पिणु णरवइ मंहीहरु तहों वणमाल देज्जं जसु भावइ' ॥ ६
 णाइँ मियङ्को कमिउं विडंप्पें णाइँ दवेण दट्ठु थिउ मंहीहरु ॥ ७
 तिह महिहरुं णरिन्दु माहप्पें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जाय चिन्त मणें दुद्धरहों धरंणीधरहों सिहि-गल-तमाल-घण-वण्णहों ।
 'लक्खणु लक्खणं-लक्ख-धरु तं मुएवि वरु मइँ दिण्ण कण्ण 'किं अण्णहों' ॥ ९

[३]

तो एत्थन्तरेँ णयण-विसालएँ एह वत्त जं सुय वणमालएँ ॥ १
 आउलिहय हियएण विसूरइ दुक्खें महणइ व आउरइ ॥ २
 सिरेँ पासेउ चडइ मुँहु सूसइ कर विहुणइ पुणु दइवहों रूसइ ॥ ३
 मणु धुगुधुगइ देहु परितप्पइ वम्महों णं करवत्तें कप्पइ ॥ ४
 ताव णहङ्गणेण घणु गज्जिउ णाइँ कुमारें दूउ विसज्जिउ ॥ ५
 'धीरी होहि माएँ' णं भासिउ 'उहु लक्खणु उववणें आवासिउ' ॥ ६
 गरहिउ मेहु तो वि तणु-अङ्गिँ दोसं वि गुण हवन्ति संसग्गिँ ॥ ७
 'तुहँ किर जण-मण-णयणाणन्दणु महु पुणु जलहर णाइँ हुआसणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तुज्जु ण दोसु दोसु कुलहों हथं-दुह-कुलहों जलें जलणें पवणें १० जं जायउ ।
 तं ११ पासेउ दाहु करहु णीसासु महु तिण्णि वि दक्खं वणहों आयउ' ॥ ९

२. १ S देउ, A देहि. २ PS कसिउ, A कमिउं. ३ A महिहरमइंदु. ४ PS धरणिं.
 ५ A लक्खणवत्तं. ६ A किह.

३. १ PS वणवालए. २ A आउविहय मणेण. ३ PA मुहुं. ४ PA विहुणइं. ५ A वम्मइ
 णं करवत्तिं. ६ PS दोसगुणा. ७ PS णन्दण. ८ PS हुआसण. ९ P हयदुहखलवहो, S हय
 दुरवलहो. १० A जं. ११ A तं. १२ A दक्खवणइं आइउ.

[२] १ राज्ञा. २ कस्मिन् दिने. ३ महीधरनामा राजा. ४ पर्वतः. ५ कवलितः, उद्धातः (?).
 ६ राहुणा.

[४]

दोच्छिउ मेहु पणहु णहङ्गणें
 'किं पइसरमि वलन्तें हुआसणें
 किं विसु भुज्जमि किं अहि चप्पमि
 किं करिवर-दन्तहिं उर भिन्दमि
 किं दिस लङ्गमि किं पवज्जमि
 अहवइ एण काइं गमु सज्जमि
 एम भणेप्पिणु चलिय तुरन्ती
 गन्ध-धूव-वलि-पुप्फ-विहत्थी

पुणु वणमालएँ चिन्तिउ णिय-मणें ॥ १
 किं समुहें किं रणें सु-मीसणें ॥ २
 किं अप्पउ करवत्तें कप्पमि ॥ ३
 किं करवालेंहिं तिलु तिलु छिन्दमि ॥ ४
 कहों अक्खमि कहों सरणु पवज्जमि ॥ ५
 तरुवर-डालएँ पाण विसज्जमि' ॥ ६
 कंङ्केली-थड उग्घोसन्ती ॥ ७
 लीलएँ चिक्कमन्ति वीसत्थी ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चउविह-सेणें परियरिय धण णीसरिय 'को' 'विहिं' आलिङ्गणु देसइ' ।
 एम चवन्ति पइहु वणें रवि-अत्थवणें 'कहिं लक्खणु' गाइं गवेसइ ॥ ९

[५]

दिहु असोयवच्छु परिअञ्चिउ जिणवरो व सब्भावें अञ्चिउ ॥ १
 पुणु परिवायणु कियउ असोयहों 'अणुं ण इह-लोयहों पर-लोयहों ॥ २
 जम्मं जम्मं मुअ-मुअहें स-लक्खणु 'पिय-भत्तारु होज्ज महु लक्खणु' ॥ ३
 पुणु पुणु एम णमंसइ जावेंहिं रयणिहें वे पहरा हुय तावेंहिं ॥ ४
 सयलु वि साहणु 'णिदोणंल्लउ गावइ मोहण-जालें पेळिउ ॥ ५
 णिग्गय पुणु वणमाल तुरन्ती हार-डोर-णेउरेंहिं खलन्ती ॥ ६
 हरि-विरहम्बु-पूरें उब्भन्ती वुण्ण-कुरङ्गि व चित्तुब्भन्ती ॥ ७
 णिविसद्धं णंगोहें वलग्गी रमण-चवल णं गोह-वलग्गी ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रेहइ दुमें वणमाल किह धणें विज्जु जिह पहवन्ती लक्खण-कङ्किणि ।
 किलिकिलन्ति कोडुवणिय भीसावणिय पच्चक्ख गाइं वड-जक्खिणि ॥ ९

4. 1 A करवत्तहिं. 2 P S भिण्णमि. 3 P S छिण्णमि. 4 A कंकेलियच्छणु. 5 S A का.
 6 P S विहि, A वेहि. 7 S missing. 8 P missing.

5. 1 A असोयविच्छु. 2 A महु भत्तारु हवेज्जउ लक्खणु. 3 P S णमंसिउ. 4 P S पहरहं.
 5 A हय. 6 S णिदइ दोळिउ. 7 P पिळ्ळिउं. 8 पिळ्ळिउ. 8 P S घण. 9 P S पवहंती.

[४] १ अशोकवनम्. २ किं लक्ष्मणेन सह आलिङ्गनं किं मृत्युना सह.

[५] १ प्रदक्षिणीकृतः. २ निषणकं (?) जल्पनं च. ३ अन्येन विकल्पेन किं, लक्ष्मणं मुक्त्वा.
 ४ आत्मानं दत्तं (?). ५ पतितम्. ६ निज-यूथात् भुली सृगी इव. ७ वटवृक्षे चटिता.

[६]

तहिँ बालएँ कलुणु पकन्दियउ
 'आयण्णहों वयणु वर्णस्सइहों
 गह-भूय-पिसायहों विन्तरहों
 गय-वग्घहों सिद्धहों सम्बरहों
 गण-गन्धवहों विज्जाहरहों
 जम-'खन्द-कुवेर-पुरन्दरहों
 हेरिणक्कहों अक्कहों जोइसहों
 वइसाणर-वरुण-पहञ्जणहों

वण-डिम्भउ णं परिअन्दियउ ॥ १
 गङ्गाणइ-जउण-सरस्सइहों ॥ २
 वण-जक्खहों रक्खहों खेयरहों ॥ ३
 रयणायर-गिरिवर-जलयरहों ॥ ४
 सुर-सिद्ध-महोरग-किण्णरहों ॥ ५
 बुह-भेसइ-सुक्क-सणिच्छरहों ॥ ६
 वेयाल-दइच्चहों रक्खसहों ॥ ७
 'तहों एम कहिज्जहों लक्खणहों ॥ ८

॥

॥ घत्ता ॥

बुच्चइ धीय महीहरहों दीहर-करहों वणमाल-णाम भय-वज्जिय ।
 लक्खण-पइ^१ सुमरन्तियएँ कन्दन्तियएँ वड-पायवें पाण विसज्जिय' ॥ ९

[७]

एम भणेप्पिणु गयण-विसालएँ
 ॥ सो जों णाई सइँ मम्भीसावइ
 णं दियवरु दाणहों हक्कारिउ
 गलें लाएँवि हल्लावइ जावेंहिँ
 एम पजम्पिउ मम्भीसन्तउ
 दसरह-तणउ सुमित्तिएँ जायउ
 ॥ तं णिसुणेंवि विम्भाविय णिय-मणें
 ताम हलाउहु कोक्कइ लगउ

'अंसुअ-पासउ किउ वणमालएँ ॥ १
 णाई विवाह-लील दरिसावइ ॥ २
 णाई कुमारें हत्थु पसारिउ ॥ ३
 कण्ठें धरियालिङ्गेवि तावेंहिँ ॥ ४
 'हउँ सो लक्खणु लक्खणवन्तउ ॥ ५
 रामें सहुँ वर्णवासहों आयउ' ॥ ६
 'कहिँ लक्खणु कहिँ अच्छिउँ उववणें' ॥ ७
 'भो भो लक्खण आउ कहिँ गउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि महिहर-सुअएँ पुलइय-भुअएँ णडु जिह णञ्जाविउ णिय-मणु ।
 'सहल मणोरहें अज्जु महु परिहूँउ सुहु(?) भत्तारु लद्धु जं लक्खणु' ॥ ९

6. 1 P परिअदियउं, S परिअदियउं. 2 A वणासइहो. 3 A सरासइहो. 4 A गंधवसु-
 णिहुं. 5 P S अकहो, A अक्खहो. 6 This line missing in P. 7 A ताम. 8 A पइं.

7. 1 A सइं भीसावइ. 2 A हक्कारइ. 3 P S कंठें धर आलिंणिय, A कंठें धरियालिंणिवि.
 4 A तणउं. 5 S वणवासें. 6 A विंभारिय. 7 P S अच्छइ. 8 A भो लक्खण वच्छ कहिँ गउ.
 9 P S महीहर°. 10 P S णञ्जिउ. 11 मणोहर. 12 missing in A.

[६] १ स्कन्धः (दः) कार्तिकेयः. २ चंद्रस्य (?). ३ रवेश (?). ४ भर्तारम्.

[७] १ वल्लपाशः.

[८]

तो एत्थन्तरें भुवणाणन्दें
णावइ तमु दीवय-सिह-सहियउ
णावइ करि करिणिहें आसत्तउ
'चारु चारु भो णयणाणन्दण
वुत्तु कुमारें 'विज्ज' व सुगुणिय
जा महु पुब्बर्यण-उवदिट्ठी
हरि अप्फालइ जाव कहाणउं
सुहड विउद्ध कुद्ध जस-लुद्धा

दिट्ठु जणइणु राहवचन्दें ॥ १
णावइ जलहरु विज्जु-पगहियउ ॥ २
चलणोहिं पडिउ वलहो स-कलत्तउ ॥ ३
कहिं पइं कण्ण लद्ध रिउमहण' ॥ ४
धरणीधरहो घीय किं ण मुणिय ॥ ५
सा वणमाल एह वणें दिट्ठी' ॥ ६
ताम रत्तिं गय विमलु विहाणउं ॥ ७
'केण वि लइय कण्ण' सण्णद्धा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव णिहालिय दुज्जेहिं पुणु रह-गएहिं चाउदिसु चवल-तुरङ्गेहिं ।
वेढिय रणउहे वे वि जण वल-महुमहण पञ्चाण जेम कुरङ्गेहिं ॥ ९

[९]

अग्भिट्ठु सेणु कलयलु करन्तु
तं वयणु सुणेप्पिणु हरि पलित्तु
एक्कल्लउ लक्खणु वलु अणन्तु
परिसकइ थकइ चलइ वलइ
उबंडइ भिडइ पाडइ तुरङ्ग
अवगाहइ साहइ धरइ जोह
विणिवाइय' घाइय सुहड-थट्ठ
णासन्ति के वि जे समरें चुक्क

'जिह लइय कण्ण तिह हणु' भणन्तु ॥ १
उद्धाइउ सिहि णं घिएण सित्तु ॥ २
आलगु तो वि तिण-समु गणन्तु ॥ ३
तरुवर उम्मूलेवि सेणु दलइ ॥ ४
महिं कमइ भमइ भामइ रहङ्ग ॥ ५
दलवट्ठइ लोट्ठइ गयवरोह ॥ ६
कडुआविय विवरामुह पयट्ठ ॥ ७
कायर-णर-कर-पहरणइं मुक्क ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गम्पिणु कहिउ महीहरहो 'एक्कहो णरहो आवट्ठु सेणु भुव-दण्डए ।
जिम णासहि जिम भिडु समरें विहिं एक्कु करे वणमाल लइय वलिमण्डए' ॥ ९

8. 1 P करिणिहिं, S करिणिहि. 2 P S विज्जु व सुगुणिय. 3 P S कि. 4 A पुब्बइक्क.
5 A मइ. 6 P S उप्फालइ. 7 P S A कहाणउं. 8 A रयणि. 9 P S A विहाणउं. 10 P S
चउदिट्ठु.

9. 1 A रोकइ. 2 A ओवडइ. 3 A विणिवायइ वायइ. 4 A पहरणकरिभिमुक्क. 5 A
वलिमण्डए.

[१०]

तं वयणु सुणेपिणु थरहरन्तु
आरूढु महारहे दिणु सहु
तो दुजय दुद्धर दुणिवार
वणमाल-कुसुम-कलाणमाल
गोपाल-पाल इय अट्ट भाइ
एत्थन्तरे रणे बहु-मच्छरेण
'बलु बलु समरङ्गणे देहि जुञ्जु
तं णिसुणेवि वोळ्ळिउ लच्छि-गेहु

धरणीधरु धाईउ विप्फुरन्तु ॥ १
सण्णद्धु कुद्धु जय-लच्छि-कहु ॥ २
'हणु हणु' भणन्त णिगय कुमार ॥ ३
जयमाल-सुमाल-सुवण्णमाल ॥ ४
सहु राए णव गह कुइय णाई ॥ ५
हक्कारिउ लक्खणु महिहरेण ॥ ६
णिय-णामु गोत्तु कहे कवणु तुञ्जु ॥ ७
'कुल-णामहो अवसरु कवणु एहु ॥ ८

११

॥ घत्ता ॥

पहरु पहरु जं पई गुणिउ किण्ण वि मुणिउ जसु भाइ महन्तउ रामु ।
रहुकुल-गन्दणु लच्छि-हरु ११ तउ जीवहरु णरवइ महु लक्खणु णामु ॥ ९

[११]

कुलु णामु कहिउ जं सिरिहरेण
सुरकरि-कर-सम-भुअ-पञ्जरेण
हवि सक्खिक्खरेवि अपरायणासु
आरूढु महीहरु एक-रहे
वणमाल स-लक्खणु एक-रहे
पडु-पडह-सङ्ग-वद्धावणेहिं
उच्छाहेहिं धवल्लेहिं मङ्गलेहिं
आणन्दे णयरे पइट्टाई

धणु घत्तेवि महिहे महीहरेण ॥ १
अवरुण्डिउं णेह-महाभरेण ॥ २
सई दिण्ण कण्ण णारायणासु ॥ ३
अट्ट वि कुमार अण्णेक्क-रहे ॥ ४
थिय स-वल सीय अण्णेक्क-रहे ॥ ५
णच्चन्तेहिं खुज्जय-वामणेहिं ॥ ६
कंसालेहिं तालेहिं महलेहिं ॥ ७
लीलए अत्थाणे वईट्टाई ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सहु वणमालए महुमहणु परितुट्ट-मणु जं वेइहे जन्तु पदीसिउ ।
लोएहिं मङ्गलु गन्तएहिं णच्चन्तएहिं जिणु जम्मणे जिह स ई भू सिउ ॥ ९

*

10. 1 P S उट्टिउ. 2 S ते. 3 P S भणतु. 4 In s this and all the following names end is उ. 5 A सुणेवि पवोळ्ळिउ. 6 P S A देहु. 7 P गुणिअउं, S गुणिउं. 8 missing in s. 9 P मुणिउं. 10 P S रहुकुले. 11 missing in P. 12 S तव. 13 P महुं.

11. 1 A वणु. 2 P S A घत्तिवि. 3 A महियलि महीहरेण. 4 P S अवहंडेवि. 5 P कंसालहिं, S A कंसालिहिं. 6 P तालहिं, S A तालिहिं. 7 P S णिविट्टाई. 8 A वेइहिं इंतु. 9 P पदीसिउं. 10 P गायन्तएहिं, S गायंतवहे. 11 S जिं जिणु.

[११] १ परैरजेयस्य लक्ष्मणस्य. २ रामेण सह.

[३०. तीसमो संधि]

तहिँ अवसरें आणन्द-भरें उच्छाह-करें जयकारहों कारणें णिक्किउ ।
भरहहों उप्परि उच्चलिउ रहसुच्छलिउ णरुणंदावत्त-णराहिउ ॥

[१]

जो भरहहों दूउ विसज्जियउ	आइउ सम्माण-विवज्जियउ ॥ १	१
लहु णन्दावत्त-णराहिवहों	वज्जरिउ अणन्तवीर-णिवहों ॥ २	
'हउँ पेक्खु केम विच्छारियउ	सिरु मुण्डेवि कह वि' ण मारियउ ॥ ३	
सो भरहु ण इच्छइ सन्धि रणें	जं जाणहों तं चिन्तवहों मणें ॥ ४	
अणु वि उक्खन्धें आइयउ	सहुँ सेणें विञ्जु पराइयउ ॥ ५	
तहिँ णरवइ वालिखिलु वलिउ	सीहोयरु वज्जयणु मिलिउ ॥ ६	१०
तहिँ रुद्धभुत्ति सिरिवच्छ-धरु	मरुभुत्ति सुभुत्ति विभुत्ति-करु ॥ ७	
अवरेहि मि समउँ समावडिउ	पेक्खेसहि कल्लएँ 'अब्भिडिउ' ॥ ८	

॥ वत्ता ॥

ताम अणन्तवीरु खुहिउ पइजारुहिउ 'जइ कल्लएँ भरहु ण मारमि ।
तो अरहन्त-भडारहों सुर-साराहों णउ चलण-जुअलु जयकारमि' ॥ ९ १५

[२]

पइजारुहु णराहिउ जावेहिँ	साहणु मिलिउ असेसु वि तावेहिँ ॥ १	
लेहु लिहेप्पिणु जग-विक्खायहों	तुरिउ विसज्जिउ महिहर-रायहों ॥ २	
अगएँ धित्तु वञ्जु लम्पिक्कु व	हेरिणक्खुरेहिँ लीणु णण्डिक्कु व ॥ ३	
सुन्दरु पत्तवन्तु वर-साहु व	णाव-वहुलु सरि-गङ्ग-पवाहु व ॥ ४	२०
दिट्ठे राय तहिँ आय अणन्त वि	सल्ल-विसल्ल-सीहविक्कन्त वि ॥ ५	
दुज्जय-अजय-विजय-जय-जयमुह	णरसदूल-विउल-गय-गयमुह ॥ ६	
रुद्धवच्छ-महिवच्छ-महद्धय	चन्दण-चन्दोयर-गरुडद्धय ॥ ७	
केसरि-मारिचण्ड-जमघण्टा	कोङ्कण-मलय-पण्डियाणट्टा ॥ ८	
गुज्जर-गङ्ग-वङ्ग-मङ्गाला	पइविय-पारियत्त-पञ्चाला ॥ ९	२५
सिन्धव-कामरूव-गर्भभीरा	तज्जिय-पारसीय-परतीरा ॥ १०	

1. 1 P S A णंदावत्तु. 2 S विसज्जिअउं. 3 A मुण्डिउ. 4 P S व. 5 A मारियउं. 6 P समउं. 7 P विभिडिउ, 8 विभिभडिउ. 8 P नावमि. 9 P S °भडारहो. 10 P S °सारहो.

2. 1 P S A वद्ध. 2 A हरिणक्खुरेहिँ. 3 P S लीण. 4 A णंदिक्कु. 5 P S पत्तवन्तु. 6 A मंढण°. 7 P S केसर°. 8 A कन्हीरा.

[१] १ निःकृपः कृतघ्नश्च. २ नन्दावर्त-नगर-स्वामी, अनन्तवीर्यः. ३ उपरि वैरेण.

[२] १ चार इव. २ व्याधो यथा हरित-श्वेत-नृगन्धर्मेण, पत्रं हरित-श्वेताक्षरैः. ३ लेखेन उक्ताः.
स० प० च० १०

मरु-कण्णाड-लाड-जालन्धर
अवर वि जे एकेक-पहाणा

टकाहीर-कीर-खस-वच्चर ॥ ११
केण गणेपिणु सकिय राणा ॥ १२

॥ घत्ता ॥

ताम णराहिउ कसण-तणु थिउ विमण-मणु णं पडिउ सिरत्थलें वज्जु ।
‘किह सामिय-सम्माण-भरु विसहिउ दुच्चरु किह भरहहों पहरिउ अज्जु’ ॥१३

[३]

जं णरवइ मणें चिन्तावियउ
अट्टु वि कुमार कोकिय खणेंण
मेलेपिणु मन्तिउ मन्तंणउ
१० रह-तुरय-महागय परिहरेँवि
तं रिउ-अत्थाणु पईसरहों
तं वयणु सुणेंवि परितुट्टु-मण
वलएवें जोइउ पियं-वयणु
‘लइ सुन्दरि ताव तिट्टु णयरेँ

हलहरु एकन्त-पक्खें थियउ ॥ १
वइदेहि’ आय सहुँ लक्खणेंण ॥ २
वलु भणइ ‘म दरिसहों अप्पणउ ॥ ३
तिय-चारण-गायणं-वेसु करेँवि ॥ ४
णच्चन्त अणन्तवीरु धरहों’ ॥ ५
थिय कामिणि-वेस कियाहरण ॥ ६
किं होइ ण होइ वेस-गहणु ॥ ७
अम्हेहिँ पुणु जुञ्जेवउ समरेँ’ ॥ ८

१६

॥ घत्ता ॥

लग्ग कडच्छएँ जणय-सुय
मइँ मेलेँवि भासुरएँ

कण्टइय-भुय कण्टइय-भुय ‘लहु णरवर-णाह ण एसहि ।
रण-सासुरएँ रण-सासुरएँ मा कित्ति-वहुअ परिणेसहि’ ॥९

[४]

खेडु करेँवि संचल महाइय
२० दिट्टु जिणालउ खणें परिअञ्जेँवि
सीय ठेवेंवि पइट्टु पुर-सरवरेँ
देउल-वहल-धवल-कमलायरेँ
चारु-विलासिणि-णलिणि-करम्बिँएँ
सज्जण-णिम्मल-सलिलालङ्किँएँ
२५ कामिणि-चल-मण-मच्छुत्थलिँएँ
तहिँ तेहएँ पुर-सरवरेँ दुज्जय

णिविसें णन्दावत्तु पराइय ॥ १
अग्गएँ गाएँवि वाएँवि णञ्जेँवि ॥ २
रहवर-तुरय-महागय-जलयरेँ ॥ ३
णन्दणवण-घण-तीर-लयाहरेँ ॥ ४
छप्पणाय-छप्पय-परिचुम्बिँएँ ॥ ५
पिसुण-वयण-घण-पेक्कुप्पङ्किँएँ ॥ ६
णरवर-हंस-सएहिँ अमेळिँएँ ॥ ७
लीलएँ णाँइँ पइट्टु दिसागय ॥ ८

3. 1 P S वणमालपमुह सहु. 2 P S मसणउ, A मंतणउं. 3 P A अप्पणउं. 4 A °साण°. 5 A पईसरहुं. 6 P S धरहु, धरहुं. 7 P S होह. 8 P S अन्हें. 9 P S णरवरचारणवेसहिँ, A नरवरनाह न एसहि.

4. 1 P S A ठबिबि. 2 P S A पुरे. 3 P S A णाह.

[३] १ वनमालयाः corrected as सीतायाः.

[४] १ छइहा. २ कर्दमलित्तैः.

॥ घत्ता ॥

कामिणि-वेस कियाहरण विहसिय-वयण गय पत्त तेत्थु पडिहार ।
बुच्चइ 'आयइ चारणइ भरहहो तणइ जिव कहें जिव देइ पइसारु' ॥ ९

[५]

तं वयणु सुणेवि पडिहारु गउ विण्णत्तु णराहिउ रणे अजउ ॥ १
'पहु एत्तइ गायण आयाइ फुडु माणुसं-मेत्तेण जायाइ ॥ २
णउ जाणहु किं विज्जाहरइ किं गन्धवइ किं किण्णरइ ॥ ३
अइ-सुसरइ जण-मण-मोहणाइ मुणिवरहु मि मण-संखोहणाइ' ॥ ४
तं वयणु सुणेवि णराहिवेण 'दे' दे पइसारु' वुत्तु णिवेण ॥ ५
पडिहारु पधाइउ तुहु-मणु 'पइसरहो' भणन्तु कण्टइय-तणु ॥ ६
तं वयणु सुणेवि समुच्चलिय णं दस दिसि-वह एकहिं मिलिय ॥ ७

॥ घत्ता ॥

पइठं णरिन्दत्थाण-वणे रिउ-रुक्ख-घणे सिंहासण-गिरिवर-मण्डिँ ।
पोढ-विलासिणि-लय-वहले वर-वेल्लहले अइ-वीर-सीह-परिचड्डिँ ॥ ८

[६]

तहिं तेहएँ रिउ-अत्थाण-वणे पञ्चाणण जेम पइडु खणे ॥ १
णन्दियड-णराहिउ दिडु किह णक्खत्तहँ मज्जे मियडु जिह ॥ २
आरम्भउ अगएँ पेक्खणउ सुकलत्तु व सेवलु सलक्खणउ ॥ ३
सुरयं पिव वन्ध-करण-पवरु कवं पिव छन्द-सह-गहिरु ॥ ४
रणं पिव वंस-ताल-सहिउ जुज्झं पिव रायं-सेय-सहिउ ॥ ५
जिह जिह उवेल्लइ हँल-वहणु तिह तिह अप्पाणु णवेइ जणु ॥ ६
मयरद्धय-सर-संखोहियउ मिग-णिवहु व 'गेएँ मोहियउ ॥ ७
वलु पढइ अणन्तवीरु सुणइ 'को सीहें समउ केलि कुणंइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जाम ण रणंमुहें उत्थरइ पहरणु धरइ पइँ जीवगाहु सहँ राएँहिं ।
ताम अयाण मुएवि छलु परिहरेंवि वलु पडु भरह-णरिन्दहो पाएँहिं' ॥ ९

5. 1 P S एहु. 2 P एत्तइ, S एत्तइ, A एक्क. 3 P S गाहण, A गायणइ. 4 S पुणु. 5 P S माणुसु. 6 P S जाणहु, A जाणहं. 7 P S विज्जाहराहं. 8 P S किण्णराहं. 9 P S 'मोहणाहं. 10 A मुणिवरइ मि. 11 P S मणु, A तणु. 12 P S 'संखोहणाहं. 13 A देहे देहे. 14 P S पइडु.

6. 1 A रायघायणहिउ. 2 P गेयइ, S गेयइ. 3 P S करइ. 4 A रणउहे. 5 P S पहरइ. 6 P S राचहि, A राएँहिं. 7 S अयाणु, A अयाणा. 8 S erroneously numbers this Kadavaka as 7 and this error in numbering persists up to the end of the Sandhi.

[५] १ ललित-गभैश्वरे विन्वीफले च.

[६] १ अनन्तवीर्यः. २ चित्तवीर्यं, अज्ञबलं च (?). ३ राज-प्रसेदः, कुडुम-रागोपलक्षित-प्रसेद एव पुनरपि. ४ रामः.

[७]

राहवचन्दु मणेण ण कम्पिउ
 'भो भो णरवइ भरहु णमन्तहुँ
 जो पर-वल समुद्धेँ महणायइ
 जो पर-वल-गयणेँहिँ चन्दायइ
 जो पर-वल-रयणिहिँ हंसायइ
 जो पर-वल-भुयङ्गेँ गरुडायइ
 जो पर-वल-घणोँहें पवणायइ

पुणु पुणरुत्तेँहिँ एव पजम्पिउ ॥ १
 कवणु पराहउ किर अणुणन्तहुँ ॥ २
 जो पर-वल-मियङ्गेँ महणायइ ॥ ३
 जो पर-वल-गइन्देँ सीहायइ ॥ ४
 जो पर-वल-तुरङ्गेँ महिसायइ ॥ ५
 जो पर-वल-वणोँहें जलणायइ ॥ ६
 जो पर-वल-पवणोँहें धंरायइ ॥ ७
 जो पर-वल-धंरोँहें वजायइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१० तं गिसुणेवि विरुद्धएँण मणेँ कुद्धएँण अइवीरेँ अहर-फुरन्तेँ ।
 रत्तुप्पल-दल-लोयणेँण जग-भोयणेँण णं किउ अवलोउ कियन्तेँ ॥ ९

[८]

भय-भीसणु अमरिस-कुइय-देहु
 १५ करेँ असिवरु लेइ ण लेइ जाम
 सिरेँ पाउ देवि चोरु व णिवद्धु
 रिउ चम्पेँवि पर-वल-मइयवहुँ
 एत्थन्तेँ महमहणेण वुत्तु
 तं सुणेँवि परोप्परु रिउ चवन्ति
 २० एत्तडिय चोल पडिवक्खेँ जाम
 जे गिलिय आसि पुर-रक्खसेण

गज्जन्तु समुद्धिउ जेम मेहु ॥ १
 णहेँ उद्धेँवि रामेँ धरिउ ताम ॥ २
 णं वारणु वारि-णिवन्धेँ वुद्धु ॥ ३
 जिण-भवणहेँ सम्मुहु वलु पयइ ॥ ४
 'जो दुक्कइ तं मारमि णिरुत्तु' ॥ ५
 'किं एय परक्कम तियँहँ होन्ति' ॥ ६
 णर दस वि जिणालउ पत्त ताम ॥ ७
 णं मुक्क पडीवा भय-वसेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तावन्तेउरु विमण-मणु गय-गइ-गमणु बहु-हार-दोरेँ-खुप्पन्तंउ ।
 आयडं पासु जियाहवहेँ तहेँ राहवहेँ 'दे दइय-भिकख' मगन्तउ ॥ ९

7. 1 P S कवण. 2 P अणुअंतहु, S A अणुणंतहु. 3 Mostly in P and occasionally in S this and similar other verb forms end in °ए or °इ. 4 P S A °मियंक. 5 Missing in A. 6 P S जलणायए.

8. 1 P A सम्मुद्धेँ. 2 A तियहु. 3 P notes a variant 'ते'. 4 P S 'डोर'. 5 P S वुप्पंतं. 6 P S आइउ पासि.

[७] १ सेवयंतः. २ मेरु-मन्थनकमिवात्मानमाचरति. ३ राहुवदाचरति. ४ सिंहवदाचरति. ५ सूर्यायते. ६ महिषायते. ७ वनसमूहे. ८ अग्न्यायते. ९ पर्वतायते. १० पर्वतसमूहे वजायते.

[८] १ वारण-पाली कृत्वा तटाक-जल इव बद्धः. २ भर्तार.

[९]

जं एव वुत्तु वंणियायणेण
 'जइ भरहहो होहि सुमिच्चु अज्जु
 तं वयणु सुणेवि परलोय-भीरु
 'पाडेवउ जो चलणेहिं णिच्चु
 वलिमण्डएँ तव-चरणेण जो वि
 तं वयणु सुणेपिणु तुट्टु रामु
 पुंणरुत्तेहिं वुच्चइ साहु साहु'
 सो णिय संताणहो रइउ राउ

पहु पभणिउ दसरह-णन्दणेण ॥ १
 तो अज्जु वि लइ अप्पणउ रज्जु' ॥ २
 विहसेपिणु भणइ अणन्तवीरु ॥ ३
 तहो केम पडीवउ होमि भिच्चु ॥ ४
 पाडेवउ पायहिं भरहु तो वि' ॥ ५
 'सच्चउ जे तुज्जु अइवीरु णामु ॥ ६
 हक्कारिउ तहो सुउ सहसवाहु ॥ ७
 अण्णु वि भरहहो पाइक्कु जाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रिउ मेलेपिणुं दस वि जण गय तुट्टु-मण णिय-णयरु पराइय जावेहिं ।
 णन्दावत्तं-णराहिवइ जिणे करेवि मइ दिक्खहं समुट्टिउ तावेहिं ॥ ९

[१०]

एत्थन्तरे पुर-परमेसराहं
 सहूल-विउल-वरवीरभइ
 गरुडद्धय-मयरद्धय-पचण्ड
 जयघण्ट-महद्धय-चन्द-सूर
 इय एत्तिय पहु पव्वइय तेत्थु
 थिय पच्च मुट्टि 'सिरे लोउ देवि
 णीसङ्ग वि थिय रिसि-सङ्ग-सहिय संसार वि भव-संसार-रहिय ॥ ७
 णिम्माण वि जीव-सय्यहुं समाण णिगन्थ वि गन्थ-पयत्थ-जाण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय एक्केक्क-पहाण रिसि भव-तिमिर-ससि तव-सूर महावय-धारा ।
 छट्टुट्टुम-दस-वारसेहिं बहु-उर्ववसेहिं अग्गणु खवन्ति भडारा ॥ ९

9. 1 A अप्पणउ. 2 P वलिमण्डु, SA वलिवंडइ. 3 PS मेलेवि. 4 P करवि
 corrected as करइ, S करिदि, A करइ. 5 P दिक्खहि, S दिक्खादि.

10. 1 A समुट्टिउ. 2 PSA सिरि. 3 P आराहणहं, A आहरणाहं. 4 P marginally
 corrects as सुणेवि. 5 P corrects as 'सयलहुं. 6 SA तम° 7 PS 'दसमदुवालसेहिं.
 8 PS 'उववासेहिं. 9 PS खवेति.

[९] १ वनिताजनेन. २ निखमेव. ३ अनन्तवीर्यः. ४ पुनश्क्तिभिः युक्त्या (?). ५ अनन्तवीर्यः.

[११]

तव-चरणेँ परिद्विउ जं जि राउ
तेँ दिहु भडारउ तेय-पिण्डु
जो कोह-हुवासणेँ जल-णिहाउ
जो दप्प-भाइन्देँ महा-मइन्दु
सो मुणिवर दसरह-णन्दणेण
'भो साहु साहु गम्भीर धीर
जं पाडिउ हउँ चलणेहिँ देव
गउ एम पससेँवि भरहु राउ

तहो वन्दण-हत्तिँ भरहु आउ ॥ १
जो मोह-महीहरेँ वज्ज-दण्डु ॥ २
जो मयण-महाघणेँ पलय-वाउ ॥ ३
जो माण-भुअङ्गमेँ वर-खगिन्दु ॥ ४
वेँन्दिउ णिय-गरहण-णिन्दणेण ॥ ५
पइँ पूरिय पइजाऽणन्तवीर ॥ ६
तं तिहुअणु काँरावियउ सेव ७
णिय-णयरु पत्तु साहण-सहाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हरि-वल पईठ जयन्तपुरेँ धण-कर्ण-पउरेँ जय-मङ्गल-तूर-वमालेँहिँ ।
लक्खणु लक्खणवन्तियँ णिय-पत्तियँ अवगूढु सं इँ भुव-डालेँहिँ ॥ ९

*

[३१. एकतीसमो संधि]

धण-धण-समिद्धहोँ पुहइ-पसिद्धहोँ जण-मण-णयणाणन्दणहोँ ।
वण-वासहोँ जन्तेँहिँ रामाणन्तेँहिँ किउ उम्माहउ पट्टणहोँ ॥

[१]

छुडु छुडु उहँय समागम-लुद्धइँ
छुडु छुडु अवरोप्परु अणुरत्तइँ
छुडु छुडु अहिणव-वहु-वरइत्तइँ
छुडु छुडु चुम्बिय-तामरसाइँ
ताम कुमारेँ णयण-विसाला
'हे मौलूर-पवर-पीवर-थणेँ
हंस-गमणेँ गग्र-लील-विलासिणि
जामि कन्तेँ हउँ दाहिण-देसहोँ

रिसि-कुलइँ व परमागम-लुद्धइँ ॥ १
सञ्ज-दिवार्यरइँ व अणुरत्तइँ ॥ २
'सोम-पहा इव सुन्दर-चित्तइँ ॥ ३
'फुल्लन्धुय इव लुद्ध-रसाइँ ॥ ४
जन्तेँ आउच्छिय वणमाला ॥ ५
कुवलय-दल-पप्फुल्लिय-लोअणेँ ॥ ६
चन्द-वयणेँ णिय-णाम-पगासिणि ॥ ७
गिरि-किक्किन्ध-णयर-उहेसहोँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुरवर-वरइत्तेँ णव-वरइत्तेँ जं आउच्छिय णियय धण ।
ओहुल्लिय-वयणी पगलिय-णयणी थिय हेट्टामुह विमण-मण ॥ ९

11. 1 P पइद्विउ. 2 A omits this pāda. 3 P S कारावियउं. 4 P पइहु, S पइह
P S जियंतपुरे. 6 A °जण°. 7 P S सयं.

1. 1 S A °णाणंदहो. 2 P जंतहिँ, S जतहिँ. 3 P S रामाणंतहिँ. 4 A उभब. 5 P S
°दिवायरु इव. 6 A °णब°. 7 A सोमसहाबइँ. 8 Missing in A. 9 P वणमवाला.

[१] १ लक्ष्मणः. २ परमा लक्ष्मीः शोभा तस्यागमनम्, अन्यत्र सुगमम्. ३ चन्द्रप्रभा इव.
४ भ्रमरः. ५ विम्बफल इव. ६ सुरवरः पूतनयक्षः, तस्य वरं जातं यस्य.

[२]

कज्जल-वहलुप्पील-सणाहें
 'एत्तिउ विरुवँउ माणुस-लोउ
 धीरिय लक्खणेण एत्थन्तरे
 कइहि मि दिणेंहिँ पडीवउ आवमि
 जइ पुणु कहवि तुल-लगें णायँउ
 अणुणु वि रयँणिहें जो भुञ्जन्तउ
 जीव वहन्तउ अलिउ चवन्तउ
 जो णरु आपँहिँ वसणेंहिँ भुत्तउ

महि पव्वालिय अंसु-पवाहें ॥ १
 जं जर-जम्मण-मरण-विओउ' ॥ २
 'रामहों णिलउ करेवि वणन्तरे ॥ ३
 सयल स-सायर महि भुञ्जावमि ॥ ४
 हँउं ण होमि 'सोमित्तिँ जायउ ॥ ५
 मंस-भक्खि महु मज्जु पियन्तउ ॥ ६
 पर-धणें पर-कलत्तँ अणुरत्तँउ ॥ ७
 हँउं पावेण तेण 'संजुत्तउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

10

जइ एमँ वि णावमि वयणु ण दावमि तो णिव्वँह-महाहवहों ।
 णव-कमल-सुकोमल णह-पह-उज्जल छित्त पाय मइँ राहवहों' ॥ ९

[३]

वणमाल णियत्तेवि भग्गमाण
 थोवन्तरे मच्छुत्थल देन्ति
 संसुअर-घोर-घुरुघुरुहुरन्ति
 डिण्डीर-सण्ड-मण्डलिउ देन्ति
 कल्लोलुल्लोलहिँ उव्वहन्ति
 पडिँखलण-वलण-खलखलखलन्ति
 ससि-सङ्ख-कुन्द-धवलोज्झरेण

गय लक्खण-राम सुपुञ्जमाण ॥ १
 गोला-णइ दिट्ठ समुव्वहन्ति ॥ २
 करि-मयरङ्गोहियँ-डुहुडुहन्ति ॥ ३
 दँहुरय-रडिय-दुरुदुरुदुरन्ति ॥ ४
 उग्घोस-घोस-धवधवधवन्ति ॥ ५
 खलखलिय-खडक्क-झडक्क देन्ति ॥ ६
 कारणुडुडुविय-डम्बरेण ॥ ७

॥ घत्ता ॥

18

20

फेणावलि-वङ्किय वलयालङ्किय णं महि-कुलवहुअहें तणिय ।
 जलणिहि-भत्तारहों मोत्तिय-हारहों वाह पसारिय दाहिणिय ॥ ८

[४]

थोवन्तरे वल-णारायणेहिँ
 अरिदमणु णराहिउ वसइ जेत्यु

खेमञ्जलि-पट्टणु दिट्ठु तेहिँ ॥ १
 अइचण्डु पयण्डु ण को वि तेत्थु ॥ २

25

2. 1 P S °लुप्पीलु. 2 P S विरुवउ. 3 P S ण भायउ. 4 S तो हउ. 5 P S सुमित्तिँ.
 6 S रयणेहिँ, A रयणिहिँ. 7 A चवन्तहो. 8 A आसत्तहो. 9 P S एव मि. 10 P णिव्वुडु.

3. 1 A सपुञ्जमाण. 2 A °रुङ्गोहिय°. 3 A डेडरयरडियडुरुदुरुदुरन्ति. 4 A पडिँलक्खण°.

[२] १ भवामि.

[३] १ शब्दं करोति (?). २ गम्भीर-जलपातेन.

रजेसरु जो सव्वहँ वरिडु
णह-भासुरु जो लँङ्गल-दीहु
जो दुहम-दाणव-सिमिर-चूरु
जं राँयहँ तं छत्तह मि छित्तुं
तहों णयरहों थिउ 'अवरुत्तरेण
सुरसेहरु णामें जगें पयासु

सो पहु पंहियाह मि मूलेँ दिडु ॥ ३
सो माँयङ्गेहि मि लइउ सीहु ॥ ४
सो तिय-मुहयन्दहों तसइ सूरु ॥ ५
जं सुहडहँ तं कुँडुह मि चित्तुं ॥ ६
उज्जाणु अद्ध-कोसन्तरेण ॥ ७
णं अगघ-विहत्थउ थिउ वँलासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहएँ उववणें णव-तरुवर-घणें जहिँ अँमरिन्दु रई करइ ।
तहिँ णिलउ करेप्पिणु वे वि थवेप्पिणु लक्खणु णयरें पईसरइ ॥ ९

[५]

पइसन्तें पुरे-वाहिरें करालु
ससि-सङ्ख-कुन्द-हिम-दुद्ध-धवलु
तं पेक्खेँवि लहु हरिसिय-मणेण
'इउ-दीसइ काँइ महा-पयण्डु
तं णिसुणेंवि गोवहिँ वुत्तु एम
अरिदमण-धीय जियपउम-णाम
सा अज्ज वि अच्छइ वर-कुमारि
तहें कारणें जो जो मरइ जोहु

भड-मडय-पुञ्जु दीसइ विसालु ॥ १
हरहार-हंस-सरयब्भ-विमलु ॥ २
गोवाल पपुच्छिय लक्खणेण ॥ ३
णं णिम्मलु हिमगिरि-सिहर-खण्डु' ॥ ४
'किं एह वत पइँ ण सुअ देव ॥ ५
भड-थड-संघारणि जिह दुँणाम ॥ ६
पच्चक्ख णाँइ आइय कुँ-मारि ॥ ७
सो घिप्पइ तं हँडुइरि एहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जो धँइ अवगण्णेंवि तिणं-समु मण्णेंवि पच्च वि सत्तिउ धरइ णरु ।
पडिवक्ख-विमइणु णयणाणन्दणु सो पर होसइ ताहें वरु' ॥ ९

[६]

तं वयणु सुणेप्पिणु दुण्णिवारु
'वियड-प्पय-छोहेंहिँ पुणु पयडु

रोमच्चिउ खणें लक्खण-कुमारु ॥ १
णं केसरि मयगल-मइयँ-वट्टु ॥ २

4. 1 A रजेसरु. 2 PS णंगूल°. 3 A सो वि. 4 PS सच्चत्तह मि. 5 A छत्तु. 6 P सुहडग्गिम, S सुहडह मि, A कुँडुहँ मि. 7 S असुरेंदु. 8 A करइ रइ.

5. 1 PS पुरे. 2 A संघारणि. 3 PS णं. 4 PS अप्पउ. 5 A तिणु जिह.

6. 1 PS खण लक्खणु. 2 This line omitted in A. 3 P मइअ°, S गहय°.

[४] १ मार्गानुजा (या)यिनां मध्येऽग्रजा(या)थी. २ प्रहरण-विशेषः. ३ मा लक्ष्मीः, अज्ञैः
पृहीतः. ४ वनं राजभिर्दृष्टान्निश्च (?) स्पर्शति. ५ भूषितम्. ६ वायव्यकोणेन. ७ रामस्य.

[५] १ डाकिनी. २ पृथिव्यां सृष्ट्युः. ३ अस्थीनां पर्वतमेव.

कत्थइ कप्पहुम दिट्ठ तेण
कत्थइ मालइ कुसुमइ खिवन्ति
कत्थइ लक्खइ सरवर विचित्त
कत्थइ गोरसु सब्वहँ रसाहुँ
कत्थइ आवाह डज्जन्ति केम
कत्थइ अरहट्ट भमन्ति केम
णं धउ हक्कारइ 'एहि एहि

'णं' पन्थिय थिय णयरासएण ॥ ३
'सीस व सुकइहँ जसु विक्खिरन्ति ॥ ४
अवगाहिय सीयल जिह सुमित्त ॥ ५
णं णिगउ माणु हँरेवि ताहुँ ॥ ६
दुज्जण-दुब्बयणोहँ सुयण जेम ॥ ७
संसारिय भव-संसारो जेम ॥ ८
भो^{१०} लक्खण लहुँ जियपउम लेहि' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वारुभड-वयणो^३ दीहिय-णयणो देउल-दाढा-भासुरेण ।
णं गिलिउ जणइणु असुर-विमइणु एन्तउ णर्यर-णिसायरेण ॥ १०

[७]

पायार-भुएँहिँ पुरणाइँ तेण
कत्थइ कुम्भा सँहु णाडएहिँ
कत्थइ वंसारि समुद्ध-वंस
कत्थइ धय-चड णच्चन्ति एम
कत्थइ लोहारोहँ लोहखण्डु
तं हट्टमग्गु मेँल्लेवि कुमारु
पडिहारु वुत्तु 'कहि गम्पि एम
जियपउमहँ माण-मरट्ट-दलणु
रिउ-संघायहँ संघाय-करणु

अवरुण्डिउ लक्खणु णाइँ तेण ॥ १
णं णड णाणाविह णाडएहिँ ॥ २
णावइ सु-कुलीण विसुद्ध-वंस ॥ ३
वरि अँमिह सुरायर सग्गो जेम ॥ ४
पिट्ठिज्जइ णरएँ व पात्रपिण्डु ॥ ५
णिविसेण पराइउ रायवारु ॥ ६
वरु वुच्चइ आइउ एक्कु देव ॥ ७
पर-वल-मेसक्कु दरियारि-दमणु ॥ ८
सहुँ सत्तिहिँ तुज्झु वि सत्ति-हरणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

(अह) किं वेहुएँ जम्पिएण^{११} णिप्फल-चविएँण एम भणहि तं अरिदमणु ।
दस-वीस ण पुच्छइ संउँ वि पडिच्छइ पञ्चहँ सत्तिहिँ को गहणु' ॥ १०

4 This line up to णयरास^० omitted in A. 5 S णं पंथीयणमणरासयेण. 6 A (णय-
रास) विण. 7 P मालिय, S माली. 8 A करेवि. 9 P S A^० वि. 10 S हो. 11 A सुहुँ.
12 A णयण^०.

7. 1 A पुरेताइँ. 2 A सहँ. 3 A वरियमिह. 4 P णं णड, S णं णर. 5 P S A परावड.
6 A कहिँ. 7 A^० चसंहुँ. 8 P S^० दलणु. 9 P^० संघायहुँ. 10 A संघार^०. 11 A वहुएण
12 A omits this pāda. 13 A सहँ मि.

[६] १ शिष्य इव. २ इक्षुवाटी. ३ वापिका. ४ आगच्छन्.

[७] १ नगरव्यवहारकेत. २ घटाः. ३ गजाः. ४ उपरि वयम्. ५ चूरकः. ६ गर्वितारि एव.

[८]

तं णिसुणेवि गउ पडिहारु तेत्थु
पणवेप्पिणु बुच्चइ तेण राउ
भडु कालें चोइउ आउ इक्कु
किं कुसुमाउहु अतुलिय-पयाउं
तहों णरहों णवली भङ्गि का वि
सो चवइ एम जियपउम लेमि
तं णिसुणेवि पभणंइ सत्तुदमणु
पडिहारें सहिउ आउ कणहु

सह-मण्डवें सो अरिदमणु जेत्यु ॥ १
'परमेसर विण्णत्तिएँ पसाउ ॥ २
ण मुणहुँ किं अक्कु मियक्कु सक्कु ॥ ३
पर पञ्च वाण णउ एक्कु चाउ ॥ ४
फिट्टइ ण लच्छि अङ्गहों कयावि ॥ ५
किं पञ्चहिँ दस सत्तिउ धरेमि ॥ ६
'पेक्खमि कोकहि वरइत्तु कवणु' ॥ ७
जयलच्छि-पसाहिउ जुज्झ-तणहु ॥ ८

॥

॥ घत्ता ॥

अञ्जुभड-वयणेहिँ दीहर-णयणेहिँ णरवँइ-विन्दहिँ दुज्जएहिँ ।
लक्खिज्जइ लक्खणु एन्तु स-लक्खणु जेम मइन्दु महागएँहिँ ॥ ९

[९]

लक्खणु पासु पराइउ जं जे
१५ 'को जियपउम लएवि समत्थु
केण सिरेण पडिच्छिउ वज्जु
केण णहङ्गणु छित्तु करमं
केण वसुन्धरि दारिय पाएं
केण सुरेहहों भग्गु विसाणु
२० लद्धिउ केण समुहु असेसु
केण पँहङ्गणु वद्धु पँडेण

वुत्तु णिवेण हसेप्पिणु तं जे ॥ १
केण हुवासणें ढोइउ हत्थु ॥ २
केण कियन्तु वि' घाइउ अज्जु ॥ ३
केण सुरिन्दु परज्जिउ भोग्गें ॥ ४
केण पलोद्धिउ दिग्गउ घाएं ॥ ५
केण तलप्पएँ पाडिउ भाणु ॥ ६
कें फण-मण्डवें चूरिउ सैसु ॥ ७
मेरु-महागिरि टालिउ केण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह तुहुँ तिह अण्ण वि 'णीसावण्ण वि गँरुयइँ गज्जिय बहुय णर ।
महु सत्ति-पहारेंहिँ रँणें दुबारेंहिँ किय सँय-सकरँ दिट्ठ पर' ॥ ९

8. 1 S सह. 2 P S अज्जु, A मयंक्कु किं अक्कु सभु किं कुसक्कु. 3 S °पसाउ. 4 S तड-
5 P S A पभणइ. 6 A पेक्खहं. 7 A पइइ. 8 A णरवर°.

9. 1 P सहेप्पिणु. 2 A विवाइउ. 3 A चूरिउ. 4 A omits this pāda. 5 P णीसा.
वण्णेहिँ, S णीसारण्णेहिँ. 6 P थिय गरुवइ, S थिय णरवइ. 7 P S °सकर.

[९] १ ऐरावतेः. २ दन्तम्. ३ धरणेन्द्रः. ४ वायुः. ५ वज्रेण. ६ शतखण्ड.

[१०]

अरिदमणें भडु जं अहिखित्तु
 'हउं जियपउम लएवि समत्थु
 मइँ जि सिरेण पडिच्छिउ वज्जु
 मइँ जि णहज्जणु छित्तु करणें
 मइँ जि वसुन्धरि दारिय पाएं
 मइँ जि सुंरेहहों भग्गु 'विसाणु
 लङ्घिउ मइँ जि' समुहु असेसु
 मइँ जि' पहज्जणु वडु पडेण

महुमहु जेम दवग्गि पलित्तु ॥ १
 मइँ जि हुआसणें ढोइउ हत्थु ॥ २
 मइँ जि कियन्तु वि' घाइउ अज्जु ॥ ३
 मइँ जि सुरिन्दु परज्जिउ भोग्गें ॥ ४
 मइँ जि पलोट्टिउ दिग्गउ घाएं ॥ ५
 मइँ जि' तलप्पए पाडिउ भाणु ॥ ६
 मइँ फण-मण्डवें चूरिउ सेसु ॥ ७
 मेरु महागिरि टालिउ जेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हउं तिहुअण-डामरु हउं अजरामरु हउं 'तेत्तीसहुँ रणें अजउ ।
 खेमज्जलि-राणा अबुह अयाणा मेळि' सत्ति जइ सत्ति तउ' ॥ ९

[११]

तं णिसुणेंवि खेमज्जलि-राणउं
 सत्ति-विहत्थउ सत्ति-पगासणु
 अम्बरें तेय-पिण्डु णउं दिणयरु
 जणें अणवरय-दाणु णउ मयगलु
 रामायणहों मज्जेण णउ रामणु
 तेण विमुक्क सत्ति गोविन्दहों
 धाइय धगधगन्ति समरज्जणें
 सुरवर णहें वोळन्ति परोप्परु

उट्टिउ गलगज्जन्तु पहाणउं ॥ १
 धगधगधगधगन्तु स-हुआसणु ॥ २
 णिय-मज्जाय-चत्तु णउं सायरु ॥ ३
 परमण्डल-विणासु णउ मण्डलु ॥ ४
 भीम-सरीरु ण भीमु भयावणु ॥ ५
 णं हिमवन्तें गज्ज समुदहों ॥ ६
 णं तडि तडयडन्ति णहँ-अज्जणें ॥ ७
 'एण पहारें जीवइ दुक्करु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एत्थन्तरें कणहें जय-जस-तणहें धरिय सत्ति दाहिण-करेण ।
 संकेयहों दुक्की थाणहों चुक्की णावइ पर-तिय पर-णरेण ॥ ९

10. 1 S अरिदमणें. 2 A विवाइउ. 3 A जे. 4 P S कणि'. 5 S जे. 6 P तेतीसहुँ, S तेतीसह, A तेतीसहि. 7 मेळि २ जइ.

11. 1 P S A °राणउं. 2 A पहाणउं. 3 P S °विन्दु. 4 P marginally, पाटे 'णं' सवँत्र, A नं. 5 A नं. 6 A मयंगणे.

[१०] १ ऐरापतिः. २ दन्त. ३ मया. ४ त्रयास्त्रिंशत्-कोटिदेवानाम्.

[११] १ पिण्डु. २ णं. ३ सज्ज. ४ अथवा क्षीजनः रमणीयः न तु रामणः.

- [१२]
- धरिय सत्ति जं समरें समर्थें
 पुंणिम-इन्दु-रुन्द-मुहं-सोमहें^१
 'सुन्दरि पेक्खु पेक्खु जुञ्जन्तहों
 जा तउ ताएं सत्ति विसज्जिय
 णर-भमरेण एण अकलङ्कउ
 तं णिसुणेप्पिणु विहसिय-वयणएँ
 जाल-गवक्खएँ जो अन्तर-पडु
 लक्खणु णयण-कडक्खिउ कण्णएँ
 १० ताम कुमारें दिट्ठु सुदंसणु
 सुह-गक्खत्तें सुजोगें सुहङ्करु
- मेळ्ळिउ कुसुम-वासु सुर-सत्थें ॥ १
 केण वि कहिउ गम्पि जियपोमहें ॥ २
 णोखी^२ का वि भङ्गि वरइत्तहों ॥ ३
 लग्ग हत्थें असइ झालज्जिय ॥ ४
 पर चुम्बेवउ तुह मुह-पङ्कउ^३ ॥ ५
 णव-कुवलय-दल-दीहर-णयणएँ ॥ ६
 णाई सहत्थें फेडिउ मुह-वडु ॥ ७
 'णं जुञ्जन्तु णिवारिउ सण्णएँ ॥ ८
 धवलहरम्बरें मुह-मयलञ्छणु ॥ ९
 णयणामेलउ जाउ परोप्परु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एत्थन्तरें दुट्ठें मुक्कारुट्ठें लहु अण्णेक्क सत्ति णरेंण ।
 स वि धरिय सरगें वाम-करगें णावइ णव-वहु णव-वरेंण ॥ ११

- [१३]
- अण्णेक्क मुक्क बहु-मच्छरेण
 स हि दाहिण-कक्खहँ छुद्ध तेण
 अण्णेक्क विसज्जिय धगधगन्ति
 स वि धरिय एन्ति णारायणेण
 १० णं 'महिहरु देवइणन्दणेण
 पम्मुक्क पधाइय णरवरासु
 स विसाणोहँ एन्ति णिरुद्ध केम
 एत्थन्तरें देवाहँ लक्खणासु
 अरिदमणु ण सोहइ सत्ति-हीणु
- वज्जासणि णाई पुरन्दरेण ॥ १
 अवरुण्डिय वेस व कामुएण ॥ २
 णं सिहि-सिह जाला-सय मुअन्ति ॥ ३
 वामद्धं गोरि^४ व तिणयणेण ॥ ४
 पञ्चमिय मुक्क बहु-मच्छरेण ॥ ५
 णं कन्त सुकन्तहों सुहयरासु ॥ ६
 णव-सुरय-समागमें जुवइ जेम ॥ ७
 सिरें मुक्क पडीवउ कुसुम-वासु ॥ ८
 खल-कुपुरिसु व थिउ सत्ति-हीणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

- २५ हरि रोमञ्चिय-तणु सहइ स-पहरणु रण-मुहें परिसक्कन्तु किह ।
 रत्तुप्पल-लोयणु रस-वस-भोयणु पञ्चाउहु वेयालु जिह ॥ १०

12. 1 P S सहत्थें. 2 P S पुणु मइव, A इन्द. 3 A सोहहो, P सोमहें, S सोमिहिं.
 4 A omits this pāda. 5 S लोणी. 6 P S A चुंवेवउं. 7 A णिसुणेप्पिणु.

13. 1 A °वक्खहिं. 2 A अवहंवि. 3 A गउरि. 4 A reads this line thus:
 तिह धरिय करगें सत्ति तेण णं महिहरु देवइणन्दणेण.

5 after line 5, P reads the following extra pāda:

णं वज्जासणि णिइयमणेण.

6 A omits this line. 7 A वि उसणेहि. 8 S णं.

[१४]

समरङ्गणें असुर-परायणेण	अरिदमणु बुत्तु णारायणेण ॥ १
‘खल खुद्द पिसुण मच्छरिय राय	मइं जेम पडिच्छिय पच्च घाय ॥ २
तिह तुहु मि पडिच्छहि एक सत्ति	जइ अत्थि कां वि मणें मणुस-सत्ति’ ॥ ३
किर एम भणेप्पिणु हणइ जाम	जियपउमएँ घत्तिय माल ताम ॥ ४
‘भो साहु साहु रणें दुण्णिरिक्ख	मं पहरु देव दइं जणण-भिक्ख ॥ ५
जें समरें परजिउं सत्तुदमणु	पइं मुएँवि अणुणु वरइत्तु कवणु’ ॥ ६
तं वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण	आउद्धइं घित्तइं तक्खणेण ॥ ७
मुक्काउहु गउ अरिदमणं-पासु	सहसक्खु व पणविउ जिणवरासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘जं अमरिस-कुद्धें	जय-जस-लुद्धें	विप्पिउ किउं तुम्हेहिं सहँ ।
अणुणु वि रेकारिउ	कह वि ण मारिउ	तं मरुसेज्जहि माम महु’ ॥ ९

[१५]

खेमञ्जलिपुर-परमेसरेण	सोमिस्सि बुत्तु रजेसरेण ॥ १
‘किं जम्पिएण वहु-अमरिसेण	लइ लइय कण्ण पइं पउरिसेण ॥ २
तुहुं दीसहि दणु-माहप्प-चप्पु	कहे कवणु गोत्तु का माय वप्पु’ ॥ ३
महुमहणु पवोल्लिउ ‘णिसुणि राय	महु दसरहु ताउ सुंमिस्सि माय ॥ ४
अणुणु वि पर्यंडउ इक्खक्कु वंसु	वड्डारउ जिह तरुवरहों वंसु ॥ ५
वे अम्हइं लक्खण-राम भाय	वणवासहों रज्जु मुएवि आय ॥ ६
उज्जाणें तुहारएँ असुर-महु	सहुं सीयएँ अच्छइ रामंभहु’ ॥ ७
वयणेण तेण कण्टइउ राउ	संचल्लु णवर साहण-सहाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जण-मण-परिओसें	तूर-णिघोसें	णरवइ कहि मि ण माइयउ ।
जहिं रामु स-भज्जउ	वाहुं-सहेज्जउ	तं उद्देसु पराइयउ ॥ ९

[१६]

एत्थन्तरे पर-वल-भडं-णिसामु	उट्ठिउ जण-णिवहु णिएवि रामु ॥ १
----------------------------	--------------------------------

14. 1 P S को. 2 A देहि. 3 A परजिउं. 4 P S अरिदमहो. 5 Omitted in A. 6 A omits this pāda.

15. 1 A transposes a & b. 2 P सुमिस्सि. 3 P पर्यंडउं, A सुपर्यहु. 4 P S A उज्जाणि. 5 P S रामचंदु. 6 P माइयउ, S माइयओ, A माइउ. 7 P S अज्जु.

16. 1 A °नर°.

करैं धणुहरु लेइ ण लेइ जाम सकलत्तउ लक्खणु दिट्ठु ताम ॥ २
 सुरवइ व स-भज्जउ रहे णिविट्ठु अण्णेक्कु पासैं अरिदमणु दिट्ठु ॥ ३
 सन्दणहों तरेप्पिणु दुण्णिवारु रामहों चलणेंहिं णिवडिउ कुमारु ॥ ४
 जियपउम स-विब्भम पउम-णयण पउमच्छि पफुल्लिय-पउम-वयण ॥ ५
 पउमहों पय-पउमैंहिं पडिय कण्ण तेण वि सु-पसत्थासीस दिण्ण ॥ ६
 एत्थन्तरैं मामें ण किउ 'खेउ कणय-रहें चडाविउ रामएउ ॥ ७
 पडु पडह पहय किय-कलयलेहिं उच्छाहेंहिं धवल्लेहिं मङ्गलेहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रहें एक्कें णिविट्ठुइं णयरें पइट्ठुइं सीय-वलइं वलवन्ताइं ।
 ॥ णारायणु णारि वि थियइं चयारि वि रज्जु स इं भु ज्ज न्त इं ॥ ९

*

[३२. वत्तीसमो संधि]

हलहर-चक्कहर परचक्क-हर जिणवर-सासणें अणुराइय ।
 मुणि-उवसग्गु जहिं विहरन्त ताहिं वंसत्थल्लु णयरु पराइय

[१]

॥ ताम विसंथुल्लु पाणक्कन्तउ दिट्ठु असेसु वि जणु णासन्तउ ॥ १
 दुम्मणु दीण-वयणु विहाणउ गंड 'विच्छत्त 'व गलिय-विसाणउ ॥ २
 पण्णय-णिवहु व फणिमणि-तोडिउ गिरि-णिवहु व वज्जासणि-फोडिउ ॥ ३
 पङ्कय-सण्डु व हिम-पवणाहउ उब्भड-वयणु समुब्भिय-वाहउ ॥ ४
 जणवउ जं णासन्तु पदीसिउ राहवचन्दें पुणु मम्भीसिउ ॥ ५
 ॥ 'थक्कहों मं भज्जहों मं भज्जहों अभउ अभउ भउ सयलु विवज्जहों' ॥ ६
 ताम' दिट्ठु' ओखण्डिय-माणउ णासन्तउ वंसत्थल-राणैउ ॥ ७
 तेण वुत्तु 'मं णयरें पईसहों तिण्णि मि पाण लैएप्पिणु णासहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एत्तिउ एत्थु पुरें गिरिवर-सिहरें जो उट्ठुइं णाउ भयङ्करु ।
 ॥ तेण महन्तु डरु णिवडन्ति तरु मन्दिरइं जन्ति 'सय-सकरु ॥ ९

1. 1 A विसंडुल्लु. 2 SA विहाणउं. 3 P गयु, SA गय. 4 P विच्छइयु, S विच्छइयु.
 5 A विसाणउं. 6 A होट्टिउ. 7 P ताव, S तावहि. 8 PA दिट्ठु उखंडिय°, S दिट्ठु उखंडिय°. 9 P °माणउं. 10 P राणउं. 11 S लएप्पिणु. 12 A omits this pāda.

[१६] १ विलम्बम्.

[१] १ म्लानः (reading विच्छइयु). २ हस्ती दंतरहितेव. ३ शब्दम्. ४ घातखण्डानि.

[२]

एउं दीसइ गिरिवर-सिहरु जेत्यु
वाओलि धूलि दुव्वाइ 'एइ
धर भमइ समुद्रइ सीह-णाउ
तें कज्जे णासइ सयलु लोउ
तं णिसुणेवि सीय मणे कम्पिय
'अम्हहुं देसें देसु भर्मन्तहुं
तं णिसुणेवि भणइ दामोयरु
'विहि मि जाम करे अतुल-पयावइ
जाम विहि मि जय-लच्छि परिट्टिय
ताम माए तुहुं कहे आसङ्कहि

उवसगु भयङ्करु होइ तेत्थु ॥ १
पाहण पडन्ति महि थरंहरेइ ॥ २
वरिसन्ति मेह णिवडइ णिहाउ ॥ ३
मं तुम्ह वि उहु उवसगु होउ' ॥ ४
भीय-विसन्थुल एव पजम्पिय ॥ ५
कवणु पराहउ किर णासन्तहुं ॥ ६
'बोळिउ काइ माए पइ कायरु ॥ ७
सायर-वज्जावत्तइ चावइ ॥ ८
तोणीरहिं णाराय अहिट्टिय ॥ ९
विहरु विहरु मा मुहु ओर्वङ्कहि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

धीरेंवि जणय-सुय कोवण्ड-भुर्य संचल वे वि वल-केसव ।
सगगहो अवयरिय सइ-परियरिय इन्द-पडिन्द-सुरेस वं ॥ ११

[३]

पहन्तरे भयङ्करो
वेलो व्व सिङ्ग-दीहरो
कहिं जे भीम-कन्दरो
कहिं जि रत्तचन्दणो
कहिं जि दिट्ट-छारया
कहिं जि सीह-गण्डया
कहिं जि मत्त-णिब्भरा
कहिं जि दाढ-भासुरा
कहिं जि पुच्छ-दीहरा
कहिं जि थोर-कन्धरा
कहिं जि तुङ्ग-अङ्गया
कहिं जि आणणुणया

झंसाल-छिण्ण-कक्करो ॥ १
णियच्छिओ महीहरो ॥ २
झरन्त-णीरं-णिङ्गरो ॥ ३
तमाल-ताल-वन्दणो ॥ ४
लवन्त मत्त-मोरया ॥ ५
धुणन्त-पुच्छ-दण्डया ॥ ६
गुलुगुलन्ति कुञ्जरा ॥ ७
धुरुधुरन्ति सूयरा ॥ ८
किलिकिलन्ति वाणरा ॥ ९
परिब्भमन्ति सम्बरा ॥ १०
हयारि-तिक्खसिङ्गया ॥ ११
कुरङ्ग वुण्ण-कण्णया ॥ १२

2. 1 P S इउ. 2 P दुव्वारएहिं, 3 दुव्वारयेहिं. 3 P थरहरेहिं. 4 S भवंतउ. 5 P उंव-
कहिं, 8 ओवंकहिं, 6 P अुय. 7 A ओयरिय. 8 P सइ. 9 S वा.

3. 1 S इहं, A एरं. 2 P S अंछिण्णु. 3 A संगं. 4 S तीरं. 5 P वकंतं. 6 A
दंडया. 7 A तुंगजीहया. 8 A तिक्खसीहया. 9 P S कुरंगु.

[२] १ आवयोः. २ व(म ?)लाभ्यां वाणाः. ३ अग्ने चल अग्ने चल.

[३] १ वंसयकृत(?)पाषाणवन्तश्च. २ वृष इव. ३ पीपलः. ४ रक्षा, अथवा, 'मत्त-मथूरा
छारया छायया रक्षा (?). ५ महिषाः.

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहएँ सँइलें तरुवर-वहलें आरुढ वे वि हरि-हलहर ।
जाणइ-विञ्जुलएँ धवलुञ्जलएँ विञ्चइय गाँ गव जलहर ॥ १३

[४]

१ पिहुल-णियम्ब-विम्ब-रमणीयहें राहउ दुम दरिसावइ सीर्यहें ॥ १
एँहु सो 'धणें गगगोहँ-पहाणु जहिँ रिसहहों उप्पण्णउं गाणु ॥ २
एँहु सो सत्तवन्तु किं न मुणित अजिउ स-गाण-देहु जहिँ पँथुणितुं ॥ ३
एँहु सो इन्दवच्छु सुपसिद्धउ जहिँ संभव-जिणु णाणं-समिद्धउ ॥ ४
एँहु सो सरलु सहलु संभूअउ अहिणन्दणु स-गाणु जहिँ हूअउ ॥ ५
१० एँहु पीयङ्गु सीएँ सच्छायउ सुमइ स-गाणपिण्डु जहिँ जायउ ॥ ६
एँहु सो सालु सीएँ णियच्छिउ पउमप्पहु स-गाणु जहिँ अच्छिउ ॥ ७
एँहु सो सिरिसु महहुमु जाणइ णाणु सुपासँ भणेंवि जगु जाणइ ॥ ८
एँहु सो णागरुक्खु चन्दप्पहें णाणुप्पत्ति जेत्यु चन्दप्पहें ॥ ९
एँहु सो मालइरुक्खु पदीसिउ पुप्फयन्तु जहिँ णाण-विहसिउ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

१६ एँहु सो 'पक्खँतरु फल-फुल्ल-भरु तेन्दुइ-समाणु दुह-णासहुँ ।
जहिँ परिहयाइँ संभूर्याइँ णाणइँ सीयल-सेयंसहुँ ॥ ११

[५]

एँह सा पांडलि सुहल सुपत्ती वासुपुजें जहिँ णाणुप्पत्ती ॥ १
११ एँसु सो 'जम्बू एहु असँत्थु विमलणन्तहुँ णाण-समत्थु ॥ २
उहु दहिवण्ण-गन्दि सुपसिद्धा धम्म-सन्ति जहिँ णाण-समिद्धा ॥ ३
उहु साहार-तिलउ दीसन्ति कुन्थु-अरहुँ जहिँ णाणुप्पत्ति ॥ ४
एँहु सो तरु कँड्ढेलि-पहाणु मल्लिजिणहों जहिँ केवल-णाणु ॥ ५
एँहु सो चम्पउ किण्ण णियच्छिउ मुणि सुव्वउ स-गाणु जहिँ अच्छिउ ॥ ६

10 A चेवइय.

4. 1 P रमणीयहो, S रमणीयहिँ. 2 S सीर्यहिँ, A सीर्यहो. 3 A नगगोहु. 4 A उप्पण्णउं.
5 P S किञ्च. 6 P A पथुणितं, S पँथुणितं. 7 P S णाणु. 8 S सहल, A सुहल. 9 P संभूअउं,
A संभूअउ. 10 P चंदप्पहु, S चंदप्पहो. 11 P S चंदप्पहो. 12 S A जक्खतरु. 13 S त्तिदुइ,
A तंदुइ. 14 S जिह. 15 A सइं भूयाइँ.

5. 1 P S पाडल. 2 A आसत्थु. 3 S साहार.

९ पवेंते. ७ मंजितः.

[४] १ हे सीते. २ प्रकर्षेण स्तनितः. ३ हे जानकी सीते. ४ प्लक्षः. ५ संभूतानि.

[५] १ जामुणि. २ पीपलः. ३ अशोकः.

इय उत्तिर्मत्तु इन्दु वि वन्दइ
एम चवन्त पत्त वल-लक्खण
दिवस चयारि अणङ्ग-वियारा

जणु कजेण तेण अहिणन्दइ' ॥ ७
जहिँ कुलभूसण-देसविहूसण ॥ ८
पडिमा-जोगे' थक्क भडारा ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वेन्तर-घोणसेहिँ आसीविसेहिँ अहि-विच्छिय-वेळि-सहासेहिँ ।
वेडिय वे वि जण सुहँ-लुद्ध-मण पासण्डिय जिह 'पसु-पासेहिँ' ॥ १०

[६]

जं दिट्ठु असेसु वि अहि-णिहाउ
तोणीर-पक्खु वइदेहि-चञ्चु
सोमिन्ति-वियड-विप्फुरिय-वयणु
दोणिण वि कोवण्डइँ कण्ण दो वि
तं णयण-कडक्खेवि दुग्गमेहिँ
'लहु णासहुँ किं णर-संगमेण
एत्थन्तरे विहडिय अहि मयन्ध
भय-भीय विसन्थुल मणेण तट्ठु

वलएउ भयङ्करु गरुडु जाउ ॥ १
पक्खुज्जल-सर-रोमञ्च-कञ्चु ॥ २
णाराय-तिक्ख-णिडुरिय-णयणु ॥ ३
थिउ राहउ भीसणु गरुडु होवि ॥ ४
परिचिन्तिउ कज्जु भुअङ्गमेहिँ ॥ ५
खजेसहुँ गरुड-विहङ्गमेण' ॥ ६
गय खयहोँ णाई मुणि-कम्मवन्ध ॥ ७
खर-पवण-पहय घण जिह पणट्ठु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वेळी-सङ्कलहोँ वंसत्थलहोँ
जाय पगास रिसि णहँ सूर-ससि

विसहर-फुक्कार-करालहोँ ।
उम्मिल्ल णाई घण-जालहोँ ॥ ९

[७]

अहि-णिवहु जं जेँ गउ ओसरेंवि
जे भव-संसारारिहँ डूरिय
विहिँ दोसहिँ जे ण परिग्गहिय
तिहिँ जाइ-जरा-मरणेहिँ रहिय
जे चउगइ-चउकसाय-महण
जे पञ्च-महबय-दुँधर-धर
छत्तीस-गुणँट्ठि-गुणेहिँ पवर
जिय जेहिँ सभय सत्त वि णरय
कम्मट्ठु-भयट्ठु-दुट्ठु-दमणँ

मुणि वन्दिय जोग-भत्ति करेंवि ॥ १
सिव-सासय-गमणहोँ अइतुरिय ॥ २
विहिँ वज्जिय विहिँ ज्ञाणाहिँ सहिय ॥ ३
दंसण-चारित्त-णाण-सहिय ॥ ४
चउ-मङ्गल-कर चउ-सरण-मण ॥ ५
पञ्चेन्दिय-दोस-विणासयरं ॥ ६
छज्जीव-णिकायहुँ खन्ति-कर ॥ ७
जे' सत्त सिवङ्कर अणवरय ॥ ८
अट्ठविह-गुणहोँ-सरसवण ॥ ९

4 P S उत्तम. 5 A °जोदं. 6 S सुद्धमण, A सुहसुद्धमण.

6. 1 P वलपुव. 2 A °वर°. 3 A किण्णर°. 4 S A विसंदुडु.

7. 1 P °संसारारिहि, S °संसारारिहिं. 2 S डुरिय. 3 P दुद्धरद्धर, S दुद्धरधर. 4 P S °विणासकर. 5 A °गुणट्ठु°. 6 S °णिकायदोषतिकर. 7 P जे. 8 P °दवण, S °दवणा.

४ क्यादि-गृहारम्भेः.

स० प० च० १२

॥ घत्ता ॥

एकेकोत्तरिय इय गुण-भरिय पुणु वन्दिय बल-गोविन्देहिं ।
गिरि-मन्दिर-सिहरे वर-वेईहरे जिण-जुवलु 'व इन्द-'पडिन्देहि ॥ १०

[८]

- १ भावे तिहि मि जणेहिं धम्मज्जणु किउ चन्दण-रसेण सम्मज्जणु ॥ १
पुफ्फञ्चणिय छुद्ध-सयवत्तेहिं पुणु आढत्तु गेउ मुणि-भत्तेहिं ॥ २
रामु सुघोसे वीण अप्फालइ जा मुणिवरहु मि चित्तइ चालइ ॥ ३
जा रामउरिहिं आसि रवण्णी तूसेवि पूयण-जक्खे दिण्णी ॥ ४
लक्खणु गाइ सलक्खणु गेउ सत्त वि सर ति-गाम-सर-भेउ ॥ ५
१० एकवीस वर-मुच्छण-ठाणइ एकुणपञ्चास वि सर-ताणइ ॥ ६
ताल-विताल पणच्चइ जाणइ णव रस अट्ट भाव जा जाणइ ॥ ७
दस दिट्ठिउ वावीस लयाइ भरहे भरह-गविट्ठइ जाइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

- भावे जणय-सुय चउसट्ठि भुय दरिसन्ति पणच्चइ जावेहिं ।
१० दिणयर-अत्थवणे गिरि-गुहिले-वणे उवसगु समुट्ठिउ तावेहिं ॥ ९

[९]

- तो कोवग्गि-करम्बिय-हासइ दिट्ठइ णहयले असुर-सहासइ ॥ १
अण्णइ विप्फुरियाहर-वयणइ अण्णइ रत्तुम्मिल्लिय-णयणइ ॥ २
अण्णइ पिङ्गङ्गइ पिङ्गक्खइ अण्णइ णिम्मंसइ दुप्पेक्खइ ॥ ३
१० अण्णइ णहे णच्चन्ति विवत्थइ अण्णइ तहिं चामुण्ड-विहत्थइ ॥ ४
अण्णइ कङ्कालइ वेयालइ कत्तिय-मडय-करइ विकरालइ ॥ ५
अण्णइ मसि-वण्णइ अपसत्थइ णर-सिर-माल-कर्वाल-विहत्थइ ॥ ६
अण्णइ सोणिय-मईर पियन्तइ णच्चन्तइ घुम्मन्त-घुलन्तइ ॥ ७
अण्णइ किलकिलन्ति चउ-पासेहिं अण्णइ कहकहन्ति उवहासेहिं ॥ ८

9 P °वेइहरे. 10 P इ, S omits. 11 P S °पडिदिहिं, A पडिइहिं.

8. 1 S पुफ्फञ्चणिय. 2 P च्छुग°, S च्छु. 3 P S सुघोसु. 4 P S टालइ. 5 P S एकु
णि पंचास. 6 S जो. 7 P S A जाणइ. 8 A भरहे. 9 A भरहे. 10 S जायइ. 11 P S दिणयर
अथवणे. 12 P °गुहलस°, S °गुहस°. 13 S ओसगु.

9. 1 A °सहायइ. 2 P S पिंगगइ. 3 A चउंइ°. 4 P S वेयालइ, A वेयालइ कंकालइ.
5 P S °कराल°. 6 A °मइइ.

[८] १ सीता.
[९] १ मिभाणि.

॥ घत्ता ॥

अण्णइँ भीसणइँ
देसविहूसणइँ

दुहरिसणइँ
कुलभूसणइँ

'मरु मारि मारि' जम्पन्ताइँ ।
आयइँ उवसग्गु करन्ताइँ ॥ ९

[१०]

पुणु अण्णइँ अण्णण्ण-पयारैहिँ
अण्णइँ जम्बुव-सिव-फेकारैहिँ
अण्णइँ करिवर-कर-सिक्कारैहिँ
अण्णइँ गद्दह-मण्डल-सदेहिँ
अण्णइँ गिरिवर-तरुवर-घाएँहिँ
अण्णइँ 'अमरिस-रोस-फुरन्ताइँ
अण्णइँ दह-वयणइँ सय-वयणइँ
तहिँ तेहएँ वि^{१०} कालेँ मइ-विमलहुँ

दुक्कइँ विसहर-फण-फुक्कारैहिँ ॥ १
वसह-झडक-मुक्क-ढेक्कारैहिँ ॥ २
सर-सन्धिय-धणु-गुण-टक्कारैहिँ ॥ ३
अण्णइँ बहुविह-भेसिय-णहैँहिँ ॥ ४
पाणिय-पाहण-पवणुप्पाएँहिँ ॥ ५
णयणैँहिँ अग्गि-फुलिङ्ग मुयन्ताइँ ॥ ६
अण्णइँ सहस-मुहइँ बहु-णयणइँ ॥ ७
तो वि ण चलिउ ज्ञाणु मुणि-धवलहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वइरु सरन्ताइँ
कालेँ अप्पणउ

पहरन्ताइँ
भीसावणउ

सव्वल-हुलि-हल-मुसलगेँहिँ ।
दरिसाविउ णं बहु-भङ्गेँहिँ ॥ ९

[११]

उवसग्गु णिँएवि हरिसिय-मणेँहिँ
मम्भीसेँवि सीय महावल्लेँहिँ
धणुहरइँ विहि मि अप्फालियइँ
बुण्णइँ भय-भीय-विसण्णुलइँ
तं सहु सुणेँवि आसङ्कियइँ
धणुहर-टक्कारैहिँ वहिरियइँ
णं अट्ट वि कम्मइँ णिज्जियइँ
णं णासेँवि गयइँ परीसहइँ

णीसङ्केँहिँ वल-णारायणेँहिँ ॥ १
मुणि-चलण धराविय करयलेँहिँ ॥ २
णं सुर-भर्वणइँ संचालियइँ ॥ ३
णं रसियइँ णहयँल-महियलइँ ॥ ४
रिउ-चित्तइँ माण-कलङ्कियइँ ॥ ५
णट्टइँ खल-खुद्दइँ वइरियइँ ॥ ६
णं पञ्चेन्दियइँ परंजियइँ ॥ ७
तिह असुर-सहासइँ दूसहइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

छुडु छुडु णट्टाइँ
ताव भडाराहुँ

भय-तट्टाइँ
वय-धाराहुँ

मेल्लेप्पिणु मच्छरु माणु ।
उप्पणउ केवल-णाणु ॥ ९

7 P S देसविहूसणहु. 8 P S कुलभूसणहो.

10. 1 P S °फणि°. 2 P S °फेकारहिँ, A फेहिँ. 3 S omits this pāda. 4 P °सइहि, A °नइहिँ. 5 P °णुघाएँहिँ, S °णुगघायहिँ. 6 S गद्दहअमरिस°. 7 P S णयणइँ. 8 P दस°. 9 A °वयणइँ. 10 P omits. 11 P S अप्पणउ. 12 S A भीसावणउ.

11. 1 P S अप्फालियाइँ, and so throughout this Kadavaka in P S the pādas end in °आइँ. 2 P S °भवणइँ, A भुयणइँ. 3 P S जहपले. 4 P S °चित्तहु. 5 A परिज्जियइँ. 6 A उप्पणउ.

[१२]

ताव मुणिन्दहँ णाणुप्पत्तिँ
जेहिँ किस्सि तइलोकें पगासिय
पहिलउ भावण सङ्ख-णिणहँ
जोइस-देव वि सीह-णिणाएँ
संचलिएँ चउ-देवणिकाएँ
वहइ विमाणु विमाणें चप्पिउ
तुरउ तुरङ्गमेण ओमाणिउँ
गयवरु गयवरेण पडिखलियउ

आय सुरासुर-वन्दणहत्तिँ ॥ १
जोइस वेन्तर भवण-णिवासिय ॥ २
वेन्तर तूरंयफालिय-सहँ ॥ ३
कप्पामर जयघण्ट-णिणाएँ ॥ ४
छाइउ णहु णं घण-संघाएँ ॥ ५
वाहणु वाहण-णिवह-ईडप्पिउ ॥ ६
सन्दणु सन्दणेण 'संदाणिउ ॥ ७
लग्गेवि मउडें मउडु उच्छलियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१० भावें पेळियउ भय-मेळियउ सुर-साहणु लीलएँ आवइ ।
लोयहुँ मूढाहुँ तमें छूढाहुँ णं धम्म-रिद्धि दरिसावइ ॥ ९

[१३]

ताव पुरन्दरेण अइरावउ
सोह दिन्तु चउसट्ठी-णयणोँहिँ
वयणें वयणें अट्टट्ट विसाणइँ
एक्केक्कएँ विसाणें जण-मणहरु
सरें सरें सर-परिमाणुप्पण्णी
एक्केक्केहँ पउमिणिहँ विसालइँ
कमलें कमलें वत्तीस जि पत्तइँ
वद्धिउँ जम्बूदीव-पमाणें
तहिँ दुग्घोँट्टेँ चडेंवि सुर-सुन्दरु
पुरउ सुरिन्दहोँ णयणाणन्देँहिँ

साहिउँ जण-मण-णयण-सुहावउ ॥ १
गुलुगुलन्तु वत्तीसहिँ वयणोँहिँ ॥ २
णाइँ सुवण्ण-णिवद्ध-णिहाणइँ ॥ ३
एक्केक्कउ जें परिट्टउ सरवरु ॥ ४
कमलिणि एक्क-एक्क णिप्पण्णी ॥ ५
पङ्कयाइँ वत्तीस स-णालइँ ॥ ६
पत्तेँ पत्तेँ णट्टाइ मि तेत्तइँ ॥ ७
पुणु जि परिट्टिउ तेण जि' थाणें ॥ ८
वन्दणहत्तिँ आउ पुरन्दरु ॥ ९
गुरु पोमाइउ वन्दिण-वन्देँहिँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

'देवहोँ दाणवहोँ खल-माणवहोँ रिसि चलणोँहिँ केवँ ण लगहोँ ।
११ 'जेहिँ तवन्तएँहिँ अचलन्तएँहिँ इन्दु वि अवयारिउ सगहोँ' ॥ ११

12. 1 P °मुणिंदहो, २ मुणिंदहु. 2 A विंतर भवण जे संखनिनाएँ. 3 A तूरफालियाघोएँ. 4 P omits this pāda. 5 P ज्जळिप्पउ. 6 PS उम्माणिउ. 7 A संदाणिउँ. 8 PS मउडु, A मउः

13. 1 A पसहिउ. 2 P णं. 3 After line 6, २ reads the following extra
कमले कमले वत्तीस दलाइँ णवमचरंदरिद्विवहलाइँ ।

4 A वल्लेवि. 5 P जि ण. 6 P वंदणवंदिहिँ, २ वंदणवंदिहिँ, A वंदिणविंदेहिँ. 7 PS क्किण्ण
वळगगहो. 8 P जहिँ तवतेएँहिँ, २ जहि तवतेएँहिँ. 9 P पहवंतएँहिँ, २ पहवंतयेहिँ.

[१२] १ निरुद्धः.

[१३] १ सजीकृतः, साधितः. २ देवघमूहैः.

[१४]

जिणवर-चलण-कमल-दल-सेवहिँ केवल-गाण-पुज्ज किय देवहिँ ॥ १
 भणइ पुरन्दरु 'अहों अहों लोयहों जइ सङ्गिय जर-मरण-विओयहों ॥ २
 जइ णिविण्णा चउ-गइ-गमणहों तो कि णं दुक्कहों जिणवर-भवणहों ॥ ३
 पुत्तु कलत्तु जाव मणें चिन्तहों जिणवर-विम्बु ताव कि ण चिन्तहों ॥ ४
 चिन्तहों जाव मासु मयरासणु कि ण चिन्तवहों ताव जिणसासणु ॥ ५
 चिन्तहों जाव रिद्धि सिय सम्पय कि ण चिन्तवहों ताव जिणवर-पय ॥ ६
 चिन्तहों जाव रूउ धणु जोवणु धणु सुवणु अणु घरु परियणु ॥ ७
 चिन्तहों जाव वलिउ भुव-पञ्जरु कि ण चिन्तवहों ताव परमक्खरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेक्खहु धम्म-फलु चउरङ्ग-वलु पयहिण ति-वार देवाविउ ।
 स इँ भु वणेसरहों परमेसरहों अत्थक्कएँ सेव कराविउ' ॥ ९

*

[३३. तेत्तीसमो संधि]

उप्पणएँ णाणें
 'कुलभूसण-देव

पुच्छइ रहु-तणउ ।
 किं उवसग्गु कैउ' ॥

[१]

तं णिसुणेंवि पभणइ परम-गुरु 'सुणु जक्खथाणु णामेण पुरु ॥ १
 तहिँ कासव-सुरव महाभविय एयारह-गुणथाणग्घविय ॥ २
 एक्कोवर किङ्कर पुरवइहें णं तुम्बुरु-णारय सुरवइहें ॥ ३
 हम्मन्तु विहंङ्गमु लुद्धएँहिँ परिरक्खिउ तेहिँ पवुद्धएँहिँ ॥ ४
 खंगवइ पुणुं वहुकालेण मुउ विज्झाचलें भिल्लाहिवइ हुउ ॥ ५
 तो कासव-सुरव वे वि मरेवि थिय अमियसरहों घरेँ ओअरेँवि ॥ ६
 उवओवादेविहें^{१०} दोहलेंहिँ उप्पण्णा वडुँहिँ सोहलेंहिँ ॥ ७
 वद्धावउ आयउ वन्धुजणु किउ उइय-मुइय णामंगहणु ॥ ८

14. 1 A देवहो. 2 P किर. 3 PS °चलणहो. 4 PS जेम. 5 PSA मणि. 6 A अण्ण.
 1. 1 PS णाणें. 2 PS °तणउं. 3 PS किं तउ. 4 PS किउ. 5 S °पुरव, A सुरय.
 6 A °णुग्घविय. 7 PA पवुद्धिएँहिँ. 8 A वहुकाकंतरेण. 9 P उववाएँ, S उववायं. A 10 P
 देविहिँ, S देविहि, A एवेहिँ. 11 P उइअउ. 12 P णामगहणु.

[१४] सेवकैः. २ भुजापञ्जरवल. ३ वारंवारं, आकस्मिकेन.

[१] १ कर्षक-सूरपौ भ्रातरौ. २ एकादश-प्रतिमा-युक्ताः. ३ पंक्षी. ४ पंक्षी. ५ अमृतसर-वृत्तस्य.
 ६ उपयोग (?) अमृतसरस्य स्त्री. ७ उत्सवैः. ८ उदित-मुदित-नामानौ.

॥ घत्ता ॥

णं अमर-कुमार
णाणकुंस-हत्थ

छुडु सगगहों पडिय ।
जोवण-गएँ चडिय ॥ ९

[२]

१ तो पउमिणिपुर-परमेसरहों
तेण वि णिय-सुअहों जयन्धरहों
अच्छन्ति जाम भुञ्जन्ति सिय
पँट्टविउ णरिन्दें अमियसरु
वसुभूइ सहेजउ तासुँ गउ
२ पल्लइइ पँल्लट्टिउ भणेंवि
सो उवउँवाएविँ सहुँ जियइ
परियाणेंवि जेइँ दुच्चरिउ

दरिसाविय 'विजय-महीहरहों ॥ १
किय किङ्कर वड्डिय-रणभरहों ॥ २
तो ताम जणेरहों गेमण-कियँ ॥ ३
अँइभूमि-लेहँ-रिञ्छोलि-धरु ॥ ४
तें णवर पाण-विच्छोउ कउ ॥ ५
ते उइय-मुइय तिण-समु गणेंवि ॥ ६
अमिओवँमु अहर-पाणु पियइ ॥ ७
वसुभूइहें जीविउ अवंहरिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उप्पणउ विञ्जें
पुव्वँकिउ कम्म

होप्पिणुँ पल्लिवइ ।
सव्वहों परिणवइ ॥ ९

[३]

जँय-पव्वय-पवरुज्जाणु जहिँ
किय रुक्खें रुक्खें आवास-किय
संजायइँ अङ्गइँ कोमलँइँ
२ रिसि रुक्ख व अविचल होवि थिय
रिसि रुक्ख व तवणँ-ताव तविय
रिसि रुक्ख व आलवाल-रहिय
गउ णँन्दणवणिउ तुरन्तु तहिँ

रिसि-सङ्घु पराइउ ताव तहिँ ॥ १
णं रुक्खें रुक्खें अवइण्ण सिय ॥ २
अहियइँ पण्णइँ फुलँइँ फलँइँ ॥ ३
किसलएँ परिवेढावेढि किय ॥ ४
रिसि रुक्ख व मूल-गुणँगघविय ॥ ५
रिसि रुक्ख व मोक्ख-फलँब्भहिय ॥ ६
सो विजय-महीहर-राउ जहिँ ॥ ७

13 P णामंकुस°.

2. 1 P पोइणि°, S पोमिणि°. 2 A °तिय. 3 A ताव. 4 P सो लइ उअवाएवि सहु जिअइँ, S उअवाएविँये सहु सहु जियइँ, A omits सो. 5 S अमिउवहु. 6 P अवहरिउं. 7 P S होप्पिणु. 8 P S पुव्वकिउ.

3. 1 S तुरिउ. 2 A omits the portion from °इँ अंगइँ up to रिसि in line 5. 3 P S कोमलाइँ. 4 P S फुलइँ फलाइँ. 5 P S तावतवणु. 6 S °क्खविय. 7 P S आला-चाल°. 8 P S °गघविय.

[२] १ विजयपर्वतस्य राज्ञः. २ गमनक्रियायां. ३ विजय-महीश्वर-राज्ञा कापि प्रयोजनेन प्रेषितः स अमृतसर-दूतः. ४ दूर-भूमि, अथवा भूमेरनतिक्रमेण निज-भूमि यावत्. ५ लेखमाला. ६ ब्राह्मणः. ७ तेन दूतेन व्यावृत्तः. ८ वसुभूतिः. ९ महादेवी उपयोक्तिवा (?)

[३] १ विजयपर्वतः. २ अटम न्यायो X वृक्षमूलं जलस्थानं च. ३ वनपालः.

“परमेसर केसरि-विक्रमैहिं

उज्जाणु लइउ जइ-पुङ्गवैहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वारन्तहों मज्जु

उम्मग्गिम करेवि ।

रिसि-सीह-किसोर (व)

थियँ वणें पइसरेंवि” ॥ ९

[४]

तं णिसुणेंवि णरवइ गयउ ताहिं
बोलाविय अहों “अहों मुणिवरहों
परमप्पउ अप्पउ होवि’ थिउ
अइदुल्लहु लहेंवि मणुअत्तणउ
कहों केरउ परम-मोक्ख-गमणु
सच्छाई आयई अङ्गाई
वित्थिण्णई आयई कडियलई
लायण्णई रूवई जोव्वणई

आवासिउ महरिसि-संत्यु जहिं ॥ १
अबुहहों अयाण-परमक्खरहों ॥ २
कज्जेण केण रिसि-वेसु किउ ॥ ३
कें कज्जेण विणडहों अप्पणउ ॥ ४
वरि माणिउ मणहरु तरुणियणु ॥ ५
सोलह-आहरणहं जोग्गाई ॥ ६
हय-गय-रह-वाहण-पच्चलई ॥ ७
णिप्फलई गयई तुम्हहं तणई ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुपसिद्धउ लोएँ

एक्कु वि तउ ण कउ ।

तुम्हाण किलेसु

सयलु णिरत्थु गउ” ॥ ९

[५]

तो मोक्ख-रुक्ख-फल-वंद्धणेंण
“पई अप्पउ काई विडम्बियउ
कहों घरु कहों पुत्त-कलत्ताई
स-विमाणई जाणई जोग्गाई
धण-धण्णई जीविय-जोव्वणई
वइसणउ वसुन्धरि वंज्जाई
आयहिं वहुंयहिं वेयोरियई
सुरंवरइहिं सहासई पाडियई

महिपालु वुत्तु मइवद्धणेंण ॥ १
अच्छहि सुह-दुक्ख-करम्बियउ ॥ २
धय-चिन्धई चामर-छताई ॥ ३
रह-तुरय-महग्गय-हुंग्गाई ॥ ४
जल-कीलउ पाणई उव्वणई ॥ ५
णउ कासु वि होन्ति सहेज्जाई ॥ ६
वर्ममाणहं लक्खई मारियई ॥ ७
चक्कवइ-सयई णिद्धाडियई ॥ ८

१ P द्विभ, ४ टिय.

४. १ P संघु, २ P S होइ. ३ P A मणुअत्तणउं, S मणुयत्तणउ. ४ P किं कज्जइ, S किं कज्जइ, A के कज्जे. ५ P S A अप्पणउ. ६ P वरे.

५. १ P S सुक्ख, A मोक्खु, २ P S वन्धणेण. ३ A अप्पउं. ४ P S अच्छइ. ५ P S वेम्माई. ६ P S वहुंयहिं. ७ P S वंमाणहो. ८ P सुरवरइहिं, S सुरवरइ.

[४] १ परममूर्खः. २ दमनक्रियायां समर्थः.

[५] १ डोलिका. २ दुर्गाणि समूहानि च. ३ हीरा-रत्न. ४ छद्मिदानि.

॥ घत्ता ॥

एय वि अँवरे वि
सिय कहों समाणु

कालें कवलु किय ।
एकु वि पउ ण गय” ॥ ९

[६]

१ परमेसरु पुणु वि पुणु वि कहइ
उप्पत्ति-जरा-मरणावसरु
पुमाल-परिमाणं-सुत्तु धेरेंवि
वहु-अस्थि जि अन्तहिँ ढङ्कियउ
सिर-कलसालङ्किय संचरइ
२ तरुणत्तणु जाम ताम वहइ
सिरु कम्पइ जम्पइ ण वि वयणु
ण चँलन्ति चलण ण करन्ति कर

“जिउ तिण्णि अवत्थउ उव्वहइ ॥ १
पहिलउ जे णिवंउउ देह-घरु ॥ २
कर-चलण चयारिं खम्भ करेवि ॥ ३
मासिट्टु चम्म-खुह-पङ्कियउ ॥ ४
माणुसु वर-भवणहों अणुहरइ ॥ ५
पुणु पच्छएँ जुण्ण-भाउ लहइ ॥ ६
ण सुणन्ति कण्ण ण णियइ णयणु ॥ ७
जर-जज्जरिहोइ सरीरु पर ॥ ८

॥ घत्ता ॥

२ पुणु पच्छिम-कालें
जिउ जेम विहङ्गु

णिवडइ देह-घरु ।
उड्डुई मुएँवि तँरु” ॥ ९

[७]

तं णिसुणेंवि णरवइ उवसमिउ
अप्पुणु पुणु भाव-गाह-गहिउ
तहिँ उइय-मुइय णिग्गन्थ थिय
३ पुणु सवण-सङ्गु तहों पुरवरहों
सम्मेयहों जन्त जन्त वलिय
ते उइय-मुइय दुइ णिवडिय
धाइउ धाणुक्कु वद्ध-वइरु
दुप्पेच्छँ-वँच्छुँ थिर-थोर-करु

णिय-णन्दणु णिय-पएँ सँणिमिउ ॥ १
‘णिकखन्तु णराहिव-सय-सहिउ ॥ २
कर-कमलेंहिँ केसुप्पाड किय ॥ ३
गउ वन्दणहत्तिएँ जिणवरहों ॥ ४
पहु छड्डुँवि उप्पहेण चलिय ॥ ५
वसुभूइ-भिल-पँल्लिहें पडिय ॥ ६
गुंजाहल-णयणु पीय-मइरु ॥ ७
अप्फालिय धणुहरु गँहिर-सरु ॥ ८

9 P S अवर.

6. 1 P S अवरथइ. 2 P णिवंउउ, S णिवंउउ. 3 P S परिमाणु. 4 P S चयारि वि.
5 P अँतिहि, S यँतिहि, A अँतहि. 6 A ढङ्कियउ. 7 S मास, A मासिट्टु. 8 P S वहँति.
9 P S उड्डुई जेम, A उड्डुए. 10 A omits.

7. 1 A °पुरे. 2 S सँणिमिउं, A सण्णेमिउं. 3 A अप्पणु. 4 A नराहिउ. 5 P केसुप्पाड.
6 P S जंतु. 7 P थल्लिहिँ, S पल्लिहि. 8 P S गुंजाहलु. 9 A °वरथ. 10 A गहिय°. 11 S
°भवंतरइ.

[६] १ अस्थि-अत्रावलीभिः.

[७] १ वीक्षितः. २ मदिरापीतः. ३ वक्षः.

॥ घत्ता ॥

वइरइँ ण कुहन्ति
हउ हणइ गिरुत्तु

होन्ति ण जज्जरइँ ।
सत्त-भवन्तेरइँ ॥ ९

[८]

हक्कारिय विण्णि वि' दुद्धरेण
“अहोँ संचारिम-णर-वणयरहोँ
तं सुणेवि महावय-धारएण
“मं मीहि' थाहि अण्णहोँ भवहोँ
ताहिँ तेहएँ विहुरेँ समावडिएँ
थिउ खन्धु समड्डेवि एक्कु जणु
जो पुब्ब-भवन्तेरें पक्खियउ
तेँ वुच्चइ “लोद्धा ओसरहि

णिय-वईयर-वइर-विरुद्धएण ॥ १
कहिँ गम्मइ एवहिँ महु मरहोँ” ॥ २
धीरिउ लहुवउ वड्डारएण ॥ ३
उवसंग-सहणु भूसणु तवहोँ” ॥ ४
अधुरन्धरेँ गरुअ-भारेँ पडिएँ ॥ ५
मिल्लाहिउ अब्भुद्धरण-मणु ॥ ६
पुरेँ जक्खथाणेँ परिरक्खियउ ॥ ७
को मारइ रिसि तुहुँ महु मरहिँ” ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘वोलाविथं तेण
दय चडेवि णिसेणि

कालन्तेरेण मय ।
लीलएँ सँगु गय ॥ ९

[९]

पावासउ पउरु पाउ करेवि
वसुभूइ-भिल्लु धण-जण-पउरेँ
णामेण अणुद्धरु दुद्धरिसु
दुल्लह्वहोँ णिय-कुल-पव्वयहोँ
ते उइय-मुइय तासु जि तणय
गिरि-धीर महोवहि-गहिर-गुण
णामक्किय रेयण-विचित्त-रह
छँदिवसइँ सल्लेहणु करेवि

वहु-कालु णरय-तिरियहिँ ‘फिरेँवि ॥ १
पट्टणेँ उप्पणु अरिट्टपुरेँ ॥ २
कणयप्पह-जणणि-जणिय-हरिसु ॥ ३
णन्दण णरवइहेँ ‘पियव्वयहोँ ॥ ४
विण्णाण-कला-पर-पार-गय ॥ ५
पय-पालण रज्ज-कज्ज-णिउण ॥ ६
पउमावइ-सुअ ससि-सूर-पह ॥ ७
गउ सगु ‘पियव्वउ ताहिँ मरेँवि ॥ ८

8. 1 A लोद्धएण. 2 S. °वइयर°. 3 A महव्वय°. 4 P थाहि, A भाहि. 5 P S A उव-सगु. 6 P S °भारे. 7 P समोडेवि, S समोडिवि. 8 P महुँ, S सहु. 9 P S A मरहिँ. 10 P A बोलाविय. 11 A सुय. 12 P S सग.

9. The first two pādas omitted in A. 2 P तिरियहि, S तिरियदि. 3 P S फिरिवि. 4 A अरिट्टपुरे. 5 P S वणु. 6 A विसदियहो. 7 S पारंगगय. 8 P S छदिवसइ, A छदिवहइ.

[८] १ वसुभूतिवरभिल्लेन. २ हेरिः. ३ परत्र-विषये स्थिरमनं कुरु. ४ मुंचाविय. ५ पक्षि मिल्हे (?).

[९] १ प्रियव्रत-राज्ञः. २ रज-विनिव्र-रथौ. ३ प्रियव्रत-पिता.

जगडन्तु अणुद्धरु डामरिउ

पञ्चण्डेहिं तेहिं
हुउ अवर-भवेण

वहु-कालें रयण-विचित्तरह
उप्पण वे वि सिद्धत्थपुरें
विमलगमहिंसे-खेमङ्करहुं
कुलभूसणु पढमु पुत्तु पवरु
१० अणु वि उप्पण एक बुहिय
वेणि मि कुमार साल्हिं णिमियं
पढमाण जुवाण-भावे चडिय
वित्थर्य-वच्छयल पलम्ब-भुअ

११ कमलोच्छवं ताम
णं वम्मह-भल्लि

कुलभूसण-देसविहसणहुं
पडिहाइ ण चन्दण-लेव-छवि
२० ण वि जलु जलद् दाहिण-पवणु
पेक्खेप्पिणु पयइँ सु-कोमलइँ
पेक्खेवि थणवट्टइँ चकलइँ
पेक्खेप्पिणु मुहु वाल्हें तणउ
लोयणइँ रूवे पङ्गुत्ताइँ
२१ पेक्खेप्पिणु केस-कलाउ मणें

१ P A धरिउं. १० S पञ्चिहिं, A पञ्चेडेवि.

१०. १ P S रयणिविचित्तरहु, A रयणि°. २ P परेभमेवि, P marginally 'दिवि लहेवि सुहु' पाठे, S परेभमिदि. ३ P S पद्दु. ४ A omits. ५ P S °सालहि. ६ S णमिय. ७ P S वे. ८ P S विच्छय°. ९ P कमलच्छवि, S कमलच्छवि.

११. १ P S चंदणु. २ P उच्छिउं, S उच्छिउं. ३ P S A तणउं. ४ S चंदहु. ५ P A चंदिणउं. ६ P रूवे.

४ अभिभूय.

[१०] १ मार्गः. २ राज्ञः नामेदम्. ३ कमलोत्सवा नामेदं. ४ स्थापितौ. ५ ताभ्यां भग्नी (भगिनी?) कमलोत्सवा पुत्री.

रणें रयण-विचित्तरहें धरिउं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

छडुविय-डमरु ।

अगिकेउ अमरु ॥ १०

[१०]

तउ करेवि मरेवि परिभमेवि पंह ॥ १

कण-कञ्चण-जण-धण-पय-पउरें ॥ २

अवरोप्परुं णयण-सुहङ्करहुं ॥ ३

लहु देसविहसणु एकु अवरु ॥ ४

कमलोच्छव रुन्द-चन्द-मुहिय ॥ ५

आयरियहो क्हो वि समुल्लविय ॥ ६

णं दइवे वे अणङ्ग घडिय ॥ ७

णं सगहो इन्द-पडिन्द चुअ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहि मि समावडिय ।

हियएँ झत्ति पडिय ॥ ९

[११]

णिय-वहिणि-रूव-पेसिय-मणहुं ॥ १

धवलामल-कोमल-कमलु ण वि ॥ २

कुसुमाउहेण ण णडिउ कवणु ॥ ३

ण सहन्ति रूइ-रत्तप्पलइँ ॥ ४

उच्छिउइँ करि-कुम्भत्थलइँ ॥ ५

पडिहाइ ण चन्दणु चन्दिणउ ॥ ६

ढोरा इव कद्दमै खुत्ताइँ ॥ ७

ण सुहन्ति मोर णञ्चन्त वणें ॥ ८

॥ वृत्ता ॥

दिङ्गी-विस षाल
जो जोअइ को वि'

सप्पहों अणुहरइ ।
सो सयलु वि मरइ ॥ ९

[१२]

तहिँ अवसरें पणोइहिँ पहु भणिउं
तुहुँ महियलें धण्णउ एक्कु पर
कुल-देसविहसण जमल सुयं
हय-हियय काँइ चिन्तवसि तुहुँ
खल-खुहइँ दुक्किय-गाराइँ
गय-वाहि-दुक्ख-हक्काराइँ
तित्थक्कर-गणहर-णिन्दियइँ
रूवेण पयक्कु मीणु रसेण

“खेमक्कर तुहुँ जणणिँ जणिउं ॥ १
कमलोच्छव दुहिय जासु पवर ॥ २
'तं गिसुणेंवि णाइँ कुमार मुय ॥ ३
पाविजइ 'जेहिँ महन्तु दुँहु ॥ ४
णारइय णरय-पइसाराइँ ॥ ५
सिव-सासय-गमण-णिवाराइँ ॥ ६
णउ खञ्चहि पञ्च-वि-इन्दियइँ ॥ ७
मिगु सवणें भसलु गन्धवसेण ॥ ८

॥ वृत्ता ॥

फरिसेण विणासु
जो सेवइ पञ्च

मत्त-गइन्दु गउ ।
तहों उत्तारु कउ” ॥ ९

[१३]

तो किय णिवित्ति परिणेवाहों
पारद्धु पयाणउं तव-पहेंण
विहि' विण्णाणिय उप्पाइएँण
इन्दिय-तुरङ्ग-संचालिँणं
चल-चलण-चक्क-संजोइएँण
तव-संजम-णियम-धम्म-भरेंण
थिय पडिमा-जोगें गिरि-सिहरें
संचलिउ णहँङ्गणें कहिँ वि जाम

सावज्जु रज्जु भुञ्जेवाहों ॥ १
णिय-देहमएण महारहेंण ॥ २
दुद्ध-कम्म-पच्छाइएँण ॥ ३
सत्तविह-धाउ-वन्धालिँण ॥ ४
मण-पंक्कल-साराहि-चोइएँण ॥ ५
आइय णिय-णिय-तणु-रहवरेंण ॥ ६
सो अगिकेउ तेहएँवसरें ॥ ७
गउ अम्हहँ उप्परि खलिउ ताम ॥ ८

7 P S इ.

12. 1 A पणं. 2 A पभणिउं. 3 P S A जणिउं. 4 P A धण्णउं. 5 P कमलच्छवि, S कमलच्छवि. 6 A मुय. 7 This pada omitted in A. 8 P S ताहं. 9 P S जेण. 10 P A दुहुं. 11 S 'वाइहि. 12 A भमरु.

13. 1 A पयाणउं. 2 A वहि विण्णाणिउं उप्पाइएँण. 3 A 'संचालिँण. 4 S 'संचालियेण. 5 P 'साराहि. 6 P S A णहंगणि. 7 P S कहि. 8 P S A अम्हह.

[१२] १ नंदियने: मित्रैश्च. २ रे इतहदय. ३ रोमाः.

[१३] १ प्रधानम्. २ प्रेरितेन. ३ गमनम्.

पुषभउ सरेंवि कोहें जलिउ
उवसग्गु जाम पारम्भियउ
पडिवण्णएँ तहिँ तेहएँउवसरें
तुम्हहँ जें पहावें तट्टाई

तो अँम्हहँ वप्पु
सो दीसइ एत्थु

तो गरुडें परिओसिय-मणेंण
१० राहवहों सीहवाहणि पवर
पहिलारी सत्त-सएँहिँ सहिय
तो कोसल-सुएँण सु-दुल्लहेंण
'अच्छन्तुं ताव तुम्हहँ जें घरें
सहुँ गरुडें संभासणु करेंवि
१५ 'अम्हहँ हिण्डन्तहँ धरणि-वहें
कुलभूसणु अक्खइ हलहरहों

संगाम-सयाइँ
महि-खण्डइँ तिण्णि

थिउ रुम्भेवि णंहयलें १० किलिकिलिउ ॥ ९
वहु-रुवेंहिँ गयणें वियम्भियउ ॥ १०
वट्टन्तएँ गुरु-उवसग्ग-भरें ॥ ११
अँसुरइँ धणु-रवेंण पणट्टाई ॥ १२

॥ घत्ता ॥

कालन्तरेंण मुउ ।
गारुडु देउ हुउ ॥ १३

[१४]

वे विज्जउ दिण्णउ तक्खणेंण ॥ १
लँक्खणहों गरुडवाहणि अवर ॥ २
अणुपच्छिम तिहिँ सएँहिँ अहिय ॥ ३
बुच्चइ वइदेही-वल्लहेंण ॥ ४
अवसरें पडियणें पसाउ करें ॥ ५
गुरु पुच्छिउ पुणुं चलणेंहिँ धरेंवि ॥ ६
जं जिम होसइ तं तेम कहेँ ॥ ७
'जलु लङ्गेवि दाहिण-सायरहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विहि मि जिणेवाँइ ।
सँ इँ भु ज्जेवाँइ ॥ ९

*

२४. चउतीसमो संधि]

केवलें केवलीहें उप्पण्णएँ
पुच्छइ रामु महावय-धारा

चउविह-देव-णिकाय-पवण्णएँ ।
'धम्म-पाव-फलु कहहि भडारा ॥

[१]

काइँ फलु पञ्च-महव्वयँहुँ
२५ काइँ फलु लँइएँ अणत्थमिएँ

अणुवय-गुणवय-सिक्खावयँहुँ ॥ १
उववास-पोसवएँ संथविएँ ॥ २

9 P S णहयलि, A णहियलि. 10 S किलिकिलिओ, A किलिगिलिउ. 11 P तुम्हइ. 12 S धणुवाणरवेण. 13 P S अम्हहो.

14. 1 A दिण्णउं. 2 A omits this pāda. 3 S अच्छंति. 4 A पुणु वि चलण धरेवि. 5 S जिणेवाँइ. 6 P S वच्छ सइ. 7 P S भुंजेवइँ.

1. 1 S उप्पण्णइँ. 2 P एवण्णए, S पवण्णइँ. 3 A अक्खु. 4 P S कायइ. 5 P ०ववाहुँ, S ववाहु. 6 P कइवए अणत्थमिअए, S कइवए अणत्थमिअइँ, A कइवए अणत्थमिअए. 7 P संथविअए, S संथविअइँ.

फलु काई जीव मम्मिसियएँ
काई फलु सच्चें वोळिणेंण
काई फलु जिणवर-अच्चियएँ
काई फलु मासें छण्डिणेंण
काई फलु जिण-संमज्जणेंण

परहणें परंदारेँ अँहिसियएँ ॥ ३
अलिअक्खरेण आमेल्लिणेंण ॥ ४
वर-विउल्लें घरासमें वच्चियएँ ॥ ५
रत्तिहिउ देहें दँण्डिणेंण ॥ ६
वँलि-दीवङ्गार-विलेवणेंण ॥ ७

॥ घत्ता ॥

किं चारित्तें णाणें वएँ दंसणें
जं फलु होइ अणङ्ग-वियारा

अण्णु पसंसिएँ जिणवर-सासणें ।
तं विण्णोसेँवि कहहि भडारा' ॥ ८

[२]

पुणु पुणु वि पडीवडु भणइ वलु
कम्मेण केण रिउ-डमर-कर
कम्मेण केण पर-चक्क-धर
परियरिय सु-णारिहिँ णरवरेँहिँ
सुन्दर सच्छन्द मइन्द जिह
कम्मेण केण किये पङ्गुल्य
काणीण दीण-मुह-काय-सर
दालिहिय पर-पेसणइँ कर

'कहें सुक्किय-दुक्किय-कम्म-फलु ॥ १
सयरायर महि भुज्जन्ति णर ॥ २
रह-तुरय-गएँहिँ बुज्जन्ति णर ॥ ३
विज्जिज्जमाण वर-चामरेँहिँ ॥ ४
जोहेँहिँ जोह बुज्जन्ति किह ॥ ५
णर कुण्ट मण्ट वहिरन्धलय ॥ ६
वाहिल्ल भिल्ल णाहल सवर ॥ ७
केँ कम्मं उप्पज्जन्ति णर ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'धीर-सरीर वीर तव-सूरा
इन्दिय-पेसवण पर-उवयारा

सव्वहुँ जीवहुँ आसाऊरा ।
ते कहिँ णर पैवन्ति भडारा ॥ ९ ॥

[३]

के वि अण्ण णर दुह-परिचत्ता
चन्दाइच्च-राहु-अङ्गारा
हंस-स-मेस-महिस-विस-कुञ्जर
जइ देवहुँ जें मज्जेँ संभूआ

देवलोएँ देवत्तणु पत्ता ॥ १
अण्णहोँ अण्ण होन्ति कम्मारा ॥ २
मोर-तुरङ्ग-रिच्छ-मिग-सम्बर ॥ ३
तो किं कज्जेँ वाहण हूआ ॥ ४

८ P जीवे. ९ S परहणु. १० P S परदार. ११ A ०अच्चिण. १२ A वंचिण. १३ P S
दंण्डिण. १४ P कायइ, S कायइ.

२. १ P S किउ. २ P A पंगुकाय, S पंगुकाया.

३. १ P S A देवलोइ.

[१] १ अभयकृते. २ अना(न)भिलषिते. ३ ज्ञानेन. ४ नैवेद्यैः. ५ ज्ञानेन ज्ञात्वा कथय.

[२] १ इडवपुः. २ प्रशमनाः. ३ कां गतिं प्राप्नुवन्ति.

[३] १ मंगल.

ऐहु जो दीसइ कुलिस-प्पहरणु
गिज्जइ किण्णर-मिहुण-सहासैहँ
हाहा-हूह-सुम्बुरु-णारा
चिसङ्गो वि मुरव पँडिपेहइ

सहसणयणु अइरावय-वाहणु ॥ ५
सुरवर जय भणन्ति चउपासैहँ ॥ ६
तेज्जा-तेण्णा जसु चक्कारा ॥ ७
रंभ तिलोत्तिम सइ उंबेहइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अप्पणु असुर-सुरहुँ अब्भन्तरेँ
दीसइ जसु एवहु पहुत्तणु

मोक्खु जेम थिउ सब्वहुँ उप्परेँ ।
पत्तु फलेण केण इन्दत्तणु ॥ ९

[४]

तं वयणु सुणैवि कुलभूसणैण
॥ 'सुणु अक्खमि' बुच्चइ तेण वलु
महु मज्जु मंसु जो परिहरइ
पुणु पच्छइ सँल्लेहणै मरइ
जो घइँ दरिसावइ पाणिवह
सो जोणी जोणि परिब्भमइ
॥ एउ सुक्किय-दुक्किय कम्म-फलु
तुल्ल-तोलिय महि स-महीहरिय

कन्दप्प-दप्प-विद्धंसणैण ॥ १
आयण्णहि धम्महोँ तणउ फलु ॥ २
छज्जीव- गिकायहोँ दय करइ ॥ ३
'सो मोक्ख-महा-पुरेँ पइसरइ ॥ ४
अण्णु वि महु-मंसहोँ तणिय कह ॥ ५
चउरासी लक्ख जाँम कमइ ॥ ६
सुणु एवहिँ सच्चहोँ तणउ फलु ॥ ७
स-सुरासुर स-घण स-सायरिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वरुण कुवेरु मेरु कइलासु वि
तो वि ण गरुवत्तणउ पगासिउ

तुल्ल-तोलिउ तइलोकु असेसु वि ॥
सच्चु स-उत्तरु सँव्वहँ पासिउ ॥ ९

[५]

जो' सच्चउँ ण चवइ कापुरिसुँ
जो णरु पर-दव्वु ण अहिलसइ
जो घइँ रत्तिदिणु मूढ-मणु
सो हम्मइ छिज्जइ मिज्जइ वि
॥ जो दुद्धरु वम्भचेरु धरइ

सो जीवइ जणवएँ तिण-सरिसु ॥ १
सो उत्तिम-सग्ग-लोएँ वसइ ॥ २
चोरन्तु ण थक्कइ एक्कु खणु ॥ ३
कप्पिज्जइ सुल्लै भरिज्जइ वि ॥ ४
तहोँ जमु आरुद्धउ किं करइ ॥ ५

2 A चंकारा. 3 A जसु पेहइ. 4 A omits this pāda. 5 s अप्पणु.

4. 1 P S आयण्णहो. 2 P S A परिहरइ. 3 P S सँल्लेहण. 4 P सो वि मोक्खु महापुरिँ संवरइ. 5 P S जोणि. 6 A सुणि. 7 A तणउ. 8 P दुक्कतोहिय, A तुल्लितोलियो. 9 A तुल्लितोलिउ. 10 P S सब्वहु.

5. 1 Omitted in A. 2 P सच्चउँ. 3 S काउरिसु, A कपुरिसु.

जो घई तं जोणि चारुं रमइ
जो करइ णिविस्ति परिग्गहहों
जो घई अविअणहु परिग्गहहों

सो पंऊएँ भमरु जेम मरइ ॥ ६
सो मोक्खहों जाइ सुंहावहहों ॥ ७
सो जाइ पुरहों तमतमपहहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अहवइ णिवंणिज्जइ केत्तिउ
जो घई पञ्च वि धरइ वयाइँ

एक्केकहों वयहों फलु एत्तिउ ।
तासु मोक्खु पुच्छिज्जइ काइँ ॥ ९

[६]

फलु एत्तिउ पञ्च-महवयहों
जो करइ णिरन्तर जीव-दया
'किस हिंस अहिंस सउत्तरिय
जे णर स-दार-संतुड्ड-मण
अपरिग्गह-दाण-करण पुरिस
फलु एत्तिउ पञ्चाणुव्वयहुँ
'दिस-पञ्चक्खाणु पेमोण-वउ

सुणु एवहिँ पञ्चाणुव्वयहों ॥ १
पंविरेलु असच्चु सच्चउ मि सया ॥ २
'ते णरय-महाणइ-उत्तरिय ॥ ३
परंहण-परणारी-परिहरण ॥ ४
ते होन्ति पुरन्दर-समसरिस ॥ ५
सुणु एवहिँ तिहि मि गुणव्वयहुँ ॥ ६
खल-संगहु जासु ण वेद्धियउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

इय तिहिँ गुणवएहिँ गुणवन्तउ
जासु ण तिहि मि मज्जेँ एक्कु वि^{१८}

अच्छइ सगें सुहइँ भुज्जन्तउ ।
गुणु तहों संसारहों छेउ कहिँ पुणु ॥ ८

[७]

फलु एत्तिउ तिहि मि गुणव्वयहुँ
जो पहिलउ सिक्खावउ धरइ
सो णरु उप्पज्जइ जहिँ जें जहिँ
जो घई पुणु विसयासत्त-मणु
सो सावउ मज्जेँ ण सावयहुँ
जो वीयउ सिक्खावउ धरइँ

सुणु एवहिँ चउ-सिक्खावयहुँ ॥ १
जिणवरें तिकाल-वन्दण करइ ॥ २
वन्दिज्जइ लोएँहिँ तहिँ जें तहिँ ॥ ३
वरिसहों वि ण पेच्छइ जिण-भवणु ॥ ४
अणुहरइ णवर वण-सावयहुँ ॥ ५
'पोसह-उववास-सयइँ करइ ॥ ६

4 A वाक. 5 P वणिज्जइ, A निव्वणिज्जइ. 6 A जेत्तिउ. 7 A पुणु.

6. 1 P S °महवयचाहुँ. 2 S सुणि. 3 P एवहि, S वेव्वहि, A एव्वहिँ. 4 P S पंचाणुव्व-
चाहु. 5 A omits this pāda. 6 P S °परणारिपरीहरण. 7 S °माण°. 8 P एवहि, S वेव्वहि,
A एव्वहिँ. 9 A तिणिण. 10 P S पवाण°. 11 A वड्ढिमउ. 12 P गुणव्वएहिँ. 13 P S omit.

7. 1 P S वरसयहो ण. 2 P धरेइ, A omits. 3 A omits this pāda.

[५] १ पधे. २ सौख्यपयस्य. ३ अतुप्तः. ४ सर्वतात्पर्येण.

[६] १ स्तोकासत्य. २ कृष(श)स्तोक हिंसा; स्तोक-परद्रव्याभिलाषी. ३ दिवदेस(श)योः
प्रत्याख्यानम्. ४ भोगोभोगप्रमाणमत. ५ कुर्कट-मार्जारिदि-दुष्य-नाम-संग्रहः अनर्थं दंष्टसयत्.

सो णरु देवत्तणु अहिलसइ
जो तइयउ सिक्खावउं धरइ
अणु विं सम्मत्त-भारु वंहइ
जो चउथउ सिक्खावउ धरइ
सो होइ तिलोयहो वैहियउ

सोहम्मं वैहुव-मज्झं रमइ ॥ ७
तवसिहिं आहार-दाणु करइ ॥ ८
देवत्तणु देवलोएँ लहइ ॥ ९
सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरइ ॥ १०
णउ जम्मण-मरण-विओअ-भउं ॥ ११

॥ घत्ता ॥

सामाइउ उववीसु स-भोयणु
चउ सिक्खावयाइँ जो पालइ

पच्छिम-कालें अणु सल्लेहणु ।
सो इन्दहोँ इन्दत्तणु टालइ ॥ १२

[८]

॥ एउ फलु सिक्खावएँ 'संथविएँ
वरि खड्डु मंसु वरि मज्झु महु
वरि जीविउ गउ सरीरु ल्हसिउ
पुव्वणहउं गण-गन्धव्वयहुँ
अवरणहउ पियर-पियामहहुँ
॥ गिसि-भोयणु जेण ण परिहरिउ
किमि-कीड-पयङ्ग-सयइँ असइ
जो घइँ गिसि-भोयणु उम्मीहइ

सुणु एवहिं कहमि अणुत्थमिएँ ॥ १
वरि अलिउ वयणु हिंसाएँ सहुँ ॥ २
णउ रयणिहिं भोयणु अहिलसिउ ॥ ३
मज्झणहउ सव्वहुँ देवयहुँ ॥ ४
गिसि रक्खस-भूय-पेय-गहहुँ ॥ ५
भणु तेण काइँ ण समायरिउ ॥ ६
कुसरीर-कुजोणिहिं सो वसइ ॥ ७
विमलत्तणु विमल-गोत्तु लहइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुअउ ण सुणइ ण दिट्ठउ देक्खेइ
॥ भोअणें मउणु चउथउ पालइ

केण वि वोळिउ कहोँ वि ण अक्खइ ।
सो सिव-सासय-गमणु णिहालइ' ॥ ९

[९]

परमेसरु सुट्ठु एम कहइ
सम्मत्तइँ को वि को वि वयइँ
तवचरणु लइज्जइ पत्थिवेण

जो जं मगइ सो तं लहइ ॥ १
को वि गुण-गण-वयण-रयण-सयइँ ॥ २
वंसत्थल-णयर-णराहिवेण ॥ ३

4 P S °सयइ. 5 P करेइ. 6 A omits this portion of the pāda. 7 P S तवसिइ.
8 A सि. 9 A वड्ढिमउं. 10 A °दुइ. 11 P A उववास.

8. 1 P S संथविप. 2 P अणुत्थमिप, S अणयमिप, 3 P छसिउ, A लसिउ. 4 P S
पुव्वणहउ. 5 P °गंधव्वयाहु, S °गंधव्वयाहुं. 6 P S मज्झणहउ सव्वहु देवयाहु, A मज्झणउं
सव्वहं देवयहुं. 7 P S °विसाय°. 8 P समाचरिउं, S समाचरिउ. 9 P S कुसरीर. 10 A नउ
महइ. 11 P S अक्खइ. 12 P S भोयणु.

9. 1 A सव्वु. 2 P एव, S देव.

[७] १ अत्सरसोः. २ धारयतीत्यर्थः. ३ वृद्धिगतः.

[८] १ उन्मथ्नाति स्वजति.

गय वन्दणहत्ति करेवि सुर
राह्वेण वि वयइँ समिच्छियइँ
वडँ णवर ण थक्कइँ लक्खणहोँ
तहिँ तिण्णि वि कइँ वि दिवस थियइँ
णिगन्थ-सयइँ भुज्जावियइँ

जाणइँ धरिज्जइँ धम्म-धुर ॥ ४
गुरु-दिण्णइँ सिरेण पडिच्छियइँ ॥ ५
वालुअपह-णरय-णिक्खणहोँ ॥ ६
जिण-पुज्जउ जिण-ण्हवणइँ कियइँ ॥ ७
दीणहँ दाणइँ देवावियइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दहोँ वन्दणहत्ति करेवि जिणिन्दहोँ ।
जाणइ-हरि-हलहरइँ पहिट्ठइँ तिण्णि वि दण्डारण्णु पइट्ठइँ ॥ ९

[१०]

दिट्ठ महाडइँ णाँ विलासिणि
पञ्चाणण-णह-णियर-वियारिय
कन्दर-दरि-मुह-कुहर-विहूसिय
चन्दण-अगरु-गन्ध-डिविडिक्किय
अहवइँ किं बहुणा वित्थारें
उज्जर-मुरवप्फालिय-सहें
मँहुअरि-तिय-उवगीय-वमालें
सीहोरालि-समुट्ठिय-कलयलु

गिरिवर-थणहर-सिहर-पगांसिणि ॥ १ १०
दीहर-सर-लोयण-विप्फारिय ॥ २
तरुवर-रोमावलि-उज्जसिय ॥ ३
इँन्दगोव-कुङ्कुम-चञ्चिकिय ॥ ४
णं णच्चइँ गय-पय-संचारें ॥ ५
वरहिण-थिर-सुपरिट्ठिय-छन्दें ॥ ६ १६
अहिणव-पल्लव-कर-संचालें ॥ ७
णाँ पढइँ मुणि-सुव्वय-मज्जलु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहोँ अब्भन्तरें अमर-मणोहरु गयण-कडक्खिउ एकु लयाहरु ।
तहिँ रइ करेवि थियइँ सच्छन्दइँ जोगु लपविणु जेम मुणिन्दइँ ॥ ९ २०

[११]

तहिँ तेहएँ वणे रिउ-डमर-करु
आरण्ण-गइन्दें समारुहइ
तं खीरु वि चिरिडिहिल्लु महिउं
से वि पक्कावइ घण-हण्डियहिँ

परिभमइँ समुदावत्त-धरु ॥ १
वण-गोवउ वण-महिसिउ दुहइ ॥ २
जाणइँहें समप्पइ थिय-सहिउ ॥ ३
वण-धण्णन्दुलेहिँ सुकण्डिएँहिँ ॥ ४ २५

3 P 8 राह्वेण वयाइ. 4 S चउ. 5 A दीणइँ. 6 P विहरंत पहिट्ठइँ. 7 P 8 दंडारण्णे.

10. 1 P विट्ठ. 2 A °पयासिणि. 3 A °डिविडिक्खिय. 4 A °चञ्चिकिय. 5 P °दुप्फा-
लिय°. 6 P वरहिणच्च थिय सुपरिट्ठिअचंदें. 7 A नइ. 8 A सुव्वइ. 9 A लपविणु.

11. 1 A गइंद, 8 गयंदि. 2 A वणे गोलउ. 3 A खीरु चिरिहिचिडिहिल्लु महिउ. 4 S
महिउं. 5 A घय°. 6 P सच्चि. 7 P धणतंदुलेहिँ कंडिएँहिँ.

[१०] १ सरोवर. २ अनुलिप्तः. ३ चंद्रवधूटिकाः. ४ अमरी.

[११] १ दधिः. २ सर्पिः (Reading सच्चि) (?).

णाणाविह-फल-रस-तिम्मणोहिं
इय विविह-भक्ख भुञ्जन्ताहुं
मुणि गुत्त-सुगुत्त ताव अइय
कालामुह-^१कावालिय भगव

करवन्द-करीरोहिं सालोहिं ॥ ५
वण-वासं तिहि मि अच्छन्ताहुं ॥ ६
असुदाणियं दोडु-महव्वइय ॥ ७
मुणि 'संकर तवणं तवसिं गुंरव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वंदाइरिय ^{११}भोयं ^{१२}पव्वइया
ते जर-जम्मण-मरण-वियारा

हवि जिह भूइ-पुञ्ज-पच्छवि्या ।
वण-चरियएँ पइसन्ति भडारा ॥ ९

[१२]

जं पइसन्त पदीसिय मुणिवर
११ अलि-मुहलिय खर-पवणायम्पिय
के वि कुसुम-पब्भारु मुअन्ति
तो वि ण थक्क महव्वय-धारा
रिसि पेक्खेप्पिणु सीय विणिग्गय
१५ 'राहव पेक्खु पेक्खु अच्छरियउ
वलु वयणेण तेण गंओल्लिउ
विणयङ्कुसेण साहु-गय वालिय
दिण्ण ति-वार धार सलिलेण वि
पुप्फक्खय-वलि-दीवङ्गरोहिं

सावय जिह तिह पणविय तरुवर ॥ १
'थाहु थाहु' णं एम पजम्पिय ॥ २
पाय-पुञ्ज णं विहि मि करन्ति ॥ ३
रामासमं पइसन्ति भडारा ॥ ४
णं पच्चक्ख महा-वणदेवय ॥ ५
साहु-जुअलु चरियएँ णीसरियउ' ॥ ६
'थाहु थाहु' सिरु णवैवि पवोल्लिउ ॥ ७
किउं सम्मज्जणु पाय पंखालिय ॥ ८
कम चच्चिय गोसीर-रसेण वि ॥ ९
एम पयञ्चेवि अट्ट-पयारोहिं ॥ १०

॥ घत्ता ॥

२१ बन्दिय गुरु गुरु भत्ति करेवि
मुह-पिय अच्छ पच्छ मण-भाविणि

लग्ग पंरीसवि सीयाएवि ।
भुत्त पेज्ज कामुएँहिं व कामिणि ॥ ११

८ P असुदाणिय. ९ P S कामालिय. १० P तवणे, S तवसिणे. ११ A वंदायरिय. १२ P S भोग.
१३ P पच्छहभ, S पच्छइया.

१२. १ P पइसरियउं, S पइसरियउ. २ P S किय सम्मज्जण. ३ A पयपक्खालिय. ४ A
चच्चिकिय गोसिरिसेण. ५ P S पयट्ठि. ६ A परीसह. ७ P A कामुएहिं, S कामुएहि.

३ जीव-दया-दान-दायिनः. ४ हस्ताद्वय-उद्दिनः (?). ५ पञ्चमहाव्रतानि येषां । यथा श्रावकास्तथास्ते
(?). ६ कालस्य मरणस्याप्यभिसुखा, वा त्रिकालयोगिनः. ७ काम-विषयेऽसेव्याः. ८ भगवा=पूज्याः.
९ सं सुखं कुर्वन्तीति सुखकारिणः. १० आदित्याः सप्तर्षियुक्ताः. ११ तवसि वनवासिनः. १२ गुरवः
महान्तः. १३ वन्द्या आचार्याः. १४ भोय=भोग्यः सेवनीयाः. १५ पव्वइया=यतयो वा पव्वतादित्या-
गता अन्यत्र प्रसिद्धानि नामान्येतानि. १६ वपुवि धूल्याच्छादितः.

[१२] १ वृक्षाः श्रावकवक्त्रमिता यत्र. २ वृक्षाः. ३ रामस्याश्रमे गृहे. ४ हर्षितः. ५ परोसण.

[१३]

दिण्णु पाणु पुणु मुहहो पियारउ
सिद्धउ सिद्धु जेम सिद्धीहउ
पुणु अग्गिमउ दिण्णु हियइच्छिउ
सुद्धइ पुणु सालणइ विचित्तइ
दिण्णइ पुणु तिममणइ मणिट्ठइ
पच्छइ 'सिसिरु स-मच्छरु सुद्धउ
पुणु मय-सल्लिउ दिण्णु सीयालउ
लीलए जिमिय भडारा जावेहिं

चारण-भोग्गु जेम हलुवारउ ॥ १
जिणवर-आउ जेम अइदीहउ ॥ २
जिह सु-कल्लु सुं-णेहु स-इच्छउ ॥ ३
तिक्खइ णाई विलासिणि-चित्तइ ॥ ४
अहिणव-कइ-वयणां इव मिट्ठइ ॥ ५
दुट्ठ-कल्लु जेम अइ-थद्धउ ॥ ६
णं जिण-वयणु पाव-पक्खालउ ॥ ७
पञ्चच्छरिउ पदरिसिउ तावेहिं ॥ ८

॥ घता ॥

दुन्दुहि गन्धवाउ रयणावलि
पुण्ण-पवित्तइ सासय-दूअइ

साहुक्कारु अण्णु कुसुमञ्जलि ।
पञ्च वि अञ्छरियइ स इं भू अइ ॥ ९

*

[३५. पञ्चतीसमो संधि]

गुत्त-सुगुत्तहं तणेण पहावें
देवेंहिं दाण-रिद्धि खणें दरिसिय

रामु स-सीय परम-मब्भावें ।
वल-मन्दिरें वसुहार पवरिसिय ॥ ११

[१]

जांय महग्घ रयणं सु-पगासइ
वरिसैवि रयण-वरिसु सइ हत्थें
'तिहुवणें णवर एकु वलु धण्णउ
मणें परितुट्ठइ अमर-सयाइ
अण्णें धरिउ भुवणु सयरायरु
अण्णें रिद्धि-विद्धि वंसुब्भउ
अण्णें गेउ वेउं सिद्धक्खरु
अण्णु मुएवि अण्णु किं दिज्जइ

लक्खहं तिण्णि सयइ पञ्चासइ ॥ १
रामु पसंसिउ सुरवर-सत्थें ॥ २
दिच्चाहारु जेण वणें दिण्णउ' ॥ ३
'अण्णें दाणें किज्जइ काइ ॥ ४
अण्णें धम्मु कम्मु पुरिसायरु ॥ ५
अण्णें पेम्मु विलासु स-विब्भमु ॥ ६
अण्णें जाणु ज्ञाणु परमक्खरु ॥ ७
जेण महन्तु भोगु पाविज्जइ ॥ ८

13. 1 P हलुवारउ, हलुवारउ. 2 P अग्गिमउ, A अग्गिमउं. 3 P इच्छिउं. 4 P S सक-
कल्लु सणेहु. 5 A छुद्धइ. 6 P S वयणाइं सुमिट्ठइं. 7 A छुद्धउ. 8 A जं. 9 P S सल्लिउ.
10 P सीयालउं. 11 P पक्खालउं. 12 A अञ्छरियइं.

1. 1 P सुगुत्तइं, S सुगुत्तहो. 2 A जाइं. 3 A यरइं. 4 P S धण्णउं. 5 P A दिण्णउं.
6 A सविब्भउ. 7 This pāda missing in A. 8 S वयणु.

[१३] १ यतियोग्यं प्राशुकं रसाब्जं च. २ स्तू(सु)प-मुद्गादि. ३ सघृतम्. ४ दधि मलाई-सह.
५ गंधाब्जं प्राशुकं जलम्.

॥ घत्ता ॥

अण्ण-सुवण्ण-कण्ण-गोदाणहँ
सव्वहँ अण्ण-दाणु उच्चासणु

मेइणि-मणि^०-सिद्धन्त-पुराणहँ ।
पर-सासणहँ जेम जिण-सासणु^० ॥ ९

[२]

५ दाण-रिद्धि पेक्खेवि खगेसरु
गगर-वयणउ मुणि-अणुराएं
जिह जिह सुमरइ णियय-भवत्तरु
'मइ पावेण तिलोयाणन्दहँ
एम पलाउ करन्तु विहङ्गउ
१० पय-पक्खालण-जलेणासासिउ
सीयए वुत्तु 'पुत्तु महु एवहिं
ताव रयण-उज्जोवें भिण्णा

णवर जडाइ जाउ जाईसरु ॥ १
पहउ णाई सिरें मोगगर-घाएं ॥ २
तिह तिह मेल्लइ अंसु णिरन्तरु ॥ ३
पञ्च-सयइ पीलियइ मुणिन्दहँ ॥ ४
गुरु-चलणेहिं पडिउ मुच्छंगउ ॥ ५
राहवचन्दें पुणु उवयासिउ ॥ ६
छुडु वड्डउ छुडु धरउ सुखेवेंहिं ॥ ७
जाय पक्ख चामीयर-वण्णा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विहुम-चञ्चु णील-णिह-कण्ठउ
१५ तक्खणे पञ्च-वण्णु णिव्वडियँउ

पय-वेरुलिय-वण्ण मणि-पट्टउ ।
वीयउ रयण-पुञ्जु णं पडियँउ ॥ ९

[३]

भावें विहि मि पयाहिण देन्तउ
दिट्ठु पक्खि जं णयणाणन्दणु
'हे मुणिवर गयणङ्गण-गामिय
२० कहि कजेण केण सच्छायउ
तं णिसुणेवि वुत्तु णीसङ्गें
णरु हलुवो वि होइ गरुआरउ
मेरु-णियम्बें तिणु वि हेमुज्जलु
तिह विहङ्गु मणि-रयणुज्जोएं

णडु जिह हरिस-विसाएँहिं जन्तउ ॥ १
भणइ णवेप्पिणु दसरह-णन्दणु ॥ २
चउगइ-दुक्ख-महाणइ-णांमिय ॥ ३
पक्खि सुवण्ण-वण्णु जं जायँउ ॥ ४
'सयलु वि उत्तिम-पुरिस-पसङ्गें ॥ ५
रुक्खु वि सेल-सिहरें वड्डारउ ॥ ६
सिप्पिउडेसु जलु वि मुत्ताहलु ॥ ७
जाउ सुवण्ण-वण्णु मुणि'-तोएँ' ॥ ८

२५

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेवि वयणु असंगाहें
'विहलङ्गलु घुम्मन्तु विहङ्गउ

पुच्छिउ पुणु वि णाहु णरणाहें ।
कवणें कारणेण मुच्छंगउ ॥ ९

१ SA °मुणि^०. १० PS °सुइसिद्धन्त^०. P glosses सुइ as स्थिति.

२. १ SA °वयणउं. २ A करेवि. ३ PS संसीसिउ. ४ PS वड्डउ, A वड्डउ. ५ PS सुखेमेहिं. ६ P भोज्जोएं, S उज्जोयं. ७ PS °कंठउ. ८ P णिव्वडियँउ. ९ A वडियउ.

३. १ P जंतउं. २ PS पंखि. ३ P जायउं. ४ S अवगाहें. ५ P कवण, S कवण वि.

[३] १ नौका, नामिता वा. २ मुनि-गन्धोदकेन.

[४]

भणइ ति-गाण-पिण्ड-परमेसरु
पट्टणु दण्डारु भुञ्जन्तउ
एक-दिवसें पारद्धिँ चलयिउ
थिउ^१ अत्तावणेँ लम्बिय-चाहउ
तं पेक्खेँवि आरुँहु महवँलु
एम चवन्तेँ विसहरु घाँएँवि
गउ णिय-णयरु णराहिउ जावेँहिँ
“एँउ को वि फेडेसइ जइयहुँ

‘एहु विहङ्गु आसि रज्जेसरु ॥ १
दण्डउ णामु वउद्धँ भत्तउ ॥ २
ताव तिकाल-जोगि मुणि मिलियउ ॥ ३
अविचलु मेरु जेम दुग्गाहउ ॥ ४
“अर्वसु अज्जु अवसवणु अमङ्गलु” ॥ ५
रोसेँ मुणिवरँ कण्ठेँ लाँएँवि ॥ ६
थिउ णीसङ्गु णिरोहेँ तावेँहिँ ॥ ७
लम्बिय हत्थुञ्चायमि तइयहुँ” ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जावणोक्क-दिवसेँ पहु आवइ
गँलँएँ भुअङ्गम-मँडउ णिवद्धउ

तं जेँ भडारउ तहिँ जेँ विहावइ ।
कण्ठाहरणु णाँइँ आँइद्धउ ॥ ९

[५]

जं अविचलु वि दिट्ठु मुणि-केसरि
वोल्लाविउ “वोल्लाहि परमेसर
खणिउ सरीरु जीउ खण-मेत्तउ
तुहु मि खणिउ णऽज्ज वि सिद्धत्तणु
सयलु णिरँत्थु वुत्तु जं राँएँ
“जइ पुणु सो जेँ पक्खु वोल्लेवउ
खणिउ खयारु णयारु वि होसइ

फेडेँवि विसहर-कण्ठा-मञ्जरि ॥ १
तव-चरणेण काँइँ तवणेसर ॥ २
जोँ ज्ञायहि सो गरुँउ अतीतउ ॥ ३
आयहोँ किं पमाणु किं लक्खणु” ॥ ४
मुणिवरु चवेँवि लग्गु णर्यवाँएँ ॥ ५
ता खण-सहु ण उच्चारेवउ ॥ ६
खण-सदहोँ उच्चारु ण दीसइ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अघडिउ अघडमाणु अघडन्तउ
सुण्णेँ सुण्ण-वयणु सुण्णासणु

खणिँएँ खणिउ खणन्तरँ-मेत्तउ ।
सव्वु णिरँत्थु वउद्धहुँ सासणु” ॥ ८

4. 1 A ठिउ. 2 A दुग्गाहउं. 3 P आरुहु, S आरुहु. 4 A महावल. 5 A अवस.
6 P S मुणिवरु. 7 P हत्थु उचायमि, A हत्थुचाएवि. 8 P S A गल्लइ. 9 A मउइ. 10 A
आइद्धउं.

5. 1 A अविओलु. 2 P S जं. 3 P S गउ वि. 4 A अणिहु. 5 A अणुराँएँ. 6 A खणिउं.
7 S A खणिउं. 8 P मेत्तउं. 9 P सुसासणु, S सुण्णसणु.

[४] १ एष सर्पः. २ पश्यति.

[५] १ क्षणिकं (?).

[६]

खण-सहेण गिरुत्तरु जायउ
 “तो घईँ सँडु अँत्थि जं दीसइ
 तं गिसुणेपिणु भणइ मुणीसरु
 १ “अम्हँई राय ण वोळहुँ एँवं
 अत्थि णत्थि दोणिण वि पँडिवज्जहुँ
 तं गिसुणेवि भणइ देणुदारउ
 अत्थि ण अँत्थि णिच्च-^{१२}संदेहो
 पुणु^{१४} वि मत्त-करि पुणु पञ्चाणणु

पुणु वि पवोल्लिउ दण्डय-रायउ ॥ १
 पुणु तवचरणु कासु किज्जेसइ” ॥ २
 जो कइ-गँवय वीइ वईसरु ॥ ३
 णेआइएँहिँ हसिज्जहुँ जेवं^{१०} ॥ ४
 तुहुँ जिह णउ खणवाएँ भज्जहुँ” ॥ ५
 “जाणिउ परम-पक्खु तुम्हारउ ॥ ६
 पुणु धवलउ पुणु सामल-देहो^{१३} ॥ ७
 खत्तिउ वइसु सुहु पुणु वम्भणु” ॥ ८

१०

भणिउ भडारउ “किं वित्थारें
 गीवां-मुह-णासच्छि गविट्टउ

॥ घत्ता ॥

एक्कु चोरु चिरु धरिउ तलारें ।
 सीसु लएन्तहुँ कहि मि ण दिट्टउ ॥ ९

[७]

अहवइ एण काईँ संदेहें
 ११ जेत्यु अत्थि तहिँ अत्थि भणेवउ
 सच्छन्देण णराहिउ भाविउ
 साहुहुँ पञ्च सयइँ धरियाइँ
 तो एत्थन्तरें जण-मण-भाविणि
 पुणु मयवद्धणु पुत्तु महन्तउ

अत्थि वि णत्थि वि णीसंदेहें ॥ १
 जहिँ ण अँत्थि तहिँ णत्थि भणेवउ” ॥ २
 लइउ धम्मु पुणु मुणि पाराविउ ॥ ३
 गिसुअइँ तेसट्ठि वि चरियाइँ ॥ ४
 कुइय खणद्धें दुण्णय-सामिणि ॥ ५
 “णरवइ जाउ जिणेसर-भत्तउ ॥ ६

२०

तो वरि मन्तु किं पि मन्तिज्जइ
 जेण गवेसण पहु कारावइ

॥ घत्ता ॥

जिणहरें सव्वु दव्वु पुञ्जिज्जइ ।
 साहुहुँ पञ्च-सयइँ मारावइ” ॥ ७

[८]

एक्क-दिवसेँ तं तेम कराविउ

जिणहरें सव्वु दव्वु पुञ्जाविउ ॥ १

6. 1 P S खणे. 2 P S पइ. 3 P marginally corrects as सत्तु. 4 P अत्थि.
 5 P °कवय corrected as वय, S कवय. 6 A omits. 7 A अम्हँ. 8 S येव, A एम.
 9 P णेआइँयहुँ, S णेआइँयहु. 10 S जेव, A जेम. 11 A वत्थि. 12 P A °संदेहु. 13 P S A
 °वेहु. 14 A पुणु मत्तउ.

7. 1 P सुअत्थि. 2 A नवच्छि.

[६] १ अंगीकृत्य (?). २ राजा. ३ राजा मुनिरुक्कः.

[७] १ मुनि उवाच.

मयवद्भणैण णिवहो वंज्जरियउ
 तें आलावें दण्डयराएं
 “पत्तिय सेल-सिहरे सयवत्तइ
 पत्तिय विवरिये चन्द-दिवायर
 पत्तिय णेह हवन्ति कुलपव्वय
 पत्तिय णउ चउवीस वि जिणवर
 पत्तिय णउ तेसट्ठि पुराणइ
 सोलह सग्ग भग्गइ उप्पत्तिय

“तुह भण्डारु मुणिन्देहिं हरियउ” ॥ २
 हसियउ पुणु पुणु सीह-णिणाएं ॥ ३
 पत्तिय महियलें गह-णक्खत्तइ ॥ ४
 पत्तिय परिभमन्ति रयणायर ॥ ५
 पत्तिय एक्कहिं मिलिय दिसा-गय ॥ ६
 पत्तिय णउ चक्कवइ ण कुलयर ॥ ७
 पञ्चेन्दियइं ण पञ्च वि णाणइं ॥ ८
 मुणि चोरन्ति मन्ति मं पत्तिय” ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं णरवइ वोळ्ळिउ कंइवारें
 “लहु रिसि-रूउ एक्कु दरिसावहुं

मन्तिउ मंन्तु पुणु वि परिवारें । ११
 पुणु महएवि-पासु वंइसारहुं ॥ १०

[९]

अवसें रोसें पुर-परमेसरु
 एम भणेवि पुणुं वि कोक्काविउ
 तेण समाणउ जण-मण-भाविणि
 तो एत्थन्तरें गज्जोलिय-तणु
 “णरवइ पेक्खु पेक्खु मुणि-कम्मइं
 मूढा अवुह ण बुज्झहि अज्ज वि

मुणिवर घल्लेसइ रज्जेसरु” ॥ १
 तक्खणें मुणिवर-वेसु धरंविउ ॥ २
 लग्ग वियारेंहिं दुण्णय-सामिणि ॥ ३
 गउ णिय-णिवहो पासु मयवद्भणु ॥ ४
 दुक्कु पमाणहो वोळ्ळिउ जं मइं ॥ ५
 हिउ भण्डारु जाव हिय भज्ज वि” ॥ ६

॥ घत्ता ॥

जाणन्तो वि तो वि मणे मूढउ
 दिण्णाणत्ती णरवर-विन्दहुं

णरवइ कोव-गइन्दारूढउ । २१
 धरियइं पञ्च वि सयइं मुणिन्दहुं ॥ ७

[१०]

पहु-आएसें धरिय भडारा
 जे कलि-कलुस-कसाय-वियारा
 जे चारित्त-पुरहो पांगारा
 जे णीसङ्ग अणङ्ग-वियारा
 जे सिव-सासय-सुह-हकारा
 जे दालिह-दुक्ख-खयकारा

जे पञ्चेन्दिय-पसर-णिवारा ॥ १
 जे संसार-घोर-उत्तारा ॥ २
 जे कम्मट्ठ-दुट्ठ-दणु-दारा ॥ ३
 जे भवियायण-अब्भुद्धारा ॥ ४
 जे गारव-पमाय-विणिवारा ॥ ५
 सिद्धि-वरङ्गण-पाण-पियारा ॥ ६

8. 1 P वज्जरिअउं. 2 A मेरुसिहर. 3 A पुणु वि मन्तु. 4 S वइसावहु, A वइसारहु.

9. 1 P पुणु वर, A मुणि घल्लेसइ पुणु. 2 A पणइ. 3 A कराविउ.

10. 1 P S उपगारा. 2 A भविअयणमणहभुद्धारा.

[८] १ पुत्रेण. २ पश्चिमे यदि उदयं स्यात्. ३ कृतादरेण (?).

[१०] १ परोद्धरणे समर्थाः.

जे वायरण-पुराणइ जाणा
तें तेहा रिसि जन्ते छुहाविय

सिद्धन्तिय एकेक-पहाणा ॥ ७
रसमसकसमसन्त पीलाविय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पञ्च वि सय पीलाविय जावैहिं
घोर-वीर-तवचरण धरेप्पिणु

मुणिवर वेणिण पराविय तावैहिं ।
आंतावणें तव-तवणु तवेप्पिणु ॥ ९

[११]

केण वि ताम वुत्तु “मं पइसहों
गुरु तुम्हारा आवइ पाविय
तं गिसुणेवि एक्कु मुणि कुइउ
११ घोरु रउहु झाणु आऊरिउ
अप्पाणेणप्पाणु विहत्तिउ
जो कोवाणलु तेण विमुक्कउ.

वेणिण वि पाण लएप्पिणु गासहों ॥ १
राएं जन्ते छुहैवि पीलाविय” ॥ २
णं खय-कालें कियन्तु विरुइउ ॥ ३
वंउ सम्मत्तु सयलु संचूरिउ ॥ ४
तक्खणें छार-पुइउ परिअत्तिउ ॥ ५
गंउ णयरहों सवडम्मुहु दुक्कउ ॥ ६

॥ घत्ता ॥

पट्टणु चाउदिसु संदीविउ
१६ जं ‘जं कुम्भ-सहासेहिं धिप्पइ

स-धरु स-राउलु जालालीविउ ।
विहि-परिणामें जलु वि पलिप्पइ ॥ ७

[१२]

पट्टणु दहु असेसु वि जावैहिं
जे तइलोक्कु वि जिणेंवि समत्था
कक्कड-कविल-केस भीसावण
२० कसण-सरीर वीर फुरियाधर
जीह-ललन्त दन्त-उदन्तुर
जम-दूएहिं तेहिं कन्दन्तउ
गम्पिणु जमरायहों जाणाविउ
तं गिसुणेप्पिणु कुइउ पयावइ

खल जम-जोह पराविय तावैहिं ॥ १
असि-घण-सङ्खल-णियल-विहत्था ॥ २
काल-कियन्त-लील-दरिसावण ॥ ३
पिङ्गल-णयण झसर-मोगगर-धर ॥ ४
उम्भड-वियड-दाढ भय-भासुर ॥ ५
णरवइ णिउ स-मन्ति सं-कलत्तउ ॥ ६
“एण मुणिन्द-णिवहु पीलाविउ” ॥ ७
“तीहि मि दरिसावहों गरुयावइ” ॥ ८

२१

॥ घत्ता ॥

पहु-आएसें दुणय-सामिणि
जहिं दुक्खइ अइ-घोर-रउइइ

घत्तिय छंढिहिं पुंढविहिं पाविणि ।
णवराउसु वावीस-समुइइ ॥ ९

३ A धरेप्पिणु, ४ A अत्तावणे.

11. 1 PS वय. 2 PS अप्पाणेण अ°, 3 PS गय. 4 P जं कुंभ°. 5 PS °सहासें.

12. 1 A °संकल°. 2 P सकलत्तउं. 3 P पीलाविउं. 4 PS तेहि मि. 5 A उदुमु. 6 P पुढविहे, 8 पुढविहि.

[१३]

अण्णोण्णेण जेत्यु हक्कारिउ
अण्णोण्णेण दल्लेवि दलवट्टिउ
अण्णोण्णेण तिसूले भिण्णंड
अण्णोण्णेण कडहँ पमेळ्ळिउ
अण्णोण्णेण वडँतरणिहँ घत्तिउ
अण्णोण्णेण सिलहु अप्फालिउ
अण्णोण्णेण धरेवि आवील्लिउ
अण्णोण्णेण घरट्टुएँ दलियउ
अण्णोण्णेण वि कूवेँ पमुक्कउ

अण्णोणेण पहर-णिहँरिउ ॥ १
अण्णोणेण हणँवि णिबँट्टिउ ॥ २
अण्णोणेण दिसा-वलि दिण्णंड ॥ ३
अण्णोणेण हुआसणँ पेळ्ळिउ ॥ ४
अण्णोणेण धरेँवि णिज्जन्तिउ ॥ ५
अण्णोणेण दुहाएँहँ फालिउ ॥ ६
अण्णोणेण वत्थु जिह पीलिउ ॥ ७
अण्णोणेण पयरु जिह मिलियउ ॥ ८
अण्णोणेण धरेप्पिणु रुक्कउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अण्णोण्णेण पलोइउ रागँ
अण्णोण्णेण गिलिज्जँइ जेत्यु

अण्णोण्णेण वियारिउ खगँ ।
दुण्णय-सामिणि पत्तिय तेत्थु ॥ १०

[१४]

अण्णु वि कियउ जेण मन्तित्तणु
जहिँ तं तिणु मि सिलीमुह-सरिसउ
जहिँ तेलोह-रुक्ख कण्टाला
दुग्गम दुण्णिरिक्ख दुल्ललिया
जहिँ णिवडन्ति ताहँ फल-पत्तइँ
तं तेहउ वणु मुएँवि पर्णट्टुउ
जहिँ तं सलिलु वहइ दुग्गन्धउ
उण्हँउ खारु तोरु अइ विरसउ

घत्तिउ असिपत्तवणँ अलक्खणु ॥ १
अण्णु वि अग्गि-वण्णु णिफँरिसउ ॥ २
असि-पत्तल असराल विसाला ॥ ३
णाणाविह-पहरण-फल-भरिया ॥ ४
तहिँ छिन्दन्ति णिरन्तर गत्तइँ ॥ ५
पुणु वडँतरणिहँ गम्पि पइट्टुउ ॥ ६
रस-वस-सोणिय-मंस-समिद्धउ ॥ ७
मण्ड पियाँविउ पूय-विमिस्सँउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय संताव-दुक्ख-संतत्तउ
थिउ सत्तमएँ णरएँ मयवद्धणु

खणँ खणँ उप्पज्जन्तु मरँन्तउ ।
मेइणि जाम मेरु गयणङ्गणु ॥ ९

13. 1 P S णिहँरिउ. 2 A omits this pāda. 3 P णिबँट्टिउ. 4 P A भिण्णंडं. 5 S A दिण्णंडं. 6 P S A कडाहि. 7 P S पिळ्ळिउ, A पेळ्ळिय. 8 S A वडँतरणिहि. 9 S omits this pāda. 10 S A गिलिज्जँइ.

14. 1 P दुइम. 2 A पणट्टुउं. 3 P वडँतरणिहि, S वडँतरणिहिँ, A वडँतरणिणिहो. 4 A उण्हँउं. 5 P A पियाँविउं. 6 P A विमिस्सउ. 7 P मरंतउं.

[१४] १ रुक्कः.

उ० प० च० १५

[१५]

- ताव विरुद्धएहिं हकारिउ
 “मरु मरु संभरु दुच्चरियाइं
 पञ्चसयइं मुणिवरहुं हयाइं
 १ एम भणेपिणु खगोहिं छिण्णउ
 पुणु तिलु तिलु करवत्तेहिं कप्पिउं
 पुणु पेलाविउ मग्ग-गइन्देहिं
 पुणु खण्डिउ पुणु जन्तें छुहाविउ
 दुक्खु दुक्खु पुणु कंह विं किलेसेहिं
 ११ एत्थु विहङ्गु जाउ गिय-काणणे

- णरवइ णारएहिं पञ्चारिउ ॥ १
 जाइं आसि पइं संचरियाइं ॥ २
 लइ अणुहुञ्जहि ताइं दुहाइं ॥ ३
 पुणु वाणेहिं भलेहिं भिण्णउ ॥ ४
 पुणु गिद्धहुं सिव-साणहुं अप्पिउ ॥ ५
 पुणु वेढाविउ पण्णय-विन्देहिं ॥ ६
 अद्दु सहासु वार पीलाविउ ॥ ७
 परिभमन्तु भव-जोणि-सहासेहिं ॥ ८
 एवाहिं अच्छइ तुम्ह-घरङ्गणे ॥ ९

॥ घत्ता ॥

ताव पक्खि मणे पच्छुत्ताविउ
 एत्तिय-मत्तें अब्भुद्धरणउ

‘किह मइं सवण-सङ्गु संताविउ ।
 महु मुयहो वि जिणवरु सरणउ’ ॥ १०

[१६]

- ११ जं आंयणिणउ पक्खि-भवन्तरु
 ‘तो वरि अम्हहुं वयइं चडावहु
 तं वलएवहो वयणु सुणेपिणु
 दिण्ण पडिच्छिय तिहिं’ मि जणेहिं
 मुणिवर गय आयासहो जावेहिं
 १२ ‘राहव एउ काइं अच्छरियउ
 तेण वि कहिउ सवु जं वित्तउ
 तक्खणे पञ्चच्छरिउ पदरिसिउं

- जाणइ-कन्तें पभणिउं मुणिवरु ॥ १
 पक्खिहें सुहय-पन्थु दरिसावहु ॥ २
 पञ्चाणुवय उच्चारेपिणु ॥ ३
 पुणु अहिणन्दिय एक-मणेहिं ॥ ४
 लक्खणु भवणु पराइउ तावेहिं ॥ ५
 जं मन्दिरु गिय-रयणेहिं भरियउं ॥ ६
 ‘मइं आहार-दाण-फलु पत्तउं’ ॥ ७
 ११ मेहेहिं जिह अणवरउ पव्वरिसिउं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

- रामहो वयणु सुणेवि अणन्तें
 १२ वड-पारोह-समेहिं पचण्डेहिं

णेणहवि मणि-रयणइं वलवन्तें ।
 रहवरु घडिउ स यं भु व-दण्डेहिं ॥ ९

15. 1 P S पंचसयहुं. 2 P छिण्णउ, S छिण्णउ, A छिण्णउं. 3 P A भिण्णउं. 4 A कप्पिउं.
 5 S कंह व, A कहि मि. 6 P S A °किलेसहिं. 7 P A °मत्ति, S °मत्ति. 8 A अब्भुद्धरणउं.

16. 1 A भावणणउं. 2 A पभणिउं. 3 P A चडावहुं. 4 P S A पक्खिहे. 5 P तिहिज-
 मिणेहिं corrected as तिहिमि जणेहिं, S तिहिजमेणेहिं, A तिहिजमिणेहिं. 6 P A अच्छरिअउं.
 7 P A भरिउं. 8 P A वित्तउं. 9 P पत्तउं, A पत्तइ. 10 P A पदरिसिउं. 11 P मेहिहिं,
 S मेहिहि, A मेहहि. 12 P S पव्वरिसिउ.

[३६. छत्तीसमो संधि]

रहु कोड्वावणउ
गयणहों उच्छलेंवि

मणि-रयण-सहासेहिँ घडियउ ।
णं दिणयर-सन्दणु पडियउ ॥

[१]

तहिँ तेहएँ सुन्दरें सुप्पवहें
धुरें लक्खणु रहवरें दासरहि
तं कण्हवणण-गइ मुएँवि गय
कत्थ वि^१ पञ्चाणण गिरि-गुहेंहिँ
कत्थ वि उड्ढाविय सउणं-सय
कत्थ वि^२ कलाव णञ्चन्ति वणें
कत्थ इ हरिणइँ भय-मीयाइँ
कत्थ वि णाणाविह-रुक्ख-राइ

आरण्ण-महांगय-जुत्त-रहें ॥ १
सुर-लीलएँ पुणु विहरन्ति महि ॥ २
वणें कहि मि णिहालिय मत्त गय ॥ ३
मुत्तावलि विक्खिरन्ति णहेंहिँ ॥ ४
णं अडविहें उड्डेवि पाण गय ॥ ५
णावइ णट्टावा जुवइ-जणें ॥ ६
संसारहों जिह पण्डइयाइँ ॥ ७
णं महि-कुलवहुअहें रोम-राइ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तहों दण्डयवणहों
णामें कोञ्चणइ

अगएँ दीसइ जलवाहिणि ।
थिर-गमणं णाइँ वर-कामिणि ॥ ९

[२]

कोञ्चणइहें तीरेंण संठियइँ
छुडु जें छुडु जें^१ सरयहों आगमणें
णव-णलिणिहें कमलइँ विहंसियइँ
धवलेण णिरन्तर-णिग्गएँण
अहिसिञ्जेवि तक्खणें वसुह-सिरि
तहिँ तेहएँ सरएँ सुहावणएँ
कोवण्ड-सिलीमुह-गहिय-करु
वणें ताम सुअन्धु वाउ अइउ

लय-मण्डवें गम्पि परिट्टियइँ ॥ १
सच्छाय महादुम जाय वणें ॥ २
णं कामिणि-वयणइँ पणंसियइँ ॥ ३
घण-कलसेहिँ गयण-महंगएँण ॥ ४
णं थविय अवाहिणि कुम्भइरि ॥ ५
परिभमइ जणइणु काणणएँ ॥ ६
गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग-धरु ॥ ७
जो पारियाय-कुसुमब्भइउ ॥ ८

1. S कोडावणउं, A कोड्वावणउं. 2 P S गयणहं. 3 P S महंगयणं. 4 P S विहरंत.
5 A इ everywhere. 6 P S A सबण. 7 P S पावइयाइं. 8 P S णामइ, A णामे.
9 A णगमणा णइं.

2. 1 S A omit, P superscribes. 2 S णलिणिहि, A नलिणिहिं. 3 P S विह-
सियाइं, A विवसियइं. 4 P S पणंसियाइं. 5 A महागण. 6 A अवाणिज. 7 P S कुम्भयि.
8 A कोवण्डु. 9 P S णम्भइउ.

[१] १ वर्णानधी. २ मयूराः.

[२] १ कुम्भकारगिरि. २ वातः

कङ्खिउ भमरु जिह
धाइउ महुमहणु

५ थोवन्तरें परिओसिय-मणेंण
णं सयण-विन्दु आवासियउ
अण्णेक-पासें कोडुवणउ
गयणङ्गणें खग्गु णिहालियउ
लक्खणहों णाई अब्भुद्धरणु
१० तं सूरहासु णामेण असि
जसु धारहों काल-दिट्ठि वसइ
तें^{१०} हत्थु पसारेंवि लइउ किह

पुणु कीलन्तएण
१५ ताव समुच्छलेंवि

जं दिट्ठु विवाइउ सिर-कमलु
‘धिम्मइँ णिक्कारणु वहिउ णरु
पुणु जाम णिहालइ वंस-वणु
२० तं पेक्खेंवि चिन्तइ खग्गधरु
गउ एम भणेप्पिणु महुमहणु
राहवेंण बुत्तु ‘भो सुहउ-ससि
तेण वि तं सयलु वि अक्खियउ
जिह लद्धु खग्गु तं अतुल-वलु

१० P S णं गयवरु गयवरगंधें.

३. १ A नं मिअवलु वाहुत्तासियउ; P तासिअउं. २ P कोडावणउ, SA कोडुवणउं.
३ SA भीसावणउं. ४ P णिहालियउं. ५ P °मोमालियउं. ६ P A संव°. ७ A धारहिं.
८ P जं. ९ A तं. १० P S असिवंतें.

४. १ P S सिट्ठुणिय. २ S विधि. ३ A णिक्कारणे. ४ A प्फुटंततणु. ५ P S A कहि.
६ P आसि. ७ P अक्खिअउं. ८ P लक्खिअउं.

[३] १ वंसवणं स्थलं. २ निःप्रतापस्य.

॥ घत्ता ॥

तें वाएं सुट्ठु सुअन्धें ।
^{१०}जिह गउ गणियारिहें गन्धें ॥ ९

[३]

‘वंसत्थलु लक्खिउ लक्खणेंण ॥ १
‘णं मयउलु वाहें तासियउ ॥ २
जम-जीह जेम भीसावणउ ॥ ३
णाणाविह-कुसुमोमालियउ ॥ ४
णं सर्वुकुमारहों जमकरणु ॥ ५
जसु तेएं णिय पह मुअइ ससि ॥ ६
जसु कालु कियन्तु वि जमु तसइ ॥ ७
पर-णर-णिप्पसरु कलत्तु जिह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असिवत्तें हउ वंसत्थलु ।
सिरु पडिउ स-मउडु स-कुण्डलु ॥ ९

[४]

सिरिवच्छें विट्ठुणिय भुय-जुअलु ॥ १
वत्तीस वि लक्खण-लक्ख-धरु ॥ २
णर-रुण्डु दिट्ठु फेन्दन्त-तणु ॥ ३
‘थिउ माया-रूवें को वि णरु’ ॥ ४
णिविसेण परायउ णिय-भवणु ॥ ५
कहिँ लद्धु खग्गु कहिँ गयउ असि ॥ ६
वंसत्थलु जिह वणें लक्खियउ ॥ ७
जिह खुडिउ कुमारहों सिर-कमलु ॥ ८

बुद्धइ राहवेंण
असि^{१०} सावण्णु णवि

जं ऐहिय मीसण वत्त सुय
'लंय-मण्डवें विउलें णिविद्धाहुं
परिभमइ जणहणु जहिं जें जहिं
कर-चलण-देह-सिरं-खण्डणहुं
हउं ताएं दिण्णी केहाहुं
तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ हरि
जिम दाणें जेंम सुकइत्तणेंण
परिभमइ कित्ति सव्वहों णरहों

आर्येहुं ऐत्तियहुं
सो जाउ जि मुउ

एत्थन्तरें सुर-संतावणहों
पायाललङ्क-लङ्केसरहों
चन्दणहि णाम रहसुच्छलिय
'लइ वारह-वरिसइं भरियाइं
अण्णहिं तहिं दिवसहिं करे चडइ
सो एव चवन्ती महु-सर
सज्जण-मण-णयणाणन्दणहों
ताणन्तरें असि-दलंवट्टियउ

॥ घत्ता ॥

'मं एत्तिय मुहिवएँ' साडिय ।
पइं जमहों जीह उप्पाडिय' ॥ ९

[५]

वेवन्ति पजम्पिय जणय-सुय ॥ १
सुहुं णाहि वणें वि पइद्धाहुं ॥ २
दिवेदिवें कडमहणु तहिं जें तहिं ॥ ३
णिव्विण्ण माएँ हउं भण्डणहुं ॥ ४
कलि-काल-किर्यन्तहुं जेहाहुं ॥ ५
'जइ राजु ण पोरिसु होइ वरि ॥ ६
जिम आउहेण जिम कित्तणेंण ॥ ७
धवलन्ति भुवँणु जिह जिणवरहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जसु एकु वि चित्तें ण भावइ ।
परिमिसु जं जंमु णेवावइ' ॥ ९

[६]

लहु वहिणि सहोयर रावणहों ॥ १
धण पाण-पियारी तहों खरहों ॥ २
णिय-पुत्तहों पासु समुच्चलिय ॥ ३
चउ-दिवसेहिं पुणु सोत्तरियाइं ॥ ४
तं खग्गु अज्जु णहें णिवडइ' ॥ ५
वंलि-दीवङ्गारयं-गहिय-कर ॥ ६
गय पासु पत्त णिय-णन्दणहों ॥ ७
वंसत्थलु दिट्ठु णिवट्टियउ ॥ ८

१ S मुहिवइ. 10 P असावण्णु.

5. 1 A एही. 2 S लइ. 3 PA सुहुं. 4 S णय्थे. 5 SA सिरि. 6 P खण्डणहु,
S खण्डणहो. 7 P महाए, S माइ. 8 S कियंतहो जेहाहो. 9 P SA वरे. 10 PA सुणणु.
11 PA आयहु, S आयहो. 12 S एत्तियहो. 13 S जेयु, A जसु (?).

6. 1 A वारहो. 2 PA वंगारए गहिअ^०. 3 PS दलवट्टिअउ, A दलवट्टिअउं. 4 PA
णिवट्टिअउं, S णिवट्टिअउ.

[४] १ एवमेव खण्डिता.

[५] १ संग्रामस्य.

[६] १ नैवेद्य-हीप-धूपादयः

दिदु कुमार-सिरु
जन्तेहिं किण्णरेंहिं

- १ सिरु-कमलु णिएप्पिणु गीढ-भय
कन्दन्ति रुवन्ति सवेयणिय
पुणु दुक्खु दुक्खु संवरिय-मण
णं मुच्छंए किउ सहियत्तणउ
पुणु उद्वेवि विहुणइ मुअजुअलु
११ पुणु कोकइ पुणु धाहहिं रडइ
पुणु उद्वइ पुणु कन्दइ कणइ
पुणु सिरु अप्फालइ धरणिवहे

जे चउदिसैंहिं थिय
१२ 'मा रुव चन्दणेंहिं'

- अप्पाणउ तो वि ण संथवइ
'हा पुत्तं विउज्झंहिं लुहंहिं मुहुं
हा किण्णालावहिं पुत्तं मइं
२१ हा उवसंहारहिं रुवु लहु
हा पुत्तं काइं किउ रुहिर-वडु
हा पुत्तं लाइ मुहें मुह-कमलु
हा पुत्तं देहिं आलिङ्गणंउ
णव-मासु छुडु जं^{१३} मइं उअरें

5 S छंठियउ, A च्छंठियउं.

7. 1 P S A सिरु. 2 S णिचेयवणिय, A णिचवणिय. 3 P A दुक्ख. 4 P संवरिअमण, S A संवरिअमणु. 5 S A णवणु. 6 P S A मुच्छय. 7 P S सहिएत्तणउ, A सहिएत्तणउं. 8 P गवणम्मणउं, A गयणम्मणउं. 9. P उद्वि, S उद्वि. 10 P S कणइ, A कणइं. 11 P S A रोवन्तिहिं. 12 P णहिं, S णहिं, A णिहिं. 13 P S A चंदणहिं.

8. 1 S A अप्पाणउं. 2 P संभवइ. 3 P ता. 4 S सुत्त. 5 A विउज्झंहिं. 6 S मुहुं लुहंहिं. 7 P A मुहुं. 8 S A सुत्त. 9 P S A काइ. 10 S A एहिं. 11 S A आलिङ्गणउं. 12 S A वदावणउं. 13 P A जम्मइं. 14 P A सहलु, S सवळ.

[८] १ आगच्छ.

॥ घत्ता ॥

स-मउडु मणि-कुण्डल-मण्डिउ ।
वर-कणय-कमलु णं छंण्डिउ ॥ ९

[७]

- रोमन्ती महियलें मुच्छ-गय ॥ १
णिजीव जाय णिचेयणिय ॥ २
मुह-कायर दर-मउलिय- णयण ॥ ३
जं रक्खिउ जीवु गंवणमणउ ॥ ४
पुणु सिरु पुणु पहणइ वच्छयलु ॥ ५
पुणु दीसउ णिहालइ पुणु पडइ ॥ ६
पुणुरुत्तेहिं अप्पउ आहणइ ॥ ७
रोवन्तिहें सुर रोवन्ति णेहें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिय डाल पसारेंवि तरुवर ।
णं साहारन्ति सहोयर ॥ ९

[८]

- रोवन्ति पुणु वि पुणु उद्ववइ ॥ १
हा विरुअए णिहए सुत्तं तुहुं ॥ २
हा किं दरिसाविय माय पइं ॥ ३
हा पुत्तं देहिं पिय-वयणु महु ॥ ४
हा पुत्तं एहिं उच्छंजे चडु ॥ ५
हा पुत्तं एहिं पिय थण-जुअलु ॥ ६
जे णच्चमि वणे वद्धावणउ ॥ ७
तं सहलं मणोरह अजु जणे ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हा हा दह विहि
काईं कियन्त किड

कहिं गिर्येउ पुत्तु कहों सङ्गमि ।
हा दइव कवण दिस लङ्गमि ॥ ९

[९]

हा अज्जु अमङ्गलु विहिं पुरहँ
हा अज्जु दुक्खु वन्धव-जणहों
हा अज्जु खरहों रोवावणउ
हा अज्जु फुट्टु कि ण जमहों सिरु
तं खग्गु ण सावणहों णरहों
किं तेण जि पाडिउ सिर-कमलु
पुणु पुणु दरिसावइ सुरयणहों
'अहों देवहों वालु ण रक्खियउ

पायाललङ्क-लङ्काउरहँ ॥ १
हा अज्जु पडिय भुअ रावणहों ॥ २
हा अज्जु रिउहुँ वद्धावणउ ॥ ३
हा पुत्तु णिवारिउ मईं मि चिरु ॥ ४
पर होइ अद्ध-वक्केसरहों ॥ ५
मणि-कुण्डल-मण्डिय-गण्डयलु' ॥ ६
रवि-हुअवह-वरुण-पहङ्गणहों ॥ ७
सञ्जेहिं मिलेवि' उपेक्खियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तुम्हईं दोसु णवि
मच्छुडु अण्ण-भवे

महु दोसु जाहें मणु ताविउ
मईं अण्णु को वि संताविउ' ॥ ९

[१०]

एत्थन्तरे सोएं परियरिय
णिङ्करिय-णयण विप्फुरिय-मुह
परिवद्धिय रवि-मण्डले मिलिय
'जे घाइउ पुत्तु महु-त्तणउ
तहों जीविउ जइ ण अज्जु हरमि
इय पइज करेप्पिणु चन्दणहि
लय-मण्डवे लक्खिय वे वि णर
तहिं एक्कु दिट्ठु करवाल-भुउं

णडि जिह तिह पुणु मच्छर-भरिय ॥ १
विकराल णाईं खय-काल-छुह ॥ २
जम-जीह जेम णहें किलिगिलिय ॥ ३
खर-गन्दणु रावण-भायणउं ॥ ४
तो हुयवह-पुञ्जे पईसरमि' ॥ ५
किर वल्लेवि पलोवइ जाम महि ॥ ६
णं धरणिहें उग्गिभय उभय कर ॥ ७
'लइ एण जि हउ महु तणउ सुउ ॥ ८

15 P णिभउं, S णिभउ.

9. 1 पुरहों, S पुरहु. 2 P उरहों, S उरहु. 3 A रामणहो. 4 SA रोवावणउं. 5 SA वद्धावणउं. 6 PS मइ वि, A मइं मि. 7 S कुण्डलु. 8 PSA मंडिय. 9 A मिलिवि वि. 10 PS उपेक्खियउ, A उपेक्खियउ. 11 PS तुम्हइ. 12 P ताविउ, S तावियउ, A ताविय. 13 P संताविउ, S संतावियउ.

10. 1 PS परिहरिय. 2 S मच्छरि. 3 P परिवद्धिय, S परिवद्धिअ. 4 PS मंडल. 5 SA तणउं. 6 P राम्मण. 7 PSA भायणउं. 8 A पलोवइ. 9 PS उहय. 10 S सुभो. 11 S सुभो.

[९] १ अवगणितः.

॥ घत्ता ॥

एण जि असिवरेंण 'णियमत्थहों कुल-पाँयारहों ।
सहुँ वंसत्थलेंण सिरु पाडिउ सम्बुकुँमारहों ॥ ९

[११]

५ जं दिट्ठ वणन्तरें वे' वि णर गउ पुत्त-विओउ कोउं णवर ॥ १
आयामिय विरह-महाभडेंण णच्चाविय मयरद्धय-णडेंण ॥ २
पुलइज्जइ पासेइज्जइ वि परितप्पइ जरुँ-खेइज्जइ वि ॥ ३
मुच्छिज्जइ उम्मुच्छिज्जइ वि रुणुरुणइ वियारहिँ भज्जइ वि ॥ ४
'वरि एउ रूउ उँवसंघरमि सुर-सुन्दरु कण्ण-वेसु करमि ॥ ५
१० पुणु जामि एरुँथु उम्बर-भवणु परिणेसइ अवसेँ एक्कु जणु' ॥ ६
हियइच्छिउ तक्खणें रूउ किउ णं कामहों कोडुँ(?) जें तिँ विहिउ ॥ ७
गय तहिँ जहिँ तिण्णि वि जणइँ वणें पुणु धाहहिँ रुअँणहिँ लग्ग खणें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१५ पभणइ जणय-सुय 'वल पेक्खु कण्ण किहँ रोवइ ।
जं कार्लन्तरिउ तं दुक्खु णाइँ उँक्कोवइ' ॥ ९

[१२]

रोवन्ती वडुँ मलहरेण हकारेंवि पुच्छिय हलहरेण ॥ १
'कहि सुन्दरि रोवहि काइँ तुहुँ किं पडिउ किं पि णिय-सयण-दुहु ॥ २
किं केण वि कैहिँ वि परिब्भविय' तं वयणु सुणेवि वाल चविय ॥ ३
२० 'हँ पाविणि दीण दयावणिय णिँवन्धव रुवमि वराय णिय ॥ ४
वणें भुल्ली णउ जाणमि दिसउ णउ जाणमि कवणु देसु विसउ ॥ ५
कहिँ गच्छमि चक्खूहें पडिय महु पुण्णेंहिँ तुम्ह समावडिय ॥ ६
जइ अम्हहुँ उप्परि अत्थि मणु तो परिणउ 'विण्हँ वि एक्कु जणु' ॥ ७
तं वयणु सुणेवि हलाउहेंण किय णक्खच्छोडी राहवेण ॥ ८

12 S °आवारहो, A °आधारहो. 13 P संब°, A वंस°.

11. 1 A वेदि. 2 S तासु. 3 P S उरे खेज्जइ वि. 4 P उवसंघरेवि, S ओसंघरिवि.
5 P S करेवि. 6 S वेरुथु यउ वरभुवणु, A तेरुथु उवरभवणु. 7 A कोट्टा जेम हिउ. 8 P
रुउभणइ, S रुणणहं. 9 A कइ. 10 P कार्लंतरिउ, S कार्लंतरिओ.

12. 1 A मणहरेण. 2 S A रोवहिँ. 3 P S A काइ. 4 A किंपि वि. 5 P चलिय.
6 P A हउ, S हौ. 7 P भयावणिय. 8 A णिय वंधव. 9 P जाणउ. 10 A दोहि मि.

[१०] १ नियम-स्थस्य. २ कुल-प्राकारस्य.

[११] १ उत्पादयति.

[१२] १ शब्देन. २ केन परिभवं कृतं. ३ द्वौ मध्ये.

करयलु दिण्णु मुहँ
'सुन्दर ण होइ वहु'

जो णरवइ अइ-सम्माण-करु
जो होइ उवायणें वच्छलउ
जो मित्तु अकारणें एइ घरु
जो पन्थिउ अलिय-सणेहियँउ
जो णरु अत्थक्कएँ लल्लि-करु
जा कामिणि कवड-चाडु कुणइ
जा कुलवहु संवहँहिँ ववहरइ
जा कण्ण होवि पर-णरु वरइ

आयहुँ अट्टुहु मि
लोइउ धम्मु जिह

चिन्तेप्पिणुं थेरासण-मुहँण
'महु अत्थि भज्ज सुमणोहरिय
जं एव समासएँ अक्खियउ
'हएँ लेमि कुमारि स-लक्खणिय
जह्वोरु-अहङ्गय वट्ट-थण
रत्तँहि गइन्द-णिरिक्खणिय
जा उण्णय णासँ णिलाडँ तिय
कार्यङ्कि स-गगार तावसिय

13 1 P पत्तिए, S येत्तिय. 2 A भोइ. 3 S येत्तिय. 4 S मित्तिय. 5 P S दुहु. 6 A सणेहवउ. 7 A अणेहमउ. 8 P S करइ, A कुणइ. 9 P S सिरकमलइ. 10 P A लुणइ. 11 A सव्वहँहिँ ववरइ. 12 S अकजसइ. 13 P A करइ. 14 P अट्टहँ, S अट्टह. 15 A मूठउ णरु. 16 P वीसंभवइ, A वेसंभवइ. 17 P °वेप्पइ, S विप्पइ.

14. 1 A थेरासणु. 2 P अक्खियउ. 3 P सुअंगइ, S सुयंगइ, A अहंगए. 4 A रत्तउंहि. 5 S समुज्जणिय. 6 P कार्यंवि, S कार्यंवि. 7 A °गुलिय विरा?.

[१३] १ अतिदातव्ये. २ विश्वसति.

[१४] १ कमलमुखेण. २ सामुद्रके शास्त्रे यादशी दृष्टा. ३ काकवत् पादौ खरश्च.
स० प० च० १६

॥ वत्ता ॥

किय वक्क भउँह सिरु चालिउ ।
सोमित्तिहँ वयणु णिहालिउ ॥ ९

[१३]

सो पत्तिय अत्थ-समत्थ-हरु ॥ १
सो पत्तिय विसहरु केवलउ ॥ २
सो पत्तिय दुट्टु कलत्त-हरु ॥ ३
सो पत्तिय चोरु अणेहियँउ ॥ ४
सो सत्तु णिरुत्तउ जीव-हरु ॥ ५
सा पत्तिय सिर-कमलु वि' लुणँइ ॥ ६
सा पत्तिय विरुयँ-सयइँ करँइ ॥ ७
सा किं वहुन्ती परिहरइ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

जो णरु मूठउ 'वीसम्भँइ ।
छुडु विप्पँउ पएँ पएँ लब्भइ ॥ ९

[१४]

सोमित्ति वुत्तु सीराउहँण ॥ १
लइ लक्खण वहु लक्खण-भरिय' ॥ २
कण्हेण वि मणें उवलक्खियउ ॥ ३
जा आगमँ सामुद्रएँ भणिय ॥ ४
दीहर-कर-णक्खल्लि-णयण ॥ ५
चामीयर-वण्ण सपुज्जणिय ॥ ६
सा होइ ति-पुत्तहुँ मायरिय ॥ ७
सम-चलणक्कुलिँ अचिराउसिय ॥ ८

जा हंस-वंस-वरवीण-सर
सुह-भमर-गाहि-सिर-भमर-थण(?)
जहें वामएँ करयलें होन्ति सय
गोउरु घरु गिरिवरु अहव सिल
५ चक्कुस-कुण्डल-उद्धरिह
अद्धेन्दु-णिडालें सुन्दरेंण

महुँ-वण्ण महा-घण-ञाय-धर ॥ ९
सा बहु-सुय बहु-धण बहु-सयण ॥ १०
मीणारविन्द-विस-दाम-धय ॥ ११
सु-पसत्थ स-लक्खण सा महिल ॥ १२
रोमावलि वलिय भुँयङ्कु जिह ॥ १३
मुत्ताहल-सम-दन्तन्तरेंण ॥ १४

॥ वत्ता ॥

आएँहिँ लक्खणेंहिँ
चक्काहिवहों तिय

सामुइएँ वणि[य] सुणिज्जइ ।
चक्कवइ पुत्तु उप्पज्जइ ॥ १५

॥

[१५]

वहुँ राहव एह अलक्खणिय
जहोरुँ-करेहिँ संमंसलिय
कुम्मुणाय-पय विसमङ्गुलिय
सबङ्ग-समुट्ठिय-रोम-रइ
॥ कडि-लउळण भउँहावलि-मिलिय
दालिहिणि तित्तिर-लोयणिय
विरसँउह-दिट्ठि विरसँउह-सर
णासगें थोरें^१ मन्थरेंण
कडि-चिहुर-णाहि(?)^२ मुँह-मासुरिय
॥ कहुँ-अङ्गिय^३ मत्त-गइन्द-छवि

हउँ भणमि ण लक्खणेण भणिय ॥ १
चल-लोयण गमणुत्तावलिय ॥ २
धुयँ-कविल-केसि खरि पङ्गुलिय(?) ॥ ३
तहें पुत्तु वि भत्तारु वि मरइ ॥ ४
सा देव णिरुत्तउ 'झेन्दुलिय ॥ ५
पारेवयच्छि जणं-भोजणिय ॥ ६
सा दुक्खहुँ भायण होइ पर ॥ ७
साँ लज्जिय किं बहु-वित्थरेण ॥ ८
सा रक्खसि बहु-भय-भासुरिय ॥ ९
हउँ एहिय परिणमि कण्ण णवि^४ ॥ १०

॥ वत्ता ॥

पभणइ चन्दणहि
जैइ^५ हउँ णिसियरिय

'किं णियय-सहावें लज्जमि ।
तो पइँ मि अज्जु स इँ भु ज्जमि' ॥ ११

*

८ A बहु°. ९ A वणभुवसिहर. १० P भुअंग, S भुयंगि. ११ P S A वणि.

१५. १ S वरमि. २ P S जंघोरुभ. ३ A धुव°. ४ S खर°. ५ S णिडिलिय, A णिडुलिय.
६ P पारा°, S पावयच्छि. ७ P जय°, S जयवहु°. ८ A उहं. ९ S उहं, A उहु. १० S दुक्खहो,
A दुक्खहं. ११ A थोरें मच्छरेण. १२ S omits this pāda. १३ P S णाहि. १४ P मुहे,
S मुहि. १५ A भासुरिय. १६ P कहुँ, S चहुँ. १७ A 'अंगि-पमत्त°. १८ P जइ यहुँ, S जइ-
यहु. १९ P पइँ मि, A पइँ वि.

४ वृषभ.

[१५] १ एषा वधू. २ अतिस्थूला. ३ पुंश्वली. ४ अतिरीचेंण. ५ एषाऽहं चेत् राक्षसी.

[३७. सत्ततीसमो संधि]

चन्दणहि अलज्जिय एम पगज्जिय 'मरु मरु भूर्यहुं देमि वलि' ।
णिय-रूवें वद्धिय रण-रसें अद्धिय रावण-रामहुं णाहं कलि ॥

[१]

पुणु पुणु वि पवद्धिय किलिकिलन्ति जालावलि-जाला-सय मुअन्ति ॥ १ 5
भय-भीसण कोवाणल-सणाह णं धरएँ समुब्भिय पवर वाह ॥ २
णह-सरि-रवि-कमलहोँ कारणत्थि अहवइ णं अब्भुद्धारणत्थि ॥ ३
णं घुसलइ अब्भ-चिरिद्धिहिहुँ तारा-बुवुव-सयं-विद्धिरिहुँ ॥ ४
ससि-लोणिय-पिण्डउँ लेवि धाइ गह-डिम्भहोँ पीहँउ देइ णाहँ ॥ ५
अहवइ किं बहुणा वित्थरेण णं णहयल-सिल गेण्हइ सिरेण ॥ ६ 10
णं हरि-वल-मोत्तिय-कारणेण मँहि-गयण-सिप्पि फोडइ खणेण ॥ ७
वलएवें बुच्चइ 'वच्छ वच्छ तुहुँ वहुँयहोँ चरियइँ पेच्छ पेच्छ' ॥ ८
॥ घत्ता ॥

चन्दणहि पजम्पिय तिणु वि ण कम्पिय 'लइउ खग्गु हउ पुत्त जिह ।
तिणिण वि खज्जन्तइँ मारिज्जन्तइँ रक्खेज्जहोँ अप्पाणु तिह' ॥ ९ 15

[२]

वयणेण तेण असुहावणेण करवालु पदरिसिउ महुमहेण ॥ १
दढ-कढिण-कढोरुप्पीलणेण अङ्गुलि-अङ्गुवावीलणेण ॥ २
तं मण्डलग्गु थरहरइ केम भत्तार-भएँ सुँकलत्तु जेम ॥ ३
अणवरय-मैउज्जरेँ णर-णिमुम्भेँ तहिँ दारिज्जन्तेँ गइन्द-कुम्भेँ ॥ ४ 20
जो धारहिँ मोत्तिय-णियरु लग्गु पासेव-फुलिङ्गु वहु व वलग्गु ॥ ५
तं तेहउ खग्गु लएवि तेण विज्जाहरि पभणिय लक्खणेण ॥ ६
'जेँ लइउ सीसु तुह गन्दणासु करवालु एउ तं सूरहासु ॥ ७
जइ अत्थि को वि रण-भर-समत्थु तहोँ सवहोँ उब्भिय धम्म-हत्थु' ॥ ८
खर-घरिणिँएँ वुत्तु'ण होइ कज्जु को वारइ मारइ मइँ सि अज्जु' ॥ ९ 25

1. 1 PS चंदणहि, A चंदणहे. 2 A भूर्यहं. 3 PS रणरसि, A रणे रसि यद्धिय. 4 P मिलिगिळंति, S मिलिगिळंतु. 5 A °णत्थे. 6 SA °णत्थे. 7 PS °डिहिहु, A चिरिद्धिहिहु. 8 A चिद्धिरिहु. 9 A °पिँड व लेह. 10 PS पीहिउ. 11 PS °णाइ, A नाह. 12 P omits this pāda. 13 P वहुअहिँ.

2. 1 S कढोरकरपीलणेण. 2 P णरे, S णरि. 3 P गहँदे, S गहँदि. 4 PS धारेहिँ. 5 A पासेवपुडिगोहु. 6 PS लयउ. 7 PS मइँ सि, A मइँ सि.

[१] १ दधि. २ विक्रितः.

[२] १ नव-तरुणि जेम. २ मदयुके नरे.

॥ वत्ता ॥

सा एव भणेप्पिणु गलगजेप्पिणु चलणेहिँ अप्फालेवि महि ।
खर-दूसण-वीरहुँ अतुल-सरीरहुँ गय कूवारें चन्दणहि ॥ १०

[३]

६ रोवन्ति पधाइय दीण-वयण जलहर जिह तिह वरिसन्ति णयण ॥ १
लम्बन्ति लम्ब-कडियल-समग णं चन्दण-लंयहें भुअङ्ग लग्ग ॥ २
वीया-मयलञ्छण-सण्णिहेहिँ अप्पाणु वियारिउ णिय-णहेहिँ ॥ ३
रुहिरोल्लिय थण-घिप्पन्त-रत्त णं कणय-कलस कुङ्कुम विलित्त ॥ ४
णं 'दावैइ लक्खण-राम-कित्ति णं खर-दूसण-रावण-भवित्ति ॥ ५
१० णं णिसियर-लोयहें दुक्ख-खाणि णं मन्दोयरिहें सुपुरिस-हाणि ॥ ६
णं लङ्कहें पइसारन्ति सङ्क णिविसेण पत्त पायाललङ्क ॥ ७
णिय-भन्दिरेँ धाहावन्ति णारि णं खरदूसणहें पइट्ट मारि ॥ ८

॥ वत्ता ॥

कूवारु सुणेप्पिणु धण पेक्खेप्पिणु राएं वलेंवि पलोइयउ ।
१५ तिहुयणु संघारेंवि पलउ समारेंवि णाइँ कियन्तें जोइयउ ॥ ९

[४]

कूवारु सुणेवि कुल-भूसणेण चन्दणहि पपुच्छिय दूसणेण ॥ १
'कहें केणुप्पाडिउ जमहें णयणु कहें केण पजोइउ काल-वयणु ॥ २
कहि केण कियन्तहें कियउ मरणु कहि केण कियउ विस-कन्द-चरणु ॥ ३
२० कहि केण वज्जु पवणेण पवणु कहि केण दहु जलणेण जलणु ॥ ४
कहि केण भिणु वज्जेण वज्जु कहि केण धरिउ जलु जलेंण अज्जु ॥ ५
कहि केण भाणु उण्हेण तविउ कहि केण समुहु तिसाएँ खविउ ॥ ६
कहि केण खुडिउ फणि-मणि-णिहाउ कहें केण सहिउ सुर-कुलिस-घाउ ॥ ७
कहें केण हुआसणें झम्प दिण्ण कहें केण दसाणण-पाय छिण्ण' ॥ ८

२५

॥ वत्ता ॥

चन्दणहि पवोल्लिय अंसुजलोल्लिय 'जण-वल्लहु महु तणउ सुउ ।
ओलगइ पाणेहिँ विणय-समाणेहिँ णरवइ सम्बुकुमारु मुउ' ॥ ९

3. 1 P S °कयहें, A °कयहिँ. 2 P S घावइ. 3 P °रामण°. 4 P °कोयहुँ, S कोयहु. 5 P °दूसणहु.

4. 1 A वयणु. 2 S omits this pāda and line. 3 A °जरणु. 4 P S कासु. 5 P S सिण्ण. 6 S सुभो.

[५]

आयण्णोवि सम्बुकुमार-मरणं संतावण-सोय-विओय-करणं ॥ १
 पविरल-मुहु वाह-भरन्त-णयणु दुक्खाउरु दर-ओहुल्ल-वयणु ॥ २
 खरु रुयइ स-दुक्खउ 'अतुल-पिण्डु हा अज्जु पडिउ महु वाहु-दण्डु ॥ ३
 हा अज्जु जाय मणे गरुअ सक्क हा अज्जु सुणण पायाललङ्क ॥ ४
 हा णन्दण सुर-पञ्चाणणासु कवणुत्तरु देमि दसाणणासु ॥ ५
 एत्थन्तरे ताम तिमुण्ड-धारि बहु-बुद्धि पजम्पिउ वग्भयारि ॥ ६
 हे णरवइ मूढा रुअहि काइ संसारं भमन्तहुं सुअ-सयाइ ॥ ७
 आयाइ मुआइ गयाइ जाइ को सक्कइ राय गणेवि ताइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहो घरु कहो परियणु कहो सम्पय-धणु माय वप्पु कहो पुत्तु तिय ।
 के कज्जे रोवहि अप्पउ सोयंहि भव-संसारहो एह किय' ॥ ९

[६]

जं दुक्खु दुक्खु संथविउ राउ पडिबोल्लिउ णिय-घरिणिणै सहाउ ॥ १
 'कहे केण वहिउ महु तणउ पुत्तु' तं वयणु सुणोवि धणिआए बुत्तु ॥ २
 'सुणु णरवइ दुग्गमे दुप्पवेसे दुग्घोद्व-थद्व-घट्टण-पवेसे ॥ ३
 पञ्चाणण-लक्खुक्खय-कराले तहिं तेहए दण्डय-वणे विसाले ॥ ४
 वे मणुस दिट्ठ सोण्डीर वीर मेहारविन्द-सण्णिह-सरीर ॥ ५
 कोवण्ड-सिलीमुह-गहिय-हत्थ पर-वल-वल-उत्थल्लण-समत्थ ॥ ६
 तहिं एक्कु दिट्ठु तियसहुं असज्जु ते लइउ खग्गु हउ पुत्तु मज्जु ॥ ७
 अण्णु वि अवलोवहि देव देव केक्खोरु वियारिउ पेक्खु केव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वणे धरेवि रुयन्ती धाह मुअन्ती कहं वि ण भुत्त तेण णरेण ।
 णिय-पुणोहिं चुक्की णह-मुह-लुक्की णलिणि जेम सरे कुञ्जरेण' ॥ ९

[७]

तं वयणु सुणोवि बहु-जाणएहिं उवलक्खिय अणोहिं राणएहिं ॥ १
 'माल्लर-पवर-पीवर-थणाए पर एयइं कम्मइं अंडयणाए ॥ २

5. 1 A पविरलु बहु वाह^०. 2 P दसाणणासु. 3 A सोवहि.

6. 1 P S A घरणिण. 2 A तणउं. 3 A वल्लु पवहत्थण. 4 P S कहे वि.

[६] १ कक्षा इदयं. २ नख-मुखैः विदारिता.

[७] १ पुंश्रुत्याः.

मञ्जुडु ण समिच्छिय सुपुरिसेण अप्पउ विद्धंसेवि आय तेण' ॥ ३
 एत्थन्तरे णिवइ णिएइ जाव णह-णियर-वियारिय दिट्ठ ताव ॥ ४
 किंसुय-लय व आरत्त-वण्ण रत्तुप्पल-माल व भमर-छण्ण ॥ ५
 तहिं अहरु दिट्ठु दसणग्ग-मिण्ण णं बाल-तवणु फग्गुणे उइण्णु ॥ ६
 तं णर्यण-कडक्खेवि खरु विरुद्धु णं केसरि मयगल-गन्ध-लुद्धु ॥ ७
 भडु भिउडि-भयङ्करु मुह-करालु णं जगहो समुट्ठिउ पलय-कालु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

अमर वि आकम्पिय एम पजम्पिय 'कहो उप्परि आरुडु खरु' ।
 रहु खञ्चिउ अरुणे सहुं ससि-वरुणे 'मइं वि गिलेसइ णवर णरु' ॥ ९

॥

[८]

उट्ठन्ते उट्ठिउ भड-णिहाउ अत्थाण-खोहु णिविसेण जाउ ॥ १
 चूरन्त परोप्परु सुहडं डुकु णं जलणिहि णियं-मज्जाय-चुक्कं ॥ २
 सीसेण सीसु पट्टेणं पट्टु चलणेण चलणु करु कर-णिहंहु ॥ ३
 मउडेण मउडु तुट्टेवि^१ लग्गु मेहलु मेहल-णिवहेण भंगु ॥ ४
 उट्ठन्ति के वि तिण-समु गणन्ति ओहारवण-माणे ण वि णमन्ति ॥ ५
 अह णमइ को वि किवणसेणेण पडिओ वि ण उट्टइ भंडु भरेण ॥ ६
 दूसणेण णिवारिय वद्ध-कोह विहडप्फड सण्णज्जन्ति जोह ॥ ७
 'जइ पड वि' देहु आरूसमाण तो^{१३} होसइ रायहो तणिय आण ॥ ८

॥ वत्ता ॥

॥ मं कज्जु विणासहो ताम वईसहो जो असि-रयणु मण्ड हरइ ।
 सिरु खुडइ कुमारहो विजा-पारहो सो किं तुंमहिं ओसरइ ॥ ९

[९]

तो वरि किज्जउ महु तणिय बुद्धि णरवइ असहायहो णत्थि सिद्धि ॥ १
 णाव वि ण वहइ विणु तारएण जलणु वि ण जलइ विणु मारुएण ॥ २

७ १ A समिच्छिउं. २ P णिएवि. ३ P S गहि. ४ P S वयणु. ५ P करणे.

८. १ P S सुहड डुकु. २ A समजाय. ३ P S चुक्क. ४ A पट्टेण पट्टु. ५ P S करेण हट्टु.
 ६ A पट्टेण पट्टु. ७ A तुट्टु. ८ A तुट्टंति. ९ P उवहावण मणेण विणु णमंति, S उवणमणे ण वि
 णमणे णमंति. १० A कोवित्तणेण. ११ P S भडु, A भडुयणेण. १२ A सि. १३ P ता. १४ P
 तुमहं, S तुमह.

२ सूर्य-सारथिना.

[८] १ घृष्टः (Reading हट्टु). २ वीनत्वं परिभवो वा.

एकल्लउ गम्पिणु काँ करहि
सन्ते वि महग्गएँ विसहँ चडहि
जसु सारहि फुँडु भुवणेकवीरु
जग-केसरि अरि-कुल-पलय-कालु
दुहँम-दाणव-दुग्गाह-गाहु
तेलोक-भुवग्गल-भडँ-तडँक

रयणायरँ सन्ते तिसाएँ मरहि ॥ ३
जिणँ अच्चिए वि संसारँ पडहि ॥ ४
सुरवर-पहरण-चड्डिय-सरीरु ॥ ५
पर-वल-वगलामुहु भुँअ-विसालु ॥ ६
सुरकरि-कर-सम-थिर-थोर-वाहु ॥ ७
दुहरिसण भीसण जम-झडक ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहँ तिहुअण-मल्लहँ
मँउ सम्बु सुहग्गइ

सुर-मण-सल्लहँ
पँइँ ओलगइ

तियस-विन्द-संतावणहँ ।
गम्पि कहिज्जइ रावणहँ ॥ ९

[१०]

आयणँवि तं दूसणहँ वयणु
'धिद्धि लज्जिज्जइ सुपुरिसाहुँ
साहीणु जीउ देहत्थु जाव
जाएँ जीवँ मरिएवउं जे
जे लब्भइ साहुक्कारु लोएँ
जिमँ भिडिउ अज्जु अरि-वर-समुहँ
जिम असि-सवल-कोन्तेहिँ भिण्णु
जिमँ णँहँ तोसाविउ सुर-णिहाउ

खरु खरउ पवोल्लिउ गुज्ज-णयणु ॥ १
पर एयइँ कम्मइँ कुपुरिसाहुँ ॥ २
किह गम्मइ अण्णहँ पासु ताव ॥ ३
तो वरि पहरिउ वर-वइरि-पुञ्जँ ॥ ४
अजरामरु को वि ण मँच्च-लोएँ ॥ ५
जिमँ जणियँ मणोरह सयण-विन्दँ ॥ ६
जिम जस-पडहउ तइलोकँ दिण्णु ॥ ७
जिम महुँ मि अज्जु खय-कालु आउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिम सत्तु-सिलायलँ
जिम स-धउ स-साँहणु

वहु-सोणिय-जलँ
स-भडु स-पहरणु

धुउ परिहव-पडु अप्पणउ ।
गउ णिय-पुत्तहँ पाँहुणउ ॥ ९

[११]

तं णिसुणँवि णिय-कुल-भूसणेण
सण्णडु खरु वि बहु-समर-सूरु

लहु लेहु विसज्जिउ दूसणेण ॥ १
अप्फालँवि वलँ संगाम-तूरु ॥ २

9. 1 P एकल्लउ, S एकिलउ. 2 S A क'हि. 3 P S जिणु. 4 A भडु. 5 P S °करि°. 6 P वगलामुहुँ, A गलामुहुँ. 7 S भुव°. 8 P S दुहव°. 9 A चडक. 10 A omits this pāda. 11 A कंदावणहो. 12 A सुउ. 13 P S A पइ.

10. 1 A जा जाएँ जीवँ मरियउं जे. 2 A पहरेवउ. 3 A मत्त°. 4 A जिह. 5 P जेम, A जिव. 6 S जिणिय. 7 A जिण्णु. 8 A रणे. 9 P महुँ मि, A महु वि. 10 P जाउ. 11 P प्पणउं, S A अप्पणउं. 12 A सवाहणु. 13 S A पाहुणउं.

[९] १ विद्यमाने. २ वृषभे. ३ भटभंजन.

विहडप्फड भड सण्णद्ध के वि
केण वि करेणं करवालु गहिउ
केण वि मुसण्ठि मोगगरु पचण्डु
णाणाविह-पहरण-गहिय-हत्थ
णीसरिउ सेणु परिहरेवि सङ्क
रह-सुरय-गइन्द-णरिन्द-विन्द

सम्माण-दाणु रिणु संभरेवि ॥ ३
केण वि धणुहरु तोणीर-सहिउ ॥ ४
केण वि हुलि केणं वि चित्तदण्डु ॥ ५
सण्णद्ध सुहड रण-भर-समत्थ ॥ ६
णं वैभेवि लग्ग पायाल-लङ्क ॥ ७
णं सु-कइ-मुहहो णिगन्ति सह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

खर-दूसण-साहणु
गयणङ्गणे लीयउ

हरिस-पसाहणु
णावइ वीयउ

अमरिस-कुद्धउ धाईयउ ।
जोइस-चक्कु पराइयउ ॥ ९

१०

[१२]

जं दिहु णहङ्गणे देणु-णिहाउ
'एउ दीसइ काइ णहग्ग-मग्गे
किं पवर पक्खि किं घण विसट्ट
तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ विणहु
खग्गेण विवाईउ सीसु जासु
अवरोप्परु ए आलाव जाव
'जिह सम्बुकुमारहो लइय पाण
जिह लइउ खग्गु पर-णारि भुत्त

वलएवे वुत्तु सुमिच्छि-जाउ ॥ १
किं किण्णर-णिवहु व चलिउ सग्गे ॥ २
किं वन्दण-हत्तिए सुर पयट्ट' ॥ ३
'वल दीसइ वइरिहिं तणउ चिणहु ॥ ४
कुंहे लग्गउ मञ्छुडु को वि तासु ॥ ५
हक्कारिउ लक्खणु खरेण ताव ॥ ६
'तिह पाव पडिच्छहि एन्त वाण ॥ ७
तिह पहरु पहरु पुण्णालि-पुत्त' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१०

एकेक-पहाणहुँ खरेण समाणहुँ
गय जेम मइन्दहो रिउ 'गोविन्दहो

चउदह सहस समावडिय ।
हकारेप्पिणु अग्गिभडिय ॥ ९

[१३]

एत्थन्तरे भड-कडमंद्दणेण
'तुहुँ सीय पयत्ते रक्खु देव
जवेले करेसमि सीह-णाउ

जोक्कारिउ रामु जणद्दणेण ॥ १
हुँ धरमि सेणु मिग-जूहु जेम ॥ २
'तवेले एज्ज धणुहरु-सहाउ' ॥ ३

11. 1 P A °दाण. 2 P रिउ. 3 A transposes 3 a and d. 4 A लिम्मल्लु.
5 S A हल्ल. 6 S कणय. 7 P °भड°. 8 S चोमि. 9 S आइयउं, A धाइउ.

12. 1 A किञ्जरकम लहु चलिउ सग्गि. 2 P सुणेविणु. 3 A तणउं. 4 A वियारिउ
5 P S कुडि. 6 P S तह एत पडिच्छहि चाववाण; A पाव पव°.

13. 1 P S A तुहु. 2 S A जं वेल. 3 S °णाउं. 4 A तं वेलु. 5 A एजे.

[१२] १ राक्षसबलं. २ भो बल. ३ आगच्छन्त. ४ हरेः.

[१३] १ तस्मिन् प्रस्तावे त्वं आगमिष्यसि.

तं वयणु सुणोवि विहसिय-मुहेण
'जसवन्तु चिराउसु होहि वच्छ
तं लेवि णिमिसु जणइणेण
तं णिसुणोवि सीयएँ वुत्तु एम
वासीस परीसह चउ कसाय

आसीस दिण्ण सीराउहेण ॥ ४
करें लगगउ जय-सिरि-वहुअ सच्छ' ॥ ५
वइदेहि णमिय रिउ-मइणेण ॥ ६
'पञ्चिन्दिय भग्ग जिणेण जेम ॥ ७
जर-जम्म-मरण मण-काय-वाया ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह भग्गु परम्मुहु रणे कुसुमाउहु लोहु मोहु मउ माणु खलु ।
तिह तुहुँ भञ्जेज्जहि समरें जिणेज्जहि सयलु वि वइरिहिँ तणउ वलु ॥९

[१४]

आसीस-वयणु तं लेवि तेण
तें' सहें वहिरिउ जगु असेसु
खरलक्खण वे वि भिडन्ति जाव
ते भिडिय परोप्परं हणु भणन्तं
णं केसरि घोरोरालि देन्त
मोगगर-खुरुप्पं-कण्णिय पडन्ति
एत्थन्तैर अतुल परक्कमेण
तहोँ तिसिरिउ चुक्कु ण कह वि भिण्णु धणुहरु पाडिउ धय-दण्डु छिण्णु ॥ ८

अप्फालिउ धणुहरु महुमहेण ॥ १
थरहरिय वसुन्धरि डरिउ सेसु ॥ २
हक्कारिउ हरि तिसिरेण ताव ॥ ३
णं मत्त महागय गुलुगुलन्त ॥ ४
वाणेहिँ वाण छिन्दन्ति एन्तं ॥ ५
जीवेहिँ जीव णं खयहोँ जन्ति ॥ ६
अद्धेन्दु मुक्कु पुरिसोत्तमेण ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अण्णुणु पुणुप्पुणु
तं तं उक्कण्ठइ

समरें वहुग्गुणु
खणु वि^{१३} ण संठइ

जं जं तिसिरिउ लेवि धणु

दइव-विहणहोँ जेम धणु ॥ ९ ॥

[१५]

धणुहरु सरु सारहि छत्त-दण्डु
तं अमरिस-कुद्धें दुद्धरेण
अप्पाणु पदरिसिउ वद्धमाणु
पहिलउ सिरु कक्कडं-कविल-केसु
वीयउ सिरु वयणु वि^{१४} णव-जुवाणु उब्भिण्ण-वियड-मोसुरि-समाणु ॥ ५

जं वाणहिँ किउ सय-खण्ड-खण्डु ॥ १
संभरिय विज्ज विज्जाहरेण ॥ २
तिहिँ वयणोँहिँ तिहिँ सीसेँहिँ समाणु ॥ ३
पिङ्गल-लोयणु किय-वाल-वेसुँ ॥ ४
उब्भिण्ण-वियड-मोसुरि-समाणु ॥ ५

6 P A भुंजेज्जहि. 7 P S A वइरिहि. 8 A तणउं.

14. 1 A तहो. 2 P S A हरिय. 3 P S परोप्पर. 4 P S भणंतु. 5 P S गुलुगुलंतु.
6 P S शोराउ. 7 A छिजंति. 8 P S एत्त. 9 P खुरुप्पं. 10 P S तिसरउ, A तिसिरिउ.
11 P अण्णु. 12 P S A तिसरउ. 13 A मि.

15. 1 P वद्धमाणु, 8 वद्धमाणु. 2 A रक्खल. 3 S सेसु. 4 A मि.

[१४] १ पतति.

[१५] १ कर्कश. २ मसुरा.

स० प० च० १७

तइयउ सिरु धवलँउ धवल-वयणु फुरिआहरु दर-णिङ्गुरिय-णयणु ॥ ६
 दुहरिसणु भीसणु वियड-दाहु जिण-भत्तँउ जिणवर-धम्म-गाहु ॥ ७
 एत्थन्तरे पर-त्रल-महणेण वच्छथले विद्दु जणहणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

९ गाराएँहिँ भिन्देवि सीसइँ छिन्देवि रिउ महि-मण्डलेँ पाडियँउ ।
 सुरवरेँहिँ पचण्डेँहिँ स इँ भु व-दण्डेँहिँ कुसुम-वासु सिरेँ पाडियउ ॥ ९

*

[३८. अट्टतीसमो संधि]

तिसिरउ लक्खणेण
 तिहुअण-डमर-करु

समरङ्गणेँ घाइउ जावेँहिँ ।
 दहवयणु पराइउ तावेँहिँ ॥

[१]

१० लेहु विसज्जिउ जो सुर-सीहहोँ
 पडिउ णाँइँ वहु-दुक्खहँ भारु
 ११ णाँइँ भयङ्करु कलहहोँ मूलु
 'लेहोँ कहिउ सब्बु अहिणाँहिँ
 १२ अणुणुँ वि खग-रयणु उदालिउ
 तं णिसुणेवि वे वि' जसभूसण
 णारि-रयणु णिरुवँमु सोहंगउ
 लेहु णिएँवि अत्थाणु विसज्जेवि
 १३ करेँ करवालु करेप्पिणु धाइउ

अगएँ पडिउँ गम्पि दसगीवहोँ ॥ १
 णाँइँ णिसायर-कुल-संघारु ॥ २
 णाँइँ दसाणण-मत्थाँ-सूलु ॥ ३
 'सम्बुकुमारु उलग्गइ पाणेँहिँ ॥ ४
 खर-घरिणिँहिँ 'हियवउ विहारिउ ॥ ५
 पर-वलेँ भिडियँ गम्पि खर-दूसण ॥ ६
 १३ अच्छइ रावण तुज्जु जेँ जोग्गउ' ॥ ७
 पुप्फविमाणेँ चडिउ गलग्गजेँवि ॥ ८
 १५ णिविसेँ दण्डारणु पराइउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

ताव जणहणेँण
 थिउ चउरङ्ग वँलु

खरदूसण-साहणु रुद्धउ ।
 णेँहिँ णिच्चलु संसएँ छुद्धउ ॥ १०

[२]

तो एत्थन्तरेँ दीहर-णयणेँ लक्खणु पोमाइउ दहवयणेँ ॥ १

5 s A omit धवलउ, 6 P °भत्तउं. 7 P पाडिअउं.

1. 1 A दहगीउ. 2 A गंपि चित्तु. 3 A °दुक्खइ. 4 A मत्थए. 5 P S A लेहिँ. 6 A मि.
 7 s °घरिणिहिँ. 8 A वयणु. 9 P S °वल. 10 A गंपि भिडिय. 11 A निरुवम. 12 This
 line is missing in A. 13 P S पुप्प°, A पुप्प°. 14 P S कर. 15 P णिवसेँ, s णिविसिँ.
 16 s जह. 17 P जिह णहे.

[१] १ शरीरावयवः. २ चतुरङ्ग-यूत यथा, हस्त-पाद-हीनो वा.

‘वरि एकल्लओ वि पञ्चाणणु
वरि एकल्लओ वि मयलञ्छणु
वरि एकल्लओ वि रयणायरु
वरि एकल्लओ वि वइसाणरु
चंडदह सहस एकु जो रुम्भइ
पेक्खु केम पहरन्तु पईसइ

णहि गय णहि तुरय
णवरि पडन्ताइँ

णउ सारङ्ग-णिवहु वुण्णाणणु ॥ २
ण य णक्खत्त-णिवहु णिल्लञ्छणु ॥ ३
णउ जलवाहिणि-णिर्यरु स-वित्थरु ॥ ४
णउ वण-णिवहु स-रुक्खु सं-गिरिवरु ॥ ५
सो समरङ्गणे मइ मि^१ णिसुम्भइ ॥ ६
धणुहरु सरु संधाणु ण दीसइ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

णहि रहवर णहि धय-दण्डइँ
दीसन्ति महियले रुण्डइँ ॥ ८

[३]

हरि पहरन्तु पसंसिउ जावोहिँ
सुकइ-कहं व्व सु-सन्धि सु-सन्धिय
थिर-कलंहस-गमण गइ-मन्थर
रोमावलि मयरहरुत्तिणी
अहिणव-हुँण्ड-पिण्ड-पीण-त्थण
रेहइ वयण-कमलु अकलङ्कुउ
सु-ललिय-लोयण ललिय-पसण्णहँ
घोलइ पुट्टिहिँ वेणि मँहाइणि

जाणइ णयणकडक्खिय तावोहिँ ॥ १
सु-पय सु-वयण सु-सह सु-वज्जिय ॥ २
किस मज्जारो णियम्भे सु-वित्थर ॥ ३
णं^२ पिम्पलि^३-रिञ्छोलि विलिण्णी ॥ ४
णं मयगलं उर-खम्भ-णिसुम्भण ॥ ५
णं माणस-सरे वियसिउ पङ्कुउ ॥ ६
णं वरइत्त मिलिय वरे-कण्णहँ ॥ ७
चन्दण-लयहिँ ललइ णं णाइणि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं बहु-जम्पिण्ण
तं तं मेलवेवि

तिहिँ भुँवणेहिँ जं जं चङ्गउ ।
णं दँइवे^{१०} णिम्मिउ अङ्गउ ॥ ९

[४]

तो एत्थन्तरे णिय-कुल-दीवे

रामु पसंसिउ पुणु दहगीवे ॥ १

2. 1 P S ण य. 2 A °णिवहु. 3 A तणणिववहु. 4 P S सतरवरु. 5 P चोइस, S चोइह.
6 P S वि. 7 A पेक्खु. 8 A संघंतु.

3. 1 P S सुक्ख. 2 A मुयण. 3 A सुवंधिय. 4 P पिंपलि°, A पिपीलि°. 5 A वलिणी.
6 P °हुइ, S °हुइ°. 7 A °सुण्ड°. 8 P अकलंकउं, S अकलंकओ. 9 P पंकउं. 10 P S लोयणु.
11 A °पसण्णहँ. 12 A रवण्णहँ. 13 P S A पुट्टिहि. 14 P णं चंदण°. 15 P भुवणिहिँ, S भुव-
णिहिँ, A भुयणेहिँ. 16 A सीयहे घडियउ; P marginally, ‘सीयहिँ’ पाठे.

[२] १ ऊर्ध्वमुखाः.

[३] १ सीतायाः(?). २ कीटिका-पङ्क्ति चटितः (ता). ३ मुखहीनो. ४ पीन-हृदयाद् उदर-
वर्द्धितौ. ५ हस्तिनीव, उरसा स्तम्भं भजयते(?) हस्तिन्यः, अन्यत्र उरो हृदयं, तदेव स्तम्भं पीडयति.
६ पृथुलः. ७ विधिना.

'जीविउ एकुं सहलु पर एयहों
जेण समारुं एह धण जम्पइ
इत्थें हँथ धरेंवि आलावइ
जं आलिङ्गइ वलय-सणाहहिं
१ जं पेलावइ-थण-मायङ्गेहिं
जं अवलोयइ णिम्मल-तारेंहिं
जं अणुहुइइ इच्छेवि णिय-मणें

जसु सुहवत्तणु गउ परिलेयहों ॥ २
मुहँ-मुहेण तम्बोलु समप्पइ ॥ ३
चलण-जुअलु उच्छेङ्गे चडावइ ॥ ४
मालइ-माला-कोमल-वाहहिं ॥ ५
मुहु परिचुम्बइ णाणा-भङ्गेहिं ॥ ६
णयणहिं विब्भम-भरिय-वियारेंहिं ॥ ७
तासु मलु को संयलें वि तिहुअणें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१० धण्णउ एहु णरु
जाव ण लइय मइ

जसु एह णारि हियइच्छिय ।
कउ अङ्गहों ताव सुहच्छिय' ॥ ९

[५]

सीय णिएवि जाउ उम्माहउ
पहिलए वयणु वियारेंहिं भज्जइ
वीयएँ मुह-पासेउ वलगइ
११ तइयएँ अइ विरहाणलु तंप्पइ
चउत्थएँ णीससन्तुं णउ थक्कइ
पञ्चमँ पञ्चम-झुणि आलावइ
छट्टएँ अङ्गु वलइ करु मोडइ
वट्टइ तँलवेळ सत्तमयहों
१२ णवमउ वट्टइ मरणहों दुक्कउ

दहमुहु वम्मह-सर-पहराहउ ॥ १
पेम्म-परवसु कहों वि ण लज्जइ ॥ २
सरहसु गाढालिङ्गणु मग्गइ ॥ ३
काम-गहिलउ पुणु पुणु जम्पइ ॥ ४
सिरु संचालइ भउँहउ वङ्कइ ॥ ५
विहँसेवि दन्त-पन्ति दरिसावइ ॥ ६
पुणु दादीयउ लएप्पिणु तोडइ ॥ ७
मुच्छउ एन्ति जन्ति अट्टमयहों ॥ ८
दसँमएँ पाणहिं कह व ण मुक्कउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दहमुहु 'दहमुहेहिं
अप्पउ संथवइ

जाणइ किर मण्डएँ भुज्जमि' ।
'णं णं सुर-लोयहों लज्जमि' ॥ १०

[६]

१३ तो एत्थन्तरेँ सुर-संतासेँ

चिन्तिउ एकु उवाउ दसासेँ ॥ १

४. १ A सहलु एकु. २ PS समाण. ३ A मुहु. ४ PS हत्थु. ५ A °सणाहेहिं. ६ A वाहेहिं.
७ PS इच्छिवि, A इच्छिवि. ८ PS सयलु, A सयल. ९ A धणणउं. १० S संगहो, A णयणहं.

५. १ A वयण. २ A परितप्पइ. ३ PA चउत्थए, S चउत्थइ. ४ A णीसासंतु न. ५ PS
भउँहउं, A भउँहउं. ६ PS विहसिवि, A वियसेवि. ७ PS तलुविल्लु, A तालवेळ. ८ A णवमउं.
९ PS कुड मरणतें दुक्कइ. १० PS दलमउं कहव ण पाणहं चुक्कइ. ११ A चित्तइ,
marginally, 'सीता' इति चिंतयति. १२ P अप्पउं. १३ A संठवइ. १४ S परलोयहो.

[४] १ समाप्तिम्,

अवल्लोयणिम विज्ज मणें झाइव
 'किं घोट्टेण महोवहि घोट्टमि
 किं सहँ सुरैहिँ सुरेन्दु परज्जमि
 'किं जम-महिस-सिङ्गु मुसुमूरमि
 'किं तक्खयहों दाढ उप्पाडमि
 किं' रवि-रह-तुरङ्ग उद्दालमि
 किं तइलोक-चक्कु संधारमि

'दे' आइसु' भणन्ति पराइव ॥ २
 किं पायालु णहङ्गणें लोट्टमि ॥ ३
 किं मय्यरद्धय-पुरि-गउ भञ्जमि ॥ ४
 किं सेसहों फणिमणि संचूरमि ॥ ५
 काल-कियन्त-वयणु किं फाडमि ॥ ६
 किं गिरि मेरु करगों टालमि ॥ ७
 किं अत्थक्कएँ पलउ समारमि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दसाणणेंण
 तं सङ्केउ कँहें

'एक्केण वि ण वि महु कज्जु ।
 जें हरमि एह तियं अज्जु' ॥ ९

[७]

दहवयणहों वयणेण सु-पुज्जएँ
 'जाव समुदावत्तु करेकहों
 जावग्गेउ वाणु करें एकहों
 जाम सीरु गम्भीरु करेकहों
 ताव णारि को हरइ 'दिसैवहुँ
 इय पच्छण वसन्ति वणन्तरें
 जिण चउवीस अद्धं गोवद्धण

पभणितं पुणु अवलोयणि विज्जएँ ॥ १
 वज्जावत्तु चाउ अण्णेकहों ॥ २
 वायवु वारुणत्थु अण्णेकहों ॥ ३
 करयलें चक्काउहु अण्णेकहों ॥ ४
 मण्डएँ वासुएव-वलएवहुँ ॥ ५
 तेसट्ठी-पुरिसहुँ अब्भन्तरें ॥ ६
 णव केसव राम णव रावण ॥ ७

॥ घत्ता ॥

ओएँ भँवट्टम
 जाव णव हिय रणें

इयं वासुएव वलएव ।
 तिय ताम लइज्जइ केव ॥ ८

[८]

अहवइ एण काइँ सुणें रावण
 लइ लइ जइ अजरामरु वट्टहि
 लइ लइ जइ वडुत्तणु खण्डहि

एह णारि तिहुअण-संतावण ॥ १
 लइ लइ जइ उप्पहेंण पयट्टहि ॥ २
 लइ लइ जइ जिण-सासणु छण्डहि ॥ ३

6. 1 A देहे. 2 A बुट्टमि. 3 A पायाले. 4 P A मयरद्धए, S मयरद्धपय. 5 Line 5 missing in A. 6 This pāda is missing in A. 7 P किं. 8 P कइँ, S A कहि. 9 P विय.

7. 1 P A पभणितं, S यभणित. 2 P S करेकहि, A करेकहे. 3 S आये भट्टमये, A एय भट्टमइ. 4 P एइय.

8. 1 A पुणु.

[६] १ कालसंख्या समाप्ते विना.

[७] १ पभिकानाम्. २ द्वादश चक्रवर्तिनः. ३ एतेषां त्रिकक्षिपुरुषाणां मध्ये भवौ एतामपि द्वौ.

लइ लइ जइ सुरवरहुँ ण लंज्जहि
 लइ लइ जइ परलोउ ण जाणहि
 लइ लइ जइ गिय-रज्जु ण इच्छहि
 लइ लइ जइ णिविण्णउ पाणहुँ
 तं णिसुणेवि वयणु असुहावणु

लइ लइ जइ णरयहोँ गमु सज्जहि ॥ ४
 लइ लइ जइ गिय-आउ ण माणहि ॥ ५
 लइ लइ जइ जम-सासणु पेच्छहि ॥ ६
 लइ लइ जइ उरु उडुहि वाणहुँ ॥ ७
 अइ-मयणाउरु पभणइ रावणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘मांणवि एह तिर्य
 सिव-सासय-सुहहोँ

जं जिज्जइ एक्कु मुहुत्तउ ।
 तहोँ पासिउ एँउ वहुत्तउ’ ॥ ९

[९]

॥ विसयासत्त-चित्तु परियाणोँवि
 ‘णिसुणि दसाणण ‘पिसुणमि भेउ
 एहु जो दीसइ सुहडु रणङ्गणे
 एयहोँ सीहणाउ आयणोँवि
 धावइ सीहु जेम ओरालोँवि
 ॥ तुहुँ पुणु पच्छएँ धण उहालहि
 तं णिसुणेपिणु पभणउ राउ
 पहु-आएसेँ विज्ज पधाइय

विज्जएँ वुत्तु णिरुत्तउ जाणोँवि ॥ १
 वेण्ह वि अत्थि एक्कु सङ्केउ ॥ २
 वावरन्तु खर-दूसण-साहणेँ ॥ ३
 इडु-कलत्तु व तिण-समु मणोँवि ॥ ४
 वज्जावत्तु चाउ अप्फालोँवि ॥ ५
 पुप्फ-विमाणोँ छुहोँवि संचालहि’ ॥ ६
 ‘तो घँइ पँइ जे करेवउ णाँउ’ ॥ ७
 णिविसेँ तं संगामु पराइय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खणु गहिय-सरु
 धाइउ दासरहि

जं णिसुणिउँ णाउ भयङ्करु ।
 णहँ स-धणु णाँइ णव-जलहरु ॥ ९

[१०]

भीसणु सीह-णाउ णिसुणेपिणु
 तोणा-जुवलु लएवि पधाइउ
 कुँढेँ लगन्तेँ रामेँ सुणिमित्तइँ

धणुहरु करेँ सज्जीउ करेपिणु ॥ १
 ‘मच्छुडु लक्खणु रणेँ विणिवाइउ’ ॥ २
 सउणु ण देन्ति होन्ति दु-णिमित्तइँ ॥ ३

2 P S A लज्जहिं. 3 P S A जाणहिं. 4 P णिविण्णउं, A निवण्णउं. 5 A माणेवि. 6 A धण.
 7 P जिज्जइ, A जीवमि. 8 A तं जि वहुत्तउ.

9. 1 A अक्खमि. 2 P S णहंगे. 3 A णिसुणेविणु. 4 P णाउं. 5 P S णिविसं, A निविसें.
 6 A सुक्कु निण्णाउ भयंकरु.

10. 1 P A कुडि, S कुडि. 2 P S सोमित्तइँ.

[९] १ कथयामि. २ गलगर्जनं कृत्वा. ३ ‘घइ शब्दः क्षीघ्रवाची’ इति देशीनाममालायां.

फुरइ स-वाहउ वामउ लोयणु
वायसु विरसु रसइ सिव कन्दइ
जम्बू पङ्कुरन्त उज्जाइय
दाहिणेण पिङ्गलय समुट्टिय
तो वि वीरु अवगण्णेवि धाइउ

पवहइ दाहिणं-पवणु अलक्खणु ॥ ४
अगगएँ कुहिणि भुअङ्गमु छिन्दइ ॥ ५
णाइँ णिव्वारा सयण पराइय ॥ ६
णहँ णव गह विवरीय परिट्टिय ॥ ७
तक्खणें तं सङ्गामु पराइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दिट्ठइँ राहवेंण
गयण-महासरहँ

लक्खण-सर-हँसेहिँ खुडियइँ ।
सिर-कमलइँ महियलें पडियइँ ॥ ९

[११]

दिट्ठु रणङ्गणु राहवचन्दें
कुण्डल-कडय-मउड-फल-दरिसिय
गिद्धावलि-किय-चक्कन्दोलउ
रणं खेळन्ति परोप्परु चच्चरि
तेहउ समर-वसन्तु रमन्तउ
'साहु वच्छ पर तुज्जु जि छज्जइ
पइँ इक्खाउ-वंसु उज्जालिउ
तं णिसुणेप्पिणु भणइ महाइउ

रमिउ वसन्तु णाइँ गोविन्दें ॥ १
दणु-दवणा-मञ्जरिय पदरिसिय ॥ २
णरवर-सिरँइँ लएप्पिणु केलँउ ॥ ३
पुणु पियन्ति सोणिय-कायम्वरि ॥ ४
लक्खणु पोमाइउ पहरन्तउ ॥ ५
अण्णहँ कासु एउ पडिवज्जइ ॥ ६
जस-पडहउ तिहुअणें अप्फालिउ' ॥ ७
'विरुअउ कियउ देव जं आइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मेल्लेवि जणय-सुय
अक्खइ मज्जु मणु

किं राहव थाणहँ चलियउ ।
हिय जाणइ केण वि छलियउ' ॥ ९

[१२]

पुणरवि वुच्चइ मरगय-वण्णें
तं णिसुणेवि णियत्तइ जावेंहिँ

'हउँ ण करेमि णाउ किउ अण्णें' ॥ १
सीया-हरणु पटुक्किउ तावेंहिँ ॥ २

3 P सवाहउ corrected as सवामउ, S सहावउ. 4 A वामउ. 5 P S पंगुरत्तु. 6 P सवुणु,
S सउण.

11. 1 P S रणगणे. 2 A रमउ. 3 A दमगाहंजणिय. 4 P S A सिरइ. 5 P केलउं
marginally corrected केरउं. 6 S खेळन्ति. 7 P पहरंतउ. 8 A इक्खुक्क. 9 P S महायउ,
A माहाहउ. 10 S A भायउ.

12. 1 A reads the following line extra in the beginning:

तं णिसुणेवि पवुच्चइ रामे सीइणाउ पइँ महु णामे.

2 P A पुणरवि. 3 P णिअत्तउ, S णियत्तउ.

[१०] १ नासिकायाः दक्षिण-नाडी-वातः. २ पुसरिका(?)

[११] १ मदिरा.

आउ दसाणणु पुष्क-विमाणे
 प्पसु पडुक्किउ राहव-धरिणिहें
 उभयं-करेहिं संचालिष-थाणहों
 गाइँ कुलहों भविसि हक्कारिय
 णिसियर-लोयहों णं वज्जासणि
 णं जस-हाणि खाणि वहु-दुक्खहँ

गाइँ पुरन्दरु सिविधा-जाणे ॥ ३
 मत्त-गइन्दु जेम परं-करिणिहें ॥ ४
 णाइँ सरीर-हाणि अप्पाणहों ॥ ५
 लङ्कहें सङ्क णाइँ पइसारिय ॥ ६
 णाइँ भयङ्कर-राम-सरासणि ॥ ७
 णं परलोय-कुहिणि किय मुक्खहँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तक्खणे रावणेण
 काले कुद्धएण

ढोइउ विमाणु आयासहों ।
 हिउ जीविउ णं वण-वासहों ॥ ९

[१३]

चलिउ विमाणु जं जें गयणङ्गणे
 तं कूवारु सुणेवि महाइउ
 पहउ दसाणणु चञ्चू-घाएहिं
 एक-वार ओससैइ ण जावेहिं
 जाउं विसण्डुलु वइरि-वियारणु
 सीय वि धरइ णियङ्कु वि रक्खइ
 दुक्खु दुक्खु तें धीरेवि अप्पउ
 पहउ विहङ्कु पडिउ समरङ्गणे

सीयएँ कलुणु पकन्दिउ तक्खणे ॥ १
 धुणेवि सरीरु जडाइ पधाइउ ॥ २
 पक्खुक्खेवेहिं णहर-णिहाएहिं ॥ ३
 सयसय-वार झडँप्पइ तावेहिं ॥ ४
 चन्दहासु मणे सुंमरइ पहरणु ॥ ५
 लज्जइ चउदिसु णयणकडक्खइ ॥ ६
 करं-णिट्टुर-दढ-कढिण-तलप्पउ ॥ ७
 देवेहिं कलयलु कियउ णहङ्गणे ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पडिउ जडाइ रणे
 जाणइ-हरि-वलहँ

खर-पहर-विहुर-कन्दन्तउ ।
 तिण्हि^{१२} मि^{१३} चित्तइँ पाडन्तउ ॥ ९

[१४]

पडिउ जडाइ जं जें फन्दन्तउ
 'अहों अहों देवहों रणे दुवियहहों
 वरि सुहडत्तणु चञ्चू-जीवहों

सीयएँ किउ अँक्कन्दु महन्तउ ॥ १
 णिय परिहास ण पालिय सण्ढहों ॥ २
 जो अब्भिडु समरे दसगीवहों ॥ ३

4 A वर°. 5 P S उहय°. 6 A omits this pāda. 7 P मुक्खहँ, S सुक्खहँ. 8 P S तंखजे रामणेण.

13. 1 A पधाइउं. 2 P घाए, S घायं. 3 P S पक्खुक्खेवहि, A पक्खुक्खेविहि. 4 S ओस-रइ. 5 P S झडँप्पिउ. 6 S जाव. 7 A वीसरीयउ. 8 P S करि°. 9 A °तलक्फए. 10 A किउ गयणंगणे. 11 A °फंदंतउ. 12 P S तिणि. 13 A वि.

14. 1 S कंदंतउ. 2 A भाकंदु.

णउ तुम्हेंहिं रक्खिउ वडुसणु
सखउ चन्दु वि चन्द-गीहिलउ
वाउ वि चवलसणेण दमिज्जइ
वरुणु वि होइ सहावें सीयलु
इन्दु वि इन्दबहेण रमिज्जइ

सूरहों तणउ दिहु सूरसणु ॥ ४
वम्भु वि सोसिउ हरु दुम्महिलउ ॥ ५
धम्मु वि रण्ड-सएहिं लइज्जइ ॥ ६
तासु कहि मि किं सक्कइ पर-वलु ॥ ७
को सुरवर-सण्ठेहिं रक्खिज्जइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जाउ किं जम्पिण्ण
राहउ इह-भवहों

जमें अणु णं अठ्भुद्धरणउ ।
पर-लोयहों जिणवरु सैरणउ' ॥ ९

[१५]

पुणु वि पलाउ करन्ति ण थक्कइ
हउं पावेण एण अवगण्णेवि
पुणु वि कलुणु कन्दन्ति पयइइ
अहं मइं कवणु णेइ कन्दन्ती
हा हा दसरह माम गुणोवहि
हा अपराइएँ हा हा केक्कइ
हा सत्तुहण भरह भरहेसर
हा हा पुणु वि राम हा लक्खण

'कुठें लगगउ लगगउ जो सक्कइ ॥ १
णिय तिहुअणु अ-मणूसउ मण्णेवि' ॥ २
'एँहु अवसरु सप्पुरिसहों वट्टइ ॥ ३
लक्खण-राम वे वि जइ हुन्ती ॥ ४
हा हा जणय जणय अवलोयहि ॥ ५
हा सुप्पहें सुमित्तें सुन्दर-मइ ॥ ६
हा भामण्डल भाइ सहोयर ॥ ७
को सुमरमि कहों कहमि अ-लक्खण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

को संथवइ मइं
जाहिं जाहिं जामि हउं

को सुहिं कहों दुक्खु महन्तउ ।
तं तं जि पएसु पलित्तउ' ॥ ९

[१६]

ताहिं अवसरें वट्टन्ते सु-विउलएँ
अत्थि पचण्डु एक्कु विज्जाहरु
भामण्डलहों चलिउ ओलगगएँ

दाहिण-लवण-समुद्धहों कूलएँ ॥ १
वर-करवाल-हत्थु रणें दुद्धरु ॥ २
सुअ कन्दन्ति सीय तामगगएँ ॥ ३

3 P S तुम्हें. 4 P गहिलउं. 5 P दुम्महिलउं, S A दुमहिलउ. 6 A वि पुणु इंदवहे. 7 S किं
पि जं येण. 8 P अण्णोण, S अण्णोण, A अण्ण म. 9 P S अठ्भुद्धरणउं, A कोइ वि सरणउं.
10 A सरणु.

15. 1 A अहवइ. 2 A को. 3 P महंतउं. 4 P पलित्तउं.

[१४] १ सूर्यस्य. २ श्रीद्वय-युक्तः. ३ वरुणस्य.

[१५] १ अहं दुर्भागिनी.

[१६] १ तटे.

वलिउ विमाणु तेण पडिवक्खहों
लक्खण-राम बे वि हकारइ
मञ्जुहु एह सीय एहु रावणु
अच्छउ गिवहों पासु जाँएवउ
१ एम भणेवि तेण हकारिउ

‘मं तिय का वि भणइ मइँ रक्खहों ॥ ४
भामण्डलहों णामु उच्चारइ ॥ ५
अणु ण पर-कलत्त-संतावणु ॥ ६
एण समाणु अज्जु जुज्जेवउ’ ॥ ७
‘कहिँ तिय लेवि जाहि’ पच्चारिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘विहि मि भिडँन्ताहुँ
गेण्हेवि जणय-सुय

जिहँ हणइ एहु जिहँ हम्मइ ।
बलु बलु कहिँ रावण गम्मइ’ ॥ ९

[१७]

॥ वलिउ दसाणणु तिहुअण-कण्टउ
जेम गइन्दु गइन्दहों धाइउ
भिडिय महाबल विज्जा-पाणोंहिँ
वे वि पसाहिय णाणाहरणोंहिँ
वेण्णि वि घाय देन्ति अवरोप्परु
॥ वर-करवालु करेप्पिणु करयलें
पडिउ घुलेप्पिणु जण्हव-जोत्तेहिँ
पुणु विज्जाहरेण पच्चारिउ
तुहँ सो रावणु तिहुवण-कण्टउ

सीहहों सीहु जेम अभिट्टउ ॥ १
मेहहों मेहु जेम उच्चारइ ॥ २
वे वि परिट्टिय सिविया-जाणोंहिँ ॥ ३
वेण्णि वि वावरन्ति णिय-करणोंहिँ ॥ ४
मंणें विरुद्धु भामण्डल-किङ्करु ॥ ५
पहउ दसाणणु वियड-उरत्थलें ॥ ६
रुहिरु पंदरिसिउ दसहि मि सोत्तेहिँ ॥ ७
‘सुरवर-समर-सएँहिँ अ-णिवारिउ ॥ ८
एक्केँ घायं णवर पलोट्टिउ’ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

॥ चेषणुँ लहेंवि रणें
तहों विज्जाहरहों

भडु उट्टिउ कुरुडु स-मच्छरु ।
धिउ रासिहिँ णाई सणिच्छरु ॥ १०

[१८]

उट्टिउ वीसपाणि असि लेन्तउ
विज्जा-छेउ करेवि विज्जाहरेँ

णाई स-विज्जु मेहु गजन्तउ ॥ १
घत्तिउ जम्बूदीवम्भन्तरेँ ॥ २

16. 1 A °बउ°. 2 S आएउ. 3 A जिब. *For the portion from °न्ताहुँ (38 16 9a) upto परमेसह पम° (39 6 1a) s could not be used because its folios 149 and 150 are missing.

17. 1 P A गइंद. 2 P मोहहो मोहु. 3 P मणि, A मण. 4 A जणय°. 5 A पंदरिसिउ. 6 A चेषण.

पुणु दससिरु संचलु सै-सौवच
मज्जे समुह्हो जयसिरि-माणुणु
'काइँ गहिहिएँ मइँ ण समिच्छहि
किं णिक्कण्टउ रज्जु ण भुज्जहि
किं महु केण वि भग्गु मडप्फरु
एम भणेवि आलिङ्गइ जावेहिँ

जहवलेँ जाइँ दिवायरु वीयउ ॥ ३
पुणु बोलेवेँ लगु दसाणु ॥ ४
किं महएवि-पट्टु ण समिच्छहि ॥ ५
किं ण वि सुरय-सोक्खु अणुहुँज्जहि ॥ ६
किं दूहउ किं कहि मि असुन्दरु ॥ ७
जणय-सुयएँ णिक्कभच्छिउ तावेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'दिवसेहिँ धोवेँहिँ
अमहहुँ वारियएँ

तुहुँ रावण समरेँ जिणेवउ ।
राम-सरेँहिँ आलिङ्गेवउ' ॥ ९

[१९]

णिट्टुर-वयणेँहिँ दोच्छिउ जावेहिँ
'जइ मारमि तो एह ण पेच्छमि
अवसेँ कं दिवसु इ इच्छेसइ
'अणुणु वि मइँ 'णिय-वउ पालेवउ
एम भणेवि च्चलिउ सुर-डामरु
सीयएँ वुत्तु 'ण पइसमि पट्टणे
जाव ण सुणमि वत्त भत्तारहोँ
तं णिसुणेँवि उववणेँ पइसारिय

दहमुहु हुअउ विलक्खउ तावेहिँ ॥ १
बोलेउ सबु हसेप्पिणु अच्छमि ॥ २
सरहसु कण्ठ-गंगहणु करेसइ ॥ ३
मण्डएँ पर-कलत्तु ण लएवउ' ॥ ४
लङ्क पराइउ लङ्क-महावरु ॥ ५
अच्छमि एत्थु विउलेँ गन्दणघणेँ ॥ ६
ताव णिवित्ति मज्जु आहारहोँ ॥ ७
सीसव-रुक्ख-मूलेँ वइसारिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मेलेँवि सीय वणेँ
धवलेँहिँ मङ्गलेँहिँ

गउ रावणु घरहोँ तुरन्तउ ।
थिउ रज्जु सँ इँ भु अन्तउ ॥ ९

*

18. 1 P ससीमउं. 2 A बोलेवइ. 3 P A काइ. 4 P A अणुहुँज्जहिँ. 5 P धोवेहिँ. 6 A रामम. 7 P पुहु राम.

19. 1 A दूह. 2 P बोळउ. 3 P जकसइ. 4 P कहिंस. 5 P कंठागहणु. 6 A पालेवउ. 7 A कसु. 8 P सयइ.

[१८] १ परिपाठ्या.

[१९] १ गृहीतं निज-व्रतम्. २ हठाव.

[३९. एगुणचालीसमो संधि]

कुढें लग्गेपिणु लक्खणहों
तं जि लयाहरु तं जि तरु

वल्लु जाम पडीवउ आवइ ।
पर सीय ण अप्पउ दावइ ॥

[१]

१ णीसीयउ वणु अवयजियउ
२ णं मेह-विन्दु णिविञ्जुलउ
३ णं भोयणु लवण-जुत्ति-रहिउ
४ णं दत्ति-विवज्जिउ किविण-धणु
५ पुणु जोअइ गुहिल्लेहिं पइसरेवि
६ पुणु जोवइ गिरि-विवरन्तरेहिं
७ ताणन्तरे दिट्ठु जडाइ वणे

१ णं संरुहु लच्छि-विसजियउ ॥ १
२ णं मुणिवर-वयणु अ-वच्छलउ ॥ २
३ अरहन्त-विम्बु णं अ-वसहिउ ॥ ३
४ तिह सीय-विहूणउ दिट्ठु वणु ॥ ४
५ थिय जाणइ जाणइ ओसरेवि ॥ ५
६ थिय जाणइ लिहकेवि कन्दरेहिं ॥ ६
७ 'संसूडिय-गतउ पडिउ रणे ॥ ७

॥ घत्ता ॥

पहर-विहुर-धुम्मन्त-तणु
तावेहिं वुज्झिउ राहवेण

जं दिट्ठु पक्खि णिदलियउ ।
हिय जाणइ केण वि छलियेउ ॥ ८

[२]

१ पुणु दिण्ण तेण सुह वसु-हारा
२ जे सारभूय जिण-सासणहों
३ लद्धेहिं जेहिं दिढ होइ मइ
४ लद्धेहिं जेहिं संभवइ सुहु
५ ते दिण्ण विहङ्गहों राहवेण
६ 'जाएज्जहि परम-सुहावहेण
७ तं वयणु सुणेवि सद्वायरेण
८ जं मुउ जडाइ हिय जणय-सुअ

१ उच्चारेवि पञ्च णमोक्कारा ॥ १
२ जे मरण-सहाय भव-जणहों ॥ २
३ लद्धेहिं जेहिं परलोय-गइ ॥ ३
४ लद्धेहिं जेहिं णिज्जरइ दुहु ॥ ४
५ किय-णिसियर-णियर-पराहवेण ॥ ५
६ अणरण्णाणन्तवीर-पहेण' ॥ ६
७ लहु पाण विसजिय णहयरेण ॥ ७
८ धाहाविउ उब्भा करेवि भुअ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१ 'कहिं हउँ कहिं हरि कहिं घरिणि कहिं घरु कहिं परियणु छिण्णउ ।
२ भूय-वलि व कुडुम्बु जेणें हय-दइवे कइ विक्खिण्णउ' ॥ ९

1. 1 P भवयजियउ. 2 P भवच्छलिउ. 3 P भवसहिउ. 4 A °विहूणउ. 5 A पइसरेवि.
6 P उच्चारेवि. 7 A लहुकेवि. 8 A तरुवरेहिं. 9 A हिय जाणइ केण वि छलिवि रणे. 10 P फंदलणु,
marginally 'धुम्मंत' पाठे. 11 P महिला. 12 P च्छलिभउ.

2. 1 A छिण्णउ. 2 P जिह, marginally जणे. 3 P विस्त्रिण्णउ.

[३]

बलु एम भणेवि पमुच्छियउ
चारण वि होन्ति अट्टविह-गुण
फल-फुल्ल-पत्त-णह-गिरि-गमण
तहिं वीरं सुधीर विसुद्ध-मण
'तं अवही-णाणं जोइयंउ
आऊरेंवि गल-गम्भीर-झुणि
'भो चरम-देह सासय-गमण
तिय दुक्खंहुं खाणि विओय-णिहि

पुणु चारण-रिसिहिं णियच्छियउ ॥ १
जे णाण-पिण्ड सीलाहरण ॥ २
जल-तन्तुअ-जङ्घा-संचरण ॥ ३
णह-चारण आइय वेण्णि जण ॥ ४
रामहों कलत्तु विच्छोइयउ ॥ ५
पुणु लगु चवेवए जेडु-मुणि ॥ ६
कें कज्जे रोवहि मूढ-मण ॥ ७
तहें कारणें रोवहि काइं विहि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं पइं ण सुइय एह कह
जिह गुणवइ-अणुअत्तणेण

छज्जीव-णिकाय-दयावरु ।
जिणयांसु जाउ वणे वाणरु ॥ ९

[४]

जं णिसुणिउ को वि चवन्तु णहें
'हा सीय' भणन्तु समुट्टियउ
णं करि करिणिहं विच्छोइयउ
तहिं ताव णिहालिय विण्णि रिसि
ते गुरु गुरु-भत्ति करेवि थुयं
गिरि-मेरु-समाणउ जेत्थु दुहु
खल तियमंइ जेणं ण परिहरिय
रोवंन्ति एम पर कप्पुरिस

मुच्छा-विहलङ्गल धरणि-वहें ॥ १
चउ-दिसउ णियन्तु परिट्टियउ ॥ २
पुणु गयण-मग्गु अवलोइयउ ॥ ३
संगहिय जेहिं परलोयं-किसि ॥ ४
'हो धम्म-विद्धि सिरि'-णमिय-भुय ॥ ५
तहें कारणें रोवहि काइं तुहुं ॥ ६
तहों णरय-महाणइ दुत्तरिय ॥ ७
तिण-समु गणन्ति जे सप्पुरिस ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तियमंइ वाहिहें अणुहरइ
हम्मइ जिण-वयणोसहेण

खणें खणें दुक्खन्ति ण थक्कइ ।
जे जम्म-संए वि ण दुक्कइ ॥ ९'

3. 1 P तंतुम वि जंबसंचारण. 2 A वीर. 3 P तं. 4 P जोइमउं. 5 A पुणि. 6 P छग
चवेविधि, A चवेवइ. 7 P किं, A के. 8 P A दुक्खहु. 9 A अणुत्तरेण. 10 A जिणदासु.

4. 1 A निसुणिउं. 2 A निएवि. 3 P करिणिहिं. 4 P आलोइयउ. 5 A परमत्थ'. 6 P भुव.
7 A सिरे. 8 A समाणउं. 9 A तीमइं. 10 P जेहिं. 11 P रोमंति. 12 A 'सयहो.

[३] १ कथा.

[४] १ कवि.

[५]

तं वयणु सुभेपियु भणइ वलु
'लब्भन्ति गम-वरपट्टणइं
लब्भन्ति तुरङ्गम मत्त गय
लब्भन्ति भिच्चवर आण-कर
लब्भइ घरु परियणु वन्धु-जणु
लब्भइ तम्बोलु विलेवणउ
लब्भइ मिङ्गारोलम्बियउ
हियइच्छिउ मणहरु पियवयणु

मेळन्तु गिरन्तरु अंसु-जलु ॥ १
सीयल-विउंलइं ञन्दण-वैणइं ॥ २
रह कणय-दण्ड-धुवन्त-घय ॥ ३
लब्भइ अणुहुञ्जेवि स-धर धर ॥ ४
लब्भइ सिय सम्पय दवु घणु ॥ ५
लब्भइ हियइच्छिउ भोयणउ ॥ ६
पीणिउ कपूर-करम्बियउ ॥ ७
पर एहु ण लब्भइ तिय-रयणु ॥ ८

३३

॥ घत्ता ॥

तं जोवणु तं मुह-कमलु
जेण ण माणिउ एत्थु जेण

तं सुरउ सवट्टेण-हेत्थउ ।
तहो जीविउ सधु गिरत्थउ' ॥ ९

[६]

परमेसरु पभणइ वल्लेवि मुहु
३३ पेक्खन्तहुं पर वणुजालउ
दुगन्ध-देहु धिणि-विट्टेणउ
मायामे जन्ते परिभमइ
कम्महु-गण्ठि-सय-सिक्किरिउं
वहु-मंस-रासि किमि-कीड-हरु
३४ आहारहो पिसिवउ सीवियउ
णीसासुसासु करन्ताहुं

'तिय-रयणु पसंसहि काइं तुहुं ॥ १
अब्भन्तरे रुहिर-चिलिबिलउ ॥ २
'परं चम्मं हड्डुहुं पोट्टलउ ॥ ३
भिण्णउ णव-णाडिहिं परिसवइ ॥ ४
रस-वस-सोणिय-कहम-भरिउ ॥ ५
खट्टेहे वइरिउ भूमिहे भरु ॥ ६
णिसि मडउ दिवसे संजीवियउ ॥ ७
गउ जम्मु जियन्त-भरन्ताहुं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मरण-काले किमि-कप्परिउ
धिणिहिणन्तु मक्खिय-सएहिं

जे पेक्खेवि मुहु वड्डिज्जइ ।
तं तेहउ केम रमिज्जइ ॥ ९

५. १ P पट्टणइं. २ P A विडलइ. ३ P °वणाइं. ४ P धुवन्ति. ५ P भिच्च वहु. ६ A सविच्चर.
७ P A विलेवणउं. ८ A भोयणउं. ९ A पाणिउं. १० P सुरउं. ११ A सधुणुणं. १२ P °दयकउ.

६. १ P S मुहुं, A महुं. २ P A पसंसहिं. ३ A विट्टेणउ. ४ P S वरि. ५ S जंति. ६ S
परिभमइ. ७ P भिच्चउं. ८ A °सिक्किरिउ. ९ P S °दुक्खं. १० P S वहु भूमि-भरु. ११ P S विवह.

[९] १ मुखं वक्रं कृत्वा. २ उपरि (Reading वरि). ३ माया-यन्त्रम्. ४ वर्धते पुण्यप्रदेशः(?).
५ कीटकैः विष्वंस्यते, ६ लीचारीरम्.

तं चलण-जुअलु गइ-सन्धरउ
 तं सुरय-णियम्बु सुहावणउ
 तं पाहि-पएसुं किसोरउ
 तं जोबणु अवरुण्डण-मणउ
 तं सुन्दरु वयणु जियन्ताहुं
 तं अहर-विम्बु वणुज्जलउ
 तं णयण-जुअलु विभम-भरिउ
 सो चिहुर-भारु कोडुवणउ

तं माणुसु तं मुह-कमलु
 णवर धरेप्पिणुं णासउडु

तहिं तेहएँ रस-वस-पूय-भरें
 णव-णाहि-कमलु उत्थलु जहिं
 दस-दिवसु परिट्टिउ रुहिर-जलें
 विहिं दसरत्तेहिं समुट्टियउ
 तिहिं दसरत्तेहिं बुबुउ घडिउ
 दसरत्ते चउत्थएँ वित्थरिउ
 पञ्चमें दसरत्ते जाउ वलिउ
 दस-दसरत्तेहिं कर-चरण-सिरु
 णवमासिउ देहहों णीसरिउ

जेण दुंवारें आइयउ
 पैन्तिहिं जुत्तु वइलु जिह

[७]

सउणहिं खज्जन्तु भयङ्करउ ॥ १
 किमि-विलविलन्तुं चिलिसावणउ ॥ २
 खज्जन्त-माणु बिउ भासुरउ ॥ ३
 सुज्जन्तु णवर भीसावणउ ॥ ४
 किमि-कप्पिउ णवर मरन्ताहुं ॥ ५
 लुञ्चन्तु सिवहिं घिणि-विट्ठलउ ॥ ६
 विच्छायउ काएँहिं कप्पेरिउ ॥ ७
 उडुन्तु णवर भीसावणउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ते थण तं गाढालिङ्गणु ।
 बोलेवउ "घिधि" चिलिसावणु" ॥ ९

[८]

णव मास वसेवउ देह-घरें ॥ १
 पहिलउ जें पिण्ड-संवन्धु तहिं ॥ २
 कणुं जेम पइण्णउं धरणिजलें ॥ ३
 णं जलें डिण्डीरु परिट्टियउ ॥ ४
 णं सिसिर-विन्दु कुकुमें पडिउ ॥ ५
 णावइ पवलङ्कुरु णीसरिउ ॥ ६
 णं सूरण-कन्दु चउप्फलिउ ॥ ७
 वीसहिं णिप्पणु सरिरु थिरु ॥ ८
 वहन्तु पडीवउ वीसरिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो तं परिहरेंवि ण सक्कइ ।
 भवँ-संसारें भमन्तु ण थक्कइ ॥ १०

7. 1 P S सुहावणउं. 2 P S बुबुउडंति चिलिसावणउं. 3 P तण्णाहि. 4 A °पवेसु. 5 P किसोरउं. 6 P खज्जन्तमाण, A खज्जन्तमाल. 7 P °मणउं. 8 P भीसावणउं. 9 P °विट्ठलउं. 10 A कप्परिउं. 11 P कोडावणउं, A कोडुवणउं. 12 P गाढालिङ्गणउं, S गाढालिङ्गणउ. 13 P कक्कइ. 14 P S धरेविणु. 15 P S बोलेजइ. 16 P घिधि, S छिधि. 17 P S चिलिसावणउ.

8. 1 P S °भूय. 2 P S पिण्डु. 3 P S °जलु. 4 S कणु. 5 P S पइयउ. 6 P वरणिजलु. 7 P बुम्बुवउ. 8 P चउत्थएँ, S चउत्थहि. 9 S °संसार, A सो संसारे.

[७] १ काकैर्विदारितः.

[८] १ १०० घतदिवसैः. २ योनिमुखे. ३ तेलीबलीवईवत.

[९]

एँउ जाणेंवि घीरहि अप्पणउ करे कङ्कणु जोवहि' दप्पणउ ॥ १
 चउगइ-संसारें भमन्तएँण आवन्तें जन्त-मरन्तएँण ॥ २
 जगें जीवें को ण रुवावियउ को गरुअ घाह ण मुआवियउ ॥ ३
 को कहि मि णाहैं संतावियउ को कहि मि ण आवइ पावियउ ॥ ४
 को कहिँ ण दँहु को कहिँ ण मुउ को कहिँ ण भमिउ को कहिँ ण गउ ॥ ५
 कहिँ ण वि भोयणु कहिँ ण वि सुरउ जगें जीवहों किं पि ण वाहिरउ ॥ ६
 तइलोकु वि अंसिउ अंसन्तएँण महि सयल दहु डज्जन्तएँण ॥ ७

॥ घत्ता ॥

१० सायरु पीउ पियन्तएँण अंसुएँहिँ रुअन्तें' भरियउ ।
 हहु-कलेवर-संचएँण गिरि मेरु सो वि अन्तरियउ ॥ ८

[१०]

अहवइ किं बहु-चविणण राम भवे भमिउ भयङ्करें तुहु मि ताम ॥ १
 णहु जिह तिह बहु-रुवन्तरेँहिँ जर-जम्मण-मरण-परम्परेँहिँ ॥ २
 सा सीय वि जोणि-सएँहिँ आय तुहुँ कहि मि वप्पु सा कहि मि माय ॥ ३
 तुहुँ कहि मि भाउ सा कहि मि वहिणि तुहुँ कहि मि दइउ सा कहि मि घरिणि ॥ ४
 तुहुँ कहि मि णरएँ सा कहि मि सगें तुहुँ कहि मि महिहिँ सा गयण-मगें ॥ ५
 तुहुँ कहि मि णारि सा कहि मि जोहु किं सिविणां-रिद्धिहें करहि मोहु ॥ ६
 उम्मेहु विओअ-गइन्दएसु जगडन्तु भमइ जगु णिरवसेसु ॥ ७
 जइ ण धरिउ जिण-वयणङ्कुसेण तो खज्जइ माणुसु माणुसेण' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एम भणेप्पिणु वे वि मुँणि गय कहि मि णहङ्गण-पन्थें ।
 रामु परिद्धिउ किविणु जिह धणु एकु लएवि स-हत्थें ॥ ९

[११]

२५ विरहाणल-जाल-पलित्त-तणु चिन्तेवएँ लगु विसणण-मणु ॥ १
 'सच्चउ संसारें ण अत्थि सुहु सच्चउ गिरि-मेरु-समाणु दुहु ॥ २
 सच्चउ जर-जम्मण-मरण-भउ सच्चउ जीविउ जल-विन्दु-सउ ॥ ३

९. १ P S A अप्पणउ. २ A जोअहि दप्पणउ. ३ A आवियउ. ४ P पावियउ. ५ P दुको.
 ६ P S रुयंतेहि. भरिउ.

१०. १ P भविउ, A भमिउ. २ P S सुइणा. ३ A रिति.

[९] १ भक्षितः. २ भक्षितेन.

[१०] १ पुरि(रु)षः. २ वियोग एव हस्ती.

४० ११, ४-८; १२, १-९]

कहों घरु कहों परियणु वन्धु-जणु
कहों पुस्तु मित्तु कहों किर घरिणि
फल्लु जाव ताव वन्धव सयण
वल्लु एम भणेपिणु णीसरिउ

‘णिन्दणु लक्खण-वजियउ
राहउ भमइ भुँअङ्कु जिह

हिण्डन्ते भग-मडप्फरेण
‘खणे खणे वेयारहि काइ मइ
वल्लु एम भणेपिणु संचलिउ
‘हे कुञ्जर कामिणि-गइ-गमण
णिय-पडिरवेण वेयारियउ
कत्थइ दिट्ठइ इन्दीवरइ
कत्थइ असोय-तैरु हल्लियउ
वणु सयलु गवेसेवि सयल महि

तं जि पराइउ णिय-भवणु
चाव-सिलिम्मुंह-मुक्क-करु

उज्झाकण्डं-एणुणचाकीसमो संधि [१४५

कहों माय-वप्पु कहों सुहि-सयणु ॥ ४
कहों भाय सहोयर कहों वहिणि ॥ ५
आवासिय पायेवे जिह सउण’ ॥ ६
रोवन्तु पडीवउ बीसरिउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अणु वि बहु-वसणेहिं भुत्तउ ।
वणे ‘हा हा सीय’ भणन्तउ ॥ ८

[१२]

वण-देवय पुच्छिय हलहरेण ॥ १
कहे कहि मि दिट्ठु जइ कन्त पइ’ ॥ २ १०
तावगए वण-गइन्दु मिलिउ ॥ ३
कहे कहि मि दिट्ठु जइ मिगणयण’ ॥ ४
जाणइ सीयए हक्कारियउ ॥ ५
जाणइ धण-णयणइ दीहरइ ॥ ६
जाणइ धण-वाहा-डोल्लियउ ॥ ७ ११
पल्लु पडीवउ दासरहि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जहिं अच्छिउ आसि लयत्थले ।
वल्लु पडिउ स इं भु व-मण्डले ॥ ९

*

11. 1 s तरुवरि. 2 s भुयंणु, A भुयंणु.

12. 1 A एव भणेवि समुचलिउ. 2 P °दलु, s °दल. 3 P °डोल्लियउ. 4 P s तिलीमुहु.

[११] १ वृत्ते. २ ‘धण’ भार्या, तस्या निःक्रान्तः. ३ कामातुरः, मिट इव.

[४०. चात्सीसमो संधि]

दसरह-तव-कारणु सञ्चुद्धारणु वज्रयण्ण-सम्मय-भरिउं ।
जिणवर-गुण-किसणु सीय-सइत्तणु तं णिसुणहु राहव-चरिउ ॥

[१]

- ॥ ध्रुवकं ॥ 'तं' सैन्तं गय्यागसं 'धीसं' 'संताव-याव-संतांसं (?) ।
आरु-रुचां-रणं 'वंदे देवं संसार-घोर-'सोसं ॥ १
- अंसाहणं कसाय-सोय-साहणं ॥ २
अंवाहणं पमाय-माय-वाहणं ॥ ३
अंवन्दणं तिलोय-लोय-वन्दणं ॥ ४
१० अंपुज्जणं सुंरिन्दराय-पुज्जणं ॥ ५
अंसासणं तिलोय-'छेयं-सासणं ॥ ६
अंवारणं अपेय-मेय-वारणं ॥ ७
अंणिन्दियं जय-एहुं अंणिन्दियं ॥ ८
अंहन्तयं पेंचण्ड-यम्महन्तयं ॥ ९
१५ अंवण्णयं धैणालि-वीर-वण्णयं ॥ १०

॥ घत्ता ॥

मुणि-सुव्वय-सामिउ सुह-गइ-गामिउ तं पणवेप्पिणु दिट्ठ-मण्णेण ।
पुणु कहमि महवल्लु खर-दूसण-वल्लु जिह आयामिउ लक्खण्णेण ॥ ११

1. 1 P वञ्चयण्ण°, A वज्रयण्णु. 2 P °भरिउं, A भरिउ. 3 wanting in A. 4 P S सं
संमय. 5 P A सत्तं, S सत्तं. 6 A गय्यागसं. 7 S धीसं, A संधीसं. 8 A °तासं. 9 P S रुचा.
10 P S °णण्ण. 11 A °लोय°. 12 A °चारु°.

[१] १ प्रसिद्धं मुनि-सुव्रतम्. २ P's reading: शोभन-मतम्. ३ सुशान्त-रूपम्. ४ गत-
अष्टादश-दोषम्. ५ बुद्धीनामधीश्वरं सर्वज्ञम्. ६ कषाय. ७ शोभन-दीप्त्या कृत्वा. ८ 'वीरा वा (?)
अंगरंग(?) भक्त्या वन्दे, नित्यागमीक्त-विधिना वन्दे. ९ शोषकम्; 'सासं' वा, अहिंसकम्. १० ...
न रहितं साधकं. ११ अश्वादि-वाहन-रहितम्. १२ वसकम्. १३ कु-देवं न वन्दे, कु-वादिभिः न वन्द्यं वा.
१४ बन्दनीकम्. १५ दुष्टैः अपूज्यम्. १६ इन्द्रादिभिः पूज्यम्. १७ न विद्यते 'सासनं' उपाध्यायो यस्य.
१८ विद्वधानामपि शिक्षापकम्. १९ हस्ति-रहितम्. २० मद्यादि-भेद-निषेधकम्. २१ निन्दारहितम्.
२२ अतीन्द्रियम्. २३ महा तम्. २४ प्रचण्ड-मन्मथान्तकम्. २५ रमणीयम्. २६ घना मेघाः, अल्लयो
भ्रमरास्त्रेषां बारा समुदायस्तद्रूपम् । अत्र कियती वा अक्षरावृत्तिर्यथा (?) तं संततं संतं, 'गयङ्ग' = गताङ्गं ।
संधी-अधीस, संधी अपीचामित्वादि (?)

[२]

॥ दुवई ॥ ह्रि एत्तहें वि तीव एत्तहें वि विओड महन्तु राहवे ।
 हरि एत्तहें वि भिडिड एत्तहें वि विराहिड मिलिड आहवे ॥ १
 ताव तेत्थु मीसावणे वणे एकमेक-हकारणे रणे ॥ २
 कुंरुड-दिट्ठि-वयणुन्भडे भडे विरइए महा-वित्थडे थडे ॥ ३
 वावरन्त-भर्य-भासुरे सुंरे जज्जरङ्ग-पहराउरे उरे ॥ ४
 असि-सवाहु-पडियप्फरे फरे जम्पमाण-कडुअक्खरे खेरे ॥ ५
 दलिय-कुम्भ-वियलङ्गए गए सिरु धुणाविए आहए हए ॥ ६
 रुहिर-विन्दु-वच्चिकिए किए सांयरे व्व सुर-मन्थिए थिए ॥ ७
 छत्त-दण्ड-सय-खण्ड-खण्डिए हडु-रुण्ड-विच्छडु-मण्डिए ॥ ८
 तहिं महाहवे घोर-दारुणे दिट्ठु वीरु पहरन्तु साहणे ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तिलु तिलु कप्परियइ उरें जज्जरियइ रत्तच्छइ फुरियाणणइ ।
 दिट्ठइ गम्भीरइ सुहड-सरीरइ सर-सन्नियइ सर्वाहणइ ॥ १०

[३]

॥ दुवई ॥ को वि सुभडु सत्तुरङ्गमु को वि सजाणु सल्लिओ ।
 को वि पडन्तु दिट्ठु आयासहो लक्खण-सर-विरैल्लिओ ॥ १
 भडो को वि दिट्ठो परिच्छिन्न-गतो स-दन्ती स-मन्ती स-विन्धो स-छत्तो ॥ २
 भडो को वि वावल्ल-भल्लेहिं भिण्णो भडो को वि कप्पहुमो जेम छिण्णो ॥ ३
 भडो को वि तिक्खग-णाराय-विद्धो महा-सत्थवन्तो व सत्थेहिं विद्धो ॥ ४
 भडो को वि कुड्ढाणणो विप्फुरन्तो मरन्तो वि हकार-डकार देन्तो ॥ ५
 भडो को वि भिण्णो स-देहो समत्थो पमुच्छाविओ को वि कोवण्ड-हत्थो ॥ ६
 मुओ को वि कोवुम्भडो जीवमाणो वल्लच्चामर-च्छोह-विज्जिज्जमाणो ॥ ७
 वसा-कहमे मइवे को वि खुत्तो वल्लन्तो वल्लन्तो भियन्तेहिं गुत्तो ॥ ८
 भडो को वि भिण्णो खुरुप्पेहिं ऐन्तो भियन्तो कुत्तिट्ठो व सिद्धिं ण पत्तो ॥ ९

2. 1 PS विराहि. 2 PS भड. 3 A ववरा. 4 PS कुंभि. 5 PS सापरे. 6 PS विच्छिडु. 7 A कोर. 8 A संवाहणइ.

3. 1 PS सत्तुरंगड. 2 PS विरेल्लिड. 3 A omits this pāda. 4 A विच्छिज्जमाणो. 5 A नियत्तो कुत्तिट्ठो.

[२] १ विराधी-नाम-विवाधरः. २ दण्डकारण्ये. ३ परस्परं हकारणं यत्र संग्रामे. ४ क्रूर-दृष्टया कृत्वा वदतान्युद्गता(नि) यत्र रणे. ५ अतीव विस्तीर्णे. ६ रौद्रे. ७ युक्त (?) शब्दे 'रे' शब्दे धातु (?). ८ हृदये. ९ बहः; स-बाहु पतिता. १० फरका यत्र रणे 'फरे'-स्फारीभूते. ११ तीव्रे. १२ विकलाङ्गके गते (?) सति. १३ संग्रामे. १४ अश्वे. १५ कृते सति. १६ तथा कवेऽपि स्थिते कति. १७ खलुवायः.

[३] १ लीला-गर्जितम्. २ घने. ३ निजाश्वैर्युतः. ४ आगच्छन्.

॥ घटा ॥

लक्खण-सर-भरियउ अद्दुवरियउ खर-दूसण-वलु दिट्ठु किह ।
साहारु ण वन्धइ गमणु ण सन्धइ णवल्लउ कामिणि-पेम्मु जिह ॥ १०

[४]

११ ॥ दुवई ॥ परधण-परकलत्त-परिसेसहुँ परवल-संणिवायहुँ ।
एकें लक्खणेण विणिवाइय सत्त सहास रायहुँ ॥ १
जीवन्तएँ अद्दएँ वइरि-सेणों अद्दएँ दलवट्टिएँ महि-णिसेणों ॥ २
तहिँ अवसरें पवर-जसाहिएण जोक्कारिउ विण्हु विराहिएण ॥ ३
'पाइक्कहों वइइ एहु कालु हउँ मिञ्चु देव तुहुँ सामिसालु ॥ ४
१२ कहिओ सि आसि जो चारणेहिँ सो लक्खिओ सि सइँ लोयणेहिँ ॥ ५
तं संहल मणोरह अज्जु जाय जं दिट्ठु तुहारा वे वि पाय ॥ ६
णिय-जणणिहें हउँ गन्धत्थु जइउ विणिवाइउ पिउ महु तणउ तइउ ॥ ७
सहुँ ताएं मैहु पाइक्क-पवुरु उहालिउ तमलक्कार-णयरु ॥ ८
तें समर-महब्भय-मीसणेहिँ सहुँ पुव-वइरु खर-दूसणेहिँ ॥ ९

॥ घटा ॥

जय-लच्छि-पसाहिउ भणइ विर्राहिउ 'पहु पसाउ महु पेसणहों ।
तुहुँ खरु आयामहि रणउहें णामहि हउँ अब्भिइमि दूसणहों ॥ १०

[५]

१३ ॥ दुवई ॥ तं गिसुणेवि वयणु विज्जाहरु मग्गीसिउ कुमारेंणं ।
१४ 'वइसरु ताव जाव रिउ पाडमि एकें सर-पहारेंणं ॥ १
एउ सेणु खर-दूसण-केरउ बाणोंहिँ करमि अज्जु विवरेरउ ॥ २
स-धउ स-वाहणु स-पहु स-हत्थें लायमि सम्भु-कुमारहों पन्थें ॥ ३
तुज्जु वि जम्म-भूमि दरिसावमि तमलक्कार-णयरु भुज्जावमि ॥ ४
हरि-वयणोंहिँ हरिसिउ विज्जाहरु चरणोंहिँ पडिउ सीसैं लाएँवि करु ॥ ५
१५ ताव खरेण समरें णिब्भुटें पुच्छिउ मन्ति विमाणारूटें ॥ ६
'दीसइ कवणु एहु 'वीसत्थउ णरु पणमन्नु कियञ्जलि-हत्थउ ॥ ७

G P S नवल्लउ.

४. 1 P °सेण, S सेण. 2 P S वइरिसेण, A °सेवे. 3 P S लक्क. 4 P S सहु, A महु.

5 P °वरु, A °पवरु. 6 P A विराहिओ.

६. 1 P S जाव. 2 P S काविय.

[४] १ मेलापकम्. २ सेन्ना. ३ पाताक-लक्का-नगरम्.

[५] १ निराकुलः.

वाहुबलेण वलेण विवलयुड
पभणइ मन्ति विमाणे पइडुड

णं सय-कालु कियन्तहो मिलियउ' ८
'किं पइं वइरि कयावि ण दिडुड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णामेण विराहिउ पवर-जसाहिउ विचड-वच्छु थिर-थोर-भुउ ।
अणुराहा-णन्दणु स-वलु स-सन्दणु एँहुँ सो चन्दोअरहोँ सुउ' ॥ १०

[६]

॥ दुवई ॥ मन्ति-णिवाण विहि मि अवरोप्परु ए आलाव जावेँहिँ ।

विणहु-विराहिएहिँ आयामिउ पर-वलु सयलु तावेँहिँ ॥ १

तो खरोऽरिमहणेण

कोक्किओ जेणहणेण ॥ २

एसहे स-सन्दणेण

सौऽणुराह-णन्दणेण ॥ ३

आहवे समत्थएण

चाव-चाण-हत्थएण ॥ ४

गुञ्ज-वण्ण-लोयणेण

भीसणावलोयणेण ॥ ५

कुम्भि-कुम्भ-दारणेण

पुव्व-वइर-कारणेण ॥ ६

दूसणो जसाहिवेण

कोक्किओ विराहिएण ॥ ७

एँहुँ वे(?) हओ हयस्स

चोइओ गओ गयस्स ॥ ८

वाहिओ रहो रहस्स

घाइओ णरो णरस्स ॥ ९

॥ घत्ता ॥

स-गुड-स-सण्णाहइँ कवय-सणाहइँ सप्पहरणइँ स-चाहणइँ ।

णिय-वइरु सरेप्पिणु हक्कारेप्पिणु भिडियइँ वेण्णि मि साहणइँ ॥ १०

[७]

॥ दुवई ॥ सेण्णहोँ भिडिउ सेण्णु दूसणहोँ विराहिउ खरहोँ लक्खणो ।

हय पडु पडह तूर किउ कलयलु गल-गम्भीर-भीसणो ॥ १

ताहिँ रण-संगमेँ

बुण्ण-तुरङ्गमेँ ॥ २

रह-गय-गोन्दलेँ

वज्जिय-मन्दलेँ ॥ ३

भड-कडमहणेँ

मोडिय-सन्दणेँ ॥ ४

णरवर-दण्डिएँ

किय-किलिविण्डिएँ ॥ ५

वाला-लुच्चिएँ

रह-सय-सच्चिएँ ॥ ६

३ A ओहु.

6. 1 S वेव. 2 P S 'वेर'. 3 P एत्थ, S इत्थ. 4 P गवो. 5 S गवस्स. 6 A ओइओ.

7 P S 'सणाहइँ.

7. 1 A महले. 2 A omits this pāda.

२ विस्तीर्ण-हृदयः.

[६] १ वृपत्य. २ लक्ष्मणेन. ३ दूसनः. ४ 'अणुराहा'-राज्ञी-नन्दणेण विराधिकेन.

[७] १ कृत-ऊर्ध्व-सुखाः. २ मेलापके.

तर्हि अपरमम	खर-गारायण ॥ ७
भिडिय महबल	खियड-उरत्थल ॥ ८
वे वि समच्छर	वे वि भयङ्कर ॥ ९
वे वि भ्रमयार	वे वि जसायर ॥ १०
वे वि महम्भड	वे वि अणुम्भड ॥ ११
वे वि धणुद्धर	वेणि वि दुद्धर ॥ १२

॥ घत्ता ॥

वेणि वि जस-लुद्धा	अमरिस-कुद्धा	तिहुयण-मल्ल समावडिय ।
अमरिन्द-दसाणण	विप्फुरियाणण	णाइ परोप्परु अब्भिय ॥ १३

१०

[८]

॥ दुवई ॥ ताम जणहणेण अद्धेन्दु विसज्जिउ रणे भयङ्करो ।
णं खय-काले कालु उद्धाइउ तिहुअण-जण-खयङ्करो ॥ १

संचलु वाणु	णहयल-समाणु ॥ २
रिउ-रहणे दुक्कु	खरु कह वि चुक्कु ॥ ३
सारहि वि भिण्णु	धय-दण्डु छिण्णु ॥ ४
धणुहरु वि भग्गु	कंत्थ वि ण लग्गु ॥ ५
पाडिउ विमाणु	विज्जएँ समाणु ॥ ६
खरु विरहु जाउ	थिउ असि-सहाउ ॥ ७
धाइउ तुरन्तु	मुह-विप्फुरन्तु ॥ ८
एत्तहेँ वि तेण	णारायणेण ॥ ९
तं सूरहासु	किउ करेँ पगासु ॥ १०
अब्भिट्ट वे वि	असिवरइँ लेवि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

णाणाविह-धाणेहेँ	णिय-विण्णाणेहेँ	वावरन्ति असि-गहिय-कर ।
कसणङ्गय दीसिय	विज्जु-विहूसिय	णं णव-पाउसेँ अम्बुहर ॥ १२

३ P A तिहुणं,

४. 1 P S °जग°. 2 A हत्थि. 3 P अब्भिय. 4 A °करणेहेँ.

१ इन्दु विद्याधर.

[८] १ रंथरहितः.

[९]

॥ दुवई ॥ हत्थि व उद्ध-सोण्ड सीह व लङ्गल-बल्लग-कम्परा ।

णिङ्गुर महिहूरं च्च अइ-खार समुह व अहि व दुद्धरा ॥ १

अब्भिद्द वे वि सोण्डीर वीर संगाम-घीर ॥ २

एत्थन्तरे अमर-वरङ्गणाहं हरिसिय-मणाहं ॥ ३

अवरोप्परु बोळालाव हूय 'कहो गुण पहुँय' ॥ ४

तं णिसुणेवि कुवल्लय-णयणियाएँ ससि-वयणियाएँ ॥ ५

णिब्भच्छिय अच्छर अच्छराएँ बहु-मच्छराएँ ॥ ६

'खरुं मुएँवि अणु किं को वि सूरु पर-सिमि-रचूरु' ॥ ७

अणेक पज्जमिय तक्खणेण 'सहुँ लक्खणेण ॥ ८

खरु गइहु 'किह किज्जइ समाणु जो अघंडमाणु' ॥ ९

एत्थन्तरे णिसियर-कुल-पईवे खरुं पहुँउ गीवे ॥ १०

॥ घत्ता ॥

कोवाणल-णालउ कलि-कण्डालउ दसण-सकेसरु अहर-दलु ।

महुमहण-सरंगे असि-णहरंगे खुण्टेवि घत्तिउ सिर-कमलु ॥ ११

[१०]

॥ दुवई ॥ एत्तेहें लक्खणेण विणिवाइउ णिसियर-सेवण-सारओ ।

एत्तेहें दूसणेण किउ विरहु विराहिउ विणिं वारओ ॥ १

छुडु छुडु समरे परज्जिउ साहणु रह-गय-वाहणु ॥ २

छुडु छुडु जीव-गाहि आयामिउ पर-वल-सामिउ ॥ ३

छुडु छुडु चिहुरहं हत्थु पसारिउ कह वि ण मारिउ ॥ ४

ताव खरहो सिरु खुडेवि महाइउ लक्खणु धाइउ ॥ ५

णिय-साहणे मग्गीस करन्तउ रिउ कोकन्तउ ॥ ६

'दूसण पहरु पहरु जइ सक्कहि अहिमुहु थक्कहि' ॥ ७

तं णिसुणेवि वयणु आरुडुउ चित्तं दुडुउ ॥ ८

वल्लिउ णिसिन्दु गइन्दु व सीहहो रण-सय-लीहहो ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दसंसन्दण-जाएं वर-णाराएं विउउ-उरत्थले विज्जु अरि ।

रेवा-जल-वाहें मयर-सणाहें णाईं वियारिउ विज्जइरि ॥ १०

9. 1 P S खंधरा. 2 P S महिहर. 3 P S वहूय. 4 P S A खर. 5 P S किं. 6 P S अघणियाणु, A घडमाणु. 7 P खरो. 8 S पहुँयो. 9 P 'नाउउं, S 'णालओ. 10 P S 'करमो. 11 P S खुट्टेवि, S खुंट.

10. 1 S दुण्णिवारओ. 2 P अहिमुहुं थक्कहिं, S A omit this. 3 A दूसरदकुलजाएं. 4 A वियारिउं.

[११]

॥ दुवई ॥ उडुध-पुंछ-दण्ड-वेर्यण्ड-रसन्तय-भक्त-बाहणं ।

पाडिऐ अतुल-मल्ले खरें दूसणें पडियमसेस-साहणं ॥ १

सक्त सहास भिडन्तें मारिय दूसणेण सहँ सक्त वियारिय ॥ २
 १ चउदह सहस णरिन्दहुँ घाइय णं कप्पहुम व विणिवाइय ॥ ३
 मण्डिय मेइणि णरवर-छत्तेहिँ णावइ सरय-लच्छि सयवत्तेहिँ ॥ ४
 कथइ रत्तारत्त पदीसिय णाई विलासिणि घुसिण-विहूसिय ॥ ५
 तो एत्थन्तरेँ रह-गय-वाहणें कलयलु घुइ विराहिय-साहणें ॥ ६
 दिग्णाणन्द-मेरि अणुराएँ रणु परिअञ्चिउ दसरह-जाएँ ॥ ७
 १० 'चन्दोअर-सुअ महु करेँ वुत्तउ ताम महाहवें अछुँ मुहुत्तउ ॥ ८
 जाँव गवेसमि भाइ महारउ सहँ वइदेहिऐँ पाण-पियारउ' ॥ ९

॥ वत्ता ॥

खर-दूसण मारेंवि जिणु जयकारेंवि लक्खणु रामहों पासु गउ ।
 णं तिहुअणु घाएँवि जम-पहें लाएँवि कालु कियन्तहों सम्मुहउ ॥ १०

[१२]

॥ दुवई ॥ हलहरु लक्खणेण लक्खिज्जइ सीया-सोय-णिब्भरो ।

घत्तिय तोण-वाण महि-मण्डलें कर-परिचत्त-धणुहरो ॥ १

विओय-सोय-त्तत्तओ करि व्व भग्ग-दन्तओ ॥ २
 तरु व्व छिण्ण-डालओ फणि व्व णिप्फणालओ ॥ ३
 २० गिरि व्व वज्ज-सूडिओ ससि व्व राहु-पीडिओ ॥ ४
 अर्पाणिउ व्व मेहओ वणे विसण्ण-देहओ ॥ ५
 वलो सुमिस्सि-पुत्तिणं पपुच्छिओ तुरन्तिणं ॥ ६
 'ण दीसए विहङ्गओ स-सीयओ कहिँ गओ' ॥ ७
 सुणेवि तस्स जम्पियं तैमक्खियं ण जं पियं ॥ ८
 २५ 'वणे विण्हु जाणई ण को वि वत्त जाणई ॥ ९

॥ वत्ता ॥

जो पक्खि रँणेऽज्जउ दिण्णु सहेज्जउ सो वि समरें संघारियँउ ।
 केणावि पँचण्डें दिठ-भुअ-दण्डें णेवि तलँप्पएँ मारियँउ' ॥ १०

11. 1 P S A पुंछ. 2 A रणत्तरसमाहयमत्त^०; also noted marginally in P. 3 P चोदह, S चौदह. 4 A 'छिन्नेहिँ. 5 P वुत्तउं. 6 A अत्थु. 7 P मुहुत्तउं, A महत्तउ. 8 P S जाउ. 9 P S कियंतु वि.

12. 1 P S करे. 2 P S भवाणिउ. 3 A पइट्ट. 4 P S जाणई. 5 P संघारिअउं. 6 S पचंदेहिँ. 7 'दंदेहिँ. 8 A तल्लप्पए.

[१२] १ जररहितः. २ तत्कथितं न यत् त्रिभं लक्ष्मणस्य. ३ रणं भजयः.

[१३]

॥ दुवई ॥ ए आलाव जाव बट्टन्ति परोप्परु राम-लक्खणे ।

ताव विरोहिओ वि बल-परिमिडं पत्तु तहिं जि तक्खणे ॥ १

तो ताव कियञ्जलि-हत्थएण	महिवीढोणामिय-मत्थएण ॥ २
बलएउ णमिड विजाहरेण	जिणु जम्मणे जेम पुरन्दरेण ॥ ३
आसीस देवि गुरु-मल्लहरेण	सोमिच्चि पपुच्छिउ हलहरेण ॥ ४
'सहुं सेणें पणमिड कवणु एहु	णं तारा-परिमिड हरेणदेहु ॥ ५
तं वयणु सुणेप्पिणु पुरिस-सीहु	थिर-थोर-महाभुअ-फलिह-दीहु ॥ ६
सम्भावे रामहो कहइ एम	'चन्दोयर-णन्दणु एहु देव ॥ ७
खर-दूसणारि महु परम-मित्तु	गिरि मेरु जेम थिर-थोर-चित्तु ॥ ८
तो एम पससेवि तक्खणेण	'हिय जाणइ' अक्खिउ लक्खणेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'कहिं कुढे लग्गेसमि कहि मि गवेसमि दइवे परम्मुहे किं करमि ।
बलु सीया-सोएं मरइ विओएं एण मरन्ते हउं मरमि' ॥ १०

[१४]

॥ दुवई ॥ तं णिसुणेवि वयणु चिन्ताविउ चन्दोयरहो णन्दणो ।

विमणु विसण्ण-देहु गह-पीडिउ णं 'सारङ्ग-लञ्छणो ॥ १

'जं जं किं पि वत्थु आसङ्गमि	तं तं णिप्फलु कहिं अवठम्भमि ॥ २
एय मुएवि कालु किह खेविउ	णिद्धणो वि वरि वड्डुउ सेविउ ॥ ३
होउ म होउ तो वि ओलग्गमि	मुणि जिह जिण दिहु चलणहिं लग्गमि ॥ ४
विहि केत्तडउ कालु विणडेसइ	अवसें कं दिवसु वि 'सिय होसइ' ॥ ५
एम भणेवि वुत्तु णारायणु	'कुढे लग्गेवउ केत्तिउ कारणु ॥ ६
ताव गवेसहुं जाम णिहालिय'	लहु सण्णाह-भेरि अप्फालिय ॥ ७
साहणु दस-दिसेहिं संचल्लिउ	आउ पडीवउ जय-सिरि-मेल्लिउ ॥ ८
जोइस-चक्कु णाई परियत्तउ	णं सिद्धत्तणु सिद्धि ण पत्तउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विजाहर-साहणु स-धउ स-वाहणु थिउ हेट्टामुहु विमण-मणु ।

हिम-आएं दहुउ मयरन्दहुउ णं कोमाणउ कमल-वणु ॥ १०

13. 1 P विराहिउ, S विराहिवो. 2 A परिमिडं. 3 A नमिडं. 4 A मणहरेण. 5 A पणमिडं.

14. 1 चिन्ताविजउ. 2 A सासणे; P marginally notes 'सासणि' पाठे. 3 P S कट्टिय सइ. 4 P कलग्गेवउं, S लग्गेवउं. 5 P S मयरंहुहुउ. 6 A कोमाणउं.

[१३] १ वार्तालाप. २ चंद्रः.

[१४] १ चंद्रः. २ लक्ष्मीः.

स० प० च० २०

[१५]

॥ दुवई ॥ वुत्तु विरोहिणण 'सुर-डामरें तिहुअण-जण-भयावणे ।
 वणें णिर्वसहुँ ण होइ खर-दूसणें मुएँ जीवन्तें रावणे ॥ १
 सम्बुक्कु वहेँवि असि-रयणु लेवि को जीवइ जम-मुहेँ पइसरेवि ॥ २
 ५ जहिँ अच्छइ इन्दइ भाणुकणु पञ्चामुहु मउँ मारिच्चि अणु ॥ ३
 घणवाहणु जहिँ अक्खय-कुमारु सहसमइ विहीसणु दुण्णिवारु ॥ ४
 हणुवन्तु णीलु णलु जम्बवन्तु सुग्गीउ समर-भर-उव्वहन्तु ॥ ५
 अङ्गङ्गय-गवय-गवक्ख जेत्यु तहों वन्धु वहेँवि को वसइ एत्थु' ॥ ६
 वयणेण तेण लक्खणु विरुद्धु गय-गन्धें णाँइ मइन्दु कुद्धु ॥ ७
 ११ 'सुद्धु वि रुद्धेहिँ मयङ्गमेहिँ किं रुम्भइ सीहु कुरङ्गमेहिँ ॥ ८
 रोमग्गु वि वड्ढु ण होइ जेहिँ किं णिसियर-सण्ठेहिँ गहणु तेहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जे णरवइ अक्खिय रावण-पक्खिय ते वि रणङ्गणें णिट्ठवमि ।
 छुद्धु विन्तु णिरुत्तउ जुञ्जु महन्तउ दूसण-पन्थें पट्ठवमि' ॥ १०

[१६]

१५ ॥ दुवई ॥ भणइ पुणो वि एम विजाहरु 'अच्छेँवि किं करेसहुँ ।
 तमलङ्कार-णयरु पइसेप्पिणु जाणइ तहिँ गवेसहुँ' ॥ १
 वलु वयणेण तेण, सहुँ साहणेण, संचल्लिउ
 णाँइ महासमुद्धु, जलयर-रउद्धु, उत्थल्लिउ ॥ २
 २० दिण्णाणन्द-भेरि, पडिक्ख-खेरि, खर-वज्जिय
 णं मयरहर-वेल, कल्लोलवोलं, गलगज्जिय ॥ ३
 उक्किभय कणय-दण्ड, धुव्वन्त धवल, धुअ-धयवड
 रंसमसकसमसन्त-, तडतडयडन्त-, कर गय-घड ॥ ४
 कत्थइ खिलिहिलन्त, हय हिलिहिलन्त, णीसरिया
 २५ चञ्चल-चँडुल-चवल, चलवल्लय पवल, पक्खरिया ॥ ५
 कत्थइ पहेँ पयट्ठ, दुग्घोट्ठ-थट्ठ, मय-भरिया
 सिरेँ गुमुगुमुगुमन्त-, चुमुचुमुचुमन्त-, चञ्चरिया ॥ ६

15. 1 P S विरोहिणण. 2 S णिवसहो. 3 A दूसण. 4 A जीवन्त. 5 P S मइ. 6 P S जंजुवन्तु. 7 A जयंगमेहिँ. 8 P णिरुत्तउ. 9 P महन्तउ.

16. 1 P S पुणु जाणइ. 2 P S omit. 3 P S खण०. 4 P S वेल. 5 A धुव्वन्त. 6 P S कडयडिय. 7 P S पयहे.

[१६] १ हस्तीपु रथेषु निक्षला(?). २ शब्दानुकरणे. ३ वकभीवा भावनशीलाश्च.

चन्दण-वहल-पेरिमलामोय-सेय-किय-कहमे
 रह-खुप्पन्त-चक्क-विथक्क-छंडय-भड-महवे ॥ ७
 एम पयइ सिमिरु, णं वहल-तिमिरु, उद्धाईउ
 तमलक्कार-णयरु णिमिसन्तरेण संपाइउ ॥ ८
 पिय-विरहेण रामु, अइ-खाम-खामु, शीणङ्गउ
 पय-मग्गेण तेण, कन्तहे तणेण, णं लग्गउ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

दहवयणु स-सीयउ पाँणहँ भीयउ मञ्जुडु एत्तहे णडु खलु ।
 मेइणि विहारेवि मग्गु समारेवि णं पायाले पइडु वलु ॥ १०

[१७]

॥ दुवई ॥ ताव पचण्डु वीरु खर-दूसण-णन्दणु तणिवारणो ।

सो सण्णहेवि सुण्डु पुर-चारे परिट्टिउ गहिय-पहरणो ॥ १

जं थक्कु सुण्डु रणमुहे रउहु उद्धाइउ राहव-वल-समुहु ॥ २
 णवर कलयलारावु उट्टिउ दोहिं 'मि सेण्णेहिं अब्भिट्टमाणेहिं जायं च जुज्झं
 महा-गोन्दलुहाम-घोरारुणं मुक्क-हाहारवं ॥ ३

विरसिय-सय-सङ्ग-कंसाल-कोलाहलं काहलं-टट्टरी-झल्लरी-मदलुलोल-वज्जन्त-
 भम्भीस-भेरी-सरुञ्जा-हुडुक्काउलं ॥ ४

पसहिय-गय-गिल्ल-कल्लोल-गज्जन्त-गम्भीर-भीसावणोरालि-मेल्लन्त-रुण्टन्त-
 घण्टा-जुअं पाडियं मेट्टं-पाइक्कयं भिण्ण-वच्छत्थलं ॥ ५

सल्लिय-रह-चक्क-खोणी-पुवुप्पन्त-धुप्पन्त-चिन्धावलि-हेमदण्डुज्जलं-चामरु ॥ ६

च्छोह-विज्जिज्जमाणं सँ-जोहं महासन्दणावीढयं ॥ ६

हिलिहिलिय-सुरङ्गमुवुण्णी-कण्णं चलं^{१६} चञ्चलङ्गं महा-दुज्जयं दुद्धरं दुण्णिरिक्खं
 मेही-मण्डलावत्त-देन्तं हर्याणं वलं ॥ ७

8 P 'नसेय', S 'नसोय'. 9 P S 'उडुय', A 'च्छडकहमे. 10 P S पयइ. 11 P A उद्धाइउं,
 12 P पाणसनीयउं. 13 A निहारेवि.

17. 1 P S तणिवारणे, A थिउ विवारणो. 2 P S पहरणे. 3 S A संहु. 4 A 'रवो. 5 A
 उट्टिणो. 6 P S दोहि मि. 7 P. omits these words. 8 P S 'मिट्ट'. 9 P सल्लिय', S
 सलीव'. 9a P S A एखुप्पन्त. 10 A चिंधप्पडुयावली. 11 P S चलचामर'. 12 P S सजोह'.
 13 P S 'णावीढं. 14 P 'मुवुण्ण', S 'म खुण्ण', S मुव्व चलं. 15 P S चलचंचलगा'. 16 P
 महदुज्जय, S महादुज्जय. 17 P S महा'. 18 P S 'देत्तं हेयाणं.

४ परिमलामोदस्य खेदेन कृते कर्दमे कृते सति चलितो रामः.

[१७] १ टप्पर-कर्णः.

हुलि-हल-मुसलग्ग-कोन्तेहिँ अङ्गेन्दु-सूलेहिँ वावल्ल-भल्लेहिँ णाराय-सल्लेहिँ
भिण्णं करालं ललँन्तन्त-मालं अ-सीसं कबन्धं पणञ्चाविचं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताहिँ सुँन्द-विराहिय सँमर-जसाहिय अवरोप्परु वहुँन्त-कलि ।
१ पहरन्ति महा-रणे मेइणि-कारणे णं भरहेसर-चाहुवलि ॥ ९

[१८]

॥ दुषइँ ॥ चन्दणहाएँ ताव जुज्झन्तु णिवारिउ णियय-णन्दणो ।
‘दीसइँ ओहु जोहु खर-दूसण-सम्बुकुमार-मद्दणो ॥ १

जुज्झेवउ सुन्दं ण होइ कज्जु	जीवन्तहँ होसइँ अण्णु रज्जु ॥ २
११ वरि गम्पिणु सुर-पञ्चाणणासु	कूवारउ करहु दसाणणासु ॥ ३
ओसरिउ सुण्डु वयणेण तेण	गउ लङ्क पराइउ तक्खणेण ॥ ४
‘एत्थु सँ-विराहिउ पँइहु रामु	णं कामिणि-जणु मोहन्तु कामु ॥ ५
खर-दूसण-मन्दिरें पइसरेवि	चन्दोयर-पुत्तहों रज्जु देवि ॥ ६
साहारु ण वन्धइँ कहि मि रामु	वइदेहि-विओएँ खामु खामु ॥ ७
१२ रह-तिकेँ-चउकेँहिँ परिभमन्तु	दीहिय-विहार-मढ परिहरन्तु ॥ ८
गउ ताम जाम जिण-भवणु दिहु	परिअञ्जेवि अब्भन्तरेँ पइहु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जिणवरु णिज्झाएँवि ११ चित्तें झाएँवि जाइ णिरारिउ विउलमइ ।
आहुडेँहिँ भासेँहिँ थोत्त-सहासेँहिँ थुअउ स यं भु वण्णाहिवइ ॥ १०

*

19 P कलंतमालं तमालं, S ललंतमालं. 20 P सुँइ, S सुँडु. 21 A अमारिस-ससाहिय. 22 S वइँति.

18. 1 P S चंदणाए, 2 P उहु. 3 P जुज्झेवउं, S जुज्झेवउ. 4 P सुँइ corrected as सुँड, S सुँड. 5 P S जीवंतहो, A जीवतहे. 6 P तेत्थु, S तित्थु. 7 P विसराहिउ corrected as वि विराहिउ, S तिसविराहि. 8 P S पयहु. 9 A ०जिणु. 10 P S ०तिकेँहिँ. 11 P. omits this pāda. 12 S आहुडेँहि. 13 P S भुवदंहेहि.

२ मस्करहितम्.

[१८] १ पाताललङ्कायाम्. २ ध्यात्वा, अबलोकय.

[४१. एकचालीसमो संधि]

खर-दूसण गिलेंवि
णं खय-काल-छुह

चन्दणहिहें तित्ति ण जाइय ।
रावणहो पडीवी धाइय ॥

[१]

सम्बुकुमार-वीरें अत्थन्तए
दूरोसारिणें सुन्द-महव्वलें
एत्थए असुर-मल्लें सुर-डामरें
पर-वल-वल-पवाणाहिन्दोलणें
मुक्कस-मयगल-गलधल्लणें
विहडिय-भड-थड-किय-कडमडणें
सीयए सह सुरवर-संतावणें
तहिं अवसरें चन्दणहि पराइय

खर-दूसण-संगामें समत्तए ॥ १
तमलङ्कार-णायरु गएं हरि-वल्लें ॥ २
लङ्काहिणें बहु-लज्ज-महावरें ॥ ३
वइरि-समुद्-रउद्-विरोलणें ॥ ४
दाण-रणङ्गणें हत्थुत्थल्लणें ॥ ५
कामिणि-जण-मण-णयणाणन्दणें ॥ ६
छुडु छुडु लङ्क पइडुए रावणें ॥ ७
णिवडिय कम-कमलेंहिं दुह-घाइय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सम्बुकुमारु मुउ
पइं जीवन्तएण

खर-दूसण जम-पहें लाइय ।
एही अवत्थ हउं पाइय' ॥ ९

[२]

तं चन्दणहिहें वयणु दयावणु
णं मयलञ्छणु णिप्पहु जायउ
णं मुणिवरु चौरित्त-विभट्टउ
वाह-भरन्त-णयणु मुह-कायरु
दुक्खु दुक्खु दुक्खेणामेल्लिउ
'घाइउ जेण सम्बु खरुं दूसणु
अहवइ एण काइं माहप्पें
धीरी होहि पमायहि सोओ

णिसुणेंवि थिउ हेट्टामुहु रावणु ॥ १
गिरि व देवग्गि-दहु विच्छायउ ॥ २
भविउ व भव-संसारहो तंहुउ ॥ ३
गहेंण गहिउ णं हूउ दिवायरु ॥ ४
सयण-सणेहु सरन्तु पवोल्लिउ ॥ ५
तं पट्टवमि अज्जु जमसासणु ॥ ६
को ण मरइ अंपूरें मप्पें ॥ ७
कासु ण जम्मण-मरण-विओओ ॥ ८

1. 1 S चंदणहिं. 2 PS °वीर. 3 PS °संगाम. 4 PS दूरोसारिय, A दूरासारिय. 5 P सुंइ, S सुंइ. 6 A °नयरे. 7 S इत्थइ, A एत्थुए. 8 PS लंकाहिबि, A लंकाहिब. 9 A कडमडणें. 10. S. omits the Ghattā. 11 P मह.

2. 1 S चंदणहिं. 2 S अदयावणु. 3 P रवेण, S दवेण. 4 PS चारित्त. 5 PS °भरन्तु णयण°. 6 PS ह्यु. 7 PS खहुउ. 8 PS A खर. 9 PS अपुण्णें. 10 P सोउं, A सोउ. 11 P A विओउ.

[१] १ हे रावण, त्वयि विद्यमाने.

[२] १ ब्रह्मः.

॥ घत्ता ॥

को वि ण वज्जमउ
अम्हेहिं तुम्हेहि मि^{१३}

जाएं जीवें मरिएवउ ।
खर-दूसण-पहें^{१४} जाएवउ' ॥ ९

[३]

५ घीरेंवि णियय वहिणि सिय-माणु
वर-पल्लङ्के चडिउ लङ्केसरु
१० णं विसहरु णीसासु मुअन्तउ
सीया-मोहें मोहिउ रावणु
णच्चइ हसइ विघारेंहिं भज्जइ
११ दंसण-गाण-चरित्त-विरोहउ
मयण-परवसु एउ ण जाणइ
अच्छइ मयण-सरोहें जज्जरियउ

रयणिहिं गउ सोवणएँ दसाणणुं ॥ १
'णं गिरि-सिहरें मइन्दु स-केसरु ॥ २
णं सज्जणु खल-खेइज्जन्तउ ॥ ३
गायइ वायइ पढइ सुहावणु ॥ ४
णिय-भूअहुं जि पडीवउ लज्जइ ॥ ५
इह-लोयहों पर-लोयहों दोहउ ॥ ६
जिहं संघारु करेसइ जाणइ ॥ ७
खर-दूसण-णाउ 'मि वीसरियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

११ चिन्तइ दहवयणु
रज्जु वि जीविउ वि

'धणु धणु सुवणु समत्थउ ।
विणु सीयएँ सबु णिरत्थउ' ॥ ९

[४]

तहिं अवसरें आइय मन्दोवरि
वर-गणियारि व लीला-गामिणि
सारङ्गि व विष्फारिय-णयणी
१२ कलहंसि व थिर-मन्थर-गमणी
अह 'पोमाणिहें अणुहरमाणी
जिह सा तिह एह वि बहु-जाणी
जिह सा तिह एह वि सुमणोहर
जिह सा तिह एह वि जिण-सासणें

सीहहों पांसु व सीह-किसोयरि ॥ १
'पियमाहविय व महुरालाविणि ॥ २
सैत्तावीसंजोयण-वयणी ॥ ३
लच्छि व तिय-रुवें जूरवणी ॥ ४
जिह सा तिह एह वि पउराणी ॥ ५
जिह सा तिह एह वि बहु-माणी ॥ ६
जिह सा तिह एह वि पिर्य-सुन्दर ॥ ७
जिह सा तिह एह वि ण कु-सासणें ॥ ८

१२

॥ घत्ता ॥

किं बहु जम्पिण
णिय-पडिछन्दएँण

उवमिज्जइ काहें किसोयरि ।
थिय सइ जें णाइँ मन्दोयरि ॥ ९

12 P S वज्जमओ. 13 P मिं, A वि. 14 A पंथें.

3. 1 P रयणिहे, S रयणिहि. 2 A सोवणउं. 3 Between 1 and 2 P S read तं पट्टवमि भज्जु जम-सासणु, रक्खइ जइ वि कुवेरु हुवासणु ॥ 4 A. omits this pāda. 5 P S व केसरु. 6 P S भूयहं. 7 A विरोहिउ. 8 P S जणसंहारु. 9 P णाउ वि, S णाउं वि.

4. 1 P S पासि. 2 P S वि. 3 A सुपमाणी. 4 P S पय°. 5 A वित्थरेण.

[३] १ इन्द्रियाणां सुखेच्छया. २ सीता.

[४] १ प्रिया कोकिला च, २ चन्द्रमुखी. ३ पउलोमीभिः (?). ४ इन्द्राणी.

तहिँ पळ्ळें चडेंवि रज्जेसरि
 'अहों दहमुह दहवयण दसाणण
 अहों तइलोक-चक-चूडामणि
 वीसपाणि गिसियर-गरकेसरि
 पर-गरवर-पायार-पलोदृण
 जइयहुँ भिडिउ रणङ्गणें इन्दहों
 तहिँ वि कालें पइँ दुक्खु ण णायँउ
 भणइ पडीवउ गिसियर-णाहो

तो हउँ कहमि तउ
 एत्तिउ डाहु पर

तं गिसुणेवि वयणु ससिवयणएँ
 'अहों दहगीव जीव-संतावण
 किं जगें अयस-पडहु अप्फालहि
 किं णारइयहों णरएँ ण वीहहि
 जिणवर-सासणें पञ्च विरुद्धइँ
 पहिलउ वहु छज्जीव-णिकायहुँ
 तइयउ जं पर-दवु लइजइ
 पञ्चमु णउ पमाणु घरवारहों

पर-लोएँ वि ण सुहु
 सुन्दर होइ ण तिय

पुणु पुणु पिहुल-णियम्व कियोयरि
 'जं सुहु कालकूडु विसु खन्तहुँ

[५]

पभणिय लक्कापुर-परमेसरि ॥ १
 अहों दससिर दसास सिय-माणण ॥ २
 वइरि-महीहर-खर-वजासणि ॥ ३
 सुर-मिग-वारण दारण-अंरि-कंरि ॥ ४
 दुहम-दारणव-वल-दलवदृण ॥ ५
 जाउ कुल-क्खउ सज्जण-विन्दहों ॥ ६
 जिह खर-दूसण-मरणें जायउ' ॥ ७
 'सुन्दरि जइ ण करइ अवरहो ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णउ खर-दूसण-दुक्खु-च्छइँ ।
 'जं मइँ वइदेहि ण इच्छइँ' ॥ ९

[६]

पुणु वि हसेवि वुत्तु मिगणयणएँ ॥ १
 एउ अजुत्तु वुत्तु पइँ रावण ॥ २
 उभयं विसुद्ध वंस किं मइलहि ॥ ३
 पर-धणुं पर-कलत्तु जं ईहहि ॥ ४
 दुग्गइ जाइ णिन्ति अविमुद्धइँ ॥ ५
 वीयउ गम्मइ मिच्छावायहुँ ॥ ६
 चउथउ पर-कलत्तु सेविजइ ॥ ७
 आर्यहिँ गम्मइ भव-संसारहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इह-लोएँ वि अयस-पडाइय ।
 एर्यं-वेसें जमउरि आइय' ॥ ९

[७]

भणइ हियत्तणेण मन्दोयरि ॥ १
 जं सुहु पलयाणलु पइसन्तहुँ ॥ २

5. 1 PS पभणिउ. 2 P करिअरि. 3 PS पवभार°. 4 A वइरिदल°. 5 P णाहउं.
 6 P जायउं. 7 S दुक्ख. 8 A चिउय. 9 A एत्तिउउ. 10 PS जं. 11 A इच्छिय.

6. 1 A वीव°. 2 PS उहय. 3 PS हणु. 4 A अविमुद्धइ. 5 PS भायहो. 6 S इय°.

अं सुहु भव-संसारें भमन्तहुँ
 जं सुहु जम-सप्तसणु पेच्छन्तहुँ
 अं सुहु पलयाणल-मुह-कन्दरें
 जं सुहु फणि-माणिक्कु खुडन्तहुँ
 १ जाणन्तो वि तो वि जइ वञ्छहि
 तउ पासिउ किं कोइ वि वलियउ

जं जसु आवडइ
 जइ वि असुन्दरउ

॥
 तं गिसुणेवि वयणु दहवयणें
 'जइयहुँ गयउ आसि अचलिन्दहों
 तइयहुँ दिट्ठु एक्कु मइँ मुणिवरु
 तासु पासेँ वउ लइउ ण भञ्जमि
 ॥ अह्वइ एण काइँ मन्दोअरि
 जइ मग्गहि धणु धणु सुवण्णउ
 जइ आरुहहि तुरङ्ग-गइन्देहिँ
 जइ मग्गहि णिकण्टउ रञ्जु

॥ सयलन्तेउरहों
 तो वरिँ जाणइहें

॥ तं गिसुणेवि वयणु दहवयणहों
 'हो हो सवु लोउ जगें दूहउ
 ॥ सुरकरि-अहिसिञ्चिय-सिय-सेविहें
 एव 'वि करमि तुहारउ वुत्तउ
 ए आलाव परोप्परु जावेहिँ

7. 1 A पवतहुँ. 2 A लहिँ.

8. 1 B A सुवण्णउं. 2 P S संपन्नउ, A संपण्णउं. 3 S वण्ण-वेदिहिँ. 4 A जीवें. 5 P S इच्छवि. 6 A परि. 7 S जाणइहिँ.

9. 1 A को. 2 S मि. 3 P करउ. 4 S श्यणिहिँ. 5 A गय.

[७] १ पर-नी सीता.

[९] १ काम-नगरीव.

अं सुहु णारइयहुँ णिवसन्तहुँ ॥ ३
 जं सुहु असि-पञ्जरें अञ्छन्तहुँ ॥ ४
 जं सुहु पञ्चाणण-दाढन्तरें ॥ ५
 तं सुहु एह णारि भुञ्जन्तहुँ ॥ ६
 तो कजेण केण मइँ पुच्छहि ॥ ७
 जेण पुरन्दरो वि पडिखलियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहों 'तं अणुराउ ण भज्जइ ।
 जं पहु करेइ तं छज्जइ' ॥ ९

[८]

पभणिय णारि विरिलिय-णयणें ॥ १
 वन्दण-हत्तिणें परम-जिणिन्दहों ॥ २
 णाउँ अणन्तवीरु परमेसरु ॥ ३
 मण्डएँ पर-कलत्तु णउ भुञ्जमि ॥ ४
 जइ णन्दन्ति णियहि लङ्काउरि ॥ ५
 राउलु रिद्धि-विद्धि-संपण्णउ ॥ ६
 जइ वन्दिज्जइ वन्दिण-वन्देहिँ ॥ ७
 जइ किर मइँ वि जिर्यन्तेण कञ्जु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जइ ईच्छहि णउ रण्डत्तणु ।
 मन्दोयरि करेँ दूअत्तणु' ॥ ९

[९]

पभणिय मन्दोयरि 'पुरि मयणहों ॥ १
 पइँ मेलेविणु अणु ण सूहउ ॥ २
 जो आपसु देहि महएविहें ॥ ३
 पहु-छन्देण अजुत्तु वि जुत्तउ' ॥ ४
 रयणिहें चउ पहरा हय तावेहिँ ॥ ५

क० ९, ९-९; १०, १-९; ११, १-७]

अरुण्यगर्भे अचन्त-किसोयरि
सहुँ अन्तेउरेण उद्धूसिय
वषु गिषाणरवणु संपाइय

वे वि मणोहरिउ
दाहिण-उत्तरेण

राम-घरिणि अं दिट्ठु किसोयरि
'अहिणव-गारि-रयणु अवइण्णउ
सुरहुँ मि कामुक्कोर्यण-गारउ
साहु साहु 'णिउणोऽसि पयावइ
अह किं वित्थरेण बहु-बोळ्ळएँ
कवणु गहणु तो लङ्का-राएँ'
पिय-वयणेहिँ दसाणण-पत्तिँ
'किं बहु-जम्पिण परमेसरि

सुरवर-डमर-करु
काइँ ण अत्थि तँउ

इन्दइ-भाणुकण्ण-घणवाहण
जं चलणेहिँ धिवहि आरुसेवि
अण्णु वि सयलु एउ अन्तेउरु
अट्टारह सहास वर-विलयहुँ
आयहुँ सबहुँ तुहुँ परमेसरि
रावणु मुएँवि अण्णु को चङ्गउ
रावणु मुएँवि अण्णु को सूरउ

6 A °उत्तरउ.

10. 1 A अहिणउं. 2 P अवइण्णउं. 3 A उत्पण्णउं. 4 P S सुरह, A सुरहुँ. 5 A कामेळ.
6 P S मणु. 7 P S जसु आणवडिच्छिउ.

11. 1 P S °कण्णु घणवाहणु. 2 P S °विहीसणु.

२ अवलोकिता.

[१०] १ उत्पादनशीला. २ दक्षः. ३ तव.

स० प० ब० २१

उज्झाकण्डं-एकचालीसमो संधि [१६१

सीयहेँ दूई गय मन्दोयरि ॥ ६
गणियारि व गणियारि-विहूसिय ॥ ७
राहव-घरिणि तेत्थु' णिज्झाइय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रावण-रामहुँ पिय-गारिउ ।
णं दिस-गइन्द-गणियारिउ ॥ ९

[१०]

हरिसिय णिय-मणेण मन्दोयरि ॥ १
एउ ण जाणहुँ काहिँ उत्पण्णउ ॥ २
मुणि-मण-मोहणु णयण-पियारउ ॥ ३ 10
तुह विण्णाण-सत्ति को पावइ ॥ ४
सइँ कामो वि पडइ कांमिळ्ळएँ ॥ ५
एम पसंसेवि मणें अणुराएँ ॥ ६
बुच्चइ राम-घरिणि विहसन्तिँ ॥ ७
जीविउ एकु सहलु तउ सुन्दरि ॥ ८ 15

॥ घत्ता ॥

तइलोक-चक्र-संतावणु ।
'जेहेँ आणवडिच्छिउ रावणु' ॥ ९

[११]

अक्खय-मय-मारिच्च-विहीसणं ॥ १ 20
तं सीसेण लयन्ति असेस वि ॥ २
सालङ्कारु स-दोरु स-णेउरु ॥ ३
णिच्च-पसाहिय-सोहिय-तिलयहुँ ॥ ४
णीसावणु रज्जु करि सुन्दरि ॥ ५
रावणु मुएँवि कवणु तणु-अङ्गउ ॥ ६ 25
पर-वल-महणु कुलासा-पूरउ ॥ ७

रावणु मुएँवि अण्णु को वलियउ
 रावणु मुएँवि अण्णु को भल्लउ
 रावणु मुएँवि अण्णु को सूहउ

सुरवरं-णियरु जेण पडिखलियउ ॥ ८
 जो तिहुयणहों मल्लु एकल्लउ ॥ ९
 जं आपेक्खेँवि मयणु वि दूहउ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तहों लक्खेसरहों
 भुञ्जहि संयल महि

कुवलय-दल-दीहर-णयणहों ।
 महएवि होहि दहवयणहों' ॥ ११

[१२]

तं तहें कडुअ-वयणु आयण्णेंवि
 सील-वलेण वलिय णउ कम्पिय
 १० 'हलें हलें काइँ काइँ पइँ बुत्तउं
 किहँ दइयहों दूअत्तणु किज्जइ
 मञ्जुदु तुहुँ पर-पुरिस-पइँद्धी
 मत्थएँ पडउ वज्जु तहों जारहों
 सीयहें वयणु सुणेंवि मणें डोल्लिय
 १५ 'जइ महएवि-पट्टु ण पँडिच्छहि

रावणु जीविउ तिण-समु मण्णेंवि ॥ १
 रूसेँवि णिट्ठुरं वयण पजम्पिय ॥ २
 उत्तिम-णारिहें एउ ण जुत्तउ ॥ ३
 एण णाइँ महु हासउं दिज्जइ ॥ ४
 तें कज्जेँ महु देहि दुवुद्धि ॥ ५
 हउं पुणु भत्तिवन्त भत्तारहों' ॥ ६
 णिसियर-णाह-णारि पडिवोल्लिय ॥ ७
 जइ लक्खाहिउ कह वि' ण इँच्छहि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो कन्दन्ति पइँ
 अण्णु मुहुत्तएण

तिलु तिलु करवत्तेहिँ कप्पइ ।
 णिसियरहँ विहज्जेँवि अप्पइ' ॥ ९

[१३]

२० पुणुपुणुरुत्तेहिँ जणयहों धीयएँ
 'केत्तिउ वारवार वोल्लिज्जइ
 जइ वि अज्जु करवत्तेहिँ कप्पहों
 जइ वि वलन्तेँ हुआसणें 'मेल्लहों
 तो वि खलहों तहों दुक्किय-कम्महों
 २५ एक्कु जि णिय-भत्तारु पहुच्चइ
 जो असुरा-सुर-जण-मण-वल्लहु
 जो णरवर-मइन्दु भीसावणु

णिब्भच्छिय मन्दोवरि सीयएँ ॥ १
 जं चिन्तिउ मणेण तं किज्जइ ॥ २
 जइ वि धरेँवि सिवँ-साणहों अप्पहों ॥ ३
 जइ वि महगय-दन्तेँहिँ पेल्लहों ॥ ४
 पर-पुरिसहों णिवित्ति इह जम्महों ॥ ५
 जो जय-लच्छिँएँ खणु वि ण मुच्चइ ॥ ६
 तुम्हारिसहुँ कुणारिहिँ दुल्लहु ॥ ७
 'धणु-लँङ्गल-लील-दरिसावणु ॥ ८

३ P S सुरवरु. ४ P A सूहउं. ५ P अपेक्खेवि, S अपिक्खवि.

१२. १ A °र वयणु. २ P बुत्तउं. ३ P S किं. ४ A हासउं. ५ P S मण. ६ P पडिच्छिउं,
 S पडिच्छिउ. ७ P S व. ८ P S इच्छिउ.

१३. १ P S वोल्लिज्जइ. २ P कप्पहुं. ३ A °साणहिं. ४ P S वल्लहो. ५ A °मइन्द°. ६ A °णंगल°.

[११] १ समस्त-राज्यं निःकंटकं.

[१३] १ राम-घनु=सिंह-पुच्छ.

सर-णहरारुणेण
दहमुह-भत्त-गउ

रामण-रामचन्द-रमणीयहुँ
ताव दसाणणु सयमेवाइउ
भसलु व गन्ध-लुद्धु विहडप्फडु
करयल धुणइ झुणइ वुक्कारइ
'विण्णत्तिएँ पसाउ परमेसरि
किं सोहग्गे भोग्गे ऊणउ
किं लावण्णे वण्णे हीणउ
कहँ कज्जेण केणं ण समिच्छहि

राहव-गेहिणिएँ
'ओसरु दहवयण

जाणन्तो वि तो वि मं मुज्झहि
जाम ण अयस-पडहु उब्भासइ
जाम ण लक्खण-सीहु विरुज्झइ
जाम ण सरवरं-धोरणि सन्धइ
जाव ण वियड-उरत्थलु भिन्दइ
सरवरें हंसु जेम दल-विमलइँ
जाम ण गिद्ध-पन्ति णिर्घट्टइ
जाम ण दरिसावइ धय-चिन्धइँ

7 P दहमुहुँ, S दहमुहु.

14. 1 P S °रमणीयहो. 2 P °सीहहो, S °सीयहो. 3 P S लुद्धंघु. 4 A वंकारइ. 5 P S खेइ. 6 P वेणिण विए, S विणिणविए. 7 P S किउ. 8 P हीणउ, S हीणउ, A ऊणउ. 9 P रूपं, S रूपं. 10 P S विहूणउ. 11 P S लायण्णे. 12 P हीणउ. 13 P S दीणउ. 14 S जेण. 15 P S °राणउ. 16 P अन्हइ जणसमाणउ.

15. 1 P जगे भासइ, S जगि भासइ. 2 P S लक्खणु. 3 P S विहज्झइ. 4 P, S, reverse the pādas of line 4. 5 P S सरधोरणिवर. 6 A निव्वत्तइ. 7 A भावत्तइ.

[१४] १ तटे.

॥ घत्ता ॥

धणुवेय-ललाविय-जीहँ ।
फाडेवउ राहव-सीहँ' ॥ ९

[१४]

जाम वोळ मन्दोवरि-सीयहुँ ॥ १
हत्थि व गङ्गा-वेणि पराइउ ॥ २
जाणइ-वयण-कमल-रस-लम्पडु ॥ ३
खेडुँ करेवि देवि पच्चारइ ॥ ४
हउँ कवणेण हीणु सुर-सुन्दरि ॥ ५
किं विरुयउ किं अत्थ-विहूणउ ॥ ६
किं संमाणे दाणे रणे दीणउँ ॥ ७
जेँ महएवि-पट्टु ण पडिच्छहि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिब्भच्छिउ णिसियर-राणउ ।
तुहुँ अँम्हहुँ जणय-समाणउ ॥ ९

[१५]

गेण्हेवि पर-कलत्तु कहिँ सुज्झहि ॥ १
जाम ण लक्काणयरि विणासइ ॥ २
जाम ण राम-कियन्तु विवुँज्झइ ॥ ३
जाम ण तोणा-जुअलु णिवन्धइ ॥ ४
जाव ण वाहु-दण्ड तउ छिन्दइ ॥ ५
जाव ण तोडइ दस-सिर-कमलइँ ॥ ६
जाम ण णिसियर-वलु आवट्टइ ॥ ७
जाम ण रणे णच्चन्ति कवन्धइँ ॥ ८

जाम ण आहयणें
ताव णराहिवइ

- ६ तं णिसुणेंवि आरुहु दसाणणु
कोवाणल-पलित्तु लङ्केसरु
'किं जम-सासण-पन्थें लायमि
अवसें भय-वसेण इच्छेसइ
ताहिँ अवसरें स-तुरङ्गु स-रहवरु
१० आय रंत्ति णाणाविह-रुवेहिँ
खर-साणउल-विराल-सियालेंहिँ
रक्खस-सीह-वघ-गय-गण्डेंहिँ
तं उवसग्गु णिएवि भयावणु
घोरु रउहु झाणु संचूरेंवि

१०

'जाव ण णीसरिय
ताव णिवित्ति महु

- १५ 'पहय पओस पणासेंवि णिग्गय
२० णिसियेरि व गय 'घोणावङ्किय
सूर-भएण णाई रणु मेळ्ळेवि
दीवा पज्जलन्ति जे सयणेंहिँ
उट्टिउ रवि अरविन्दाणन्दउ
णं सञ्जाणें तिलउ दरिसाविउ
२५ णं मग्गीस देन्तु वल-पत्तिहें
णं जग-भवणहें वोहिउ दीवउ

॥ वत्ता ॥

कप्पिज्जहि वर-णारायहिँ ।
पडु राहवचन्दहें पाँयहिँ ॥ ९

[१६]

णं घणें गंजमाणें पञ्चाणणु ॥ १
चिन्तइ विजाहर-परमेसरु ॥ २
'किं उवसग्गु किं पि दरिसावमि ॥ ३
महु मयणग्गि समुल्हावेसइ' ॥ ४
गउ अत्थवणहें ताम दिवायरु ॥ ५
अट्टहास मेळन्तेंहिँ भूएँहिँ ॥ ६
वहु-चामुण्ड-रुण्ड-वेयालेंहिँ ॥ ७
मेस-महिस-वस-तुरय-णिसण्डेंहिँ ॥ ८
तो वि ण सीयहें सरणु दसाणणु ॥ ९
थिय मणें धम्म-झाणु 'आऊरेंवि ॥ १०

॥ वत्ता ॥

उवसग्ग-भयहें गम्भीरहें ।
चउविह-आहार-सरीरहें ॥ ११

[१७]

हत्थि-हड व सूर-पहराहय ॥ १
भंग-मडप्फर माण-कलङ्किय ॥ २
पइसइ णयरु क्वाडइँ पेळ्ळेवि ॥ ३
णं णिसि वलेंवि णिहालइ णयणेंहिँ ॥ ४
णं महि-कामिणि-केरउ अन्दउ ॥ ५
णं सुकइहें जस-पुञ्जु पहाविउ ॥ ६
पँच्छलें णाई पघाइउ रंत्तिहें ॥ ७
णाई पुणु वि पुणु सो जें पडीवउ ॥ ८

8 P कप्पजहि, S कप्पजइ, A कप्पिजहिँ. 9 A विजाहिवइ. 10 A पाएहिँ.

16. 1 A घण. 2 PS गजमाण. 3 P कोहाणल°. 4 A विजाहर. 5 A णं. 6 A डुकु.
7 A संघ. 8 A खरमंडलवेराल°. 9 A omits °वस.°

17. 1 P णिसिअर, S णिसियरो. 2 PS भग्गु मडप्फर. 3 PS °यरविंदा°. 4 PS किउ
आणंदउ, A °केरउ अदउ. 5 P वि तिलउ. 6 PS जसु. 7 S °पत्तिहिँ. 8 P पँच्छए. 9 S रंत्तिहिँ.

[१६] १ पूरयिस्वा.

[१७] १ प्रथम-प्रहर-संध्या प्रत्युष-प्रहता; सूर्य-उदयः, प्रभात-संध्या. २ मञ्जुसाटि(ठि)ता.

॥ घत्ता ॥

तिहुअण-रक्खसहों
उवरें पईसरेंवि

दारेंवि दिसि-वहु-मुह-कन्दरु ।
णं सीय गवेसइ दिणयरु ॥ ९

[१८]

रयणिहें तिमिरे-णियर-रँए भग्गए
मय-मारिच्च-विहीसण-राणा
खर-दूसण-सोएण 'णयाणण
णिय-णिय-आसणेहिं थिय अविचल
मन्ति-महल्लएहिं एत्थन्तरे
भणइ विहीसणु 'एहु को रोवइ
णावइ पर-कलत्तु विच्छोइउ'
'मच्छुइ एउं कम्म तुह केरउ
तं णिसुणेवि सीय आसासिय
'एहु दुज्जणहों मज्जे को सज्जणु

णिव रावणहों आय ओलगगए ॥ १
अवरें वि भुवणेक्केक-पहाणा ॥ २
णं णिक्केसर वर पञ्चाणण ॥ ३
भग्ग-विसाण णाई वर मयगल ॥ ४
णिसुणिय सीय रुअन्ति पडन्तरे ॥ ५
वारवार अप्पाणउ सोअइ ॥ ६
पुणु दहवयणहों वयणु पजोइउ ॥ ७
अण्णहों कासु चित्तु विवरेरउ' ॥ ८
कलयण्ठि व पिय-वयणेहिं भासिय ॥ ९
णिम्ब-वणहों अब्भन्तरे चन्दणु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

विहुरें समावडिँए
जो मँइ धीरवइ

एहु को साहम्मिय-वच्छलु ।
एवइ कासु स इँ भु व-वलु' ॥ ११

*

[४२. बायालीसमो संधि]

पुणु वि विहीसणेण
तेत्थु 'पडन्तरेण

दुब्बयणेहिं रावणु दोच्छइ ।
आसणणउ होएवि' पुच्छइ ॥

[१]

'अक्खहि सुन्दरि वत्त णिभन्ती
कासु धीय कहि को तुम्हँ पइ'
'कवणु ससुरु कहि को तुह देवरु

कहिं आणिय तुहुँ एत्थु रुवन्ती ॥ १
अवखं वहन्तु विहीसणु जम्पइ ॥ २
अत्थि पत्तिद्धउ को तुह भायरु ॥ ३

18. 1 P 'तिमिरि', S तिमिरी. 2 A 'गए. 3 PS 'मारीचि'. 4 S अवर. 5 PS वणंतरे.
6 P A अप्पाणउ. 7 P एह, S एहु. 8 A महु.

1. 1 PS दुच्छइ. 2 A होएविणु. 3 PS णिरुत्ती, A निभन्ती. 4 PS कहि. 5 A द
जाणिय. 6 PS एण. 7 A तुरंती.

[१८] १ नताननाः.

[१] १ पटन्तरेण. २ चिन्तावान्.

सप्परिर्यण कहि तुहुँ एकल्ली
 १० कें कज्जेण वणवासु पइट्ठी
 किं माणुसि किं खेयर-णन्दिणी
 अण्णु वि कवणुँ तुम्ह देसन्तरु
 ११ एम विहीसण-वयणु सुणेविणु

अक्खहि केम वणन्तरेँ भुल्ली ॥ ४
 चक्केसरेँण केम तुहुँ दिट्ठी ॥ ५
 किं कुसील किं सीलहों भायणि ॥ ६
 कहहि वियारेँवि णियय-कहन्तरु' ॥ ७
 लग्ग केहेव्वएँ जिमँ णिसुणइ जेँणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘अह किं बहुएण
 हउँ सीयाएवि

लहुअ वहिणि भामण्डलहों ।
 जणयहों सुअ गेहिणि वलहों ॥ ९

[२]

११ वन्धेवि राय-पट्टु भरहेसहों
 सीहोयरहों मडप्फरु भञ्जेवि
 पुणु कल्लाणमाल मम्भीसेवि
 रुद्धभुत्तिं णिय-चलणोंहिँ पाडेँवि
 रामउरिहिँ चउँ मास वसेप्पिणु
 १२ फेडेँवि अईवीरहों वीरत्तणु
 तेत्थु वि पञ्च पंडिच्छेँवि सत्तिउ
 पुणु तहों तणिय धीय परिणेप्पिणु

तिण्णि वि संचल्लिय वणवासहों ॥ १
 'दसउर-णाहहों णिय-मणु रंज्जेवि ॥ २
 'णम्मय 'मेल्लेवि विञ्जु पईसेँवि ॥ ३
 वालिखिल्लु णिय-णयरहों धाडेँवि ॥ ४
 धरणीधरहों धीय परिणेप्पिणु ॥ ५
 पइसरेवि खेमञ्जलि-पट्टणु ॥ ६
 सत्तुदवणु मसि-वणुणु पवित्तिउँ ॥ ७
 मुणि-जुअलहों उवसग्गु हरेप्पिणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हरि-सीय-वलाइँ

आयइँ सेज्जइँ आयइँ ।

१३ णं मत्त-गयाइँ

दण्डारणु पराइयइँ ॥ ९

8 P S सहुँ परियणणेण. 9 P S सि. 10 P S किं. 11 P S सीलब्भायणि. 12 P S कहि तुम्हहं.
 13 P S सुणिवि विहीसणवयणु सुहावणु. 14 P S चविज्जइ, A कहेव्वइ. 15 P S जिह. 16
 After line 8 all the three Mss. read the following as the Ghattā:

दसरह-तव-कारणु सञ्चुद्धारणु वज्जयण्ण-सुमइहिँ भरिउ ।
 जिण-वर-गुण-कित्तणु सीय-सइत्तणु तं णिसुणहों राहव-चरिउ ॥

Now these lines occur previously. They have not much relevancy here. They are not spoken by Sitā. The lines that follow this distich are given as heading the following Kadāvaka, where they are quite out of place. Hence the above distich is a clear interpolation.

2. 1 P अंजवि, S भंजिवि. 2 P रंजवि, S रंजिवि. 3 A बोलेवि. 4 A रुद्धभुह्रिउ. 5 S ल्याणहो धारिवि. 6 P S रामाउरि. 7 A चाउमास. 8 A अइवीरहो वीरत्तणु. 9 P A पडिच्छिउ, S पडिच्छिउ. 10 S पवित्तउ, A पवित्तिउ corrects as पवित्तउ. 11 P S सज्जइ, A सेज्जइ. 12 P S जिह.

[२] १ वज्रकणस्य. २ नर्मदा-नदी. ३ भिल्ल-राजा.

[३]

तहिं मि कालें मुणि-गुत्त-सुंगुत्तहँ
वणें आहार-दाणु दरिसावेंवि
पक्खिहँ पक्ख सुवण्ण समारेंवि
अच्छहँ जाव तेत्थु वण-कीलएँ
पासु पटुक्खिय करिणि व करिणहों
वल-णारायणोहँ उवलक्खिय
गय खर-दूसणाहुँ कूवारेंहिँ

संजम-णियम-धम्म-संजुत्तहँ ॥ १
सुरवर-रयण-वरिसु वरिसावेंवि ॥ २
सम्बुकुमारु वीरु संघारेंवि ॥ ३
एक कुमारि आय णीय-लीलएँ ॥ ४
पुणु णिल्लज्ज भणइ "मइँ परिणहों" ॥ ५
पुणु थोवन्तरें जाय विलक्खिय ॥ ६
मिडिय ते वि सहँ समरें कुमारेंहिँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

किं मुक्कु ण मुक्कु
तं सहु सुणेवि

सीह-णाउ रणें लक्खणेण ।
रामु पधाइउ तक्खणेण ॥ ८

[४]

गउ लक्खणहों गवेसउ जावेंहिँ
अज्जु वि जण-मण-णयणाणन्दहों
लइउ णाउँ जं दसरह-जणयहुँ
षित्तु विहीसण-रायहों 'डोल्लिउ
'ते हँउँ आउ आसि विणिवाएँवि
हुक्कु पमाणहों मुणिवर-भासिउ
एवं वि करहि महारउ वुत्तउ
एक्कु विणासु अण्णु लज्जिज्जइ

हउँ अवहरिय 'णिसिन्दें तावेंहिँ ॥ १
पासु णेहु मइँ राहवचन्दहों" ॥ २
हरि-हलहर-भामण्डल-तणयहुँ ॥ ३
'तुम्हेंहिँ 'सुयउ' सुयउ जं वोळ्ळिउ ॥ ४
णवर जियन्ति 'भन्ति उप्पाएँवि ॥ ५
जिह"खउ लक्खण-रामहों 'पासिउ" ॥ ६
उत्तिम-पुरिसहुँ एउ ण जुत्तउ ॥ ७
धिद्धिक्कारु लोएँ पाविज्जइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिय-^०कित्तिहें राय
मं भज्जहि पाय

सायर-रसण-खलन्तियहें ।
तिहुँयणें परिसक्कन्तियहें ॥ ९

3. 1 P S ^०सुगुत्तहि. 2 P ^०संजुत्तेहिं, S ^०संजुत्तिहिं. 3 P S वण^०. 4 A तासु. 5 A लज्ज-
विहण. 6 P S ^०दूसणाहु, A दूसणहं. 7 A कूवारें. 8 A कुमारें. 9 P S मुक्कुउ

4. 1 P S मह, A महु. 2 P सुभउं सुभउं. 3 P S हउ, A तहेउ. 4 A एव्ववि, P एव वि
corrected as एव हि. 5 A अवरु. 6 S ^०कित्तिहिं. 7 P S भज्जहि. 8 P S तिहुँयण.

[४] १ राक्षसेन. २ विस्मितः चिन्तातुरोऽभूत्. ३ हे रावण, श्रुतं त्वया. ४ त्रिमीषणो (०ण उ^०)
वाच, पूर्वं ते दशरथ-जनकादीनां विनाशं कृत्वा अहं आगतः. ५ मम भ्रान्ति उत्पद्यते, ते नवरं जीवन्ति.
६ रावणस्य.

रावेण जे रमन्ति परदारइँ
जहिँ ते सत्त णरय भय-भीसण
हुहुहुहुहुहुहुँहन्त स-उपहव
१ रयणिँ-सकर-वालुय-पङ्क-प्पह
तहिँ असरालु कालु अच्छेवउ
तिणिण सत्त वीसद्ध रउहइँ
पुणु तेतीस-जलहि-परिमाणइँ
जो पुणु णरउ णिगोउ सुणिज्जइ
२ तें कज्जे पर-दारु ण रम्मइ

आरुहु दसासु
२ तिहुँ खण्डहुँ मञ्जे

११ तो अवहेरि करेवि विहीसणें
सीय वि पुप्फ-विमाणें चडाविय
संचल्लउ णिय-मण-परिओसें
'सुन्दरि पेक्खु महारउ पट्टणु
सुन्दरि पेक्खु पेक्खु चउ-वारइँ
२ सुन्दरि पेक्खु पेक्खु धय-छत्तइँ
सुन्दरि पेक्खु महारउ राउलु
सुन्दरि करहि महारउ वुत्तउ
सुन्दरि करि पसाउ लइ चेलिउँ

२२ महु जीविउ देहि
चडु गयवर-खन्धे

5. 1 PA रामण. 2 PA 'हसंहसंतहुभासण. 3 S 'हुहंति. 4 A वहु'. 5 PSA रयणी-सकर'. 6 S अच्छेवउ. 7 PS पहिलउ. 8 PS जिज्जइ. 9 PS सुहगइ. 10 PS दसाणणु. 11 PA तिहु, S तिह. 12 A पराई.

6. 1 PS संचल्लउ. 2 PA भवियारइ. 3 A 'गहण. 4 PS चेलउ. 5 A चीणउ. 6 P काह, S णाडु. 7 SA सुहावणउ.

[५]

दुक्खइँ ते पावन्ति अपारइँ ॥ १
हसहसहसहसहसन्त स-हुवासण ॥ २
सिमिसिमिसिमिसिमन्त-किमि-कइम ॥ ३
धूमप्पह-तमपह-तमतमपह ॥ ४
पहिल्लएँ उवहि-पमाणु जिवेवउ ॥ ५
सत्तारह चावीस समुहइँ ॥ ६
जहिँ दुक्खइँ गिरि-मेरु-समाणइँ ॥ ७
मेइणि जाव ताव तहिँ छिज्जइ ॥ ८
तं किज्जइ जं सुगइहिँ गम्मइ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'किं पर-दारहों एह किय ।
अक्खु पराईय कवण तिय' ॥ १०

[६]

चडिउ महग्गएँ तिजगविहूसणें ॥ १
पट्टणें हट्ट-सोह दरिसाविय ॥ २
झल्लरि-पडह-तूर-णिग्घोसें ॥ ३
वरुण-कुवेर-वीर-दलवट्टणु ॥ ४
णं कामिणि-वयणइँ स-वियारइँ ॥ ५
पप्फुल्लियइँ णाडुँ सयवत्तइँ ॥ ६
हीर-गहणु मणि-खम्भ-रमाउलु ॥ ७
लइ चूडउ कण्ठउ कडिसूत्तउ ॥ ८
'चीणउ लाडु घोडु हरिकेलिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वोल्लहि वयणु सुहावणउ ।
लइ महएवि-पसाहणउ' ॥ १०

[७]

सम्पद् दक्खवन्तु इय सेज्जएँ
 'केत्तिउं णियय-रिद्धिं महुं दावहि
 एउ जं रावण रज्जु तुहारउं
 एउ जं पट्टणु सोमु सुदंसणु
 एउ जं राउल्लु णयण-सुहङ्करु
 एउ जं दावहि खणें खणें जोषणु
 एउ जं कण्ठउ कडउ स-मेहलु
 रहवर-तुरय-गइन्द-सयाइ मिं

दोच्छिउ रावणु राहव-भज्जएँ ॥ १
 अप्पउ जणहों मज्जे दरिसावहि ॥ २
 तं महु तिण-समाणु हलुआरउ ॥ ३
 तं महु मणहों णाई जमसासणु ॥ ४
 तं महु णाई मसाणु भयङ्करु ॥ ५
 तं महु मणहों णाई विस-भोयणु ॥ ६
 सील-विट्ठणहं तं मलु केवलु ॥ ७
 आयहिं महु पुणु गणु ण काइ मिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सग्गेण वि काइं
 किं समलहणेण

जहिं चारित्तहों खण्डणउ ।
 महु पुणु सीलु जें मण्डणउ' ॥ ९

[८]

जिह जिह चिन्तिय आस ण पूरइ
 'विहि तेत्तडउ देइ जं विहियउं
 हउं कम्मणेण केण संखोहिउ
 धिधि अहिलसिय कुणारि विलीणी
 आयहें पासिउ जाउ सु-वेसउ
 एव विचित्तु चित्तु साहारेंवि
 सीयहें समउ खेडुं आमेळेंवि
 णरवर-विन्देहिं परिमिउ दहमुहु

तिह तिह रावणु हियएँ विसूरइ ॥ १
 किं वढ जाइ णिल्लडएँ लिहियउं ॥ २
 जाणन्तो वि तो वि जं मोहिउ ॥ ३
 वुण्ण-कुरङ्गि जेम मुह-दीणी ॥ ४
 महु घरें अत्थि अणेयउं वेसउ' ॥ ५
 दुक्खु दुक्खु मण-पसरुं णिवारेंवि ॥ ६
 तं गिवाणरमणु वणु मेळेंवि ॥ ७
 संचल्लिउ णिय-णयरिहें अहिमुहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गिरि दिट्ठु तिकूडु
 रवि-डिम्भहों दिणु

जण-मण-णयण-सुहावणुंउ ।
 णं महि-कुलवहुअएँ थणुंउ ॥ ९

7. 1 SA संपय. 2 PSA कित्तिउ. 3 P दरिसावहि, 4 PS जं दावहि.
 5 A तुहारउं. 6 PS विट्ठणेहिं. 7 A सयाइं. 8 PSA आयहि. 9 A काइं. 10 PA मण्डणउ.

8. 1 P विहियउं. 2 A वहु. 3 A निवालण. 4 P लिहियउं. 5 A कुमारि. 6 PS आयहो.
 7 PS अणेयसुवेसउ. 8 P सीयहे, 8 सीयहिं. 9 P खेइ, 8 पेडु. 10 SA वणउं. 11 PS
 विम्भहो. 12 A थणउं.

[९]

णं धरु धरहें गम्भु णीसरियउ
 पहिलउ वणु णामेण पडणउ
 वीयउ जण-मण-णयणाणन्दणु
 तइयउ वणु सुहसेउ सुहावउ
 चउथउ वणु णामेण समुच्चउ
 चारण-वणु पञ्चमउ रवणणउ
 छट्टउ वणु णामेण णिवोहउ
 सत्तमु वणु सीयलु सच्छायउ

११

तहिं गिरिवर-^{१६}पँट्टे
 थिय गयवर-खन्धे

॥ घत्ता ॥

सोहइ लङ्काणयरि किह ।
 गहिय-पसाहण बहुअ जिह ॥ ९

[१०]

ताव तेत्थु णिज्झाइय वांवि असोय-मालिणी
 हेमवण्ण स-पओहर मणहर णाँइ कामिणी ॥ १
 चउ-दुवार-चउ-गोउर-चउ-तोरण-रवणिया
 चम्पय-तिलय-वउल-णारङ्ग-लवङ्ग-छणिया ॥ २
 तहिं पएसे वइदेहि ठवेप्पिणु गउ दसाणणो
 सिज्जमाणु विरहेण विसंथुलु विमणु दुम्मणो ॥ ३
 मयण-वाण-जज्जरियउ जरिउं दुवार-वारओ
 दूइआउ आवन्ति जन्ति सयवार-वारओ ॥ ४
 वयणएहिं खर-महुरेहिं मुहु सुसइ विसुरए
 छोहें छोहें णिवडन्तए जूआरो व जूरए ॥ ५

२१

9. 1 P सत्तेहि, S सत्तिहि. 2 A पहिलउं. 3 PA पडणउं. 4 P हिअउं. 5 P विच्छि-
 णणउं, S विच्छिन्नउ, A विच्छिन्नउं. 6 P सुहावउं. 7 A °पिउ. 8 A पंचमउं. 9 S रवणणउं, A
 रवणउं. 10 PA संच्छणउं. 11 P सुसोहउं. 12 P पडमुजाणु, S पडमुजाणु. 13 P णामे, S
 णामे. 14 P विक्खायउं. 15 P मज्जे, S मज्झि.

10. 1 PS वाइ. 2 PSA णाइ. 3 PS सिज्जमाणु. 4 P दूमणो, S दूमणे. 5 P जरियउ.
 6 PS दुव्वारवारउ. 7 PS वारउ. 8 P वयणएहिं, S वयणेहि. 9 PS सुसइ विसुरइ. 10 P
 णिवडन्तिए, S णिवडन्तिइ.

सिरु धुणेई^१ कँर मोडइ अक्कु वलेइ कर्मपए
 अहरु लेवि णिज्जायइ कामसरेणं जर्मपए ॥ ६
 गाइ वाइ उवेहइ हरिस-विसाय दाविण
 वारवार मुच्छिज्जइ मरणावत्थ पावए ॥ ७
 चन्दणेण सिञ्चिज्जइ चन्दण-लेउं दिज्जए
 चांभरेहिं विज्जिज्जइ तो वि मणेण जिज्जए ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं रावणु एकु
 जिणं-धवलु मुएवि

जो जो गरुअइ गज्जियउ ।
 कामें को ण परजियउ ॥ ९

[११]

धिँए दसाणें विरह-भिम्भले
 'एत्थु मल्लु को कुइँए लक्खणे
 णिहउ सम्भु जें दूसणो खरो
 भणइ मन्ति सहसमइ-णामेणं
 लक्खणेण सह साहणेणं वा
 दुत्तरे दुसञ्चार-सायरे
 रावणस्स पवलं वलं महा
 किं मुएण दूसेणं सम्भुणा

जाय चिन्त वर-मन्ति-मण्डले ॥ १
 सिद्धु जासु असि-रयणु तक्खणे ॥ २
 होई कु-इ ण सावणु सो णरो' ॥ ३
 'कवणु गहणु एकेण रामेणं ॥ ४
 रह-तुरङ्ग-गय-वाहणेण वा ॥ ५
 कहिं पएसु विञ्ची-भयङ्करे ॥ ६
 अत्थि वीर एकेक दूसहा ॥ ७
 सायरो किमोहं, विन्दुणा' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेवि
 'किं बुच्चइ एकु

विहसेवि पञ्चामुहु भणइ ।
 जो एकु जें सहसइ हणइ ॥ ९

[१२]

अण्णुए णिसुअ वत्त मइँ एहिय
 जे जे णरवइ के-इ कइइय

रावण-मन्दिरे णीसन्देहिय ॥ १
 जम्बव-णल-सुग्गीवङ्गइय ॥ २

11 P S धुणेवि. 12 P S करु. 13 P S कंपइ. 14 P S °जरेण. 15 P कंपइ, S कंपइ.
 16 P S दावइ. 17 P S पावइ. 18 A °लेव. 19 P S दिज्जइ. 20 S चामरेण. 21 P S
 सिज्जइ. 22 P S गरुमइ, A गरुयइ. 23 P गज्जियउ. 24 P S जिण.

11. 1 P S A विच. 2 A हुइ ण काइ. 3 P कमणु. 4 A सारणेण. 5 A बीची. 6 P S
 किमो°, A किमो. 7 A पंचाउहु.

12. 1 P S रामण°. 2 P गिस्संदेहिय, S गिस्संदेहिय.

समड विराहिएण वण-सेवहुँ
 तं णिसुणेवि दसाणण-भिच्चें
 'एह अजुत्त वत्त पइँ अक्खिय
 का वि अणङ्गकुसुम वलवन्तहों
 १ तं किं माम-वइरु वीसरियड
 तो एत्थन्तरे भणइ विहीसणु
 एवहिँ सो उवाउ चिन्तिजइ
 एम भणेवि चउदिसु ताडिय

मिलिया वासुएव-वलएवहुँ ॥ ३
 बुच्चइ पञ्चामुँहु मारिच्चें ॥ ४
 रीवणु मुएँवि ण अण्णहों पक्खिय ॥ ५
 दिण्णी' खरेण घीय हणुँवन्तहों ॥ ६
 जें पडिवक्खेँ मिलइ भय-डरियड' ॥ ७
 'केत्तिड चँवहु वयणु सुण्णासणु ॥ ८
 लङ्का-णाहु जेण रक्खिजइ' ॥ ९
 पुरें आसालिय विज्ज भमाडिय ॥ १०

॥ घत्ता ॥

॥ तियसहु मि दुलङ्कु
 णीसङ्कु णिसिन्दु

दिहु माया-पायारु किड ।
 रज्जुँ स यं भु अन्तु थिड ॥ ११

*

अउज्झा-कण्डं समत्तं !

*

आइच्चुएवि-पडिमोवमाएँ
 वीअमउज्झा-कण्डं

आइच्चम्बिमाए (?) ।
 सयम्भु-घरिणीएँ लेहँवियं ॥

* *
 *

3 A पंचादहु. 4 S omits this pāda. 5 P S दिण्ण. 6 P हणुमंतहो. 7 S पडिवक्खे, A पडिवक्खेँ. 8 P S वयणु चवहु. 9 A आसाली. 10 A रज्जु सइ. 11 A. does not read this Gāthā. 12 P S अउज्झा, A अउझा. 13 P लेहँविअं, S लेहँवि.

कइराय-सयम्भुएव-किउ
पउमचरिउ

तईयं सुन्दरकण्डं

[४३. तियालीसमो संधि]

एहएँ अवसरें किक्किन्धपुरें णं गउ गयहों समाबडिउ ।
सुगगीबहों विड-सुगगीउ रणें तारा-कारणें अबिभडिउ ॥

[१]

पडिवक्खु जिणेवि ण सक्कियउ
णं हियवएँ सुलें सल्लियउ
सुगगीउ भमन्तु वणेण वणु
वलु दिट्ठु सयलु सर-जज्जरिउ
कथइ सन्दण सय-खण्ड किय
कथवि लोइविय हत्थि-हड
कथइ छिण्णइँ धय-चिन्धाइँ
कथइ रह-तुरय-गयाँसणइँ

विहाणउ माण-कलङ्कियउ ॥ १
माया-सुगगीवें 'घल्लियउ ॥ २
संपाइउ खर-दूसणहँ रणु ॥ ३
'तिलं-मेत्तु खुरुपेँहिँ कप्परिउ ॥ ४
कथइ तुरङ्ग णिजीव थिय ॥ ५
कथइ सउणेंहिँ खज्जन्ति भड ॥ ६
कथइ णच्चन्ति कवन्धाइँ ॥ ७
हिण्डन्ति समरें सुण्णासणंइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं तेहउ किक्किन्धेसरेंण
उम्मेट्टें लक्खण-गयवरेंण

भय-भीसावणु 'दिट्ठु' रणु ।
णं विद्धंसिउ कमल-वणु ॥ ९

[२]

रणु मीसणु जं जें णियच्छियउ
'इमु काइँ महन्तउ अच्चरिउ
तं वयणु सुणेंवि दूमिय-मणेंण
'कौं वि दसरहु तहों सुअ वेण्णि जण

खर-दूसण-परियणु पुच्छियउ ॥ १
वलु सयलु केण सर-जज्जरिउ' ॥ २
वुच्चइ खर-दूसण-परियणेण ॥ ३
वण-वासें पइट्ठु विसण्ण-मण ॥ ४

1. 1 A विहाणडं. 2 A °दूसणहो. 3 PS तिलु°. 4 PS °सणाइँ. 5 S omits these words.

2. 1 P एउ, S यड. 2 PS अच्चरिउ. 3 S कु. 4 PA दसरहो.

[१] १ निर्घोषितः. २ तिलमात्रं खण्डं खण्डं कृत्वा. ३ भासनानि. ।

सोमिति को वि चित्तेण थिरु
असि-रयणु लइउ 'तियसहुँ वलिउ
कूवारें गय खर-दूसणहुँ
अब्भिहँ ते वि सहुँ लक्खणेंण

तें सम्बुकुमारहों खुडिउ सिरु ॥ ५
चन्दणहिहें जोवणु दरमलिउ ॥ ६
अजयहुँ जय-लच्छि-विहूसणहुँ ॥ ७
तेण वि दोहँविय तक्खणेंण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

केण वि मणें अमरिस-कुद्धएँण हिय गेहिणि वणें राहवहों ।
पाडिउ जडाइ लगन्तु कुट्टे एत्तिउ कारण आहवहों ॥ ९

[३]

एहिय णिसुणेंवि संगाम-गइ
" 'किर पइसमि गम्पि जाहुँ सरणु
एहएँ अवसरें को संभरमि
तेण वि रिउ जिणेंवि ण सक्कियउ
किं अब्भत्थिज्जइ दहवयणु
अम्हइँ विणिवाएँवि वे वि जण
" खर-दूसण-देह-विमहणहुँ
चिन्तेविणु किक्किन्धाहिर्वेण
'तं गम्पि विराहिउ एम भणु
पिय-वयणेंहिँ दूउ विसज्जियउ
पायाल-लक्क-पुरें पइसरेंवि

चिन्ताविउ किक्किन्धाहिवइ ॥ १
किउ दइवें तहुँ मि णवर मरणु ॥ २
किं हणुअहों सरणु पइसरमि ॥ ३
पँचेह्लिउ हउँ णिरत्थु कियउ ॥ ४
णं णं तिय-लम्पडु लुद्ध-मणु ॥ ५
सहुँ रज्जे अप्पुणु लेइ धण ॥ ६
वरु सरणु जांमि रहु-णन्दणहुँ ॥ ७
हकारिउ मेहँणाउ णिवेण ॥ ८
बुच्चइ सुग्गीउ आउ सरणु ॥ ९
गउ मँच्छँर-माण-विवज्जियउ ॥ १०
तें बुत्तु विराहिउ जोक्करेंवि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

'सुग्गीउ सुत्तारा-कारणेंण विड-सुग्गीवें घल्लियउ ।
किं पइसरहु किं म पइसरउ तुम्हहँ सरणु सैमल्लियउ' ॥ १२

[४]

तं णिसुणेंवि हरिस-पसाहिएण
" 'हउँ धण्णउ जसु किक्किन्धराउ

'पइसरउ' पबुत्तु विराहिएण ॥ १
अहिमाणु मुएँप्पिणु पासु आउ' ॥ २

5 A वलिउं. 6 P S °दूसणाहु. 7 P S °विहूसणाहु. 8 P आब्भिह, S आमिह. 9 A सरसल्लिय.

3. 1 P S जाह गंपि. 2 P S णवर ताह मि. 3 P पक्कलिउ, S पक्कलिउ. 4 P अब्भत्थिज्जइ.

5 A अम्हहँ. 6 P °विमहणाहु, S °विमहणाहु. 7 P जाहु, S जाहुँ. 8 P S °चण्डणाहु. 9 P S हेमणाउ, A मेहनाउ. 10 P S मंथरगमण. 11 P S °पुरु. 12 S वि तारा. 13 A पइसउ किं व म पइसरउ. 14 P पइसउ corrected as पइसरउ, S पइसउ.

4. 1 P A धण्णउं. 2 P सुएँविणु.

[२] १ देवानाम्.

[३] १ खरदूसणानाम्. २ (P.'s. reading) उत्तालः. ३ समायातः.

संमाण्ड गड पल्लु दूड
तं तूरहँ सहु सुणेवि तेण
'सहुँ साहणेण कण्टइय-देहु
तं णिसुणेवि णयणाणन्दणेण
'सुगीव-वालि इय भाइ वे वि
एहु वि जिणेवि केण वि खलेण

पइसारिउ पहु आणन्दु हूड ॥ ३
सो बुत्तु विराहिउ राहवेण ॥ ४
आवन्तउ दीसइ कवणु एहु ॥ ५
बुच्चइ चन्दोयर-णन्दणेण ॥ ६
वड्डारउ गड पबज्ज लेवि ॥ ७
वण-वासहों घल्लिउ भुअ-वलेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वर-वाणर-धउ सूररय-सुउ तारा-वल्लहु विउलमइ ।
जो सुबइ कहि मि कहाणएँहिँ एँहु सो किक्किन्धाहिवइ' ॥ ९

[५]

स-विराहिय लक्खण-रामएव
तिणिण मि सुगीवें दिट्टु केम
चउ दिस-गय एकहँ मिलिय णाई
संमाणेवि पुच्छिय लक्खणेण
तं वयणु सुणेवि सबहुँ महन्तु
'वण-कीलएँ गड सुगगीउ जाम
थोवन्तरें वालि-कणिट्टु आउ
णउ जाणिउ विणिहँ मि कवणु राउ

बोल्लन्ति परोप्परु जाव एव ॥ १
आगमेण तिलोअ तिवाय जेम ॥ २
वइसारिय णरवइ जम्बवाइ ॥ ३
'तुम्हहँ अवहरिउ कलत्तु केण' ॥ ४
णंमियाणणु पभणइ जम्बवन्तु ॥ ५
थिउ पइसेँवि विडसुगीउ ताम ॥ ६
सामन्त-मन्ति-मण्डल-सहाउ ॥ ७
मणेँ विम्भउ सबहों जणहों जाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुगीव-जुअलु कोड्डावणउ पेक्खेँवि रहस-समुच्छलिउ ।
वलु अद्धउ सुगीवहों तणुँउ मायासुगीवहों मिलिउँ ॥ ९

[६]

एत्तहें वि सत्त-अक्खोहणीउ
थिउ साहणु अद्धोवद्धि होवि
मायासुगीवहों मिलिउँ अहु
'विहिँ सिमिरेँहिँ वे वि सहन्ति भाइ
एत्तहें वि बीरु विप्फुरिय-वयणु

एत्तहें वि सत्त अक्खोहणीउ ॥ १
अङ्गङ्गय विहडिय सुहड वे' वि ॥ २
अद्धउ सुगीवहों रणेँ अँभङ्गु ॥ ३
णिसि-दिवसेँहिँ चन्दाइच्च णाई ॥ ४
सुउ वालिहें णामेँ चन्दकिरणु ॥ ५

5. 1 P S अवहरिय. 2 P S णविआ'. 3 A वलि सुगीउ. 4 A विण्ह वि. 5 A कोड्डावणउं.
6 S A तणउं. 7 P मिलिअउ.

6. 1 P. A. omit this pāda. 2 S एत्तहि. 3 A होवि. 4 A मिलिउं. 5 A अँहंगु.
6 P S A विहि.

थिउ तारहें रक्खणु अभउ देवि
जुञ्जन्तु जिणेसइ जो जि अज्जु
विहिँ एक्कु वि णउ पइसारु लहइ
‘सच्चउ’ आहाणउ एहु आउ
‘असहन्त परोप्परु दुक्क वे वि

“जइ दुक्कहों तो महु मरहों वे वि ॥ ६
तहों सयलु स-तारउ देमिँ रज्जु” ॥ ७
णल-णीलहुँ पुणु सुग्गीउ कहइ ॥ ८
परयोरिउ जि धर-सामि जाउ” ॥ ९
णिय-णिय-करवालइँ करेहिँ लेवि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

किर जाम भिडन्ति भिडन्ति ण वि ताव णिवारिय वारएँहिँ ।
मुक्ककुसँ मत्त गइन्दं जिह ओसारिय कण्णारएँहिँ ॥ ११

[७]

“ ओसारिय जं पुरवर-जणेण
अण्णेक्क-दियहें जुञ्जन्ति जाम
“मरु मरु सुग्गीवहों मलिउ माणु”
“हणु हणु” भणन्तु हणुवन्तु पत्तु
“सुग्गीव माम मा मणेण मुज्झु
“जइ ण वि भज्जमि भुज्ज-दण्ड तासु
तं वयणु सुणोवि किक्किन्धराउ
ते भिडिय वे वि कण्टइय-देहं

थिय णयरहों उत्तर-दाहिणेण ॥ १
पवणञ्जय-णन्दणु कुविउ ताम ॥ २
सण्णद्धु सुहड-साहण-समाणु ॥ ३
पभणइ णिरु रहसुच्छलिय-गत्तु ॥ ४
विड-भडहों पडीवउ देहि जुञ्जु ॥ ५
तो ण होमि पुत्तु पवणञ्जयासु” ॥ ६
तहों उप्परि गलगज्जन्तु आउ ॥ ७
णवं-पाउसैं णं जल-भरिय-मेह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असि-चाव-चक्क-गय-मोगरोँहिँ जिह सक्किउ तिह जुञ्जियउ ।
“ हणुवन्तैं अण्णाणेण जिह अप्पउ परु वि ण वुज्जियउ ॥ ९

[८]

जं विहि मि मज्जेँ एक्कु वि ण णाउ
सुग्गीउ वि पाण लएवि णट्टु
किर पइसइ खर-दूसणहँ सरणु
“ तहिँ णिसुँणिय तुम्हहँ तणिय वत्त
तो वरि सुग्गीवहों करेँ ‘परित्त
जं हरि अब्भत्थियउ जम्बवेण

गउ वलेंवि पडीवउ पवणजाउ ॥ १
णं मयगलु केसरि-घाय-तट्टु ॥ २
किउ णवर कियन्तैं तहु मि मरणु ॥ ३
जिह चउँदह सहसेक्कहों समत्त ॥ ४
सरणाइउ रक्खहि परम-मित्त’ ॥ ५
सुग्गीउ वुत्तु पुणु राहवेण ॥ ६

7 P S कारणे; P marginally notes ‘रक्खणु’ पाठे. 8 A देवि. 9 P S सो लोयाहाणउ,
A आहाणउं. 10 P S परयारउ. 11 P घरे, S धरि. 12 P A मुक्ककुसु. 13 P S गहँदु.

7. 1 P S देहु. 2 P S णं णव. 3 P सजल मेह, S सजलमेहु.

8. 1 A सुग्गीवउ. 2 P णिसुणेवि, S णिसुणिवि. 3 P S चउँदह.

[८] १ दया रक्षा वा.

'तुहँ मइँ आसहँवि आउ पासु अक्खहि हउँ सरणउ जामि कासु ॥ ७
जिह तुहँ तिह हउ मि कलत्त-रहिउ वणें हिण्डमि काम-गहेण गहिउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुग्गीवें बुच्चइ 'देव सुणें कुसल-वत्त सीयहें तणिय ।
जइ णाणमि तो सत्तमएँ दिणें पइसमि 'सलहँ हुआसणिय' ॥ ९

[९]

जं जाणइ-केरउ लइउ णामु तं विरह-विसन्थुलु भणइ रामु ॥ १
'जइ आणहि कंन्तहें तणिय वत्त तो वयणु महारउ णिसुणि मित्त ॥ २
सत्तमएँ दिवसेँ एत्तडउ वुञ्जु करेँ लायमि ताराएवि तुञ्जु ॥ ३
भुञ्जावमि तं किक्किन्ध-णयरु दक्खवमि छत्त-धय-दण्ड-पवरु ॥ ४
अण्णु मि तुह केरउ हणामि सत्तु परिरक्खइ जइ वि कियन्त-मित्तु ॥ ५
वम्भाणु भाणु गंङ्गाहिसेउ अङ्गारउ ससहरु राहु केउ ॥ ६
बुहँ विहफइ सुक्कु सणिच्छरो वि जंमु वरुणु कुवेरु पुरन्दरो वि ॥ ७
एत्तिय मिलेवि रक्खन्ति जो' वि जीवन्तु ण छुट्टइ वइरि तो वि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जइ पइज ण पूरमि एत्तडिय जइ ण करमि सज्जणहँ दिहि ।
सत्तमएँ दिवसेँ सुग्गीव महु पत्तिय तो सण्णास-विहि' ॥ ९

[१०]

सीराउहु पइजारुदु जं जें संचल्लु असेसु वि सिमिरु तं जें ॥ १
संचल्लु विराहिउ दुण्णिवारु सुग्गीउ रामु लक्खण-कुमारु ॥ २
ते चलिय चयारि वि परम-मित्त णावइ कलि-काल-कयन्त-मित्त ॥ ३
णं चलिय चयारि वि दिस-गइन्द णं चलिय चयारि वि खय-समुह ॥ ४
णं चलिय चयारि वि सुर-णिकाय णं चलिय चवल चउविह कसाय ॥ ५
णं चलिय चयारि 'विरिञ्च-वेय उवदाण-दण्ड णं साम-भेय ॥ ६
अह वण्णिएण किं एत्तडेण णं चलिय चयारि वि अप्पणेण ॥ ७
थोवन्तरेँ तरल-तमाल-छण्णु जिण-धम्मु जेम सावय-रवण्णु ॥ ८

4 P A सरणउं. 5 P S सलस.

9. 1 A omits this pāṭha. 2 P कंतहो, S A कंतहिं. 3 A °पउरु. 4 P हणउ. 5 P A कियंतु. 6 P S बुह विफइ. 7 P S जम. 8 P S जइ.

10. 1 P णिकाय, S कषाय.

२ चित्तायाम्.

[९] १ ईश्वरः.

[१०] १ ब्रह्मणः वेद-चतुष्टय.

स० प० च० २३

॥ घत्ता ॥

सुग्गीवें रामें लक्खणेंण गिरि किक्किन्धु विहावियउ ।
पिहिमिँ उच्चाँएवि सिर-कमलु मउडु णाँइ दरिसावियउ ॥ ९

[११]

१ थोवन्तरेँ धण-कञ्चण-पउरु लक्खिज्जइ तं किक्किन्धणयरु ॥ १
णं गहयलु तारा-मण्डियउ णं कव्वु कइँद्वय-चञ्चियउ ॥ २
णं हणुअ-विहसियउ मुह-कमलु विहसिय सयवत्तु णाँइ स-णलु ॥ ३
णं गीलालङ्किय आहरणु णं कुन्द-पसाहिउ विउल-वणु ॥ ४
सुग्गीव-वन्तु णं हंस-सिरु णं ज्ञाणु मुणिन्दहुँ तणउ थिरु ॥ ५
११ माया-सुग्गीवें मोहियउ कुसलेण णाँइ कामिणि-हियउ ॥ ६
एत्थन्तरेँ वड्ढियँ-कलयलेंहिँ जम्बव-कुन्देन्दणील-णलेंहिँ ॥ ७
सोमित्ति-विराहिय-राहवेंहिँ सव्वेँहिँ णिव्वूढ-महाहवेंहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुग्गीवहों विहुरें समावडिँएँ बहु-संमाण-दान-मणेंहिँ ।
वेडिज्जइ तं किक्किन्धपुरु णं रवि-मण्डलु णव-घणेंहिँ ॥ ९

[१२]

वेडेप्पिणु पट्टणु णिरवसेसु पट्टविउ दूउ विड-भडहों पासु ॥ १
सुग्गीवें रामें लक्खणेंण सन्देसउ पेसियँ तक्खणेंण ॥ २
१२ किं बहुणा कहें परमत्थु तासु जिम भिडु जिम पाण लएवि णासु ॥ ३
तं वयणु सुणेंवि कप्पूरचन्दु संचलु णाँइ खयकाल-दण्डु ॥ ४
दुज्जउ माया-सुग्गीउ जेत्यु सह-मण्डवें दूउ पड्डु तेत्थु ॥ ५
जो पेसिय रामें लक्खणेंण सन्देसउ अक्खिय तक्खणेंण ॥ ६
१३ णउ णासइ अज्जु वि एउ कज्जु कंहों तणिय तार कंहों तणउ रज्जु ॥ ७
पहु पाण लएप्पिणु णासु णासु जीवन्तु ण छुट्टहि अवसु तासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सन्देसउ विड-सुग्गीव सुणें पुणरवि सुग्गीवहों तणउ ।
सहुँ सिर-कमलेण तुहारएँण रज्जु लएव्वउ अप्पणउ ॥ ९

11. 1 P अहद्वय°, S कयद्वय°. 2 P S मुणिंदहो. 3 SA तणउं. 4 A तं माया सुग्गेवे हियउ. 5 P S वड्ढिय°. 6 P S विराहिव°. 7 P S मणिहिँ, S माणेहिँ.

12. 1 P S विज्जइ. 2 A किं. 3 S कप्पूरचंडु. 4 A कहि. 5 A तणउं. 6 P S A तणउ. 7 A लएसइ अप्पणउं.

[११] १ चिबुको. २ सर-विशेष, अन्यत्र नाल.

[१३]

तं वयसु सुर्वेवि वयसुअडेण
आपसु दिणसु णिय-साहणहो
पावहो मुण्ढावहो सिर-कमलु
दूअहो दूअसणु दक्खवहो
पहु मन्तिहिं दुक्खु णिवारियउ
एत्तहो वि णरिन्दु ण संठियउ
सण्णहोवि स-साहणु णीसरिउ
पडिवक्ख-पक्ख-संक्खोहणिहिं

आरुहो दुहो विड-भडेण ॥ १
‘वित्थारहो मारहो आहणहो ॥ २
सहु णासें छिन्दहो भुअ-जुअलु ॥ ३
पाहुणंउ कयन्तहो पट्टवहो’ ॥ ४
सुगीव-दूउ गउ खारियउ ॥ ५
णिय-सन्दर्ण-वीहे परिट्टियउ ॥ ६
पच्चक्खु णाईं जमु अवयरिउ ॥ ७
णिग्गउ संत्तेहिं अक्खोहणिहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सुगीवहो रामहो लक्खणहो विड-सुगीउ गम्पि भिडिउ ।
हेमन्तहो गिम्भहो पाउसहो णं दुक्कालु समावडिउ ॥ ९

[१४]

अन्भिहइं वेण्णि मि साहणाईं
जिह मिहुणाईं तिह अणुरत्ताईं
जिह मिहुणाईं तिह कलयल-करंईं
जिह मिहुणाईं तिह डसियाहरंईं
जिह मिहुणाईं तिह जुज्झाउरंईं ॥ ५
जिह मिहुणाईं तिह अक्खुभडंईं
जिह मिहुणाईं तिह णिरु वेवियंईं
जिह मिहुणाईं तिह णिच्चेट्टियंईं

जिह मिहुणाईं तिह हरिसिय-मणाईं ॥ १
जिह मिहुणाईं तिह परं-त्ताईं ॥ २
जिह मिहुणाईं तिह मेळिय-सरंईं ॥ ३
जिह मिहुणाईं तिह सर-ज्जअरंईं ॥ ४
जिह मिहुणाईं तिह विहडप्फडंईं ॥ ६
जिह मिहुणाईं तिह पासेइयंईं ॥ ७
णिप्फन्दंईं जुज्झन्तंईं थियंईं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेहपे अघसरें विण्णि वि वलंईं ओसारियंईं महंलपेहिं ।
‘पर तुम्हेहिं खत्त-धम्मु संरेवि जुज्जेवउ एकलपेहिं’ ॥ ९

13. 1 P S विच्छारहो. 2 P S पाहुणहु, A पाहुणउं. 3 After line 4 P. s. read this extra pāda: जिम णावइ कालहो सिक्खवहो. 4 P संदणे पीठे, S संदणि पीठि. 5 A सच वि.

14. 1 P S आन्भिहइं. 2 P S पहरंताईं. 3 P S अणुरत्ताईं; पररत्ताइं noted marginally as a variant. 4 P. s. read the penultimate syllable of each of the remaining pādas as long. 5 P S महंतपेहिं. 6 A करेवि.

[१४] १ कम्पितानि.

[१५]

एत्थन्तरें सिमिरइँ परिहरेवि
 सुग्गीवें विडसुग्गीउ वुत्तु
 खल खुइ पिसुण तिह थाहि थाहि
 तं णिसुणेंवि विप्फुरियाणणेण
 'किं उत्तिम-पुरिसहुँ एहु मग्गु
 जुज्झन्तु ण लज्जहि तो वि धिट्ठ
 असहन्त परोप्परु वावरन्ति
 पुणु वाणेंहिँ पुणु तरु-गिरिवरेहिँ

खत्तिय खत्तेँ अच्चिइ वे वि ॥ १
 'जिह माया-कवडेँ रज्जु मुत्तु ॥ २
 कहिँ गम्मइ रहवरु वाहि वाहि' ॥ ३
 दोच्छिउ जलणुका-पहरणेण ॥ ४
 मणु असइहेँ जिह सय-चार भग्गु ॥ ५
 रणेँ पाडिउ पाडिउ लेहि' वेट्ठ' ॥ ६
 णं पलय-महाघण उत्थरन्ति ॥ ७
 करवालेंहिँ सूलेँहिँ मोग्गरेहिँ ॥ ८

10

॥ वत्ता ॥

मायासुग्गीवें कुद्धएँण लँउडि भमाडेँवि मुक्क किह ।
 सुग्गीवहों गम्पिणु सिर-कमलेँ महिहरेँ पडिय' चडकँ जिह ॥ ९

[१६]

पाडिउ सुग्गीउ गयासणिँ
 विणिवाइउ किर णिज्जीउ थिउ
 एत्तहें वि 'सु-तारहें पाण-पिउ
 वइदेहि-दइउ विण्णत्तु लहु
 राहवेंण वुत्तु 'हउँ किं करमि
 वेणिण मि समरङ्गणेँ अतुल-वल
 वेणिण मि विण्णाण-करण-कुसल
 वेणिण वि वियडुण्णय-वच्छयल

कुलपच्च णं वज्जासणिँ ॥ १
 रिउ-साहणेँ तूर-वमालु किउ ॥ २
 उच्चाएँवि रामहों पासु णिउ ॥ ३
 'पइँ होन्तेँ एहावत्थ महु' ॥ ४
 को मारमि को किर परिहरमि ॥ ५
 वेणिण मि दुज्जय विज्जहिँ पवल ॥ ६
 विणिण वि थिर-थोर-चाहु-जुअल ॥ ७
 वेणिण वि पप्फुल्लिय-मुह-कमल ॥ ८

॥ वत्ता ॥

सयलु वि सोहइ सुग्गीव तउ जं वोळहि अवमाणियँउ ।
 महु दिट्ठिँ कुल-वहुआएँ जिह खलुँ पर-पुरिसु ण जाणियँउ' ॥ ९

[१७]

मणु चीरेंवि सुग्गीवहों तणउ अवलोइउ धणुहरु अप्पणउ ॥ १
 सुँकलत्तु जेम सुपणामि[य]उ सुकलत्तु जेम आयामियँउ ॥ २

15. 1 P S सयवारु. 2 P S लेवि. 3 P S असहंति. 4 A 'गय'. 5 P S लवडि. 6 A चक.

16. 1 A सुतारा-पाणत्रिउ. 2 P S 'विजेहिँ. 3 P अचमाणिअडेँ, A अचमाणियडेँ. 4 P S कक. 5 A जाणियडेँ.

17. 1 A तणडेँ. 2 P S A अप्पणडेँ. 3 P. S. omit this pāda. 4 A जायामिडेँ.

क० १७, १-२, १८, १-२, १९, १]

सुन्दरकण्ठ-तियालीसमो संधि [१८१

सुकलत्तु जेम दिठ-गुण-घर्णड
सुकलत्तु जेम णिवूढ-भरु
सुकलत्तु जेम सइवरे गहिउ
तं वजावत्तु हँत्थे चडिउ
णं काले पलय-काले हसिउ
णं पडिय चडकं खडक-यले

सुकलत्तु जेम कोडावणउ ॥ ३
सुकलत्तु जेम पर-णिप्पसरु ॥ ४
घरे जणवहो जणय-सुअएँ सँहिउ ॥ ५
अप्फालिउ दिसहिँ णाँइँ रडिउँ ॥ ६
णं जुय-खएँ सायरेण रसिउ ॥ ७
भड कम्पिय विडसुग्गीव-वल्ले ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तं भीसणु चाव-सहु सुणेवि केलि व वाएं धरहरिय ।
पर-पुरिसु रमेप्पिणु असइ जिह विज्ज सरीरहो णीसरिय ॥ ९

[१८]

मायासुग्गीउ विसालियएँ
णं णिद्धणु मुक्कु विलासिणिएँ
णं सुरवइ परिसेसिउ सइएँ
णं मयण-राउ मेळ्ळिउ रइएँ
णं 'विसमणयणु 'हिमपवइएँ
णिय-विज्जएँ जं अवर्माणियउ
जं विहडिउ सुग्गीवहो तर्णउ
एकल्लउ पेक्खेवि वइरि थिउ

मेळ्ळिउ विज्जएँ वेयालियएँ ॥ १
णं वर-मयलञ्छणु रोहिणिएँ ॥ २
णं राहउ सीय-महासइएँ ॥ ३
णं पाव-पिण्डु सासय-गइएँ ॥ ४
धरणेन्दु णाँइँ पउमावइएँ ॥ ५
सहसगइ पयडु जणे जाणियउ ॥ ६
वल्लु मिलिउ पडीवउ अप्पणउ ॥ ७
वलएवेँ सर-सन्धाणु किउ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

खणे खणे अणवरय-गुणहिएँहि तिक्खेहिँ राम-सिलीमुहेहिँ ।
विणिभिण्णु कवडसुग्गीउ रणे पँच्चाहारु जेम बुहेहिँ ॥ ९

[१९]

रिउ णिवडिउ सरेँहिँ वियारियउ सुग्गीउ वि पुरेँ पइसारियउ ॥ १

5 S A °घणउं, 6 S A कोडावणउं, P कोडावणउ. 7 A. omits these pādas. 8 P सहिउं.
9 P S A हत्थि. 10 P S णाह, A नाह. 11 A रडिउं. 12 P S कालु.

18. 1 P विज्जालियएँ, S वियालियाएँ. 2 A सुक्कु. 3 P S °सइएँ and similarly penultimate इ in the following lines. 4 A अवर्माणियउं. 5 A जाणियउं. 6 S वणउं. 7 S A अप्पणउं. 8 P बुहिँ, S बुहयेण्णा.

[१७] १ परे प्रसर-रहिता यस्य (?). २ विद्युत् पर्वते.

[१८] १ ईश्वरः. २ गौर्या. ३ प्रत्याहारं यथा बुधैर्भेद्यते.

जय-मङ्गल-तूर-णिघोसु किड सहुँ तारएँ रज्जु करन्तु विड ॥ २
 एत्तहें वि रामु परितुड्ढ-मणु णिविसेण पराइड जिण-भवणु ॥ ३
 किय वन्दण सुह-गइ-गामियहों भावें चन्दप्पह-सामियहों ॥ ४
 'जय तुहुँ गइ तुहुँ मइ तुहुँ सरणु तुहुँ माय वप्पु तुहुँ वन्धु-जणु ॥ ५
 ' तुहुँ परम-पक्खु परमत्ति-हरु तुहुँ सब्बहुँ परहुँ पराहिपरु ॥ ६
 तुहुँ दंसणें णाणें चरित्तें थिड तुहुँ सयल-सुरासुरेहिँ णमिड ॥ ७
 सिद्धन्तें मन्तें तुहुँ वायरणें सज्जाएँ ज्ञाणें तुहुँ तव-चरणें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

" अरहन्तु बुद्धु तुहुँ हरि हरु वि तुहुँ अण्णाण-तमोह-रिड ।
 तुहुँ सुहुमु णिरञ्जणु परमपड तुहुँ रवि वैम्भु स य म्मु सिड' ॥ ९

*

[४४. चउयालीसमो संधि]

मणु जूरइ आस ण पूरइ खणु वि सहारणु णंड करइ ।
 सो लक्खणु रामाएसें घरु सुग्गीवहों पइसरइ ॥

[१]

" विडसुंगीवें समरें सरं-भिण्णएँ गएँ सत्तमएँ दिवसेँ वोलीणएँ ॥ १
 बुच्चु सुमित्ति-पुच्चु वलएवें 'भणु सुग्गीड गम्पि विणु खेवें ॥ २
 तं दिट्ठन्तु णिरुत्तड जायड सव्वहों सीयलु कज्जु परायड ॥ ३
 जं भुज्जाविड रज्जु स-तारड कालहों फेडिड वइरि तुहारड ॥ ४
 तं उवयारु किं पि जइ जाणहि कन्तहें तणिय वत्त तो आणहि' ॥ ५
 " गड सोमित्ति विसज्जिड रामें सरु पञ्चमडं मुक्कु णं कामें ॥ ६
 गिरि-किक्किन्ध-णयरु मोहन्तड कामिणि-जण-मण-संखोहन्तड ॥ ७
 जिह जिह घरु सुग्गीवहों पावइ तिह तिह जणु विहडप्फडु धावइ ॥ ८
 ण गणइ कण्ठड कडड गलिण्णंड णाईं कुमारें मोहणु दिण्णंड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

" किक्किन्ध-णराहिव-केरंड दिट्ठु पुरड पडिहारु किह ।
 थिड मोक्ख-धारें पडिकूलड जीवहों दुप्परिणामु जिह ॥ १० ॥

19. 1 P S °णिघोसु. 2 P S परमक्खरु परमंतिहरु. 3 P गुणे, s गुणि. 4 P वन्धु. 5 S विड.

1. 1 P S णवि. 2 A रामाएसएण. 3 A ध्रुवकं at the end. 4 P S A °सुग्गीव.
 5 A रण. 6 A सुग्गीड. 7 P A पंचमडं. 8 A गलिण्ड. 9 A दिण्णंड. 10 P केरंड.

‘कहें पडिहार गम्पि सुग्गीवहों
अच्छइ सो वण-वासैं भवन्तउ
जं तुह केरउ अवसरु सारिउ
तो बरि हउँ उवयारु समारमि
जं सदेसउ दिण्णु कुमारे
‘देव देव जो समरें अणिद्धिउ
आउ महवलु रामाएसैं
किं पइसरउ किं व मं पइसउ

[२]

जो परमेसरु जंम्बू-दीवहों ॥ १
अप्पुणु रज्जु करहि णिच्चिन्तउ ॥ २
चङ्गउ पउमणाहु उवयारिउ ॥ ३
विडसुग्गीउ जेम तिह ‘मारमि’ ॥ ४
गम्पिणु कहिय वत्त पडिहारें ॥ ५
अच्छइ लक्खणु वारें परिद्धिउ ॥ ६
जमु पच्छण्णु गाइँ णर-वेसैं ॥ ७
गम्पिणु वत्त काइँ तहों सीसउ’ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तं वयणु सुणेंवि सुग्गीवेंण
‘किं केण वि गाहा-लक्खणु

मुहु पडिहारहों जोइयउ ।
वारें महारएँ ढोइयउ ॥ ९

[३]

किं लक्खणु जं लक्ख-विसुद्धउ
किं लक्खणु जं पाइय-कवहों
किं लक्खणु जं छन्दें णिदिद्धउ
किं लक्खणु णर-णारी-अङ्गहुँ
पभणइ पुणु पडिहारु वियक्खणु
सो लक्खणु जो दसरह-णन्दणु
सो लक्खणु जो णिसियर-मारणु
सो लक्खणु जो राम-सहोयरु
सो लक्खणु जो णरवर-केसरि
दसरह-तणउ सुमिच्चिहें जायउ

किं लक्खणु जो गेय-णिवद्धउ ॥ १
किं लक्खणु वायरणहों सव्वहों ॥ २
किं लक्खणु जं भरहें गविद्धउ ॥ ३
किं लक्खणु मायङ्ग-तुरङ्गहुँ ॥ ४
‘एयँहुँ मज्जेँ ण एकु वि लक्खणु ॥ ५
सो लक्खणु जो पर-वल-मइणु ॥ ६
सम्बु-कुमार-वीर-संधारणु ॥ ७
सो लक्खणु जो सीयहें देवरु ॥ ८
सो लक्खणु जो खर-दूसण-अरि ॥ ९
रामें सहुँ वण-वासैंहों आयउ ॥ १०

॥ वत्ता ॥

अणुणिज्जउ देव पयत्तें
मं पन्थें पइँ पेसेसइ

जाव ण कुप्पइ णिय-मणेण ।
मायासुग्गीवहों तणेण’ ॥ ११

2. 1 P S कंबू. 2 P S रुअंतउ. 3 P वियारिउ, S वेयारिउ. 4 P पइ मारमि, S पइसारमि.
5 P S A महारइ.

3. 1 A छंदें विद्धउ. 2 P जायहुँ, S जायहु. 3 P S वासैं. 4 A अणुणिज्जइ. 5 P S णाह.

[२] १ (P.'s reading) यः सुग्गीवः समुद्रमध्ये कम्बू-नाम-द्वीपस्य स्वामी, कम्बू-नाम-द्वीप-
मध्ये किङ्किच-नाम-नगरः, तत्र राज्य-स्थितिः. २ रामचंद्रः. ३ (P.'s reading) प्रतारितः, वञ्चितः.

[३] १ मनी(ना)पनीयं.

तं णिसुणेवि वयणु पडिहारहो
 'एहु सो लक्खणु राम-कणिट्ठउ
 सीसु व गुरु-वयणोहिं उंम्मूढउ
 १ स-वल्लु स-पिण्डवासु स-कलत्तउ
 पभणिउ कल्लणु कियञ्जलि-हत्थउ
 तारा-णयण-सरोहिं जज्जरियउ
 अहो परमेसर पर-उवयारा
 जं पिय-वयणोहिं विणउ पयासिउ
 ११ 'अभउ वच्छ छुडु सीय गवेसहि

[४]

हियवउ मिण्णु कइइय-सोरहो ॥ १
 जासु आसि हउं सरणु पइट्ठउ ॥ २
 णोरवइ विणय-गइन्दारूढउ ॥ ३
 चलणोहिं पडिउ विसन्धुल-गत्तउ ॥ ४
 'हउं पाविट्ठु धिट्ठु' अकियत्थउ ॥ ५
 तुम्हारउ णाउं मि वीसरियउ ॥ ६
 एक-वार महु खमहि भडारा' ॥ ७
 णरवइ लक्खणेण आसासिउ ॥ ८
 लहु विज्जाहर दस-दिसि' पेसहि' ॥ ९

॥ वत्ता ॥

सोमिच्छिहो वयणु सुणेप्पिणु
 णं सायरु सँमयहो चुक्कउ

सुहउ-सहासेहिं परियरिउ ।
 किक्किन्धाहिउ णीसरिउ ॥ १०

[५]

१५ णराहिओ विसालयं
 थुओ तिलोय-सामिओ
 'जयट्ठ-कम्म-दारणां
 पसिद्ध-सिद्ध-सासणा
 कसाय-माय-वज्जिया
 २० मयट्ठ-दुट्ठ-मइणा
 थुओ एम णाहो
 महादेव-देवो
 ण छेओ ण मूलं
 ण कङ्काल-माला
 २५ ण गउरी ण गङ्गा
 ण पुत्तो ण कन्ता
 ण कामो ण कोहो
 ण माणं ण माया

पराइओ जिणालयं ॥ १
 अणन्त-सोक्ख-गामिओ ॥ २
 अणङ्ग-सङ्ग-वारणा ॥ ३
 तमोह-मोह-णासणा ॥ ४
 तिलोय-लोय-पुज्जिया ॥ ५
 तिसल्ल-वेल्लि-छिन्दणा' ॥ ६
 विहूई-सणाहो ॥ ७
 ण तुङ्गो ण छेओ ॥ ८
 ण चावं ण सूलं ॥ ९
 ण दिट्ठी कराला ॥ १०
 ण चन्दो ण णांगा ॥ ११
 ण डाहो ण चिन्ता ॥ १२
 ण लोहो ण मोहो ॥ १३
 ण सामण्णं-छाया ॥ १४

4. 1 S °रायहो. 2 A देव. 3 P णाउं वि, S णाउ वि. 4 A °दिसु.

5. 1 P S जो अट्ठ°. 2 P S °दारणो and similarly everywhere final °ओ up to line 6. 3 P थुइ corrected as थुउइ, A थुज. 4 P णंगा, S णगा. 5 A सावत्त°.

[४] १ सचेतो जातः. २ सुग्रीवः. ३ मर्यादायाः.

[५] १ सुग्रीवः. २ सर्पाः.

॥ घत्ता ॥

पणवेप्यिणु जिणवर-सामिउ सुह-गइ-गामिउ पइजारुहु णराहिवइ ।
'जइ सीयहें वत्त ण-याणीमि तुम्ह पराणमि तो वल महु सण्णास-गइ' ॥ १५

[६]

एवं भणेवि अणिट्टिय-वाहणु कोक्काविउ विज्जाहर-साहणु ॥ १
'जाहुं गवेसा जहिं आसङ्गहों जल-दुग्गइं थल-दुग्गइं लङ्गहों ॥ २
पइसेवि दीवें दीउ गवेसहों' गय अङ्गङ्गय उत्तर-देसहों ॥ ३
गवय-गवक्ख वे वि पुव्वद्धें णल-कुन्देन्द-णील पच्छंद्धें ॥ ४
दाहिणेण सुग्गीउ स-साहणु अण्णु वि जम्बवन्तु हरिसिय-मणु ॥ ५
चलिय विमाणारुहु महाइय णिविसें कम्बू-दीउ पराइय ॥ ६
ताव तेत्थु 'विज्जाहर-केरउ कम्पइ चलइ वलइ विवरेरउ ॥ ७
दीहर-दण्डु पवण-पंडिपेह्लिउ णं जस-पुञ्जु महण्णवे मेह्लिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'सो रौएं धउं धुवन्तउ दीसइ णयण-सुहावणउ ।
'लहु एहु एहु' हक्कारइ णाई हत्थु सीयहें तणीउ ॥ ९

[७]

'तेण वि दिट्ठु चिन्धु सुग्गीवहों उप्परि एन्तउ कम्बू-दीवहों ॥ १
चिन्तइ रयणकेसि 'लइ वुज्झिउ जेण समाणु आसि हउं जुज्झिउ ॥ २
सो तइलोक-चक्क-संतावणु मञ्जुहु आउ पडीवउ रावणु ॥ ३
कहिं णासमि कहों सरणु पटुक्कमि एयहों हउं जीवन्तु ण चुक्कमि' ॥ ४
दुक्खु दुक्खु साहारिउ णिय-मणु 'जइ सयमेव पराइउ रावणु ॥ ५
तो किं तासु महद्धए वाणरु णं णं दीसइ किक्किन्धेसरु' ॥ ६
तहिं अवसरें सुग्गीउ पराइउ णाई पुरन्दरु सग्गहों आइउ ॥ ७
'भो भो रयणकेसि किं भुलउ अच्छहि काई एत्थु एकलउ' ॥ ८

6 A आणमि. 7 P S पणारमि.

6. 1 P एवं भणिवि. 2 P जाहुं. 3 P आसंगहुं, S आसंगहु. 4 P लंगहुं, S लंगहु.
5 P S पइसिवि, A पेसिय. 6 P °एसहुं, S °एसहो. 7 P S णल कुंदेंदु णाल. 8 P पचद्धें.
9 P कम्बुदीउ, S कम्बुदीउ. 10 P परिपेह्लिउ. 11 A धूवंतउ. 12 S A °सुहावणउं. 13 P S सीयहिं. 14 A तणउं.

7. 1 P S मह. 2 P S एकलउ, A एकलउ.

[६] १ रावणेन हतस्य विद्याधरस्य. २ सुग्रीवः(?) . ३ रत्नकेशिना दृष्टः. ४ ध्वजा.

[७] १ रत्नकेशिना.

॥ घत्ता ॥

सुग्गीवहों वयणु सुणेपिणु
णव-पाउसैं सलिलें सित्तउ

हियवएँ हरिसु ण माँइयउ ।
विञ्जु जेम अप्पाईयउ ॥ ९

[८]

५ णिय कह कहहुँ लग्गु विज्जाहरु
'सामिहें जामि जाम ओलग्गएँ
ताहिँ कन्दन्ति सीय आयण्णोवि
हँउ वच्छत्थलें असिवर-घाएं
दुक्खु दुक्खु चेयणउ लहेपिणु
१० जिह जम्बन्धु दिसाउ विभुलउ
णिसुणेवि सीया-हरणु महागुणु
अण्णु वि तुट्टएण मण-भाँविणि

अतुल-मल्लु भामण्डल-किङ्करु ॥ १
दिट्ठु विमाणु ताम गयणग्गएँ ॥ २
धाइउ रावणु तिण-समु मण्णेवि ॥ ३
गिरि वं पलोट्टिउ वज्ज-णिहाएं ॥ ४
पाडिउ विज्जा-छेउ करेपिणु ॥ ५
अच्छमि तेण एत्थु एँकलउ' ॥ ६
उभय-करेहिँ उवग्गुहुँ पुणुपुणु ॥ ७
दिण्ण विज्ज तहों णहयल-गामिणि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१५ णिउ रयणकेसि सुग्गीवेण
जसु मण्डएँ णाँइँ हरेपिणु

जहिँ अच्छईँ वलु दुम्मणउ ।
आणिउ दहवयणहों तणँउ ॥ ९

[९]

विज्जाहर-कुल-भवण-पईवेँ
'देव देव तरु दुक्ख-महाणइ
तं णिसुणेवि वयणु वलहहें
२० 'भो भो वच्छ वच्छ दे साँइउ
एवं भणेवि तेण सब्वङ्गिउ
'कहें कहें केण कन्त उदालिय
तं णिसुणेवि चविउ विज्जाहरु
२५ 'देव देव कलुणइँ कन्दन्ती

रामहों वद्धाविउ सुग्गीवेँ ॥ १
सीयहें तणिय वत्त एँहुँ जाणइ' ॥ २
हसिउ स-विब्भमु कहकह-सदें ॥ ३
जीविउ णवर अज्जुँ आसाइउ' ॥ ४
णेह-महाभरेण आलिङ्गिउ ॥ ५
किं मुअ किं जीवन्ति णिहालिय' ॥ ६
णाँइँ जिणिन्दहों अग्गएँ गणहरु ॥ ७
हा लक्खण हा राम भणन्ती ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णौगिन्दि व गरुड-विहङ्गमेण
महु विज्जा-छेउ करेपिणु

सारङ्गि व पञ्चाणणेण ।
णिय वइदेहि दसाणणेण ॥ ९

३ P A माहउ. 4 P S °पाउस. 5 P अप्पाइउ.

8. 1 P S इव लोट्टिउ. 2 P एँकलउ, S एँकलउ. 3 P S उहयकरहिँ उवग्गुहुँ. 4 P पुणु
पुणु, S पुणु वि पुणु. 5 P अत्थु. 6 P S °भामिणि. 7 P S सुग्गीवेँ. 8 P S वलु अच्छइ. 9 S A
दुम्मणउ, 10 S A तणउ.

9. 1 P S यहु, A लहु. 2 P S मज्जु आसासिउ. 3 P एवं. 4 P अग्गइ, A अग्गइ

[८] १ हतः. २ आलिङ्गणं, अंकमाला दत्ता.

[९] १ आलिङ्गनम्. २ सर्पिणी इव गरुडपक्षिणा.

[१०]

तहिं तेहएँ वि कालें भय-मीयहें
पर-पुरिसैहिं णउ चित्तु लइज्जइ
तं णिसुणेंवि विज्जाहर-वुत्तउ
तहिं अवसरें जे गया गवेसा
पुच्छिय राहवेण 'वर-वीरहों
अहों णल-णीलहों गवय-गवक्खहों
जम्बउ कहहों लग्गु हँलहेइहें
जोयण-सयइँ सत्त १२'विहिं अन्तरु
लक्का-दीउ वि तेण पमाणें
तहिं तिकूडु णामेण महीहरु
णव तुङ्गत्तणेण तहों उप्परि

केण वि सीलु ण खण्डिउ सीयहें ॥ १
वाँलेहिं जिह वायरणु ण भिज्जइ' ॥ २
कण्ठउ दिण्णु कडँउ कडिसुत्तउ ॥ ३
आय पडीवा ते वि असेसा ॥ ४
जम्बव अङ्गङ्गय सोण्डीरहों ॥ ५
साँ 'किं दूरे लक्क महु अक्खहों' ॥ ६
'रक्खस-दीवहों सायर-वेइहें ॥ ७
तहि मि समुहु रउहु भयक्करु ॥ ८
कहिउ जिणिन्दें केवल-णाणें ॥ ९
जोयणाइँ पञ्चास स-वित्थरु ॥ १०
थिय जोयणें वत्तीस लक्काउरि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

एक्कु वि णरिन्दु णीसक्कउ
एक्कु वि केसरि दुप्पेक्खउ

अण्णु समुहें परियरिउ ।
अण्णु पडीवउ पक्खरिउ ॥ १२

[११]

जसु तइलोकं-चक्कु आसङ्कइ
राहव एण काइँ आलावें
पिण्डत्थणिउं लडह-लायण्णउ
गुणवइ हिययवम्म हिययावलि
चन्दकन्त सिरिकन्ताणुद्धरि
सहुँ जिणवइएँ रुवें-संपण्णउ
तं णिसुणेंवि बलएवें वुच्चइ' १३
जइ वि रम्भ अह होइ तिलोत्तिम

तेण समाणु भिडेंवि को सकइ ॥ १
काइँ व सीयहें तणेण पलावें ॥ २
लइ महु तणिर्यउं तेरह कण्णउ ॥ ३
सुरवइ पउमावँइ रयणावलि ॥ ४
चारुलच्छि मणवाहिणि सुन्दरि ॥ ५
परिणि भडारा एयउ कण्णैउ' ॥ ६
'आयहुँ मज्जेँ ण एक वि रुच्चइ ॥ ७
'सीयहें पासिउ अण्ण ण उत्तिम' ॥ ८

10. 1 S °भीयहिं. 2 S सीयहिं. 3 P वालेहि, S वालिहिं, A वालिहि. 4 A कडउं 5 P S अंगयवर. 6 P S सो. 7 P कें, A के. 8 P S दूर. 9 P S कहइ. 10 S हलहेइहिं. 11 A °च्छेयहे. 12 P S विहि. 13 S जोयणइँ तीस.

11. 1 P S तइलोकु. 2 P S आसंघइ. 3 P S °त्थणिय, A °त्थणिउं. 4 S A °लायण्णउं. 5 A °तणियउं. 6 A कण्णउं. 7 P S हिअवइ वम्महिआवलि. 8 P S पउमावलि. 9 P S चंदकंति. 10 A °ताणुंधरि. 11 P A रुउ संपण्णउं. 12 P कण्णउं. 13 After this P S read the following two esxtra pādas: तासु सुहडु (S. डु) जासु जं रुचइ, जं बल ए (S. ये). उ काइ पइ वुच्चइ. 14 P एयहं, S येयह. 15 P S एकु. 16 P S सीयहो.

[१०] १ रामस्य हलायुधस्य.

॥ घत्ता ॥

बलएवहों वयणु सुणेपिणु किक्किन्धाहिवेण हसिउ ।
 'किउँ रँसहों तणउँ कहाणउ भोयणु मुयँवि छाणु असिउ ॥ ९

[१२]

५ खणें खणें वोळहि णाई अयाणउ किं पई ण सुयँउ लोयाहाणउ ॥ १
 जइ वि किं पि अच्छरएँ ण किज्जइ तां किं माणुस-मेत्तें दिज्जइ ॥ २
 पूसमाणु जइ सीयहें पासिउ तो करेँ वयणु महारउ भासिउ ॥ ३
 वरिसें वरिसें तिहुवण-संतावणु जइ वि णेइ एक्केकी रावणु ॥ ४
 तो वि जन्ति तउ तेरह वरिसई जाई सुरिन्द-भोग-अणुसरिसई ॥ ५
 १० उप्परन्तेँ पुणु काइ मि होसइ तं णिसुणेवि वयणु वलु घोसइ ॥ ६
 'मइ मारेवउँ वइरि स-हत्थें लाएँवउ खर-दूसण-पन्थें ॥ ७
 तिर्यँ-परिहवु सबह मि गरूवउ णं तो पइ मि सई' जि अणुहअउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१० जो मइलिउ विहि-परिणामेण अयस-कलक्क-पक्क-मैलेँहिँ ।
 सो जस-पँडु पक्खालेवउ दहमुह-सीस-सिलायँलेँहिँ ॥ ९

[१३]

तं णिसुणेवि वुत्तु सुग्गीवें 'विग्गहु कवणु समउ दहगीवें ॥ १
 एक्कु कुरहुँ एक्कु अइरावउ पाहणु एक्कु एक्कु कुल-पावउ ॥ २
 एक्कु समुहुँ एक्कु कमलायर एक्कु भुअङ्गमु एक्कु खगेसरु ॥ ३
 २० एक्कु मणुसु एक्कु वि विज्जाहरु तहों तुम्हहुँ वडुगरउ अन्तरु ॥ ४
 जगें जस-पडहुँ जेण अप्फालिउ गिरि कइलासु करेँहिँ संचालिउ ॥ ५
 जेण महाहवें भग्गु पुरन्दरु जमु वइसवणु वरुणु वइसाणरु ॥ ६
 जेण समीरणो वि जिउ खत्तेँ कवणु गहणु तहों माणुस-मेत्तेँ ॥ ७
 हरि वयणेण तेण आरुहुउ णाई सणिच्छरु चित्तेँ दुट्टउ ॥ ८

२५

॥ घत्ता ॥

'अङ्गुल्लय-णाल-सुग्गीवहों वाहु-सहेज्जा होहु छुडु ।
 हँउँ लक्खणु एक्कु पहुच्चमि जो दहंगीवहों जीव-खुडु ॥ ९

17 P S किर. 18 P S तेण. 19 A तणउं कहाणउं.

12. 1 P A अयाणउं. 2 P सुउ, S उ. 3 P S A लोयाहाणउं. 4 A तो. 5 P S उवरसेँ,
 A उप्परति. 6 S मारेवउ. 7 S कायेवउ. 8 A निय°. 9 P गरुक्कउ, S गरुवउ. 10 A सयलु.
 11 P S मलेण. 12 P पँडु, S पँडु, A वडु. 13 S पक्खालेवउ. 14 P S सिलायलेण,
 A सिलायडेहिँ.

13. 1 S गहहो तं. 2 P S A हउ. 3 P S इहवयणहो.

[१४]

तं वयणु सुणैवि वयणुण्णएण
 'पेहुं होइ ण को वि' सावणु णरु
 जं चवइ सब्बु तं णिबहइ
 जो जीविउ सम्बुक्कहों हरइ
 सो रणे पहरन्तु केण धरिउ
 परमागमु णीसन्देहु थिउ
 आलिङ्गैवि वाहहिं जिह महिल
 सो होसइ मलु दसाणणहों

सुगीउ वुत्तु जम्बुण्णएण ॥ १
 सच्चउ पडिवक्ख-विणासयरु ॥ २
 को असिवरु सूरहासु लहइ ॥ ३
 जो खर-दूसण-कुल-खउ करइ ॥ ४
 खय-कालु दसासहों अवयरिउ ॥ ५
 केवलिहिं आसि आएसु किउ ॥ ६
 जो संचालेसइ कोडि-सिल ॥ ७
 सामिउ विज्जाहर-साहणहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जंम्बवहों वयणु णिसुणेपिणु
 'किं एकें पाहण-खण्डेण

धुणिउं कुमारें भुअ-जुअलु ।
 धरमि स-सायरु धरणि-यलु' ॥ ९

[१५]

तं णिसुणेवि वयणु परितुट्ठे
 'जं जं चवहि देव तं सच्चउ
 तो हउं भिञ्चु होमि हियइच्छिउ
 तं णिसुणेवि समर-दुसीलेहिं
 'जेण सरेंहिं खर-दूसण घाइय
 एम चवेवि चलिय विज्जाहर
 लक्खण-राम चडाविय जाणोंहिं
 कोडि-सिला-उदेसु परांइय

वुत्तु जणइणु वालि-कणिट्ठे ॥ १
 अणु वि एउ करहि जइ पच्चउ ॥ २
 सूरहों दिवसु व वेले पंडिच्छिउ' ॥ ३
 णरवइ वुज्झाविउ णल-णीलेहिं ॥ ४
 पत्तिय कोडि-सिल वि उच्चाइय' ॥ ५
 णव-कंक्काले णाई णव जलहर ॥ ६
 घण्टा-झुणि-झङ्कार-पहाणोंहिं ॥ ७
 सिद्धेहिं सिद्धि जेम णिज्झाइय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जा सयल-काल-हिण्डन्तहुं
 सा एवहिं लक्खण-रामहुं

हुअ वण-वासें परम्मुहिय ।
 णं थिय सिय सवडम्मुहिय ॥ ९

[१६]

लोयगहों सिव-सासय-सोक्खहों
 सा कोडि-सिल तेहिं परिअञ्चिय

जहिं मुणिवरहुं कोडि गय मोक्खहों ॥ १
 गन्ध-धूव-वलि-पुप्फेहिं अञ्चिय ॥ २

14. 1 P S पहु. 2 P S कुह सामण. 3 P S जो. 4 P S पइसंतु. 5 P णिस्संदेहु, S णिसंदेहु, A नीसंदेहु. 6 A सामिउं. 7 A धुणिउं.

15. 1 A वेले. 2 P S वडिच्छिउ. 3 P समरे, S समरि. 4 P S 'दुसीलेहिं. 5 P पत्तिय. 6 A पराइउ. 7 A निज्झाइउ.

दिण्ण स-सङ्ग पडह किउ कलयलु
 १६ जसु दुन्दुहि असोउ भामण्डलु
 'जे गय तिहुयणग्गु तं णिक्कलु
 जेहिँ अणहु भग्गु जिउ कलि-मलु
 १७ जो छज्जीव-णिकायहँ वच्छलु
 एम सु-मङ्गलु उच्चारेप्पिणु
 जय-जय-सहँ सिल संचालिय
 मुँक पडीवी करयल-ताडिय

घोसिउ चउ-पयारु जिण-मङ्गलु ॥ ३
 सो अरहन्तु देउ तउ मङ्गलु ॥ ४
 ते सिद्धवर देन्तु तउ मङ्गलु ॥ ५
 ते वर-साहु देन्तु तउ मङ्गलु ॥ ६
 सो दय-धम्मु देउ तउ मङ्गलु ॥ ७
 'सिद्धवरहुँ णवकारु करेप्पिणु ॥ ८
 रावण-रिद्धि णाई उहालिय ॥ ९
 दहमुह-हियय-गण्ठि णं फाडिय ॥ १०

॥ घत्ता ॥

१८ परितुट्ठे सुरवर-लोएण
 पम्मुक्कु सँ इं भु व-दण्डेहिँ
 जय-सिरि-णयण-कडक्खणहँ ।
 कुसुम-वासु 'सिरें लक्खणहँ ॥ ११

*

[४५. पञ्चचालीसमो सन्धि]

कोडि-सिलएँ संचालियएँ
 णहँ देवेहिँ महियलें णरेहिँ
 दहमुह-जीविउ संचालि(य)उ ।
 आणन्द-तूरु अप्फालि(य)उ ॥

[१]

रह-विमाण-मायङ्ग-तुरङ्गम-वाहणे ।
 विजउ घुट्टु सुग्गीवहँ केरएँ साहणे ॥ १

एत्थन्तरेँ सिरें लाइय करेहिँ
 जगेँ जिणवर-भवणइँ जाइँ जाइँ
 २० पल्लड्डु पडीवउ सुहड-पर्यर
 एसियइँ कियइँ साहसइँ जइँ वि
 'अहोँ जम्भव चरिउ महन्तु कासु
 कइलासु तुलिउ एक्केँ पचण्डु
 वड्डारउ साहसु विहि मि कवणु
 २५ जम्भवेण वुत्तु 'मा मणेण मुज्झु

जोकारिउ वलु विज्जाहरेहिँ ॥ १
 परिअञ्जेवि अञ्जेवि ताइँ ताइँ ॥ २
 णिविसेण पत्तु किक्किन्ध-णयरु ॥ ३
 सुग्गीवहोँ मणेँ संदेहु तो' वि ॥ ४
 किं दहवयणहोँ किं लक्खणासु ॥ ५
 अण्णेक्केँ पुणु पाहाण-खण्डु ॥ ६
 किं सुहगइ किं संसार-गमणु' ॥ ७
 किं अज्ज वि पहु सन्देहु तुज्झु ॥ ८

16. 1 A omits lines 4 and 5. 2 omits this pāda. 3 P S सिद्धवरहु.
 4 P सुक्कु, A सुक्कु. 5 P पम्मुक्कु, A पम्मुक्कु. 6 P S सयं. 7 P S A सिरि.

1. 1 P S 'तुरंग'. 2 At the end, A. reads भुवकं. 3 P S 'पयह. 4 A जे.
 5 P S तइ.

॥ घत्ता ॥

वङ्गारउ वङ्गुन्तरेण परमागमु सबहों पासिउ ।
जम्म-सए वि णराहिवइ किं चुकइ मुणिवर-भासिउ' ॥ ९

[२]

तं णिसुणेंवि सुग्गीवहों हरिसिय-गत्तहो ।
फिट्ठं भन्ति जिण-वयणेंहिं जिह मिच्छत्तहो ॥ १

आगम-वलेण उवलद्धएण अवलोइउ सेणुण कइद्धएण ॥ २
'किं को वि अत्थि एत्थियहं मज्झें जो खन्धु समोड्डुइं गरुअ-वोज्जे ॥ ३
जो उज्जालइ महु तणउं वयणु जो दरिसइ वलहों कलत्त-रयणु ॥ ४
जो तारइ दुक्खं-महाणइहें जो जाइ गवेसउं जाणइहें' ॥ ५
तं णिसुणेंवि जंम्वउ चविउ एव 'हणुवन्तु मुएँवि को जाइ देव ॥ ६
णउ जाणहुँ किं आरुडु सो वि जं णिहउ सम्बु खरु दूसणो वि ॥ ७
तं^१ रोसु धेरेंवि मज्झार-तणुउ रावणहों मिलेसइ णवर हणुउ ॥ ८
जं जाणहों चिन्तहों तं पपसु तें मिलिएं मिलियउ जगु असेसु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विहि मि राम-रामण-वलहुँ एक्कु वि वट्ठिमंउ ण दीसइ ।
सहुँ जय-लच्छिएँ विजउ तहिँ पर जहिँ हणुवन्तु मिलेसइ' ॥ १०

[३]

तं णिसुणेंवि किक्किन्ध-णराहिउ रंञ्जिओ ।

लच्छिभुत्ति हणुवन्तहों पासु विसंजिओ ॥ १

'पइँ मुएँवि अणुण को वुद्धिवन्तु जिह मिलइ तेम करि किं पि मन्तु ॥ २
गुण-वयणेंहिं गम्पिणु पवण-पुत्तु भणु "एत्थु कालें रुसेँवि ण जुत्तु ॥ ३
खर-दूसण-सम्बु पसाहियंत्त अप्पणु दुच्चरिएँहिं मरणु पत्त ॥ ४
णउ रामहों णउ लक्खणहों दोसु जिह तहों तिह सबहों होइ रोसु ॥ ५
भणु एत्तिएण कालेण काइँ चन्दणहिँ चरियइँ णं वि सुयाइँ ॥ ६
लक्खण-मुक्कएँ विरहाउराएँ खर-दूसण माराविय खलाएँ" ॥ ७

2. 1 P S फिट्ठइ. 2 P S एत्थियहु. 3 P S समोड्डइ. 4 A तणउं. 5 S लहु सुकलत्त°. 6 P A दुक्खु°, s °महाणइहें. 7 A गवेसइ. 8 A omits the portion from जंम्वउ up to दूसणो वि in line 7. 9 P S जाणहु. 10 P S खर. 11 S तें. 12 S A मामहो तणउं, P marginally. 13 S A हणुउं 14 A वट्ठिमउं नं.

3. 1 P S णराहिवो. 2 P S A रंजिउ. 3 P S A विसंजिउ. 4 P S असहिअणत्त, P marginally पसाहियत्वा(sic). 5 S अप्पणु. 6 P S णउ.

तं वयणु सुणोवि आणन्दु दूच
संचल्लिउ पुलय-विसह-गतु
पट्टणु पवण-सुअहो तणउ
महियल्ले केण वि कारणेण

आरुहु विमाणे तुरन्तु दूच ॥ ८
णिविसद्धे लच्छीणयरु पत्तु ॥ ९
थिउ हणुरुह-दीवे रवणोउ ।
ण सग्ग-खण्डु अवइण्णउ ॥ १०

[४]

लच्छिभुत्ति तं लच्छीणयरु पईसई ।
ववहरन्तु जं सुन्दरु तं तं दीसई ॥ १

देउलवाडउ पणु पईहल्लउ
जाइहुल्लु करहाडउ चुण्णउ
११ रामउरउ गुलु सैरु पइठाणउ
अद्ध-वेसुं पिउ अबुअ-केरउ
चेउउ हरिकेउउ-सच्छायउ
वइरायरउ वज्जु मणि सिहल्लु
मोत्तिय-हार-णियरु सज्जाणउ
१२ धर काविट्ठि सुहु पउणारी
कञ्ची-केरउ णयरु विसिद्धउ
अणु इन्द-वायरणु गुणिज्जइ
एमे णयरु गउ णिबण्णन्तउ

फोफुल्लु अणु मूलु चेउल्लउ ॥ २
चित्तउउउ कञ्जुअउ रवणोउ ॥ ३
अइवडुउ भुज्जु बहु-जाणउ ॥ ४
जोव्वणु कण्णाउउ सवियारउ ॥ ५
वड्डायरउ लोणु विक्खायउ ॥ ६
'णेवा'उउ कत्थुरिये-परिमल्लु ॥ ७
खरु वज्जरउ तुरउ केक्काणउ ॥ ८
वाणि सुहीसिणि णन्दुरवारी ॥ ९
चीणउउ गेत्तु विर्येहेहि दिट्ठउ ॥ १०
भूवावल्लउ गेउ झुणिज्जइ ॥ ११
राउल्लु पवण-सुअहो संपत्तउ ॥ १२

॥ घत्ता ॥

१३ सो पडिहारिणे णम्मयए
णाइ महण्णवे णम्मयए

सुग्गीव-दूउ ण णिवारिउ ।
णिय-जलपवाहु पइसारिउ ॥ १३

[५]

दिट्ठु तेण दूरहो वि समीरण-णन्दणो ।

सिसिर-काले दिवसयरु व णयणाणन्दणो ॥ १

7 P S विमाणु. 8 A तणउं. 9 P S दीव. 10 P S A रवणउं. 11 A अवइण्णउं.

4. 1 P A पईसइ. 2 P त एवं, S तं एवं. 3 P S A दीसइ. 4 S देउलवाडउं. 5 S पहिण्णउं
6 A चुण्णउं. 7 P S A रवणउं. 8 P रामउरउं, A रामहरउ. 9 P पइठाणउ, A पइठाणउं.
10 P अइवडुउ, S अइवडुओ. 11 P A जाणउं. 12 P अंधिवेस, S अंधिवेस. 13 P अणुय°.
14 P S सिहल्लु. 15 P गेवारउ corrected as °लउ. 16 P S कत्थुरी. 17 S A संजाणउं.
18 P S A केक्काणउं. 19 P S सुहावी. 20 P S A चीणउं. 21 P S णित्तु. 22 P S विर्येहे.
23 P S भूवावल्लउ. 24 P एवं, S एव.

5. 1 A दूराउ. 2 P S A णंदणु. 3 S A वयणाणंदणु, P णंदणु.

[४] १ श्रीनगरम्. २ मुख्यम्. ३ सरोवरे जले वा. ४ श्रीमद्विष्णुलपत्तनस्य. ५ नयपालम्.
६ वासचूर्णम्. ७ नर्मदायाः (?).

क० ५, २-१०; ६, १-११]

'सिरिसइलु णैरेण णिहालियउ
एकैत्तहें एक णिविदु तिय
णामेणाणङ्गकुसुम सुभुअ
अण्णेकैत्तहें अण्णेक तिय
साँ पङ्क्यराय अभङ्गयहों
'विहिँ पासेँहिँ वे वि वरङ्गणँउ
रेहइ सुन्दरु मज्झत्थु किह
एत्थन्तरेँ गुञ्जु ण रक्खियउ

सुन्दरकण्डं-पञ्चवालीसमो संधि [१९३

'णं करि करिणिहिँ परिमालियउ ॥ २
वर-वीण-विहत्थी पाण-पिय ॥ ३
सस सम्बुँकुमारहों खरहों सुअ ॥ ४
वर-कमल-विहत्थी णाँ सिय ॥ ५
सुगीवहों सुअ सस अङ्गयहों ॥ ६
कुवलय-दल-दीहर-लोयणउ । ७
विहिँ सञ्जाहिँ परिमिउ दिवसु जिह ॥ ८
हणुवन्तहों दूएँ अक्खियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'खेसु कुसलु कल्लाणु जँउ सुगीवङ्गङ्गय-वीरहुँ ।
अकुसलु मरणु विणासु खउ खर-दूसण-सम्बुँकुमारहुँ ॥ १०

[६]

कहिउ सब्बु तं लक्खण-राम-कहाणउं ।

दण्डयाइ मुणि-कोडि-सिला-अवसाणउं ॥ १

तं सुणेंवि अणङ्गकुसुम डेरिय
एकहें णं वज्जासणि पडिय
एकहें मणें णाँ पलेवणउं
एकहें सरीरु णिञ्चेयणउं
एकहें हियवउ पलु पलु ल्हसिउ
एकहें ओहुल्लिउ मुह-कमलु
एकहें जल-भरियइँ लोयणइँ
एकहें सरु वर-भेयहों तणँउ
एकहें थिउ राउलु विमण-मणु

पङ्क्यरायाणुराय-भरिय ॥ २
अण्णेकहें रोमावलि चडिय ॥ ३
अण्णेकहें पुणु वद्धावणउं ॥ ४
अण्णेकहें ववगय-वेयणउं ॥ ५
अण्णेकहें पलु पलु ओससिउ ॥ ६
अण्णेकहें वियसिउ अहर-दलु ॥ ७
अण्णेकहें रहस-पलोयणइँ ॥ ८
अण्णेकहें कलुणु रुवावणउं ॥ ९
अण्णेकहें वहुइ णाँ छँणु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

अद्धउ अंसु-जलोल्लियउ
राउल पवण-सुयहों तणउँ

अद्धउ सरहसु रोमञ्चियउ ।
णं हरिस-विसाय-पणञ्चियउ ॥ ११

4 A. omits this pāda. 5 P परिमालिअउं. 6 P एकंत्तहे, S इक्कत्तहि, A एकैत्तहे. 7 P SA सम्बुँ.

8 P S करं 9 P A विहि, S विह. 10 P SA वरंगणउं. 11 P S जिउ. 12 P S कुमारहो.

6. 1 P S रडिय. 2 SA पलेवणउं. 3 SA वद्धावणउं. 4 A निञ्चेयणउं. 5 A वेयणउं.

6 P omits these pādās. 7 A वरु. 8 A तणउं. 9 P रुयावणउ, S रुयावणउं, A रुवावणउं.

10 S A तणउं.

[५] १ हनुमंतः. २ दूतेन. ३ पङ्कजरागा, सुधीवपुत्री, हनुवत-जी.

[६] १ दण्डारण्यं यथागतादि-कोटिशिला-पर्यन्त-कथानकं सर्व्वं निवेदितं. २ पूर्णिमा-दिनम्.

स० प० च० २५

[७]

खरहों धीय मुच्छङ्गय पुणु वि पडीविद्या ।

चन्दणेण पंवालियं पञ्चुजीविद्या ॥ १

- उद्विय रोवन्ति अणङ्गकुसुम णं चन्दण-लय उब्भिण्ण-कुसुम ॥ २
 'हा ताय केण विणिवाइओ सि विज्जाहरु होन्तउ घाइओ सि ॥ ३
 सूरण सूर जस-णिक्कलङ्क विज्जाहरु-कुल-णहयल-मयङ्क ॥ ४
 हा भाइ सहोयर देहि वाय विलवन्ति कासु पइँ मुक्क माय' ॥ ५
 तं णिसुणैवि कुसल्लेहिँ पण्डिएहिँ सहत्थ-सत्थ-परिचड्डिएहिँ ॥ ६
 'किं णं सुउ जिणागमु जगे पगासु जायहों जीवहों सबहों विणासु ॥ ७
 जल-विन्दु जेम घङ्गल्ले पडन्तु जं दीसइ तं साहसु महन्तु ॥ ८
 साहारु ण वन्धइ एइ जाइ अरहइ-जन्ते णव घडियं णाइँ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

रोवहि काइँ अकारणेण
 अन्हहँ तुन्हहँ अवरहु मि

धीरवहि माएँ अप्पाणउ ।
 कद्विसु वि अवस-पयाणउ' ॥ १०

[८]

खरहों धीय परिधीरविद्या परिवारेणं ।

मयं-जलं च देवाविय लोयाचारेणं ॥ १

- इहेरिसम्मि वेलए परिद्विए वमालए ॥ २
 समुद्विओऽरिमइणो समीरणस्स णन्दणो ॥ ३
 पलम्ब-वाहु-पञ्जरो गिरङ्कुसो व कुञ्जरो ॥ ४
 महीहरस्स उप्परी विरुद्धउ व केसरी ॥ ५
 फुरन्त-रत्त-लोयणो संणि व सावलोयणो ॥ ६
 दुवारसो व भैक्खरो जमो व दिद्वि-णिट्टुरो ॥ ७
 विहि व किञ्चिदुद्विओ ससि व अट्टमो ठिओ ॥ ८
 विहप्फइ व जम्मणे अहि व कूर-कम्मणे ॥ ९

7. 1 P S पंवालिय पुणु वि. 2 P S ०मिथं. 3 P ण्ण, S A न. 4 A एम. 5 S णउ, A नव. 6 P S घण्डि. 7 P अइकारणेण. 8 P A अप्पाणउं. 9 A कद्विसु. 10 P S A पयाणउं.

8. 1 P S परिधीरविय, A परिवोहिय. 2 P मियजलअंजली देवाविय, S मियेण जलं अंजलि देवाविय. 3 S A दुब्बारसो. 4 A जम्मणो. 5 A ०कम्मणो.

[७] १ लिता.

[८] १ मृतस्य यथा. २ शनीश्वरमिव. ३ सूर्यः.

॥ घत्ता ॥

‘महँ हणुवन्ते कुद्धएँण कहिँ जीविउ लक्खण-रामहुँ ।
दिवसेँ चउत्थएँ पट्टवमि पन्थेँ खर-दूसण-रामहुँ’ ॥ १०

[९]

लँच्छिमुत्ति ‘पभणिउ सुँहि-सुमँहुर-वायए ।
‘एउ सच्चु किउ सम्बुकुमारहोँ मायए ॥ १

‘देव गँयण-गोयरीएँ	कॉमकुसुम-मायरीएँ ॥ २
उववणं पट्टक्कियाएँ	सुअ-विओय-मुक्कियाएँ ॥ ३
रावणस्स लहु-ससाएँ	काम-सर-परबसाएँ ॥ ४
लँक्खणम्मि गय-मणाएँ	‘दिव-रुव-दावणाएँ ॥ ५
‘परहरं’ समुद्धियाएँ	सुँपुँरिसेहिँ घुद्धियाएँ ॥ ६
‘विरह-दाह-मिग्गलाएँ	थण वियारिया खलाएँ ॥ ७
खरो स-दूसणो वि जेत्यु	गय रुअन्ति हुक्क तेत्थु ॥ ८
ते वि तक्खणम्मि कुइय	चन्द-भक्खर व उइय ॥ ९
मिडिय राम-लक्खणाहँ	जिह कुरङ्ग वारणाहँ ॥ १०
‘विणहुणा सरेहिँ मिण्ण	पडिय ‘पायव व छिण्ण ॥ ११
एत्तहेँ वि रणेँ थिरेण	णीय सीय दससिरेण ॥ १२
हरि वला वि वे वि तासु	गय पुरं विराहियासु ॥ १३
एत्थु अवसरम्मि राउ	मिलिउ अङ्गयस्स ताउ ॥ १४
विउ-भडो वि राहवेण	विणिहओ अलाहवेण ॥ १५

॥ घत्ता ॥

तं किउ कोडि-सिलुद्धरणु केवल्लिहिँ आँसि जं भाँसिउ ।
अग्हुहुँ जउ रावणहोँ खउ फुडु लक्खण-रामहुँ पासिउ’ ॥ १६

6 P ‘भामहो, S A ‘भामहु.

9. 1 P A पभणिउं, S एभणिउ. 2 P सुइहिँ, A सिहि. 3 S समहुर°, A सममहुर. 4 A omits these pādas. 5 S परिहरं समुद्धियाए. 6 P सुपुँरिसेहि, S सपुँरिसेहि. 7 P चंदम-क्खरो, S चंदमक्खरो. 8 P S A केवल्लिहि. 9 A omits the portion from आसि up to the end. 10 P भासिउं. 11 P S ‘रामहु.

[९] १ लक्ष्मीमुक्ति-नाम-दूतेनोक्तम्. २ हे देव. ३ विद्याधर्या. ४ अनङ्गकुसुम-मात्रा. ५ लक्ष्म-जेन. ६ वृक्ष इव.

[१०]

कंहिउ सठवु अं चन्दणहिहें गुण-कित्तणु ।

अणिल-पुत्तु लज्जाविउ थिउ हेट्टाणणु ॥ १

- अं पिसुणिउ कोडि-सिलुद्धरणु अणणु वि^१ विडसुग्गीवहों मरणु ॥ २
 १ सं पवण-पुत्तु रोमञ्चियउ गण्डु जिह रस-भाव-पणञ्चियउ ॥ ३
 कुलु णामु पंसंसिउ लक्खणहों सुर-सुन्दरि-णयण-कडक्खणहों ॥ ४
 'सञ्चउ णारायणु अट्टमउ दहवयणहों चन्दु व अट्टमउ ॥ ५
 मायासुग्गीउ जेण वहिउ हलहरु अट्टमउ सो वि कंहिउ' ॥ ६
 मणु जाणेंवि हणुवन्तहों तणउ दूअहों हियवएँ वद्धावणउ ॥ ७
 १० सिरु णवेंवि णिरारिउ पिउ चवइ 'सुग्गीउ देव पइँ सम्भरइ ॥ ८
 अच्छइ गुण-सलिल-तिसाइयउ तें हउँ हकारउ आइयउ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

पइँ विरहिउ छुल्लुच्छुल्लुउ

पुण्णालिहें चित्तु व ऊणउं ।

ण वि सोहइ सुग्गीव-वलु

जिह जोषणु धम्म-विहूणउ' ॥ १०

[११]

एह वोळ णिसुणेवि समीरण-णन्दणु ।

स-गउ स-धउ स-तुरङ्गमु स-भडु स-सन्दणु ॥ १

- स-विमाणु स-साहणु पवण-सुउ संचल्लिउ पुलय-विसट्ट-भुउ ॥ २
 संचल्लें^१ हणुएँ संचल्लु वलु णं पाउसैं मेह-जालु स-जलु ॥ ३
 १० णं रिसह-जिणिन्द-समोसरणु णं णाण-समएँ देवागमणु ॥ ४
 णं तारा-मण्डलु उग्गमिउ णं णहें मायामउ णिम्मविउ ॥ ५
 आणन्द-घोसु हणुवहों तणउ णिसुणेवि तूरु कोड्ढावणउ ॥ ६
 पर्मयद्धय-साहणें जाय दिहि घणें गज्जिएँ णं परितुट्टु सिहि ॥ ७
 णरवइ सुग्गीउ करेवि धुरें किय हट्ट-सोह किक्किन्ध-पुरें ॥ ८
 २० कञ्चण-तोरणइँ णिवद्धाइँ धरें धरें मिहुणइँ समलद्धाइँ ॥ ९
 धरें धरें परिहियइँ रवण्णाइँ लोडँइ पडिपाणिय-वण्णाइँ ॥ १०
 लहु गहिय-पसाहण सयल णर णिग्गय सवडम्महु अग्घ-कर ॥ ११

10. 1 A. omits the beginning up to चंदण°. 2 PA पिसुणिउं. 3 PS ह. 4 A पंसंसिउं. 5 PA अट्टमउं. 6 PS हंडु. 7 A अट्टमउं. 8 A तणउं. 9 SA वद्धावणउं. 10 P छुल्लुच्छुल्लुउ. 11 PSA ऊणउं. 12 S विहूणउं.

11. 1 PS संचल्लें हणुएँ चल्लु. 2 PS आणहु. 3 A तणउं. 4 P कोडावणउं, A कोड्ढावणउं 5 A मयरदय. 6 PS लाडइ. 7 A विण्णाइँ.

[१०] १ हनुवंतः. २ चन्द्र इव. ३ शीघ्र, उत्तालकम्. ४ उत्सुक, निःसाधारम्.

॥ घत्ता ॥

जम्बव-गल-गीलङ्गपेहिं
जाण-चरित्तेहिं दंसणेहिं

हणुवन्तु एन्तु जयकारिउ ।
णं सिद्धु मोक्खे पइसंरिउ ॥ १२

[१२]

पइसरन्तु पुरे पेक्खइ णिम्मल-तारइं ।

घरे घरे जि मणि-कञ्चण-तोरण-वारइं ॥ १

चन्दण-चच्चराइं सिरिखण्डइं
कुक्कुम-कत्थुरिय-कप्पूरइं
कत्थइ 'कह्लूरियहुं कणिककउ
अइ-वणुज्जलाउ णउ मिट्ठउ
कत्थइ पुणु तम्बोलिय-सन्थउ
अहवइ सुर-महिलउ बहुलत्थउ
कत्थइ पडियइं पासा-जूअइं
मुणिवर इव जिण-णामु लयन्तइं
कत्थइ वर-मालाहर-सन्थउ
कत्थइ लवणइं णिम्मल-तारइं
कत्थइ तुप्पइं तेल-विमीसइं
कत्थइ उम्भवन्ति णर-भाणइं
कत्थइ कामिणीउ मय-मत्तउ
एम असेसु णयरु वणणन्तउ
लीलए पइठु समीरण-गन्दणु

पेक्खइ पुरे णाणाविह-भण्डइं ॥ २
अगरु-गन्ध-सिलहय-सिन्दूरइं ॥ ३
णं 'सिज्झन्ति तियउ पिय-मुक्कउ ॥ ४
णं वर-वेसउ वाहिर-मिट्ठउ ॥ ५
णं मुणिवर-भईउ मज्झत्थउ ॥ ६
जण-मुहुमुज्जालेवि समत्थउ ॥ ७
णंइहरइं पेक्खणइं व हूअइं ॥ ८
वन्दिण इव सु-दार्यं मगन्तइं ॥ ९
णं वायरंण-कहउ सुत्तत्थउ ॥ १०
खल-दुज्जण-वर्यणइं व सु-खारइं ॥ ११
णाइं कुमित्तत्तणइं असरिसइं ॥ १२
णं जम-दूआ आउ-पमाणइं ॥ १३
णं रिह-वहुलउ अधिय-कडत्तउ ॥ १४
मोत्तिय-रङ्गावलि चूरन्तउ ॥ १५
जाहिं हलहरु सुगगीउ जणइणु ॥ १६

॥ घत्ता ॥

रामहो हरिहो कैइद्धयहो

हणुवन्तु कयञ्जलि-हत्थउ ।

कालहो जमहो सणिच्छरहो

णं मिलिउ कयन्तु चउत्थउ ॥ १७

[१३]

राहवेण वइसारिउ गिय-अद्दासणे ।

मुणिवरो व थिउ णिच्चलु जिणवर-सासणे ॥ १

8 S पइसारियउ.

12. 1 P S कछूरिहुं. 2 A कणिककउं. 3 S मट्ठउ, A मेट्ठउ. 4 A 'सत्थउ. 5 P 'मइउ, S 'मइमो. 6 A अहवा. 7 P णट्ठहरइ पेक्खइ णं बहुअइ, S णट्ठहरइ णं पेक्खइ बहुअइ. 8 S सुदाण. 9 S 'रहंसहत्थउ. 10 P S वायरण कहउ. 11 P S वयणा इव खारइं. 12 P S उम्भवन्ति. 13 S णरमालइं, A नरमाणउं. 14 P S अधियकंतउ. 15 P S कियन्तु.

[१२] १ अन्न-पाक-स्त्रीणाम्. २ तप्यन्ति. ३ 'णट्ठं' कूटयूतम्, अन्यत्र नृत्तम्. ४ सुद्रव्य-दानानि, सुदायश्च. ५ सुप्रीवस्य.

एकहिं णिविदु हणुवन्त-राम
जम्बव-सुग्गीव सहन्ति ते वि
सोमिसि-विराहिय परम मित्र
अङ्गङ्गय सुहड सहन्ति वे वि
५ णल-णील-णारिन्द णिविदु केम
गय-गवय-गवक्ख वि रण-समत्थ
अवर वि एकेक पचण्ड वीर
एत्थन्तरें जय-सिरि-कुलहरेण

मण-मोहण णाई वसन्त-काम ॥ २
णं इन्द-पडिन्द वड्डु वे वि ॥ ३
णमि-विणमि णाई थिर-थोर-चित्त ॥ ४
णं चन्द-सूर थिय अवयरेवि ॥ ५
एकासणें जम-वड्डिसवण जेम ॥ ६
णं वर-पञ्चाणण गिरिवरत्थ ॥ ७
थिय पासेहिं पवर-सरीर धीर ॥ ८
हणुवन्तु पसंसिउ हलहरेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

॥ 'अज्ज मणोरह अज्ज दिहि
चिन्ता-सायरे पडियण्ण

महु साहणु अज्ज पचण्डउ ।
जं मारुइ लद्धु तरण्डउ ॥ १०

[१४]

पवण-पुत्ते मिलिए मिलियउ तइलोकु वि ।

रिउहे सेण्णे एयहो धुर धरइ ण एक्कु वि' ॥ १

१६ तं णिसुणोवि जयकारु करन्ते
'देव देव बहु-रयण वसुन्धरि
जहिं जम्बव-णल-णीलङ्गङ्गय
जहिं सुग्गीवकुमार-विराहिय
गवय-गवक्ख समुण्णय-माणा
२० तहिं हउं कवणु गहणु किर केहउ
तो वि तुहारउ अवसरु सारमि
माणु मरट्टु कासु रणे भज्जउ

जाणइ-कन्तु वुत्तु हणुवन्ते ॥ २
अत्थि एत्थु केसरिहि मि केसरि ॥ ३
णं मुक्कड्डुसं मत्त महागय ॥ ४
अतुल-मल्ल जय-लच्छि-पसाहिय ॥ ५
अण्ण वि सुहडेकेक-पहाणा ॥ ६
सीहहुं मज्जे कुंरङ्गमु जेहउ ॥ ७
दे' आएसु देव को मारमि ॥ ८
जगे जस-पडहु तुहारउ वज्जउ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

२५ तं णिसुणोवि परितुट्टुएण
'पूरे मणोरह राहवहो

जम्बवेण' दिण्णु सन्देसउ ।
वइदेहिहे जाहि गवेसउ' ॥ १०

13. 1 P corrects मणोहर, S मणोहर.

14. 1 P मिलिअए, S मिलियइ. 2 P S रिउहु. 3 P S एक्कु. 4 P केसरिहि मि. 5 P S मुक्कड्डुसु. 6 P S अवरेकेक, P marginally अतुलमल्ल. 7 A omits this pāda. 8 P S गण्णु. 9 P S सीहहो. 10 P S कुंरगु व. 11 A देहि. 12 P S भंजमि, A भंजउ; P. marginally notes वायमि apparently as a variant. 13 P S वायमि. 14 P S जंबवि वेसिउ.

[१४] १ अंबवेण प्रोक्तम्.

[१५]

तं णिसुणोवि जयकारिउ सीरप्पहरणु ।

'देव देव जाएवउ केत्तिउ कारणु ॥ १

अण्णु वि वङ्कारउ स-विसेसउ	राहव किं पि देहि आपसउ ॥ २
जेण दसाणणु जम-उरि पावमि	सीय तुहारएँ करयलें लावमि' ॥ ३
णिसुणोवि' गलगज्जिउ हणुवन्तहोँ	हरिसु पवह्णुउ जाणइ-कन्तहोँ ॥ ४
'भो भो साहु साहु पवणञ्जइ	अण्णहोँ कासु वियम्भिउ छज्जइ ॥ ५
तो वि करेवउ मुणिवर-भासिउ	तहोँ खय-कालु कुमारहोँ पासिउ ॥ ६
ण वि पइँ ण वि मइँ ण वि सुग्गीवें	जुज्जेवउ समाणु दहगीवें ॥ ७
णवरि एक्कु सन्देसउ णेज्जहि	जइ जीवइ तो एम कहेज्जहि ॥ ८
बुच्चइ "सुन्दरि तुज्ज विओएँ	झीणु करी व करिणि-विच्छोएँ ॥ ९
झीणु सु-धम्मु व कलि-परिणामें	झीणु सु-पुरिसु व पिसुणालावें ॥ १०
झीणु मयंङ्कु व वर-पक्ख-क्खएँ	झीणु मुणिन्दु व सिद्धिहें कङ्कएँ ॥ ११
झीणु दु-राउलेण वर-देसु व	अवुह-मज्जेँ कइ-कव्व-विसेसु व ॥ १२
झीणु सु-पन्थु व जण-परिचत्तउ	रामचन्दु तिह पइँ सुमरन्तउ" ॥ १३

॥ धत्ता ॥

अण्ण वि लइ अङ्गुत्थलउ
आणेज्जहि स इँ भू सँणउ

अहिणाणु समप्पहि मेरउ ।
चूडामणि सीयहें केरउ ॥ १४

*

[४६. छायालीसमो संधि]

जं अङ्गुत्थलउ उवलङ्गु राम-सन्देसउ ।
गउ कणटइय-भुउ सीयहें हणुवन्तु गवेसउ ॥

[१]

मणि-मऊह-सच्छायएँ णिच्चं 'देव-णिम्मिएँ ।

चन्दकन्ति-खँचिए रयणी-चन्दे व णिम्मिएँ ॥ १

चन्दसालं-साला-विसालए	टणटणन्त-घण्टा-वमालएँ ॥ २
रणरणन्त-किङ्किणि-सुघोसए	घवघवन्त-घग्घर-णिघोसए ॥ ३

15. 1 P S पेसमि. 2 P S लायमि. 3 A तं निसुणेवि गज्जिउ. 4 P णिज्जहि, S णिज्जहो, A नेज्जहि. 5 P S कहिज्जहि, A कहेज्जहि. 6 A करिणिहे. 7 P S मियंङ्कु. 8 S को, A omits. 9 P S रीणु. 10 P S जणु. 11 P S आणिज्जहि. 12 P A मूसणउं. 13 P सीयहो, A सीयह.

1. 1 P S सच्छाए. 2 S णिम्मिउ. 3 P खह्वाय, S खह्वाय.

[१] १ विमाने. २ अप्रच्छादितोपरितन-भूमि.

धवल-धयवडाडोय-डम्बरे	पवण-पेळणुंवेळियम्बरे ॥ ४
छत्त-दण्ड-उहण्ड-पण्डुरे	चारु-चमर-पम्भार-भासुरे ॥ ५
मणि-गवक्ख-मणि-मत्तवारणे	मणि-कवाड-मणि-वार-त्तोरणे ॥ ६
मणि-पवाल-मुत्तालि-झुम्बिरे	भमिर-भमर-पम्भार-चुम्बिरे ॥ ७
१ पडह-महलुलोल-तालए	जिणवरो व्व सुरगिरि-जिणालए ॥ ८
तहिँ विमाणे थिउ पवण-णन्दणो	चलिउ णाई णेहँ रवि स-सन्दणो ॥ ९

॥ घत्ता ॥

गयणङ्गणे थिएँण
णाई सणिच्छरेँण

विज्जाहर-पवर-णरिन्दहोँ ।
अवलोइउ णयरु मेँहिन्दहोँ ॥ १०

१०

[२]

चउ-दुवारु चउ-मोडरु चउ-पायारु पण्डुरं ।
गयण-लग्ग-पवणाहय-धय-मालाउलं पुरं ॥ १

गिरि-महिन्द-सिहरे रमाउलं	रिद्धि-विद्धि-धण-धण-संकुलं ॥ २
तं णिएवि हणुणण चिन्तियं	'सुरपुरं किमिन्देण घत्तियं' ॥ ३
१५ पुच्छियारविन्दाभ-लोयणी	कहहुँ लग्ग विज्जावलोयणी ॥ ४
'देव गम्भ-सम्भवेँ तुहारए	सव्व-जण-मणाणन्द-गारएँ ॥ ५
जेण 'धल्लियं जण-पसूयणे	वग्घ-सिद्ध-गय-सङ्कुले वणे ॥ ६
सो मेँहिन्दु णिव्वूढ-साहसो	वसइ एँत्थु खल्लुँ खुइ-माणसो ॥ ७
एह णयरि माहिन्द-णामेँणं	कामपुरि व णिमविय कामेँणं ॥ ८
२० तं सुणेवि बहु-भरिय-मच्छरो	मीण-रासि णं गउ सणिच्छरो ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अमरिस-कुद्धएँण
आयहोँ आहयणेँ

मणे चिन्तिउ 'गवणु विवज्जमि ।
लइ ताम मडप्फरु भज्जमि' ॥ १०

4 After this stanza A. reads धुवकं.

2. 1 A °दुवार. 2 A °गोडर. 3 A °पायार. 4 A गयणे. 5 P S °रमाउले. 6 P S संकुले. 7 P S °दारलोयणी. 8 P कहहु, S कहहो. 9 P गम्भे संभमे, S गम्भि संभमि. 10 A °वारए. 11 P S घत्तियं. 12 P S महिँद. 13 P जेत्थु, S जित्थु. 14 P S खल्लु. 15 P S विसज्जमि.

३ नर्तिताम्बरे. ४ उत्तालके. ५ निज-मात[र]महस्य.

[२] १. प्रसूतिकाळे.

[३]

तक्खणें जें पणत्ति-वलेण विणिम्मियं वलं ।

रंह-विमाण-मायङ्ग-तुरङ्गम-जोह-संकुलं ॥ १ ॥

मेह-जालमिव विज्जुलुज्जलं

धुदुवन्त-सय-सङ्ग-संघडं

मत्त-गिल्ल-गिल्लोल-गय-घडं

हिलिहिलन्त-तुरयाणुब्भडं

कलयलारउधुदु-भड-थडं

तं णिण्वि पर-वल-पलोदुणे

भड विरुद्ध सण्णद्ध दुद्धरा

वद्ध-परिकराकार-भासुरा

पडह-मन्दलुहाम-गोन्दलं ॥ २

धवल-छत्त-धुर्व्वन्त-धयवडं ॥ ३

कण्ण-चमर-चल्लन्त-मुहवडं ॥ ४

तुट्ट-फुट्ट-घड-सुहड-सङ्कडं ॥ ५

इसर-सत्ति-सर्व्वलि-वियावडं ॥ ६

खोहु जाउ माहिन्द-पट्टणे ॥ ७

परसु-चक्क-मोग्गर-धणुद्धरा ॥ ८

कुरुड-दिट्ठि-दट्ठोदु-णिट्टुरा ॥ ९

॥ वत्ता ॥

स-वल्लु महिन्द-सुउ

हणुवहो अभिभडिउ

सण्णहेंवि महा-भय-भीसणु ।

विञ्जइरिहें जेम हुआसणु ॥ १०

[४]

'मरु-महिन्द-गन्दण-वलाण जायं महाहवं ।

चारु-जयसिरी-रामालिङ्गण-पसर-लाहवं ॥ १

हणुव-हणहणाकार-भीसावणं

खग्ग-खणखणाकार-गम्भीरयं

भिडडि-भूमङ्गराकार-रत्तच्छयं

हक्क-मुक्केक-हुक्कार-लल्लकयं

मिण्ण-वच्छत्थलुहे-स-विहलङ्कलं

तैत्थु वट्टन्तए दारुणे भण्डणे

वे वि सुण्डीर-सङ्गाय-सङ्गारणा

वे वि णह-गामिणो वे वि विज्जाहरा

भेट्ट-दुग्घोट्ट-संघट्ट-लोट्टावणं ॥ २

जाय-किलिविण्डि-गुप्पन्त-वर-वीरयं ॥ ३

पहर-पब्भार-वावार-दुप्पेच्छयं ॥ ४

दन्ति-दन्तग्ग-लग्गन्त-पाइकयं ॥ ५

णीसरन्तन्त-मालावली-चुम्भलं ॥ ६

हणुव-माहिन्दि अभिभट्ट समरङ्गणे ॥ ७

वे वि मायङ्ग-कुम्भत्थलुहारणा ॥ ८

वे वि जस-कड्ढिणो वे वि फुरियाहरा ॥ ९

॥ वत्ता ॥

पवण-महिन्द-जहुँ

जुँज्जु समभिभडिउ

णिय-णिय-वाहणेंहिँ णिविट्टहुँ ।

णावइ हयगीव-तिविट्टहुँ ॥ १०

3. 1 PS तक्खणेण. 2 PS हरि°. 3 PS विज्जुलं वलं. 4 A °धुवन्त°. 5 PS °वण°. 6 PS °सव्वल°. 7 PS °सुमहिँद°. 8 PS °करिकरा°.

4. 1 PS भेट्ट°. 2 A °लेट्टावणं. 3 PS खणखणखणाकारगंभीरयं. 4 PS °वीरियं. 5 A माहिँद°. 6 PS °संघारणे. 7 PS °लुहारणे. 8 P °महिँदसुय. 9 PS जुग्घे.

[३] १ व्यापितम्.

[४] १ वायु-महिन्द्र-नन्दनौ. २ संग्रामे. ३ महिन्द्रपुत्रं माहिँदिः ।

[५]

तेहिं महिन्द-गन्दणेण विरुद्धे पढम-अब्भिडे ।

थरहरन्ति सर-धोरणि लाइय हणुव-धयवडे ॥ १

- 'वाइणा वि रिउं-वाण-जालयं णिसि-^{खएँ} व रविणा तमालयं ॥ २
- १ दह्मसुल-माया-दवग्गिणा मोह-जालमिव परम-जोग्गिणा ॥ ३
- जलइ णह-यलं जलण-दीवियं पर-वलं असेसं पलीवियं ॥ ४
- कहो वि छत्तु कासु वि धयग्गयं कहो वि पजलियं उत्तमङ्गयं ॥ ५
- कहो वि कवउ कासु कडिल्लयं कहो वि कञ्चुयं संकडिल्लयं ॥ ६
- एम पवर-हुअवह-सुलुक्कियं रिउ-वलं गयं घोणै-वड्ढियं ॥ ७
- ११ णवरं एक्कु माहिन्दि थक्कओ केसरि व्व केसरिहेँ दुक्कओ ॥ ८
- वारुणत्थु सन्धइ ण जावेहिँ रोसिएण हणुएण तावेहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

कणय-समुज्जलेहिँ

दुज्जण-हियेँच जिहेँ

तिहिँ सरेहिँ सरासणु ताडिउ ।

उच्चिन्देँवि धणुंवरु पाडिउ ॥ १०

[६]

अवरु चाउ किरं गेणहइ जाम महिन्द-गंदणो ।

मरु-सुएण विद्धंसिउ ताव सरेहिँ सन्दणो ॥ १

- खण्ड-खण्ड-क्किए रहवरावीढए वर-तुरङ्गम-जुंए पडिऐं भय-मीढए ॥ २
- मोडिए छत्त-दण्डे धए छिण्णए लहु विमाणे समारुद्धु वित्थिण्णए ॥ ३
- ११ तं पि हणुवेण वाणेहिँ णिण्णासियं णरय-दुक्खं व सिद्धेहिँ विद्धंसियं ॥ ४
- णिग्गओ विप्फुरन्तो णिरत्थो णरो गाइँ णिग्गन्थ-रुवो थिओ मुणिवरो ॥ ५
- पवण-पुत्तेण घेत्तूण रिउ वद्धओ वर-भुयङ्गु व्व गरुडेण उँट्टुद्धओ ॥ ६
- पुत्ते 'वेहे' सुए सर्वर-वावारिओ अणिल-पुत्तो महिन्देण हक्कारिओ ॥ ७
- अज्जणा-पियर-पुत्ताण दुहरिसणो संपहारो समालग्गु भय-भीसणो ॥ ८
- ११ खग्ग-तिक्खग्ग-वर-मोग्गरुग्गामणो सेल्ल-वावल्ल-भल्लाइ-सक्कावणो ॥ ९

5. 1 P S तं. 2 P S विरुद्धे. 3 P A रिउं. 4 P S A खय. 5 P दह्ममाण पाया^१ corrected as पायया, 8 दह्ममाण पाया^२. 6 P S जोइणा. 7 P S पजलियं. 8 P S एवं. 9- P S णवरि. 10 P S वारणत्थु. 11 S हियवउ. 12 P S जेम. 13 P छिण्णेवि, 8 छिण्णिवि. 14 P S घणुहर.

6. 1 S करि. 2 P जए, 8 जये, A हुए. 3 S उण्णट्टु. 4 P S पत्तिणेहे. 5 P S समर^३. 6 P S पियस^४. 7 A रुग्गावणो. 8 P भल्लाइं.

[५] १ हन्रवंते. २ कवच-विशेष, संकलिका-युक्तम्. ३ नाभिका-वक्रितं. ४ महिन्दपुत्रः.

[६] १ हन्रवंते.

॥ वता ॥

पहम-भिडन्तएण
छिण्णु कइइएण

सर-पञ्जरु मुक्कु महिन्दें ।
जिह भव-संसारु जिणिन्दें ॥ १०

[७]

छिण्णु जं जें सर-पञ्जरु रणउहें पवण-जाएणं ।
घगघगन्तु अगोउ विमुक्कु 'महिन्द-राएणं ॥ १

धुडुवन्तु जालंउसणि-घोसणो
दिट्ठु वाणु जं पवण-पुत्तेणं
जिह घणेण गलगज्जमाणेणं
वायवो महिन्देण मेळ्ळिओ'
चाव-लट्ठि घत्तेवि तुरन्तेणं
मेळ्ळिओ महा-वहल-पत्तलो
खण्डु खण्डु किउ पवण-पुत्तेणं
णवर मुक्कु महिहरु विरुद्धेणं

जलजलन्तु जालोलि-भीसणो ॥ २
वारुणत्थु मेळ्ळिउ तुरन्तेणं ॥ ३
पसमिओ वि 'गिम्भो व णाएणं ॥ ४
पवण-पुत्तु तेण वि ण मेळ्ळिओ' ॥ ५
वड-महहुमो विप्फुरन्तेणं ॥ ६
कढिण-मूलु थिर-थोर-गत्तलो ॥ ७
कुकइ-कव-वन्धो व धुत्तेणं ॥ ८
सो वि छिण्णु णरउ व सिद्धेणं ॥ ९

॥ वता ॥

जं जं लेइ रिउं
जिह णिलक्खणहें

तं तं^{११} हणुवन्तु विणासइ ।
करें एक्कु वि अत्थु ण दीसइ ॥ १०

[८]

अञ्जणाएँ जणणेण विलक्खीहूय-चित्तेणं ।
गय विमुक्क भामेप्पिणु कोवाणल-पलित्तेणं ॥ १

तेण लउडि-दण्डाहिघाएँणं
गिरि व वज्जेणं दुण्णिवारेंणं
णिवडिए 'सिरीसेलें विम्भलें
'णिप्फलं गयं हणुव-गंजियं
राम-दूअकज्जं ण साहियं
रावणस्स ण वणं विणासियं

तरुवरो व पाडिउ दुवाएँणं ॥ २
अणिल-पुत्तु तिह गय-पहारेणं ॥ ३
जाय वोळ्ळ सुवरवरहँ णहयले ॥ ४
घण-समूहमिव सलिल-वज्जियं ॥ ५
जाणइहें वयणं ण चाहियं ॥ ६
विहँलु आसि केवलिहँ भासियं ॥ ७

7. 1 P रणवहि, S omits. 2 P S विमुक्क माहिंद'. 3 S जालासणि, A जालाडि.
4 P S 'वोसणं. 5 P S 'भीसणं. 6 P पसरउ प, S पसरमि प. 7 P S मिळ्ळिउ. 8 P S मिळ्ळिउ.
9 P A मुक्क. 10 S जरि. 11 P S तह.

8. 1 A भेंभले. 2 P S सुरवरहु. 3 P S जंपियं. 4 P S वणु. 5 A विप्फलु.

[७] १ नादेण. २ नरकं सिद्धेनेव.

[८] १ इन्वते.

एव वोळ सुर-सत्थे जावेहिं
उड्डिओ सरासण-विहत्थओ

हणुउ हूउ सजीउ तावेहिं ॥ ८ ॥
सरवरोहिं किउ रिउ गिरत्थओ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मण्ड कइद्धएण

सर-पञ्जरे छुहेवि रउहे ।

धरिउ महिन्दु रणे

णं गङ्गा-वाहु समुहे ॥ १०

[९]

कुद्धएण संमरङ्गणे माया-वेइर-हेउणा ।

धरिय वे वि माहिन्दि-महिन्द कइद्ध-केउणा ॥ १

माणु मलेवि करेवि कडमइणु
" 'अहो माहिन्द माम मरुसेज्जहि
अहो अहो ताय ताय रिउ-भञ्जण
हउं तहे तणउ तुज्जु दोहित्तउ
भग्गु मरट्टु जेण रणे वरुणहो
पेसिउ अब्भत्थेवि सुग्गीवे
" हूअ-कजे संचल्लिउ जावेहिं
माया-वइरु असेसु विवुज्जिउ

चलणेहिं पडिउ समीरण-गन्दणु ॥ २

जं विमुहिउ तं सयलु खमेज्जहि ॥ ३

णिय-सुय तं वीसरिय किमञ्जण ॥ ४

णिम्मल-वंसु समुज्जल-गोत्तउ ॥ ५

हउं हणुवन्तु पुत्तु तहो पवणहो ॥ ६

रामहो हिउ कलत्तु दहगीवे ॥ ७

पट्टणु दिट्टु तुहारउ तावेहिं ॥ ८

ते तुम्हहिं समाणु मइ जुज्जिउ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं गिसुणेवि वयणु

विज्जाहर-णयणाणन्दे ।

णेह-महाभरेण

मारुइ अँवगूहु महिन्दे ॥ १० ॥

[१०]

'साहु साहु भो सुन्दर सुउ सच्चउ जे पवणहो ।

पइं मुएवि सुहउत्तणु अण्णहो होइ कवणहो ॥ १

जो सत्तु-सङ्गाम-लक्खेहिं जस-णिलउ

जो उभयं-कुलं-दीवओ उभयं-कुल-तिलउ ॥ २

जो उभयं-वंसुज्जलो ससि व अकलङ्कु

जो सीहवर-विक्रमो समरे णीसङ्कु ॥ ३

6 SA मं. 7 S पूरिउ.

9. 1 PS समरंगणे. 2 S कइद्धरकेउण. 3 A कडवंदण. 4 A माहिंदि. 5 PA मरुसेज्जहिं.

6 PS खमेज्जहिं, A खमिज्जहि. 7 SA तणउं. 8 PS जेण वइसवणहो, A रणि, and P marginally रणि वरुणहु. 9 PS तुम्हहि, A तुम्हहं. 10 PS महभरेण.

10. 1 S पहावणहो. 2 PS उहयं. 3 PS 'कुलदीवउ. 4 P गिस्संङ्कु, S णस्संङ्कु.

[९] १ माता अंजणा. २ वइर-हेउणा. ३ माताजनायाः वैरं स्पृत्वा. ४ आलिङ्गितम्.

जो दत्त-दिसा-वलय-परिचत्त-गय-गामु
जो मत्त-मायङ्ग-कुम्भत्थलायामु ॥ ४
जो पवर-जयलच्छि-आलिङ्गणावासु
जो सयल-पडिवक्ख-दुप्पेक्ख-णिण्णासु ॥ ५
जो कित्ति-रयणायरो जस-जलावत्तु
जो वीर-णारायणो जयसिरी-कन्तु ॥ ६
जो सयण-कप्पहुमो संख-अचलेन्दु
जो पवर-पहरण-फडा-डोय-भुंअइन्दु ॥ ७
जो माण-विञ्जाइरि अहिमाण-सय-सिहरु
धणुवेय-पञ्जाणणो वाण-णह-णियरु ॥ ८
जो अरि-कुरङ्गोह-णिट्टवण-दुग्घोडु
पडिवक्ख-जलवाहिणी-सिमिर-जल-घोडु ॥ ९
॥ घत्ता ॥

जो केण वि ण जिउ आसङ्क-कलङ्क-विवाजिउ ।
सो हउँ आहयणें पइँ एक्कें णवँरि परँज्जिउ' ॥ १०

[११]

एउ वयणु णिसुणेप्पिणु दुद्दम-दणु-विमद्दणो ।

'कवणु एत्थु किर परिहवु' भणइ धंणारिणन्दणो ॥ १

तुहुँ देव दिवायरु तेय-पिण्डु	हउँ किं पि तुहारउ किरण-सण्डु ॥ २
तुहुँ वर-मयलञ्छणु भुवण-तिलउ	हउँ किं पि तुहारउ जोणह-णिलउ ॥ ३
तुहुँ पवर-समुदु समुद-सारु	हउँ किं पि तुहारउ जल-तुसारु ॥ ४
तुहुँ मेरु-महीहरु महिहरेसु	हउँ किं पि तुहारउ सिल-णिवेसु ॥ ५
तुहुँ केसरि घोर-रउद-णाउ	हउँ किं पि तुहारउ णह-णिहाउ ॥ ६
तुहुँ मत्त-महग्गउ दुण्णिवारु	हउँ किं पि तुहारउ मय-वियारु ॥ ७
तुहुँ माणस-सरवरु सारविन्दु	हउँ किं पि तुहारउ सलिल-विन्दु ॥ ८
तुहुँ वर-तित्थयरु महाणुभाउ	हउँ किं पि तुहारउ वय-सहाउ ॥ ९

5 P S 'परियत्त.' 6 P S 'णारायणा. 7 P 'विवज्जिउ, S 'विवज्जियउ. 8 S णवर, A समरे.
9 P परज्जिउ, S परज्जियउ.

11. 1 S इङ्क. 2 S तुह. 3 A omits this and the following pādas upto
line 8. 4 P S हउ. 5 P S तुहु.

[१०] १ सत्य-मेरुः. २ धरणेद्रः. ३ विखरः.

[११] १ हनुवतः. २ अमरः. ३ लक्ष्मीयुक्तारविदः (?).

॥ घत्ता ॥

को पडिमल्लु तउ
णिय पह परिहरइ

तुहँ केर्णऽवरेणोदुद्धउ ।
किं मणि चांमियर-णिवद्धउ' ॥ १०

[१२]

कह वि कह वि मणु घीरिउ विज्जाहर-णरिन्दहो ।
'ताय ताय मिलि साहणे' गम्पिणु रामचन्दहो ॥ १
वद्धारउ किउ उवयारु तेण मारिउ मायासुगीउ जेण ॥ २
को सकइ तहों पेसणु करेवि मिलु रामहों मच्छरु परिहरेवि ॥ ३
उवयारु करेवउ मइ मि' तासु जाएवउ लङ्काहिवहों पासु' ॥ ४
॥ हणुयहों एयइ वयणइ सुणेवि माहिन्दि'-महिन्द पयट्ट वे वि ॥ ५
सुगीव-णयरु णिविसेण पत्त वलु पुच्छइ 'एहु' को जम्बवन्त ॥ ६
किं वलेंवि पडीवउ पवण-जाउ असमत्त-कज्जु हणुवन्तु आउ' ॥ ७
मन्तिणं पवुत्तु 'णरवर-मइन्दु अज्जणहें वप्पु एहु सो महिन्दु' ॥ ८
वल-जम्बव वे वि चवन्ति जाम सर्वडम्मुहु आउ महिन्दु ताम ॥ ९

॥ घत्ता ॥

हलहर-सेवएहें
अग्घुच्चाइयउ

सबहें एकेक-पचण्डेहें ।
दिढ-कडिण सें इं भु व-दण्डेहें ॥ १०

*

[४७. सत्तचालीसमो संधि]

मारुइ पवर-विमाणारूढउ अहिणव-जयसिरि-बहु-अवगूढउ ।
॥ सामि-कज्जे संचल्लु महाइउ लीलणं देहिमुह-दीउ पराइउ ॥

[१]

मण-गमणेण तेण णहें जन्ते
दिट्ठाराम' सीम चउ-पासेहें
जैहें पप्फुल्लियाइ उज्जाणइ

देहिमुहणयरु दिट्ठु हणुवन्ते ॥ १
धरिउ णाइँ पुरु रिणिय-सहासेहें ॥ २
वड्डुइँ णं तिथयर-पुराणइँ ॥ ३

० A केण करेण. 7 P °णोद्धउ. 8 S पह रह. 9 P S चांमियरे वद्धउ.

12. 1 P S गंपिणु साहणे. 2 P S वि. 3 S जायेवउ. 4 A माहिंद°. 5 A एयहो. 6 P मंतीण corrected as मंतेण, S मंतीण. 7 P S वुत्तु. 8 P सर्वडम्मुहुं, S सर्वडम्मुहु, A सबड-म्मुहो. 9 P °पयंडेहिं, S °पयंडेहि. 10 P. omits, S सयं.

1. 1 P दहमुहणयरु, S देहिमुहणयरु. 2 S दिट्ठु रामसीमा. 3 A निसिय°. 4 P S जाहि, A जहि.

[१] १ दधियुख-नाम-विद्याधरस्य.

जहिं ण कयावि तलायइँ सुकइँ
जहिं वाविउ वित्थर्य-सोवाणउ
जहिं पायार ण केण वि लङ्घिय
जहिं देउलइँ धवल-पुण्डरियइँ
जहिं मन्दिरइँ स-तोरण-वारइँ
जहिं भुव-णेत्त-सुत्त-दरिसावण
जहिं वर-वेसउ तिणैयण-रूवउ
जहिं गैयणत्थ-वसह-हलहर-मइ

णं सीयलइँ सुद्धु पर-दुक्खइँ ॥ ४
णं कुगइउ हेट्टामुह-गमणउ ॥ ५
जिण-उवएस णाँइँ गुरु-संधिर्यँ ॥ ६
पोत्था-वीयणइँ व बहु-चरियइँ ॥ ७
णं समसरणइँ सुप्पडिहँरइँ ॥ ८
हरि-हर-वंम्भहिं जेहा आवण ॥ ९
पवर-भुअङ्ग-सएँहिं अणुहूअउ ॥ १०
राम-तिलोयण-जेहा गँहवइ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

तहिं पट्टणें बहु-उवंमहँ भरियएँ णं जगें सुकइ-कव्वें वित्थरियएँ । ॥
सहइ स-परियणु दँहिमुह-राणँउ णं सुरवइ सुरँपुरहँ पहाँणउ ॥ १२

[२]

तहों अग्गिम महिसि 'तरङ्गमइ
आवन्तएँ जन्तएँ दिण-णिवहँ
विजुप्पह चन्दलेह वाल
तिण्णि वि कण्णउ परिवहियउ
बहु-दिवसोंहिं सुरय-पियारएँण
'जइ भल्लउ दहिमुह माम महुँ
तेण वि विवाहु संङ्गच्छियउ
'कहों धीयउ देमि ण देमि कहों'

णं कामहों रइ सुरवइहँ सइ ॥ १
उप्पण्णउ कण्णउ तिण्णि तहँ ॥ २
अण्णेक्कं तहाँ तरङ्गमाल ॥ ३
णं सुकइ-कहउ रसँ-वहियउ ॥ ४
पट्टविउ दूउ अङ्गारएँण ॥ ५
तो तिण्णि वि कर्णउ देहि लहु' ॥ ६
कल्लाणभुत्ति मुणि पुच्छियउ ॥ ७
मुणिवरेंण वि तक्खणें कहिय तँहों ॥ ८ ॥

॥ घत्ता ॥

'वेयहूत्तर-सेदिहें राणँउ साहसगइ-णामेण पहाँणउ ।
जीविउ तासुं समरें जो लेसइ तिण्णि वि कण्णँउ सो परिणेतइ' ॥ ९

5 P surerscribes r over थ. 6 SA गमणउं. 7 PSA णाइ. 8 PS लंघिय, 9 PS वायरण इव and P. marginally 'वायरणइ इव' पाठे. 10 PS सपरिवारइ. 11 PSA जहि. 12 A भुव'. 13 P वन्देहि, S वंन्देहि. 14 S उवमहु. 15 PS राणउं. 16 A सुरवरहं. 17 A पहाणउं.
2. 1 PS उप्पणउं. 2 P corrects as अण्णेक्का. 3 P ताहं, S महा. 4 S परियट्टिय उ, A रसव. The remaining characters as also the first four characters of the next line dropped through haplography. 5 S महुं. 6 S कण्णउं. 7 PS कहि. 8 P तउ. 9 P S A राणउं. 10 P S A पहाणउं. 11 P समरि तासु, S समरें तासु. 12 S कण्णउं.

२ प्रधानानि. ३ भुयहि (?) हस्ताक्ष. ४ वल्लविशेषः नयनश्च. ५ ईश्वरः. ६ आकाशगामी वृषभो यस्य ।
अन्वै च विलम्ब-नाथा वृषभा यस्य । गत-नाथा वृषभाः । प्राप्त-नाथा वा. ७ गृहपतिः. ८ दक्षिमुख-राजा.

[२] १ राज्ञी तरंगमती. २ विवाहं स्व-मानसे कृत्वा.

[३]

गुरु-वयणेण तेण अइ भाविउ
 'साहसगइ बहु-विजावन्तउ
 अहवइ एउ वि णंउ वुज्झिज्जइ
 १ जम्म-सए वि पमाणहों दुक्कइ
 अवसें कन्दिवसु वि सो होसइ
 तं णिसुणेवि लडह-लायणोंहिं
 'भो भो ताय ताय दणु-दारा
 करहुं किं पि वरि मन्ताराहणु

मणें गन्धव-राउ चिन्ताविउ ॥ १
 तेण समाणु कवणु पहरन्तउ ॥ २
 गुरु-भांसिएं सन्देहु ण किज्जइ ॥ ३
 मुणिवर-वयणु ण पँलए वि चुक्कइ ॥ ४
 साहसगइहें जुज्झु जो देसइ' ॥ ५
 णिय-जणेरु आउच्छिउ कणोंहिं ॥ ६
 लइ वण-वांसहों जाहुं भडारा ॥ ७
 जोगंभासें विजासाहणु' ॥ ८

॥

॥ घत्ता ॥

एवं भणेप्पिणु चल-भउहालउ मणि-कुण्डल-मण्डिय-गण्डयलउ ।
 गम्भि^{१०} पइट्टउ विउल-वणन्तरे णाई ति-गुत्तिउ देहभन्तरे ॥ ९

[४]

तं वणु तिहि मि ताहिं अवयज्जिउ
 ॥ णं णित्तिउ थेरि-मुह-मण्डलु
 णं णिप्फलु कुसामि-ओलगिउ
 णं हेरि-घरु पुण्णाय-विवज्जिउ
 जहिं वेराहिउ कामिणि-लीलउ
 जहिं पाहण वलन्ति रवि-किरणोंहिं
 ॥ तहिं अच्छन्ति जाव वणें वित्थए

१ णं भव-गहणु असोय-विवज्जिउ ॥ १
 णं णिञ्चूयउ कण्ण-उरत्थलु ॥ २
 णं णित्तालु अ-णञ्चण-वग्गिउ ॥ ३
 णं णीसुणु वेउद्धंहुं गज्जिउ ॥ ४
 मण्ड मण्ड उँव्वीरण-सीलउ ॥ ५
 णं सज्जण दुज्जण-दुव्वयणोंहिं ॥ ६
 ताव पटुक्किय दिवसें चउत्थए ॥ ७

॥ घत्ता ॥

चारण पवर-महारिसि आइय भइ-सुभइ वे वि वेराइय ।
 कोसहों तणेण चउत्थे भाए अट्ट दिवस थिय काओसाए ॥ ८

3. 1 P S णवि. 2 P भासियइ. S भासियइ. 3 P S कयावि ण, A न पलए वि. 4 P कंदिवसु इ, S कदिवसु इ, A कंदिवसु वि. 5 S वणवासहु, A वणवासहुं. 6 S वर. 7 S जोग-उभासें, A जोगाभासें. 8 P एवं. 9 P गंडयलु, A गंडयगंडय. 10 A. omits गेपि पइ.

4. 1 P ववणु. 2 A. omits this pāda. 3 S वउद्धु, A वउद्धं. 4 A गेराहिउ. 5 P विराइय. 6 P S चउत्थए, A चउत्थे. 7 S भाएण. 8 S काओसाएण.

[४] १ शोकसंयुक्तः, अन्यत्र वृक्षाः. २ स्तनास्ताभ्यां रहितम्. ३ स्वर्गः. ४ राक्षस-रहितः. ५ मेघैः (?). ६ वेरि-अधिकाः बहु-पुत्राः सूर्यः. ७ विदारणं चूण्णम्. ८ पाद-क्रोश-मन्थे.

[५]

किडिकिडिजन्त-^१मिलिम्मिलि-लोयण लम्बिय-भुअ परिवजिय-भोयण ॥ १
 जल्ल-मलोह-पसाहिय-विग्गह णाण-पिण्ड परिचत्त-परिग्गह ॥ २
 थिय रिसि पडिमा-जोए जावेहिँ अट्टमु दिवसु पट्टुक्किउ तावेहिँ ॥ ३
 ताहिँ अवसरें तिर्य-लोलुअ-चित्तहों केण वि गम्पिं कहिउ वरइत्तहों ॥ ४
 'देव देव तउ जाउ मणिट्टउ तिण्णि वि कण्णउ रण्णे पइट्टउ ॥ ५
 अण्णु ताहिँ वरइत्तु गविट्टउ तुहुँ पुणु^२मुहिर्यए जें परितुट्टउ' ॥ ६
 तं गिसुणेवि कुँविउ अङ्गारउ णं हवि धिएँण सित्तु सय-वारउ ॥ ७
 'भञ्जमि अज्जु मडप्परु कण्णहुँ जेण ण होन्ति मज्झु ण वि अण्णहुँ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अमरिस-कुल्लउ^३कुरुडु पधाइउ गम्पिणु वणे वइसाणरु लाइउ ।
 धगधगमाणु समुट्टिउ वण-दउ श्चित्ति पलित्तु णाहँ खल-जण-वउ ॥ ९

[६]

पढम-दवग्गि दुक्कु^४ 'सिप्पीरहों णाहँ किलेसु णिहीण-सरीरहों ॥ १
 सयलु वि काणणु जालालीविउ रामहों हियउ णाहँ संदीविउं ॥ २
 कैत्थइ दारु-वणाहँ पलित्तइं णं वइदेहि-दसाणण-चित्तइं ॥ ३
 सुक्केहि मि^५ असुक्क पजलाविय णं सुपुरिस पिसुणेहिँ संताविय ॥ ४
 कहि मि पणट्टइं वणयर-मिहुणइं कन्दन्तइं णिय-डिम्भ-विहूणइं ॥ ५
 गम्पि मुणिन्दहुँ सरणु पइट्टइं सावय इव संसारहों तट्टइं ॥ ६
 ताहिँ अवसरें गयणङ्गणे जन्ते खञ्चिउ णिय-विमाणु हणुवन्ते ॥ ७
 'मरु मरु लाइउ केण हुवासणु अच्छउ गमणु करमि गुरु-पेसणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अह सरणाइएँ अह वन्दिग्गहें सामि-कज्जेँ अहँ मित्त-परिग्गहें ।
 आएँहिँ विहुरेहिँ जो णउ जुज्झइ सो णरु मरण-सए वि ण सुज्झइ' ॥ ९

5. 1. P S °मिडिम्मिडि and P. superscribes लि over डि. 2 P S °चित्तहो. 3 P S कहिउ गंपि. 4 P S A ताहि. 5 P मुहिअ, S सुहिअइ. 6 S A कुइउ. 7 P S मज्झु होति, A होति.

6. 1 P S A णाह. 2 A. omits this word. 3 S दारुणवणह. 4 S मुणिंदहु, A मुणिं-वहो. 5 P संभारहो भट्टह. 6 A विग्गहे. 7 P S णिय. 8 P S भायहो.

[५] १ शीलंपटः. २ एवमेव. ३ क्रूरचित्तः.

[६] १ शुष्क-तृणस्य. २ देवदारु-वनानि. ३ साद्र(र्द्र)वनस्पती.

[७]

मणें चिन्तेपिणु णिम्मल-भावे
सायंर-सलिलु सधु आकरिसिउ
हुअवहु उल्हाविउ पजलन्तउ
तं उवसग्गु हरेवि रिउ-मइणु
कर-कमलेहिँ पाय पुज्जेपिणु
मुणि-पुङ्गवेहिँ समुच्चाएँवि कर
तहिँ अवसरें विज्जउ साहेपिणु
तिण्णि वि कण्णउ सालङ्कारउ

मारुइ-णिम्मिय-विज्ज-पहावेँ ॥ १
मुसल-पमाणेँहिँ धारेँहिँ वरिसिउ ॥ २
खम-भावेण कलि' व वहुन्तउ ॥ ३
गउ मुणिवरहुँ पांसु मरु-णन्दणु ॥ ४
वन्दिय गुरु गुरु-भँत्ति करेपिणु ॥ ५
हणुवहोँ दिण्णासीस सुहङ्कर ॥ ६
मेरुहोँ पाँसेँहिँ भामरि देपिणु ॥ ७
अहिणव-रम्भ-गम्भ-सुकुमारउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भइ-सुभइँहँ चलण णमँन्तिउ
अग्गएँ थियउ सहन्ति सु-सीलउ

हणुयहोँ साहुक्कारु करन्तिउ ।
णं तिहुँ^{१०} कालहुँ तिण्णि वि^{११} लीलउ ॥ ९

[८]

पुणु वि पसंसिउ सो' पवणञ्जइ
चङ्गउ पँइ वच्छलु पगांसिउ
एत्तिउ जइ ण पत्तुं तुहुँ सुन्दर
तं णिसुणेँवि मारुइ गञ्जोल्लिउ
'तिण्णि वि दीसँहोँ सुट्टु विणीयउ
किं कज्जे वण-वासें पइट्टउ
हणुवहोँ केरउ वयणु सुणेपिणु
'तिण्णि वि दहिमुह-रायहोँ धीयउ

'सुहउ-लील अण्णहोँ' कहोँ छज्जइ ॥ १
उवसग्गहोँ णाउं मि णिण्णासिउ ॥ २
तो णवि अज्जु अम्हेँ' णविमुणिवर' ॥ ३
दन्त-पन्ति दरिसन्तु पवोल्लिउ ॥ ४
कवणु थाणु कहोँ तिण्णि वि धीयउ ॥ ५
केण वि कउ उवसग्गु अणिट्टउ' ॥ ६
पभणइ चन्दलेह विहसेपिणु ॥ ७
छुडु छुडु अङ्गारेण वि वरियउं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ अवसरें केवलिहिँ पगांसिउ
कोडि-सिल वि जो संचालेसइ

“दससयगइहँ मरणु जसु पासिउ ।
सो वरइत्तहोँ भाइउ होसइ” ॥ ९

7. 1 P सायर. 2 P °भावेण व कलि, S °भावे जिह कलि. 3 P पासि. 4 A °हत्ति.
5 P S दिण्णी सीस. 6 P S पासेँ. 7 P कण्णउं. 8 P °सुभइहु, S सुभइहो. 9 P S णवंतिउ.
10 P तिहि कालहिँ, S तिहि कालहि. 11 P जे, S जि.

8. 1 P कण्णहिँ मारुइ. 2 P अण्णहिँ किं, S अण्णइ कों. 3 S तइ. 4 P पगांसिउ. 5 S
णाउ वि, A नाउं मि. 6 P इत्तु, S वंत्तु. 7 P S अन्दि णउ, A नवि. 8 P वीसहुँ, S वीसहु.
9 P S वरीयउ.

[९]

एमे वत्त गय अम्हहुँ कंणों
वारह दिवस एत्थु अच्छन्तिहुँ
ताम वरेण तेण आरुद्धे
तो वि ण चित्तु जाउ विवरेरउ
तो एत्थन्तरें रोमच्चिय-भुउ
'तुम्हेहिं जं चिन्तिउ तं हूअउ
जसु पासिउ सो अम्हहुँ सामिउ
जाहुँ पासु पुज्जेन्तु मणोरह'

तें कज्जेण पइड्डउ रंणों ॥ १
तीहि मि पुज्जारम्भु करन्तिहुँ ॥ २
उववणें दिण्णु हुआसणु दुद्धें ॥ ३
एउ कहाणउ अम्हहुँ केरउ' ॥ ४
भणइ हसेप्पिणु पवणञ्जय-सुउ ॥ ५
साहसगइहें मरणु संभूअउ ॥ ६
तिहुअणें केण वि णउ आयामिउ ॥ ७
वइइ जाम परोप्परु इय कह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दहिमुह-राउ ताव स-कलत्तउ पुप्फ-णिवेय-हत्थु संपत्तउ ।
गुरु पणवेवि करेवि पसंसणु हणुवें समउ कियउ संभासणु ॥ ९

[१०]

संभासणु करेवि तणु-तणुवें
'भो भो णरवइ महिहर-चिन्धहों
तहिँ अच्छइ णारायण-जेड्डउ
घाइउ तेण समरें साहसगइ
ताँउ कुमारिउ अहिणव-भोग्गउ
मइँ पुणु लङ्काउरि जाएवउ
तं णिसुणेंवि संचल्लिउ दहिसुहुँ
तं किक्किन्ध-णयरु संपाइउ

दहिमुह-राउ वुत्तु पुणु हणुवें ॥ १
कण्णउ लेवि जाहि किक्किन्धहों ॥ २
जो वरु चिरु केवलिहिं गविड्डउ ॥ ३
वेयहुत्तर-सेदिहें णरवइ ॥ ४
तिण्णि वि राहवचन्दहों जोग्गउ ॥ ५
पेसणु सामिहें तणुउ करेव्वउ' ॥ ६
जो संमाणें दाणें रणें अहिसुहु ॥ ७
जम्बव-णल-णीलेंहिं पोमाइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गम्पिणु भुवण-विणिग्गय-णामहों सुग्गीवें दरिसाविउ रामहों ।
तेण वि कामिणि-थण-परिवड्डणु दिण्णु सं यं भु एहिँ अवरुण्डणु ॥ ९

*

9. 1. P S एह. 2 A कजे. 3 A रण्णे. 4 P S एहु. 5 P A कहाणउं. 6 P केरउं.
7 P S तुम्हे. 8 P S A अम्हहुँ. 9 P A सामिउं. 10 A आयामिउं. 11 A परंतु.

10. 1 A तणुं, P marginally तणुं. 2 S चिन्धहुँ. 3 P S ताव. 4 P सामिहिं, S
सामिहि. 5 A तणुं. 6 P दहेसुहुं, A दहिसुहुं. 7 P S परिवड्डणु. 8 A सइं.

[४८ अट्टचालीसमो संधि]

सविमाणहों णहयलें जन्ताहों छुडु लङ्काउरि पइसन्ताहों ।
णिसि सूरहों णाई समावडिय आसाली हणुवहों अब्भिटिय ॥

[१]

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| तो एत्थन्तरे | देह-विसालिया । |
| जुञ्जु समोडेवि | थिय आसालिया ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ १ |
| 'मरु मरु मंडुए | अप्पउ दरिसइ । |
| मई अवगण्णेवि | एहु को पइसइ ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ २ |
| | (जम्भेट्टिया) |
| १० को सकइ हुअवहें शम्प देवि | आसीविसु भुअहिं भुयङ्ग लेवि ॥ ३ |
| को सकइ महि कक्खएँ छुहेवि | गिरि-मन्दैर-गरुअ-भरुव्वहेवि ॥ ४ |
| को सकइ जम-मुहें पइसरेवि | भुअ-वलेण समुहु समुत्तरेवि ॥ ५ |
| को सकइ असि-पञ्जरेँ चडेवि | धैरणिन्द-फणालिहें मणि खुडेवि ॥ ६ |
| को सकइ सुर-करि-कुम्भु दल्लेवि | गयणङ्गणें दिणयर-गमणु खल्लेवि ॥ ७ |
| ११ को सकइ सुरवइ समरें हणोवि | को पइसइ मई तिण-समु गणेवि ॥ ८ |

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेवि जस-लुद्धएँण हणुवन्तें अमरिस-कुद्धएँण ।
अवलोइय विज्ज स-मच्छरेण णं मेइणि पलय-सणिच्छरेण ॥ ९

[२]

- | | |
|--------------------------------|--|
| पिहुमइ-णामेण | मन्ति पपुच्छिउ । |
| 'समरं-महाभरु | केण पडिच्छिउ ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १ |
| कालें चोइउ | को हकारइ । |
| जो महुँ सम्मुहु | गमणु णिवारइ ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २ |
| २० तं वयणु सुणेविणुं भणइ मन्ति | किं तुञ्जु वि मणें एवडु भन्ति ॥ ३ |

1. 1 P S जंतहो 2 P S पावंतहो. 3 S समोडिवि, A समेदेवि. 4 A. reads जंभिट्टियादु-
वई after चित्तें; P S have ॥ छ ॥. 5 P मंडए, S मंडइ. 6 A चित्तो. 7 S जंभिट्टिया, A
omits. 8 P भुअहि, S भुयहि, A omits. 9 P S कक्खहि. 10 A कंदर. 11 P वइवि, S
वडेवि. 12 A. omits this pāda. 13 S सधरे.

2. 1 P S समरे महम्महु. 2 A चित्तो. 3 P S omit. Elsewhere also in the
present Sandhi this figure occurring in the same context is scored
off or bears the sign of deletion in P. 4 P A महु. 5 P सम्मुहु. 6 A. reads
जंभिट्टिया वुचई after this. 7 P S सुणेपिणु.

जइयहुँ सुरवर-संतावणेण हिय रामहों गेहिणि रामणेण ॥ ४
 तइयहुँ पर-बल-दुहंसणेण लङ्कहें चउदिसिहिं विहीसणेण ॥ ५
 परिरंक्स दिण्ण जण-पुज्जणिज्ज गामेण एह आसाल-विज्ज ॥ ६
 तं वयणु सुणेप्पिणु पवण-पुत्तु रोमञ्ज-उच्च-कञ्जुइय-गतु ॥ ७
 पचविउ 'मरु मलमि मरुट्टु तुञ्जु वलु वलु आसालिणें देहि' जुञ्जु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जं सयल-काल-गल्लगजियउ मं जाउ मडप्फर-वजियउ ।
 सा तुहुँ सो हउँ तं^१ एउ रणु लइ खत्ते जुञ्जुहुँ एक्कु खणु^२ ॥ ९

[३]

लउडि-विहत्थउ समरें समत्थउ ।
 कवय-सणाहउ कइधयं-णाहउ ॥ तेन तेन तेन चि'त्ते ॥ ४^३ ॥ १
 रह-गय-चाहणु खच्चिर्यं-साहणु ।
 सीहु व रोक्केवि घाइउ कोक्केवि ॥ तेन तेन तेन चि'त्ते ॥ ४^४ ॥ २
 परिहरेंवि सेणु खच्चैवि विमाणु एकल्लउ पर लउडिणें समाणु ॥ ३
 'वलु वलु' भणन्तु अहिमुहु पयट्टु णं वर-करिणिहें केसरि विसट्टु ॥ ४
 णं महिहर-^५कोडिहें कुलिस-घाउ णं दव-^६जालोलिहें जल-णिहाउ ॥ ५
 एत्थन्तरें वयण-विसालियाणें हणुवन्तु गिलिउ आसालियाणें ॥ ६
 रेहइ मुह-कन्दरें पइसरन्तु णं णिसि-^७संभवे रवि अत्थवन्तु ॥ ७
 वहेवणें लगु पचण्डु वीरु संचूरिउ गय-घाणेंहिं सरीरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेहुँहों अब्भन्तरें पइसरेंवि वलु पँउरिसु जीविउ अवहरेंवि ।
 णीसरिउ पडीवउ पवणि किह महि ताडेंवि फाडेंवि विञ्जु जिह ॥ ९

[४]

पडियासालिया जं समरङ्गणे ।
 उट्टिउ कलयलु हणुयहों साहणे ॥ तेन तेन तेन चि'त्ते ॥ ४ ॥ १^८

8 P चउदिसहिं, S चउदिसहि. 9 PS देमि. 10 PS मडप्फर. 11 P. omits. 12 S जुञ्जु तुहु.

3. 1 PS कइय^०. 2 A चिते. 3 S ॥छ॥. 4 P संचेवि. 5 PS एकणं, marginally एकल्लउ; S एकह, A एकलउ. 6 PS लउडिअए. 7 P अहिसुह, A अहिसुहुं. 8 PA करिणिहि, S करिणि. 9 A पयट्टु. 10 P कोडिहिं, S कोडिहि. 11 P दावजलोहिहें, S दावजलोहिहे. 12 S संभवे. 13 PS पचण्ड. 14 S विट्टुहो, A देहहो. 15 PS पोरिसु. 16 A हणुवि. 17 A omits.

4. 1 PS A पडियासालिया, P correcting as पडिया आसालिया. 2 A चिते.

दिण्णइँ तूरइँ- विजउ पघुट्टउ ।
 मारुइ लीलएँ लक्क पइट्टउ ॥ तेन तेन तेन चिँत्ते ॥ ४ ॥ २
 जं दिट्ठु पँहञ्जणि पइसरन्तु वज्जाउहु धाइउ 'हणु' भणन्तु ॥ ३
 'आसाली वहेँवि महाणुभाव मरु पहरु पहरु कहिँ जाहि पाव' ॥ ४
 वयणेण तेण हणुवन्तु वलिउ णं सीहहोँ अहिमुँहु सीहु चलिउ ॥ ५
 अब्भिट्ट वे वि गय-गहिय-हत्थ रिउ-रण-भर-परियँट्टण-समत्थ ॥ ६
 वलु वलहोँ भिडिउ गउ गयहोँ दुक्कु तुरयहोँ तुरङ्कु रहु रहहोँ मुँक्कु ॥ ७
 धउ धयहोँ विमाणहोँ वर-विमाणु रणु जाउ सुरासुर-रण-समाणु ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

॥ रह-तुरय जोह-गय-वाहणइँ मारुइ-विज्जाहर-साहणइँ ।
 अँब्भिट्टइँ वे वि स-कलयलइँ णं लक्खण-खर-दूसण-वलइँ ॥ ९

[५]

वे वि परोप्परु अमरिस-कुद्धइँ ।
 वे वि रणङ्गणे जय-सिरि-लुद्धइँ ॥ तेन तेन तेन चिँत्ते ॥ ४ ॥ १
 वे वि हणन्तइँ कर-परिहत्थइँ ।
 दुज्जण-मुहइँ व अइ दुप्पेच्छइँ । तेन तेन तेन चिँत्ते ॥ ४ ॥ २
 तहिँ तेहएँ रणे वट्टन्ते धोरें वहु-पहरण-छोहँ पँडन्ते धोरें ॥ ३
 णिसियर-धएण कोन्ताउहेण हक्कारिउ पिहुमइ हयँमुहेण ॥ ४
 'मरु थक्कु थक्क भिँडु मँइँ समाणु अवरोप्परु बुज्झँहुँ वल-स(प)माणु' ॥ ५
 तं णिसुणेँवि पिहुमइ वलिउ केम मयगलहोँ मत्त-मायङ्कु जेम ॥ ६
 ते भिडिय परोप्परु घाय देन्ते रणे रामण-रामँहुँ णामुँ लेन्ते ॥ ७
 विज्जाहर-करणेँहिँ वावरँन्त जिह विज्जु-पुञ्ज णहयलेँ भर्मन्त ॥ ८

3 A अहिमुँहुँ. 4 P S 'भावट्टण' 5 S दुक्कु. 6 P अब्भिट्ट with some succeeding letters scored off, S अब्भिट्ट.

5. 1 A. omits. 2 A चिँत्ते. 3 P S परिहच्छइँ. 4 SA मुहइ. 5 P S वट्टन्त, A वट्टन्ति. 6 P S पडन्त, A पडन्ति. 7 A omits this word, line 4 and the portion up to पिहुमइ in line 5. 8 P भिडि. 9 P S मइ. 10 P S बुज्झइ. 11 P दँति, S दिँति, A दिँति. 12 P S रामइ, A रामहो. 13 P S णाउ. 14 P लेँति, S लिँति, A लिँति. 15 P S वावरँति. 16 P S भर्मन्ति.

[४] १ हनूमंतः.

[५] १ अश्वमुखेन वज्रायुध-किंकरेण. २ हनूमंतस्य मंत्री पृथुमति-नामा.

॥ घत्ता ॥

आयामेवि भिउडि-भयङ्करेण हउ हयमुहु हणुवहों किङ्करेण ।
गय-घाएँहिँ पाडिउ धरणियलें किउ कलयलु देवेंहिँ गयणयलें ॥ ९

[६]

जं गय-घाएँहिँ पाडिउ हयमुहु ।
कुइउ खणउँण मणें वज्जाउहु॥तेन तेन तेन चित्तें॥४॥१
णिङ्कर-पंहरेंहिँ हणुवहों केरउ ।
भग्गु असेसु वि वलु विवरेरउ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥ २
भज्जन्तएँ साहणें गिरवसेसँ हणुवन्तु थक्कु पर ताँहिँ पर्यँसे ॥ ३
पञ्चमुह-लील रणें दक्खवन्तु 'मं भज्जहों' णिय-वलु सिक्खवन्तु ॥ ४
उत्थरहुँ लग्गु णिरु णिङ्करेहिँ असि-कणय-कोन्त-गय-मोग्गरेहिँ ॥ ५
वज्जाउहो वि दणु-दारणेहिँ वरिसिउ णाणा-विह-पहरणेहिँ ॥ ६
तहिँ अवसरें गज्जोल्लिय-भुएण आयामेवि पवणञ्जय-सुएण ॥ ७
पम्मुक्कु चक्कु रणें दुण्णिवारु दुहरिसणु भीसणु णिसिय-धारा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तें चक्कें रणउहें अतुल-वलु उँच्छिणणेंवि पाडिउ सिर-कमलु ।
धाइउ कवन्धु अमरिसें चडिउ दस-पयइँ गम्पि महियलें पडिउ ॥ ९

[७]

जं हणुवन्तेण हउ वज्जाउहो ।
सयलु वि साहणु भग्गु परम्मुहो ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १
गउ विहडप्फडु जहिँ परमेसरि ।
अच्छइ लीलएँ लङ्कासुन्दरी ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २
'किं अज्ज वि ण मुँणहि एव वत्त आसाल-विज्ज आहवें समत्त ॥ ३
अब्भिडु तुहारउ जणणु जो वि रणें चक्क-पहारें णिहउ सो वि' ॥ ४
तं णिसुणेंवि अमर-मणोहरीएँ धाहाविउ लङ्कासुन्दरीएँ ॥ ५
'हा मँइँ मुएवि काहिँ गयउ ताय हा कलुणु रुअन्तिहें देहि वाय ॥ ६
हा ताय सयल-भुवणेक्क-वीर पर-वल-पर्वल-गलत्थण-सरीर ॥ ७

17 P घाएँ, S घायँ.

6. 1 A पहरणेहिँ. 2 P SA तहि. 3 P पवेसे, S पवेसि. 4 PA पमुक्कु, S पमुक्क. 5 S उच्छिणणिवि, A उच्छेलेवि. 3 P S अमरिस. 7 P चडिउं.

7. 1 A वज्जाउहु. 2 A परामुहु. 3 A चित्ते. 4 A सुणहिँ. 5 P SA मइ. 6 P °बलगल. थण? corrected as °पवल, ° S °बलगलत्थण, ° A only °गलत्थण.

[७] १ कोटपाल-पुत्री एषा. २ तस्याः सखी अइरा-नामा.

हा ताय समरें भड-थड-णिसुम्भ सप्पुरिस-रयण अहिमाण-खम्भ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अइराएँ स-हत्थें लुहिउ मुहु 'हलें काई गहिछिएँ रुअहि तुहुँ ।
लइ धणुहरु रहवरें चडहि तुहुँ वलु बुज्जहुँ जुज्जहुँ तेण सहुँ' ॥ ९

[८]

'तं णिसुणेप्पिणु कुइय किसोयरि ।
चडिय महारहे लङ्कासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १
धणुहर-हत्थिय वाणुग्गाविरि ।
सहुँ सुर-चावेंण णं पाउस-सिरि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २

10 धुरें अइर परिद्विय रहु पयदु पर-वल-विणासु अखलिय-मरदु ॥ ३
तहिँ चडेंवि पधाइय रणें पचण्ड मायङ्गहों करिणि व उद्ध-सोण्ड ॥ ४
सूरहों सण्णद्ध व काल-रत्ति सहहों थक्क व पढमा विहत्ति ॥ ५
हकारिउ रणें हणुवन्तु 'तीएँ पञ्चाणणु जिह पञ्चाणणीएँ ॥ ६
मुह-कुहर-विणिगय-कडुअ-वाय 'वलु वलु दहवयणहों कुद्ध-पाय ॥ ७
11 जं हय आसालिय णिहउ ताउ तं जुज्जु अज्जु खय-कालु आउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि भड-कडमहणेंण णिब्भच्छिय पवणहों गन्दणेंण ।
'ओसरु मं अगएँ थाहि महु केंहें कहि मि जुज्जु कण्णाएँ सहुँ' ॥ ९

[९]

20 'हणुवंहों वयणेंहि पवर-धणुद्धरि
हसिय सं-विब्भमु लङ्कासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १
हूँ परियाणभि तुहुँ बहु-जाणउ ।
एणालावेंण णवरि अयाणउ ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २

25 'एउ काई चविउ पई दुव्वियहु किं जलण-'तिडिक्कएँ तरु ण देहू ॥ ३
किं ण मरइ णरु विस-दुम-लयाएँ किं विज्जु ण खण्डिउ णम्मयाएँ ॥ ४

7 P S लुहियउ. 8 A मुहुं.

8. 1 P. has जंमेद्विया, s. जंभिद्विया in the beginning. 2 P ह्य. 3 A तेन तेन चित्ते. 4 A धणुवर. 5 S °णुग्गाविरि, A° णुग्गाणि. 6 A चित्ते. 7 A भासाली. 8 P जुज्जि, S जुज्जे. 9 A °कडवंदणेण. 10 A किं, S कहि.

9. 1 P. begins with जंमेद्विया ॥, s. with जंभिद्विया ॥. 2 P S हणुवंतहो. 3 P S पवल. 4 A सिब्भम. 5 P S A हउ. 6 परिमाणभि, A पणिमारभि. 7 A °जाणउ. 8 P हउ, S हउं. 9 P S दुव्वियहु. 10 A हउ.

[८] १ तथा लंकासुंदर्या.

[९] १ अभिकणिकया. २ नर्मदा-नद्या.

किं गिरि ण फुट्टु वज्जासणीए
रथणीए पच्छाएवि गयण-भग्गु
जइ एसिउ मणे अहिमाणु तुञ्जु
गलग्जेवि लङ्कासुन्दरीए

किं ण णिहउ करि पञ्चाणणीए ॥ ५
किं सूरहो सूरत्तणु ण भग्गु ॥ ६
तो किं आसालिहो दिण्णु जुञ्जु' ॥ ७
सैर-पञ्जरु मुक्कु णिसायरीए ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वज्जाउह-त्तण्यए पेसिएणं पिच्छुंज्जल-पुंङ्ग-विट्ठसिएण ।
सर-जालें छाइउ गयणु किह जणवउ मिच्छत्त-वलेण जिह ॥ ९

[१०]

'तो वि ण भिज्जइ
परम-जिणागमु
पढम-सिलीमुह
रइहें अणञ्जे
णाराएहिं हणुवहो केरएहिं
सर-जालु विहज्जेवि लइउ तेहिं
अण्णेके वाणे छिण्णु छत्तु
णं सूरहो जेमन्तहो विसालु
तं णिएवि छत्तु महियलें पडन्तु
संथवेवि ण सक्किउ सुन्दरेण

मारुइ वाणेहिं ।
जिह अण्णाणेहिं ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १ ॥
तेण वि मेळिय ।
दूअ व घळिय ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २ ॥
संचल्लेहिं दुच्चिवरेरएहिं ॥ ३
कावेरि-सलिलु जिह णरवरेहिं ॥ ४
णं खुडिउ मरालें सहसवत्तु ॥ ५ ॥
वियलिउ कराउ कंलहोय-थालु ॥ ६
'मेळिउ खुरुप्पु थरथरहरन्तु ॥ ७
तवसित्तणु णाई कुमुणिवरेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तें तिक्ख-खुरुप्पे दुज्जएण पडिवक्ख-मडप्फर-भञ्जएण । 21
गुणु छिण्णु विणासिउ चाउ किह मिच्छत्तु जिणिन्दागमेण जिह ॥ ९

[११]

'धणुहो छिण्णए कुविउ पंहज्जणि ।
'एन्ति पडीविय मुक्क सरासणि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥ ४ ॥ १ ॥ 22

11 A रथणिहे उच्छाएवि. 12 A सरपंजर मुक्क. 13 P A °तणए, S °तणयं. 14 A पेसियएण.
15 P S पिच्छु°. 16 A पोंख°.

10. 1 P, begins with जंमेट्टिया, S. with जंभिट्टिया. 2 S जिमंतहो. 3 P S
वरकणय° 4 A मेळेवि. 5 P S °मडप्फर.

11. 1 P S धणुहर. 2 P S थंउ पडीवी. 3 P तेण तेण तेण.

[१०] १ हनुसंतेन.

[११] १ हनुसंत।

लङ्कासुम्भरि

छाड्यं मेइमि

तं हणुयहों कैरउ वाण-जांलु
 वीसहिं सरोहिं परिछिण्णु सयलु
 १ अण्णेकें वाणें कवउ छिण्णु
 छिज्जन्ते कवए हरिसिय-मणेण
 दिणयरेंण पहञ्जणु वुत्तु एमं
 तं वयणु सुणोवि पुलइय-भुएण

मंगग-जालेण ।

जिहं दुक्कालेण ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥ २

छायन्तु असेसु दियन्तरालु ॥ ३

णं परम-जिणिन्दें मोहं-पडलु ॥ ४

उरु रक्खिउ कह वि ण हणुउ भिण्णु ॥५

किउ कलयलु णहें सुरवर-जणेण ॥ ६

'महिलाएँ जि' जिउ हणुवन्तु केम' ॥ ७

संभ्वंउरि पदोच्छिउ मरु-सुएण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१० 'इउ काइँ वुत्तु पइँ दिवसयर जिण-धवलु मुएप्पिणु एकु पर ।
 जैणें जो जो गरुयउ गज्जियउ भणु महिलएँ को ण परज्जियउ' ॥९

[१२]

जाम पडुत्तरु

ताम विसंजिउ

१५ तिह हणुवन्तेण

किउ सय-सक्करु

पुणु मुक्क गयासणि णिसियरीएँ

स खण्ड-खण्डु किय तिहिं सरोहिं

एत्थन्तरेँ विप्पुरियांहरीएँ

२१ विद्धंसिउ तं पि सिलीमुहेहिं

सिल मुक्क पडीवी ताएँ तासु

वञ्चिय पवणञ्जय-गन्दणेण

देइ पहञ्जणु ।

उक्का-पहरणु ॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥४॥ १

एकें वाणेंण ।

दुरिउ व णाणेंण ॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥४॥ २

णं उवहिहें गङ्ग वसुन्धरीएँ ॥ ३

णं दुम्मइ संवर-णिज्जरोहिं ॥ ४

पंम्मुक्कु चक्कु विजाहरीएँ ॥ ५

णं कुकइ-कइत्तणु वर-वुहेहिं ॥ ६

णं कु-महिल गय परं-गरहों पासु ॥ ७

णं असइ सु-पुरिसें दिह-मणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

२१ सर मुक्क गयासणि चंक्कु सिल अण्णु वि जं किं पि मुअइ महिल ।
 तं सयलु वि जाइ णिरत्थु किह घरेँ किविणहों तंक्कुव-विन्दु जिह ॥९

4 A °जालए. 5 A जह दुक्कालए. 6 P तेण तेण तेण चित्तें, A. omits. 7 S मोहजालु.
 8 P S सुरयण°. 9 P वि जिउ, S जित्तु. 10 P संवरउ corrected as संवररु, S संवरउ.
 11 P S मारुएण. 12 A. omits this line except °जिउउ.

12. 1 P पसजिउ. 2 P तेण thrice. 3 P S °वाणणए. 4 A. omits this pāda.
 5 P S पसुक्कु. 6 S णं णं कुकइत्तणु. 7 A दर°. 8 P S चक्क. 9 P S कियणहो. 10 A °वन्दु.

२ आदित्यः. ३ पक्केन.

[१२] १ याचके(क इ)व.

[१३]

'जिह जिह मारुह
तिह तिह कण्ठ
वर्ममह-वाणेंहिं
कह वि तुलंगेंहिं
'भो साहु साहु भुवणोकवीर
भो साहु साहु अखलिव-मरुह
भो साहु साहु पञ्चवस्त्र-ब्रवण
भो साहु साहु कहकेव-तिल्व
भो साहु साहु तणु-सैय-पिण्ड
भो साहु साहु रिउ-गन्धहृत्थि

समरें ण भज्जइ ।
ग्गिरारिउ रज्जइ॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥४॥१
विद्ध उरत्थले ।
पडिय ण महियले॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥४॥२ ।
जयलच्छि-वच्छ-लच्छिय-सरिर ॥ ३
भड-भज्जण पर-वल-मइयवहु ॥ ४
सोहग-रासि सप्पुरिस-रयण ॥ ५
कन्दप्प-दप्प-माहण-णिलय ॥ ६
दिह-वियड-वच्छ भुव-दण्ड-बण्ड ॥ ७ ॥
उत्तमिज्जइ जइ उवसाणु अत्थि ॥ ८

॥ वत्ता ॥

पइं णाह परज्जिय हउं समरें वरें एवहिं पण्णिग्गहणु करें ।
णिय-णामु लिहेप्पिणु सुकु सरु णं दूउ विसज्जिउ पियहों धरु ॥ ९

[१४]

'जाव पहज्जणि
ताम गिरारिउ
तेण वि मरुअउ
वाणु विसज्जिउ
सरु जोएँवि पवर-धणुद्धरीएँ
अवगूहु पवणि थिरथोर-वाहु
देहइ सुन्दरि सहुं सुन्दरेण
णं रत्त सज्ज सहुं दिणयरेण
णं सीहिणि सहुं पञ्चाणणेण
अह खणें खणें वण्णिज्जन्ति काइँ

वायइ अक्खरु ।
हियएँ सुहक्करु॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥४॥१
णेहु करेप्पिणु ।
णामु लिहेप्पिणु॥ तेनं तेन तेन चित्तें ॥४॥२
परिओसें लङ्कासुन्दरीएँ ॥ ३
परिहअउ बिजाहर-विबाहु ॥ ४
वर-करिणि णाइँ सहुं कुञ्जरेण ॥ ५
णं सुरसरि सहुं रयणायरेण ॥ ६
जियपउम णाइँ सहुं लक्खणेण ॥ ७
णं पुणु वि पुणुं वि ताइँ जें ताइँ ॥ ८ ॥

॥ वत्ता ॥

एत्थन्तरें हणुबें तुरिउ वलु णिम्मोहिंवि थम्मंवि किउ अचलु ।
सुरवहु-जण-मण-संतावणहो मं को वि कहेसइ रावणहो ॥ ९

13. 1 P S begin with जंभिहिया. 2 P. तेण thrice. 3 A चित्ते. 4 P वम्मइ, S वम्मइ. 5 P S तुलंगे. 6 P S लंकिय. 7 P S मरुह. 8 P S महयवहु. 9 P S णाउ, A वासु. 10 P S सुक. 11 P वरे.

14. 1 P. begins with जंभिहिया, S. with जंभिहिया. 2 P तेण thrice. 3 A तेन तेन चित्ते. 4 P सुंदरि सरि. 5 P S पुणुं. 6 P निम्मोहिंवि थंमिंवि, S निम्मोहिंवि थंमिंवि, A नं मोहे मोहेवि only. 7 S मह. 8 A रामणहो.

- [१५]
- धन्मेवि पर-बलु धीरेवि णिय-बलु ।
उच्चारोपिणु जिणवर-मङ्गलु॥ तेन तेन तेन चित्तं ॥४॥१
पइट्ट समीरणि सुट्टु रमाडले ।
लङ्कासुन्दरि- केरएँ राडले॥ तेन तेन तेन चित्तं ॥४॥ २
- ५ रयणिहिँ माणेपिणु सुरय-सोक्खु संचलु विहाणएँ दुक्खु दुक्खु ॥ ३
आउच्छिय सुन्दरि सुन्दरेण वणमाल गाइँ लच्छीहरेण ॥ ४
'लइ जामि कन्ते रावणहों पासु सहुँ वलेण केरेवी सन्धि तासु ॥ ५
किं भणइ विहीसणु भाणुकणु घणवाहणु मउ मारीचि अणु ॥ ६
१० किं इन्दइ किं अक्खयकुमारु किं पञ्चामुह रणें दुण्णिवारु ॥ ७
एत्तिरहँ मज्जे का बुद्धि कासु को वलहों भिच्चु को रावणासु ॥ ८
- ॥ वत्ता ॥
- पुणु पुणु वि भणेवउ दहवयणु लहु अप्पि परायउ तिय-रयणु ।
अप्पणउ करेपिणु दासरहि स इँ भुज्जहि 'णीसावण्ण महि' ॥ ९

*

- १६ [४९. एकूणपण्णासमो संधि]
- परिणेपिणु लङ्कासुन्दरि समरें महाभय-भीसणहों ।
सो मारुइ रामाएँसेण घरु पइसरइ विहीसणहों ॥

[१]

- सुरवहु-णयणाणन्दयरु (सँ-स-ग-ग-ग-म-नि-नि-नि-स-स-नि-धा)
२० समर-सएँहिँ णिवूढ-भरु(मँ-म-गा-म-गा-म-म-धा-स-नी-स-धा-स-नी-स-धा)॥
पवर-सरीरु पलम्ब-भुउँ (सँ-स-स-स-ग-ग-म-म-नि-नि-स-नि-धा)
लङ्क पईसइ पवण-सुउँ (म-म-गा-म-गा-म-धा-स-नी-धा-स-नी-सँ-धा) ॥ १

15. 1 P तेण thrice 2 A चित्ते. 3 P A पइट्टु. 4 A करेविणु. 5 P S मारिधि. 6 P इँवइ. 7 A पंचाउहु. 8 P S एत्तिरह. 9 P A भणेवउ.

1. 1 s. omits the portion from ०सेँण up to मधासनी in the next line. 2 P स व गगममधि व सण्णिधा। and the gloss on स व is ससगगममणिणिससनिधा; A. here and at several places below has व for ध, which is a clear scribal error. 3 P ममगामधासनीधा and in the gloss ममगामगाममवासणीसधासणीसधा सणीसनीधासणी. 4 P S सरिर. 5 s ०भुवो. 6 P सससससराममममनिनिससनिधा and in the gloss ससससममममणिणिसणिधा, s सससस and the rest as in p. 7 s ०सुभो. 8 s omits.

[१५] १ समस्त.

धञ्जेवि भवैणइँ रावण-भिञ्जेहुँ
जण-मण-गयणाणन्द-जणेरउ
तेण वि अब्भुत्थाणु करेप्पिणु
मारुइ वइसारिउ उच्चासणे
कइकसि-णन्दणेण परिपुच्छिउ
खेमुं कुसलु किं णिय-कुल-दीवहुँ
कुन्दिन्दहुँ माहिन्द-भहिन्दहुँ
अञ्जण-पवणञ्जयहुँ सु-खेउ'

इन्दइ-भाणुकण्ण-मारिच्चहुँ ॥ २
घरु पइसरइ विहीसण-केरउ ॥ ३
सरहसु गाढालिङ्गणु देप्पिणु ॥ ४
णं सु-परिट्ठिउ जिणु जिण-सासणे ॥ ५
'मित्तेत्तडउ कालु कहिँ अच्छिउ ॥ ६
णल-णीलङ्गय-सुग्गीवहुँ ॥ ७
जम्बव-गवय-गवक्ख-णारिन्दहुँ ॥ ८
पुणु वि पुणुं वि जं पुच्छिउ एउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विहँसेवि वुत्तु हणुवन्तेण
पर कुञ्जेहिँ लक्खण-रामेहिँ

'खेमु कुसलु सबहो जणहो ।
अकुसलु एकु दसाणणहो' ॥ १०

[२]

पुणु वि पुणु वि कण्टइय-भुंउ
'एउ विहीसण थाउ मणे

भणइ पडीवउ पवण-सुउ ।
दुज्जय हरि-वल होन्ति रणे ॥

अच्छइ रामचन्दु आरुट्टुउ
'अच्छइ अज्जु कैल्ले संचल्लमि
अच्छइ अज्जु कैल्ले आसक्कमि
अच्छइ अज्जु कैल्ले वलु वुज्जमि
अच्छइ अज्जु कैल्ले अब्भिट्ठमि
अच्छइ अज्जु कैल्ले पुरे पइसमि
अच्छइ अज्जु कैल्ले रिउ-केरउ
अच्छइ अज्जु कैल्ले ११णीसेसइँ

सुमणं-दुअइ सुमरन्तिया
सँहुँ वलेण सहरिस णँच्चिया ॥ १
णं पञ्चाणणु चित्ते दुट्टुउ ॥ २
पलय-समुहु जेम उत्थल्लमि ॥ ३
गोपँउ जिहँ रयणायरु लक्कमि ॥ ४
वइरिहिँ समउ रणङ्गणे जुज्जमि ॥ ५
दहमुह-वल-समुहु ओहँइमि ॥ ६
रावण-सिरि-सीहासणे वइसमि ॥ ७
वाणेहिँ करमि सेणु विवरेरउ ॥ ८
लेमि छत्त-धय-चिन्ध-सहासइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेँ कजेँ आउ गवेसउ
मं लक्कँहिँव-कप्पहुमो

हउँ सुग्गीवहोँ पेसणेण ।
उज्जउ राम-हुवासणेण ॥ १०

9 A वंचइ. 10 P भमणहं, S भमणह. 11 P S A °भिच्चहु. 12 P S इंदइं कुमकण्णं.
13 A खेरं. 14 P S पुणुइं. 15 P S विहसेप्पिणु.

2. 1 S °भुजो. 2 A सुमणा. 3 P सुमरंतिय, A संरंतिया(?). 4 P S A सह. 5 P णच्चिय,
A नच्चिया. 6 P S A कल्लि. 7 P S संचल्लइ. 8 P S उत्थल्लइ. 9 S A कल्लि. 10 P गोप्यउ.
11 A जेम. 12 P S अक्कमि. 13 P S उहइमि. 14 P S रामणं. 15 A °सिंघासणे. 16 P
°केरउं. 17 P S कल्लि. 18 P S A णीसेसइ. 19 A लंकहिँव. 20 P S °हुवासणेण, A हुवासणेण.

[३]

अण्णु विहीसण एउ मुणें जम्बव-केरउ वयणु सुणें ।
 “पँइँ होन्तेण वि चल-भणहों बुद्धि ण हूअ दसाणणहों ॥

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| ४ | पँइँ होन्तेण वि णारि पराईय | सुमँण-दुअइ सुमरन्तिया° ॥ १ |
| | पँइँ होन्तेण वि रावणु मूढउ | वाहें हरिणि व रुद्ध वँराइय ॥ २ |
| | पँइँ होन्तेण वि घोर-रउइहों | अच्छइ माण-गइन्दारूढउ ॥ ३ |
| | पँइँ होन्तेण वि धम्मु ण जाँणिउ | गमु सज्जिउ संसार-समुइहों ॥ ४ |
| | पँइँ होन्तेण वि णिय-कुलु मइलिउ | रयणीयर-वंसहों खउ आँणिउ ॥ ५ |
| १० | पँइँ होन्तेण वि लङ्क विणासिय | वउ चारित्तु सीलु णउ पालिउ ॥ ६ |
| | पँइँ होन्तेण वि लग्गुम्माएँहिँ | सम्पय रिद्धि विद्धि विद्धंसिय ॥ ७ |
| | पँइँ होन्तेण वि ण किउ णिवारिउ | चउविहेहिँ उद्धुद्ध-कँसाएँहिँ ॥ ८ |
| | | एउ कम्म लज्जँणउ णिवारिउ ॥ ९ |

॥ घत्ता ॥

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|
| १५ | जस-हाणि खीणि दुह-अँयसहुँ | इह-पर-लोयहों जम्पणउँ । |
| | अप्पिज्जँउ गेहिणि रामहों | किँ लज्जावहों अप्पणउ” ॥ १० |

[४]

अण्णु परज्जिय-पर-वलहों सुंणि सन्देसउ तहों णलहों ।
 “अइरावय-कर-करयलेंहिँ कवण केलि सहुँ हरि-वलेंहिँ ॥

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------------|
| २० | सम्बुकुमारु जेहिँ विणिवाइउ | सुमँण-दुअइ सुमरन्तिया° ॥ १ |
| | जेहिँ विरोलिउ पहरण-जलयरु | तिसिरउ जेहिँ रणङ्गणें घाइउ ॥ २ |
| | रहवर-णक्क-ग्गाह-भयङ्करु | खर-दूसण-साहँण-रयणावरु ॥ ३ |
| | वर-गय-भड-थड-वेला-मीसणु | पवर-तुरङ्ग-तरङ्ग-णिरन्तरु ॥ ४ |
| | तेहउ रिउ-समुहु रणें घोडिउ | धय-कल्लोल-वोल-संदरिसणु ॥ ५ |
| २५ | कोडि-सिल वि संचालिय जेहिँ | साहसगइ कप्पयरु पलोडिउ ॥ ६ |
| | | किह किज्जइ विग्गहुँ सहुँ तेहिँ ॥ ७ |

3. 1 P S A पइ. 2 P S सुमणसदुअइ सरंतिया. 3 A पराई. 4 A वराई. 5 A ह्योतेण. 6 A याणिउ. 7 A जाणिउ. 8 A, omits this line. 9 P °कसाएहि, S °कसायहि. 10 A लज्जणिउ. 11 S, omits this word. 12 P °जायसुहु, S अयसुहु, A अयसहु. 13 P A जँणउ. 14 S अप्पिज्जइ. 15 P लज्जावहु, S लज्जावहि. 16 A अप्पणउ.

4. 1 P सुणु. 2 A, omits this refrain. 3 P S A °साहणु. 4 P S वर (P वर) गयवरवेलामीसावणु. 5 P S °दरिसावणु. 6 P S सहु विग्गहु, A विग्गहु सहु.

॥ घत्ता ॥

अपिज्जड सीय पयसैण
जाम ण पावन्ति रणङ्गणै

आयद्धिय-कोवण्ड-करं ।
दुज्जय दुद्धर राम-सरं ॥ ८

[५]

अण्णु विहीसणं गुण-घणंउ
गम्पि दसाणणु एम भणु
जो पर-दार रमइ णरु मूढंउ
पर-दारेण 'ति-अक्खु विणट्ठउ
परदारहों फलेण कमलासणु
परदारहों फलेण सुर-सुन्दरु
परदारहों फलेण णिल्लञ्छणु
परदारहों फलेण वइसाणरु
परदारहों फलेण कुल-दीवहों
अण्णु वि करि जिह जो उम्मेट्ठउ

सन्देसउ णीलहों तणंउ ।
“विहआरउ पर-तिय-गर्मणु ॥ १
अच्छइ णरय-महण्णवें दूढउ ॥ २
जइयहँ चिरु दारु-वणें पइट्ठउ ॥ ३
तक्खणेण थिउँ सो चउराणणु ॥ ४
सहस-णयणु किउ णवर पुरन्दरु ॥ ५
किउ स-कलङ्कु णवर मयलञ्छणु ॥ ६
वर-वाहिँ उट्ठु णिरन्तरु ॥ ७
जीविउ हिउ मायासुग्गीवहों ॥ ८
भणु परंदारें को ण वि णट्ठउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अप्पाहिउ लक्खण-रामेहिं
पेक्खेसहि रावणु पडियउ

णिय-परिहव-पड-धोवएँहिं ।
अण्णेहिं दिवसेँहिं थोवएँहिं” ॥ १०

[६]

तं णिसुणेंवि डोल्लिय-मणेंण
'ण गवेसइ जं चविउ पइँ
तो वि महारउ ण किउ णिवारिउ
ण गणइ जिण-भासिय-गुण-वयणइँ
ण गणइ धरु परियणु णासन्तउ
ण गणइ रिद्धि विद्धि सिय सम्पय
ण गणइ हिलिहिलन्त हय चञ्चल
ण गणइ सालङ्कारु स-णेउरु
ण गणइ जल-कीलउ उजाणइँ
सीयहें वयणु एकु पर मण्णइ

मारुइ वुत्तु विहीसणेंण ।
सयवारउ सिक्खविउ मइँ ॥ १
पज्जलियउ मयणगि णिरारिउ ॥ २
ण गणइ इन्दणील-मणि-रयणइँ ॥ ३
ण गणइ पट्टणु पलयहों जन्तउ ॥ ४
ण गणइ गलगज्जन्त महागय ॥ ५
ण गणइ रहवर कणय-समुज्जल ॥ ६
मणहरु पिण्डवासु अन्तेउरु ॥ ७
जाणइँ जम्पाणइँ स-विमाणइँ ॥ ८
भणमि पडीवउ जइ आयण्णइ ॥ ९

7 A 'कोदंठ'. 8 P S 'करु. 9 S 'सरु.

5. 1 P S विहीसणु. 2 A 'वणउं. 3 A 'तणउं. 4 P S 'हरणु. 5 A मूढउं. 6 A वरु जाउ
षउ'. 7 P S 'वाहिउ. 8 A परदारे को वि ण. 9 P पेक्खेविसहि, A पेक्खीसहि.

6. 1 P S पवुत्तु. 2 P S सालंकार.

[५] १ ईश्वरः. २ स्त्री-वेषं कृत्वा वृतेत (?)

॥ घत्ता ॥

जइ एम वि ण किउ णिवारिउ तो आयामिय-आहवहों ।
रणे हणुव तुज्जु पेक्खन्तहों होमि सहेज्जउ राहवहों ॥ १०

[७]

तं णिसुणेप्पिणु पवणं-सुउ सरहसु पुलय-विसट्ट-भुउं ।
पंडिणियत्तु विवरम्मुहंड गउ उज्जाणहों सम्मुहंड ॥ १
पट्टणु णिरवसेसु परिसेसेवि अवलोयणियहें वलेण गंवेसेवि ॥ २
रवि-अत्थवणे सुहड-चूडामाणि पवरुज्जाणु पयट्टिउ पावणि ॥ ३
जं सुरवरतरूहिं संछण्णउ मल्लिय-कङ्केलीहिं रवण्णउ ॥ ४
१० लवलीलय-लवङ्ग-णारङ्गेहिं चम्पय-वडल-तिलय-पुण्णेगेहिं ॥ ५
तरल-तमाल-ताल-ताल्लुरेहिं मालइ-माहुलिङ्ग-माल्लुरेहिं ॥ ६
भुअ-पउमक्ख-दक्ख-खज्जुरेहिं कुङ्कुम-देवदारु-कप्पूरैहिं ॥ ७
वर-करमर-करीर-करवन्देहिं एला-कंकोलेहिं सुमन्देहिं ॥ ८
चन्दण-वन्दणेहिं साहारैहिं एव तरूहिं अणेय-पयारैहिं ॥ ९

१५

॥ घत्ता ॥

तहों वणहों मज्झे हणुवन्तेण सीय णिहालिय दुम्मणिय ।
णं गयण-मग्गे उम्मिल्लिय चन्द-लेह वीयहें तणिय ॥ १०

[८]

सहिय-सहासेहिं परियरिय णं वण-देवय अवयरिय ।
२० तिल-मित्तु णसवलक्खणु जेहें णिवणिज्जइ काइ तहे ॥ १
वर-पाय-तलेहिं पउणारएहिं सिङ्खल-णहेहिं दिहि-गारएहिं ॥ २
उच्चङ्खुलिऐहिं वेउल्लिएहिं वट्टुलिऐहिं गुप्फेहिं गोल्लिएहिं ॥ ३
वर-पोट्टरिएहिं मायन्दिएहिं 'सिरि-पव्वय-तणिएहिं मण्डिएहिं ॥ ४
ऊरुअ-जुएण णिप्पालएण कडिमण्डलेण करहाडएण ॥ ५
२५ वर-सो'णिए कञ्ची-केरियाए तणु-णा'हिएण गंभीरियाए ॥ ६

7. 1 S पवणसुओ. 2 S भुओ. 3 PS पडिणियंतु, A पडिणियत्तु. 4 PA विवरम्मुहंड. 5 A सम्मुहंड. 6 PSA गवेसिदि. 7 PA संछण्णउ. 8 A रवणणउ. 9 PS लवलिलवंगएल. 10 S 'णारिगेहि, A 'नारिगेहि. 11 A 'पुण्णगेहि. 12 PS करउदेहि. 13 PS 'कंकोलेहि. 14 PS एवं तरूहि अणणण पयारहि (P 'पयारहि). 15 P उम्मेल्लिय, A उम्मिल्लि.

8. 1 P तिणमेत्तु वि, S तिलमित्तु वि. 2 P वेउल्लेहिं, S वेउल्लिएहि, A वेउल्लिएहि. 3 P वट्टुलिऐहिं, S वट्टुलिहि, A वट्टुलियहिं. 4 P गोलएहिं, S गोलएहि. 5 PS 'जुयले. 6 A पेवालएण. 7 PS 'सोणिय, A 'सोणी. 8 A केरियए. 9 A 'णा. 10 A गंभीरियए.

[८] १ गौर्यावत् मण्डनैः (?).

सुललिय-पुट्टिएँ सिङ्गारियाएँ
वच्छयलें मञ्जिमएसएण
वारमई-केरेंहिँ धाहुलेहिँ
माणुग्गीवएँ कच्छायणेण
दसणावलियएँ कण्णाडियएँ
णासंडडेंहिँ तुङ्ग-विसय-तणेहिँ
भउहा-जुएण उज्जेणएण
कांसिएँहिँ कवोलेंहिँ पुज्जाएहिँ
काओलिहिँ केस-विसेसएण

पिण्डत्थणियएँ एलउँरियाएँ ॥ ७
भुअँ-सिहरेंहिँ पँच्छिम-देसएण ॥ ८
सिन्धव-मणिवन्धहिँ वडुलेहिँ ॥ ९
उट्टुउडें गोग्गंडियहें तणेण ॥ १०
जीहएँ कारोहणं-वाडियएँ ॥ ११
गम्भीरएहिँ वर-लोयणेहिँ ॥ १२
भालेण वि चित्ताउँडएण ॥ १३
कण्णेहिँ मि कण्णाउज्जाएहिँ ॥ १४
विणएण वि दाहिणएसएण ॥ १५

॥ घत्ता ॥

अह किं बहुणा वित्थरेण
एकेकउँ वत्थु लएप्पिणु

अ-णिविण्णेणं सुन्दर-मइण ।
णावइ घडिय पयावइण ॥ १६

[९]

राम-विओएँ दुम्मणिय
मोक्कल-केस कवोल-भुअ
जाणइ-वयण-कमलु अलहन्तिउ
हणइ तो वि ण करन्ति णिवारिउ
एवं सिलीमुह-सांसिजन्ती
वणेँ अच्छन्ति दिट्ठ परमेसरि
हरिसिउ अञ्जणेउ एत्थन्तरे
जो तिय एह आसि माणन्तउ
णिरलङ्कार वि' होन्ती सोहइ
'सीयहें तणउँ रूउ वण्णेप्पिणु

अंसु-जलोल्लिय-लोयणिय ।
दिट्ठ 'विसण्डुल जणय-सुअ ॥ १
सुहु ण देन्ति फुँलन्धुय-पन्तिउ ॥ २
कर-कमलहिँ लग्गन्ति णिरारिउ ॥ ३
अण्णु विओअ-सोय-संतत्ती ॥ ४
सेस-सरीहिँ मज्जेँ णं सुर-सरि ॥ ५
'धर्णणउ एक्कु रामु भुवणन्तरे ॥ ६
रावणु सइँ जें मरइ अलहन्तउ ॥ ७
जइ मण्डिय तो तिहुअणु मोहइ' ॥ ८
अप्पउ णहें पच्छण्णु करेप्पिणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

ओ पेसिउ राहवचन्देण
उच्छङ्गे पडिउ वइदेहिँ

सो घत्तिउ अङ्गुत्थलउ ।
णावइ हरिसहो पोट्टलउ ॥ १०

11 P सिगारियाए, S सिवारियाए. 12 P पिंडयणिमए, S पिंडत्थणिमए, A पिंडत्थणीयए.
13 P S एळडलियाए, A एळडरियए. 14 P भुअसिहरें, S भुअसिहरें. 15 A दहिणएसएणं.
16 P S वाहुलेहि, A वाहुलिहिँ. 17 P माणग्गीविहिँ कच्छायणेहिँ, S माणग्गीविहिँ कच्छायणेहिँ.
18 P उट्टुउडेंहिँ, S उट्टुउडिहिँ. 19 P कोकणियहिँ तणेहिँ, S कोकणियहिँ तणेहिँ. 20 P S
कोरोहणवाडियए. 21 S णासंडडेंहिँ, P णासंडडें. 22 P S चित्तउडाणएण. 23 P S A कासीएहिँ.
24 P काबिलेंहिँ, S काबिलिँहिँ. 25 P S अणिविण्णेणं. 26 P S एकेकी.

9. 1 P णिवारिउं. 2 P S करयलेहि. 3 P णिरारिउं, A निवारिउ. 4 P एवं. 5 S सासिजन्ती,
A सासिजन्ती. 6 A धणणउं. 7 P जु, S जि. 8 P सीयहो, S सीयहि. 9 A तणउं. 10 P अंगुत्थलउं.

[९] १ भमच्छाया मृत्तारहीनेति. २ अमराः.

[१०]

पेक्खेवि रामङ्कुत्थलउ सरहेसु हसिउ सुकोमलउ ।
 दिहि परिवद्धिय सहि-जणहोँ 'तियडएँ कहिउ दसाणणहोँ ॥ १
 'जीविउ सहलु तुहारउ अज्जु अज्जु णवर णिक्कण्टउ रज्जु ॥ २
 ५ जोअइ अज्जु देव दह वयणइँ लद्धइँ अज्जु चउदह रयणइँ ॥ ३
 उब्भहि अज्जु छत्त-धय-दण्डइँ भुज्जहि अज्जु पिहिमिँ छंक्खण्ड इ ॥ ४
 अज्जु मत्त-गंय-घडउ पसाहहि अज्जुत्तुङ्ग तुरङ्गम वाहहि ॥ ५
 पुज्जउ अज्जु पइज्ज तुहारी एत्तिय-कालहोँ हसिय भडारी ॥ ६
 लहु देवावहि णिव्वुइ-गारउ वज्जउ मङ्गलु तूरु तुहारउ ॥ ७
 ११ एत्तिउ वुज्जमि 'णीसंदेहेँ जैइ आलिङ्गणु देइ सणेहेँ ॥ ८
 तं णिसुणेवि दसाणणु हरिसिउ सब्बिउ रोमञ्चु पदरिसिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो चप्पेवि चप्पेवि भरियउ सयल-भुवण-संतावणहोँ ।
 सो हरिसु धरंन्त-धरंन्तहोँ अङ्गे ण माइउँ रावणहोँ ॥ १०

[११]

जोइउ मन्दोयरिहेँ मुहुँ 'कन्तेँ पडीवी जाहि तुहुँ ।
 अब्भत्थहि धयरट्टु-गइँ महु आलिङ्गणु देइँ जइँ ॥ १
 तं णिसुणेवि अणागंय-जाणी संचल्लिय मन्दोयरि राणी ॥ २
 ताएँ समाणु स-दोरुँ स-णेउरु संचल्लिउ सयलु वि अन्तेउरु ॥ ३
 २० जं पप्फुल्लिय-पङ्कय-वयणउँ जं कुवलय-दल-दीहर-णयणउँ ॥ ४
 जं सुरकरि-कर-मन्थर-गमणउँ जं पर-णरवर-मण-जूरवणउ ॥ ५
 जं सुन्दरु सोहरगुग्घवियउ जं पीणत्थण-भारोणमियउ ॥ ६
 जं मणहरु तणु-मज्झ-सरीरउ जं उरयड-णियम्ब-गम्भीरउ ॥ ७

10. 1 P S रामअंगुत्थलउ. 2 A सकोमलउ. 3 P परिवडिएहि मणहो, S परिवडिएहि मणहो. 4 S जोवहि. 5 P S पुहमि. 6 P च्छसंडइ, S च्छसंडइ, A च्छरकंडइ. 7 P S महंगाय°. 8 P S मंगल. 9 P S णीसंदेहिँ, A णीसंदेहे. 10 P जिहि, S जिह. 11 P S A सणहिँ. 12 S धरंति, A. omits. 13 P धरंतयहो. 14 P माइ रामणहो.

11. 1 A मुहुँ. 2 P धयरट्टु गइ. 3 P देहि. 4 A अणागम°. 5 P S सडोरु. 6 A वयणउँ. 7 A वयणउँ. 8 P A गमणउँ. 9 A णरमण°. 10 P जूरमणउ, A जूरवणउँ. 11 A गग्घवियउ. 12 P भारेँ नामिअउ. 13 P S मग्घु°.

[१०] १ रावणस्य विघ्ना भमी (भगिनी) तथा.

क० ११, ८-१०; १२, १-८; १३, १-५] सुन्दरकण्ड-एकूणपण्णासमो संघि [२२७

जं पय-गेउरु-घण-झङ्कारउ
जं कञ्जी-कलाव-पठभारउ

जं रंङ्खोलि-मोत्तिय-हारउ ॥ ८
जं विब्भम-भूभङ्ग-वियारउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं तेहउ रावण-केरउ
णं सँ-भमरु माणस-सरवरें

अन्तेउरु संचल्लियउ ।
कमलिणि-वणु पप्फुल्लियउ ॥ १०

[१२]

उण्णय-पीण-पओहरेहिँ
लक्खिय सीयाएवि किह
णिम्मियलञ्छण ससि-जोण्हा इव
णिवियार जिणर्वर-पडिमा इव
अभयङ्कर छञ्जीव-दया इव
स-पओहर पाउस-सोहा इव
कन्ति-समुज्जल तडि-माला इव
णिम्मलं कित्ति व रामहों केरी

रावण-णयण-सुहङ्करिहिँ ।
सरियँहिँ सार्यर-सोह जिह ॥ १
तित्ति-विरहिय अमियँ-त्तण्हा इव ॥ २
रइ-विहि विण्णाणिय-घडिया इव ॥ ३
अहिणव-कोमल-वण्ण लया इव ॥ ४
अविचल सव्वंसह वसुहा इव ॥ ५
सव्वंसलोण उव्वहि-वेला इव ॥ ६
तिहुअणु भमँवि परिट्ठियँ सेरी^{१०} ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अट्टारह जुवइ-सहासइँ
णं सरवरें सियहें णिसण्णइँ

सीयहें पासु समँल्लियइँ ।
सयवत्तइँ पप्फुल्लियइँ ॥ ८

[१३]

गम्पिणु पासँ वईसरें वि
राहव-घरिणि किसोयँरिएँ
'हलें हलें सीएँ सीएँ' किं मूढी
हलें हलें सीएँ सीएँ करि वुत्तउ
हलें हलें सीएँ सीएँ जइ जाणहिँ
हलें हलें सीएँ सीएँ सुँणु वयणइँ

कवडें चाडु-सयइँ करँवि ।
संवोहिय मन्दोयँरिएँ ॥ १
अच्छँहि दुक्ख-महण्णवें छूढी ॥ २
लइ चूँडउ कण्ठउ कडिसुँत्तउ ॥ ३
लइ वँत्थइँ तम्बोलु समाणहिँ ॥ ४
अङ्कु पसाहहि अञ्जहि णयणइँ ॥ ५

14 P S गेउर-रव-घण°. 15 P रंघोलिय°, S रंघोलिर°. 16 A मं भमरु.

12. 1 P °पओहरेहिँ, S °पओहरेहि. 2 P °सुहंकरेहि, S °सुहंकरेहिँ. 3 P S A सरियहि, P सरियरु, before which वियसिय added marginally. 4 P होह, A मारियसोह. 5 P only तण्हा, corrected marginally as गिम्हत्तण्हा. 6 A णं जिणपडिमा. 7 P सुहु, S सुहु. 8 A उव्वहि°. 9 P परिट्ठी. 10 S सारी. 11 P समुल्लियइ, S समुल्लियइ.

13. 1 P S किसोयरिए. 2 P S मंदोयरियए. 3 S भइँ. 4 A अच्छँहिँ. 5 P चूँडउ. 6 P कडिसुत्तउ. 7 A जाणहिँ. 8 P पण्णइ, S पण्णइँ. 9 A समाणहिँ. 10 P सु corrected as सुय, S सुयि.

हलें हलें सीएँ सीएँ लइ दप्पणु
हलें हलें सीएँ सीएँ अविओलेंहिँ
हलें हलें सीएँ सीएँ उचुङ्गोहिँ
हलें हलें सीएँ सीएँ महि भुञ्जहिँ

चूँडि णिवद्धहि जोअहि अप्पणु ॥ ६
चडुँ गयवरोहिँ गिल्लुँ-गिल्लोलेहिँ ॥ ७
चडु चडुलेहिँ हिंसन्त-तुरङ्गेहिँ ॥ ८
माणुस-जम्महोँ फलु अणुहुञ्जहि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पिउ इच्छहि पट्टु पडिच्छहि
तो लइ महएवि-पसाहणु

जइ सब्भावेँ हसिउ पइँ ।
अब्भत्थिय एत्तडउ मइँ ॥ १०

[१४]

तं णिसुणेवि विदेहँ-सुअ
१० 'सच्चउ इच्छमि दहवयणु
इच्छमि जइ महु मुहुँ ण णिहालइ
इच्छमि जइ महु मासु ण भक्खइ
इच्छमि जइ भीयउँ मम्भीसइ
इच्छमि पर-कलत्तु जइ वञ्चइ
१५ इच्छमि जइ कसाय परिसेसइ
इच्छमि जइ पडिमाँउ समारइ
इच्छमि अभय-दाणु जइ देसइ
इच्छमि जइ ति-कालु जिणु वन्दइ

पभणइ पुलय-विसट्ट-भुअ ।
जइ जिण-सासणेँ करइ मणु ॥ १
इच्छमि अणुवयाइँ जइ पालइ ॥ २
इच्छमि णियय-सीलु जइ रक्खइ ॥ ३
इच्छमि जइ पर-दवु ण हिंसइ ॥ ४
इच्छमि जइ अणुदिणु जिणु अञ्चइ ॥ ५
इच्छमि जइ परमँत्थु गवेसइ ॥ ६
इच्छमि जइ पुज्जउ णीसारइ ॥ ७
इच्छमि जइ तव-चरणु लएसइ ॥ ८
इच्छमि जइ मणु गरहइ णिन्दइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

२० अणुणु मि इच्छमि मन्दोयरि
सिरसा चलणेँहिँ णिवडेप्पिणु

आयामिय-पवराहवहोँ ।
जइ मइँ अप्पइ राहवहोँ ॥ १०

[१५]

जइ पुणु णयणाणन्दणहोँ
तो हँ इच्छमि एउ हलें
२५ इच्छमि णन्दणवणु भज्जन्तउ
इच्छमि णिसियर-वलु अत्थन्तउ
इच्छमि दहमुह-तरु छिज्जन्तउ

ण समप्पिय रहु-णन्दणहोँ ।
पुरि खिप्पन्ती उवहि-जलेँ ॥ १
इच्छमि पट्टणु पलयहोँ जन्तउ ॥ २
इच्छमि घरु पायालहोँ जन्तउ ॥ ३
तिलु तिलु राम-सरेँहिँ भिज्जन्तउ ॥ ४

11 P S जूढि. 12 S चडु २, P चढि. 13 S गिल्लोलेहि. 14 P भुँजहि. 15 A सबभावे हिंसिउ.

14. 1 P S वयदेहि. 2 A मुहुँ. 3 P भीयउँ, A भीसउँ. 4 P S मज्जत्थु. 5 P S पडिमउ
णहिसारइ.

15. 1 A रहवइणन्दणहो. 2 P S वा. 3 A विप्पन्ती. 4 P लइ अंतउ, S लय अंतउ.
5 P °सरहि, S °सरेहि, A °सरहँ.

इच्छमि दस वि सिरइँ णिवडन्तइँ सरेँ हंसाहयइँ व सयवत्तइँ ॥ ५
 इच्छमि अन्तेउरु रोवन्तउ केस-विसन्थुलु घाहाँवन्तउ ॥ ६
 इच्छमि छिज्जन्तइँ धय-चिन्धइँ इच्छमि णच्चन्ताइँ कवन्धइँ ॥ ७
 इच्छमि धूमन्धारिज्जन्तइँ चउ-दिसु सुहड-चियाइँ वलन्तइँ ॥ ८
 जं जं इच्छमि तं तं सच्चउ णं [तो] करमि अज्जु हल्ले पच्चउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो आईउ राहव-केरउ एहु अच्छइ अज्जुत्थलउ ।
 महु सहल-मणोरह-गारउ तुम्हइँ दुक्खइँ पोहलउ' ॥ १०

[१६]

तं णिसुणेवि विरुद्ध-मणं सुरवरं-करि-कुम्भयल-धणं । १०
 लक्खण-राम-पसंसणेण पजलिय-कोव-हुआसणेण ॥ १
 'मरु कहिँ तर्णउ रामु कहिँ लक्खणु अज्जु पावेँ तउ कुद्धु दसाणणु ॥ २
 सम्भरु सम्भरु इट्ठा-वेवउ मंसु विहजेँवि भूअहँ देवउ ॥ ३
 लीह लुहमि तुह तणयहोँ णामहोँ जिह ण होहि रामणहोँ ण रामहोँ ॥ ४
 एउ भणेपिणु रिउ-पडिकूलें धाँइय मन्दोअरि सहँ सुलें ॥ ५
 जालामालिणी विसँहुँ जालें कङ्काली कराल-करवालें ॥ ६
 विज्जुप्पह विज्जुज्जल-वयणी दसणावलि रत्तुप्पल-णयणी ॥ ७
 हयमुहि हिलिहिलन्ति उद्धाइय गयमुहि गुलुगुलन्ति संपाइय ॥ ८
 तं वल्लु णिँएवि तियँहुँ भीसाणहुँ कालु कियन्तु वि मुच्चइ पाणहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेहएँ वि कालें पडिवण्णएँ विणु रामेँ विणु लक्खणेण ।
 वइदेहिँ चित्तु ण कम्पिउ दिढ-वलेण सीलहोँ तणेण ॥ १०

[१७]

तं उवसग्गु भयावणउ अण्णु विं सीय-दिढत्तर्णउ ।
 पेक्खेँवि पुलय-विसट्ट-भुउ लग्गु पसंसहुँ पवण-सुउ ॥ १

6 A विसंद्धलु. 7 P घाह मुयंतउ, S घाह मुयंतउ. 8 A वल्लवंतइ. 9 S आचौ.

16. 1 P S 'मणे. 2 A सुरकरिकरकुम्भ'. 3 P S 'थणे. 4 P A तणउं. 5 P S लुहेवि.
 6 S घाहय करि सहु पक्खलसुलें. 7 P S विसहु, A वसहुं. 8 A कवाल'. 9 P विज्जुलवयणी
 corrected as विज्जुलवरवयणी. 10 P तियहुँ भीसावहुं, S तियहु भीसावहु, A तियह
 भीसाणहुं. 11 S पाणहु, A पाणहुं.

17. 1 P S तमुवसग्गु. 2 P भीसावणउं, S भीसावणउ, A भयावणउं. 3 P S इ. 4 A
 'दिढत्तणउं. 5 P पसंसहु, S पसंसहो.

‘धीरु जें धीरंड होइ णियाणें वि
तियहें’ होइ जं सीयहें साहसु
एहएँ विहुर-कालें वडुन्तएँ
जइ मइँ अप्पउ णाहिँ पगासिउ
५ एम भणेप्पिणु लउडि-विहत्थउ
णं कणियारि-णिवहु पप्फुलिउ

मन्दोयरि-सीयाँएविहिँ
णं उत्तर-दाँहिण-भूमिहिँ

१०

‘ओसरु ओसरु दिढ-मइँहें
हउँ आयामिय-पर-वल्लेहिँ
हउँ सो राम-दूउ संपाइउ
पहरहों मइँ समाणु जइ सक्हों
१५ तं णिसुणेवि वयणु णिसिगोअँरि
‘चङ्गउ पुरिस-विसेसु गवेसिउ
खरु संगहेंवि तुरङ्गमु वञ्चिउ
छालउ धरेंवि गइँन्दु विमुक्कउ
एक्कु विँ उवयारु ण सम्भरियउ
२० जसु णामेण जि हासँउ दिज्जइ

जो सयल-कालु पुज्जेवँउ
सो एवहिँ तुहँ वन्धेवउ^{१५}

२५

तं णिसुणेवि हणुवन्तु किह
‘जं पइँ रामहों णिन्द कय

दुक्कन्तएँ जीविय-अवसाणें वि ॥ २
तं तेहउ पुरिसँहों वि ण ढहसु ॥ ३
सामिहें तणएँ कलत्तें मरन्तएँ ॥ ४
तो अहिमाणु मरट्टु विणासिउ’ ॥ ५
अहिणव-पिअर-वत्थ-णियत्थउ ॥ ६
णं कलहोय-पुञ्जु संचलिउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

कलहें पँवड्डिएँ भुवण-सिरि ।
मज्जेँ परिट्टिउ विञ्जइरि ॥ ८

[१८]

पासहों सीय-महासइहें ।
दूउ विसज्जिउ हरि-वल्लेहिँ ॥ १
अङ्कुत्थलउ लएप्पिणु आइउ ॥ २
सीया-एविहें पासु मं दुक्कहों ॥ ३
चविय विरुद्ध कुद्ध मन्दोअरि ॥ ४
साणु लएवि सीहु परिसेसिउ ॥ ५
जिणु परिहरेँवि कु-देवँउ अञ्चिउ ॥ ६
वडुन्तरेँण मित्त तुहँ चुक्कउ ॥ ७
रावणु मुएँवि रामु जं वरियउँ ॥ ८
तासु केमं दूअत्तणु किज्जइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

कडय-मउड-कडिसुत्तएँहिँ ।
चोरु वँ मिलेँवि वहुत्तएँहिँ ॥ १०

[१९]

अत्ति पलित्तु दवगि जिह ।
किहँ सय-खण्डु ण जीह गय ॥ १

6 P धीरउं. 7 F तियहो होवि, S तियहु होवि. 8 P पुरिसुहो वि. 9 P ०णिरत्थउ. 10 P ०सीयाएविहे, S ०सीयाएविहि. 11 P S पवड्डिय. 12 P S दाहिणउत्तर^२.

18. 1 S पडुक्कु. 2 P S णहगोयरि. 3 P परिहरेविणु, S परिहरे. 4 P कुसमउ, S कुसमाउहु. 5 P S गयंउ, A गइँद. 6 P S इ. 7 A संभरिउ. 8 P S जें. 9 A धरिउ. 10 हासिउ. 11 P केण. 12 P S A ०काल. 13 P A पुज्जेवउ. 14 A ०कडिसुत्तहिँ. 15 P A वन्धेवउ. 16 A वि.

19. 1 P S कह.

[१८] १ (P.'s reading) परसमउ.

जो^१ धगधगधगन्तु वइसाणरु
अण्णु वि जसु सहाउ भड-भञ्जणु
तेहिं विरुद्धएहिं को छुट्टइ
'कर्णहो^२ किण्ण परक्कमु बुज्झिउ
वालिय कोडिसिल वि अविओलें
साहसगइ वि वियारिउ रामें
अहवइ रावणो वि जस-लुद्धउ
चोरहो^३ परया^४रियहो^५ अज्जोए^६वि(?)

रक्खस-वण-तिण-रुक्ख-भयक्करु ॥ २
झडझडन्ति (?) सोमिति-पहञ्जणु ॥ ३
जाहँ णिणाए^७ अम्वरु फुट्टइ ॥ ४
खर-दूसणोहिं समउ जे^८ जुज्झिउ ॥ ५
लच्छि व^९ गएण गिल्ल-गिल्लोलें ॥ ६
को जगे^{१०} अण्णु तेण^{११} आयामें ॥ ७
णवर चारु-सीलेण न लद्धउ ॥ ८
तासु सहाउ होइ^{१२} किं कोइ वि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अण्णु वि णव-कोमल-वाहो^{१३}ह जसु दिज्जइ आलिङ्गणउ ।
मन्दोवरि तहो^{१४} णिय-कैन्तहो^{१५} किह किज्जइ दू^{१६}अत्तणउ^{१७} ॥ १०

[२०]

जं^१ पोमाइउ दासरं^२हि
तं मन्दोअरि कुइय मणे^३
'अरे^४ अरे^५ हणुव हणुव वल-गावहुं
जइ ण विहाणए^६ पइ^७ वन्धावमि
अण्णु मि घरिणि ण होमि 'णिसिन्दहो^८ णउ पणिवाउ करेमि जिणिन्दहो^९ ॥ ४
एम भणेवि तुरिउ संचलिय
परिवारिय लङ्काहिव-पत्तिहिं
णेउर-हार-दोर-पालम्बो^{१०}हिं
पक्खलन्ति णिवडन्ति किसोयरि

णिन्दिउ रावण-वल-उवहि ।

विज्जु पैगज्जिय जिह गयणे ॥ १

दिदु होज्जहि एयहुं आलावहुं ॥ २

तो णिय-गोत्ते^{११} कलङ्कउ लावमि ॥ ३

अण्णु मि घरिणि ण होमि 'णिसिन्दहो^{१२} णउ पणिवाउ करेमि जिणिन्दहो^{१३} ॥ ४

वेल समुइहो^{१४} जिह उत्थलिय ॥ ५

पैदम-विहत्ति व सेस-विहत्तिहिं ॥ ६

सुरधणु-तारायण-पडिविम्बो^{१५}हिं ॥ ७

गय णिय-णिलउ पत्त मन्दोयरि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हणुए^{१६}ण वि रहसुच्छलि^{१७}एण
णं जिणवर-पडिम सुरिन्दे^{१८}ण

दुदम-दणु-दपुबभुए^{१९}हिं ।

पणमिय सीय स यं भु ए^{२०}हिं ॥ ९

*

२ A घग. ३ A 'रक्ख'. ४ S सुहड झडन्ति सुमिति. ५ P किणहहो, S किणहु, A कणहणहहो.
६ S जे, A जहिं. ७ PS वि. ८ PS एण. ९ P वडउ. १० A पारायारिहि. ११ A होइवि.
१२ PS णउ. १३ SA आलिङ्गणउ. १४ PS 'णाहहो. १५ PA दूअत्तण^{१६}, S दूयत्तणउ.

२०. १ PS जं. २ A दासरहिं. ३ P उवहिं, A उअहिं. ४ PS विज्जुप्पह गज्जिय. ५ PS
लायमि. ६ PS परिवउ. ७ PS 'दोर'. ८ PS 'सुच्छलिणएण, ९ A सह.

[१९] १ लक्ष्मणस्य.

[२०] १ वलगर्वात्(?). २ रावणस्य. ३ प्रथम-विभक्तीव यथा शेष-विभक्तीनाम्.

[५० पण्णासमो संघि]

गय मन्दोयरि गिय-घरहों हणुवन्तु वि सीयहें सम्मुहड ।
अगगएँ थिड अहिसेय-करु णं सुरवर-लच्छिहें मत्त-गड ॥
[१]

मालूर-पवर-पीवर-थणाएँ कुवलय-दल-दीहर-लोयणाएँ ।
पप्फुल्लिय-वर-कमलाणणाएँ हणुवन्तु पपुच्छिड दिठ-मणाएँ ॥ १
(पद्धडिया-दुवई)^१

‘कहें कहें वच्छ वच्छ बहु-गामहों कुसल-वत्त किं अकुसलु रामहों ॥ २
कहें कहें वच्छ वच्छ कमलेक्खणु किं विणिहंड किं जीवइ लक्खणु’ ॥ ३
१० तं गिसुणेंवि सिरसा षणंमन्तें अक्खिय कुसल-वत्त हणुवन्तें ॥ ४
‘भाएँ भाएँ करें धीरंड गिय-मणु जीवइ रामचन्दु स-जणहणु ॥ ५
णवरि परिट्टिड लीह-विसेसड तवसि व संव्व-सङ्ग-परिसेसड ॥ ६
चन्दु व वेहुल-पक्खं-खय-खीणड गिवइ व रज्ज-विहोर्य-विहीणंड ॥ ७
रुक्खु व पत्त-रिद्धि-परिचत्तड सुकइ व दुक्कर कह चिन्तन्तड ॥ ८
१५ तरणि व गिय-किरणेंहिं परिवज्जिड जलणु व तोय-तुसार-परज्जिड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

इन्दु व चवण-कालें ल्हसिड दैसंमिहें आगमणें जेम जलहि ।
खाम-खामु परिशीण-त्तणु तिहें तुम्ह विओएँ दासरहि ॥ १०

[२]

२० अणुणु विं मयरहरावत्त-धरु सिरं-सिहरं-चडाविय-उभय-करु ।
गिय जणणि वि एव ण अणुसरइ सोमिच्चि जेम पइं संभरइ ॥ १

(पद्धडिया-दुवई)^१

सुमरइ गिय-गन्दणु माया इव सुमरइ सिहि पाउंस-छाया इव ॥ २
सुमरइ जणु पहु-भजाया इव ॥ ३

1. 1 P पद्यदुवई, S पद्यदुवई, A. reads this in the beginning of the stanza, while at the end it reads ध्रुवकं. 2 A omits. 3 A. वत्त. 4 P S विणि-हिड. 5 P पणवन्तें. 6 A धीरिड. 7 A संव्वंगिव. 8 A पक्खि. 9 P °विहूइ°, S °विजोय°. 10 S विहूणड, A विहीणडं. 11 P S A किरणेहि. 12 P S दसमिए. 13 P S खामु. 14 P S ल्ह.

2. 1 A मि. 2 P सिरे, S सिरि. 3 S सिहरि. 4 A संभरइ. 5 P S omit; A reads this in the beginning. 6 P S पाउसु.

[१] १ स्त्री-विषय-संगरहितः. २ कृष्णपक्षे. ३ दसमी तिथिरेव ऋद्धत्वं । तदागमप्रसिद्धमिदं । उभयदशम्यां समुद्रे मनागपि वेला न चटतीति ।

[२] १ लक्ष्मणः.

सुमरइ भिक्षु सु-सामि-दया इव
सुमरइ मत्त-हृत्थि वणराइ व
सुमरइ णिद्धणु धण-संपत्ति व
सुमरइ भविउ जिणेसर-भत्ति व
सुमरइ ससि संपुण्ण पहा इव
तिह पइँ सुमरइ देवि जणइणु

सुमरइ करहु करीर-लया इव ॥ ४
सुमरइ मुणिवरु गइ-पवरा इव ॥ ५
सुमरइ सुरवरु जम्मुप्पत्ति व ॥ ६
सुमरइ वइयाकरणु विहत्ति व ॥ ७
सुमरइ वुहयणु सुकइ-कहा इव ॥ ८
रामहों पासिउ सो दूमिय-मणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एक्कु तुहारउ परम-दुहु
एक्कु रत्ति अण्णेक्कु दिणु

अण्णेक्कु वि रहु-तणयहों तणउ ।
सोमित्तिहें सोक्खु कहिँ तणउ' ॥ १०

[३]

तो गुण-गण-सलिल-महाणइहें
कंञ्चुउ फुट्टेवि सय-खण्डु गउ

रोमञ्चु पवट्टिउ जाणइहें ।
णं खलु अलहन्तु 'विसिद्ध-मउ ॥ १
(पद्धडिया-दुवई)'

पढमु सरीरु ताहें रोमञ्चिउ
'दुक्करु राम-दूउ एहु आइउ
अत्थि अणेय एत्थु विज्जाहर
संबहँ मइँ संबभाव णिरिक्खिय
णं वण-देवय थाणहों चुक्की
णवर णियाणें हूअ विज्जाहरि
लक्खण-खग्गु णिएवि पणट्ठी
अण्णेक्कएँ किउ णाउ भयङ्करु

पच्छएँ णवर विसाएँ खञ्चिउ ॥ २
मञ्छुडु अण्णु को वि संपाइउ ॥ ३
जे गाणाविह-रूव-भयङ्कर ॥ ४
चन्दणहि वि चिरु गाहिँ परिक्खिय ॥ ५
“मइँ परिणहों” पभणन्ति पटुक्की ॥ ६
किलिकिलिन्ति थिय अमहहँ उप्परि ॥ ७
हरिणि व वाह-सिलीमुह-तट्ठी ॥ ८
हउ मि छलिय विच्छोइउ हलहरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

कहिँ लक्खणु कहिँ दासरहि
माया-रूवें पिउ करेवि

आयहों दूअत्तणु कहिँ तणउ ।
मणु जोअइ को वि महु तणउ ॥ १०

[४]

आढवमि खेडुँ वरि एण सहँ
माणवेंण होविँ आसद्धियउ

पेक्खहँ कवणुत्तरु देइ महु ।
किह लवण-महोवहि लद्धियउ' ॥ १

7 A दुम्मिय०. 8 A तणउं.

3. 1 PS कंचु. 2 PS omit; A. reads it in the beginning. 3 P विसापहिं,
S विसायहि. 4 PS सव्वहु. 5 P सभाउ, S सम्भाउ. 6 A परिणहुं. 7 PS किलिकिलिन्ति.
8 PS मञ्छुडु. 9 P A दासरहिं. 10 P A तणउं. 11 A तणउं.

4. 1 PS खेडु. 2 A होइ. 3 A लद्धियउं.

[३] १ विशिष्टमत्तं. २ निदानेन. ३ सिद्धनादं.

स० प० च० ३०

पञ्चारिउ 'णिय-मणें चिन्तन्तिएँ
तो किह कमिउं वच्छ पइँ सायरु
कच्छव-मच्छ-दच्छ-पुच्छाहउँ
जोयण-सयइँ सत्त जल-वित्थरु
१ एक्कु महोवहि दुप्पइसारो
सो सवहुँ दुलङ्कु संसारु व
तहों पडिवलुँ परिवद्धिय-हरिसउ
अण्णु महाहवें विप्फुरियाहरि

'जइ तुहुँ राम-दूउ विणु भन्तिएँ ॥ २
जो सो णक्क-ग्गाह-भयङ्करु ॥ ३
सुंसुमार-करि-मयर-सणाहउ ॥ ४
णिच्च-णिगोउ जेम अइ-दुत्तरु ॥ ५
अण्णु वि आसाली-पार्यारो ॥ ६
अवुहहुँ विसमउ पञ्चाहारु व ॥ ७
वज्जाउहु वैज्जाउह-सरिसउ ॥ ८
केम परजिय लङ्कासुन्दरि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१० आयइँ सवइँ परिहरेंवि
अट्ट वि कम्मइँ णिदलेंवि

तुहुँ लङ्का-णयरि पइट्टु किह ।
वर-सिद्धि-महापुरि सिद्धु जिह' ॥ १०

[५]

तं णिसुणेंवि वंयणु महग्घविउ विसेहँपिणु अंजणेउँ चविउ ।
'परमेसरि अज्ज वि भन्ति तउ जावेंहिँ वज्जाउहु समरें हउ ॥ १

१५ जावेंहिँ वसिकिय लङ्कासुन्दरि
णिहयासालि महोवहि लङ्घिउ
एव वि जइ ण देवि पत्तिज्जहि
जइयहुँ वण-वासहों णीसरियइँ
णम्मय विञ्चु तावि अहिणाणइँ
२० जयउर-णन्दावत्त-णिवाणइँ
गुत्त-सुगुत्त-जडाइ-णिवेसइँ
खर-दूसण-सङ्गाम-पवञ्चइँ

लइय सा वि कुञ्जरेण वं कुञ्जरि ॥ २
एवहिँ रावणो वि आसद्धिउ ॥ ३
तो राहव-सङ्केउ सुणेज्जहि ॥ ४
दसउर-कुव्वर-पुर पइँसरियइँ ॥ ५
अरुणगाम-रामउरि-पयाणइँ ॥ ६
खेमञ्जलि-वंसत्थल-थाणइँ ॥ ७
खग्गु सम्बु चन्दणाहि पपँसइँ ॥ ८
तिसिरय-रण-चरियाइँ दइच्चइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

२५ एयइँ चिन्धइँ पायडइँ
काइँ ण पइँ अणुहुआइँ

अवराइ मि कियइँ जाइँ छलइँ ।
अवलोयणि-सीहणाय-फलइँ ॥ १०

4 P मणि चित्तित्तिए, P मणि चेतंतिथउ. 5 A कमिउं. 6 P S पुच्छायउ, A पुच्छाहउं. 7 P S सुंसुमार, A सुंसुमार. 8 P S कराहउ. 9 P S आसालिए, A आमाली. 10 P पावार, S पायरु. 11 A विसमउं. 12 P S पडिमल्ल पवड्डिम°. 13 P S have a Danda after तुहुं.

5. 1 P S पणुणणुणग्घविउ. 2 P S विहसेविणु. 3 P अंजणिउ, A अंजणे. 4 P S जावहि. 5 P S वि. 6 P S सुणिज्जइ. 7 P S पुर. 8 A वइसरियइं. 9 P S णिवेसइ. 10 P 'पप्सइ, S 'पप्सए, A 'पवंचइ.

[४] १ (P.'s reading) आगतं युक्तं. २ प्रत्याहार इव. ३ ईदतुल्यः.

[५] १ (Reading in P S.) गुणाद्यः. २ नृपाज्ञया (!).

[६]

सुणि जिह जडाइ संघारियउ रणें रयणकेसि वित्थारियउ ।
 सहसगइ सैरेहिं वियारियउ सुग्गीउ रज्जे वइसारियउ' ॥ १
 तं णिसुणेवि सीय परिओसिय 'साहु साहु भो' एम पघोसिय ॥ २
 'सुहड-सरीर-वीर-वल-मदहों सच्चउ भिच्चु होहि वलहदहों' ॥ ३
 पुणु पुणु एम पसंस करन्तिए परिहिउ अङ्कुत्थलउ तुरन्तिए ॥ ४
 रेहइ करयल-कमलाइइउ णं महुअरु मयरन्द-पइइउ ॥ ५
 ताव चउत्थउ पहरु समाहउ लंक्कहिं दिणु' णाइं जम-पडहउ ॥ ६
 णाइं पघोसइ 'अहों अहों लोयहों धम्मु करहों धण-रिद्धि म जोयहों ॥ ७
 सच्चु चवहों पर-दवु म हिंसहों जें चुक्कहों तहों वंइवस-महिसहों ॥ ८
 पर-तिय मज्जु मंसु महु वच्चहों जें चुक्कहों संसार-पवच्चहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मं जाणेज्जहों पहरु गेउ जमरायहों केरउ आण-करु ।
 तिक्खेहिं 'णाडि-कुठारेणहिं दिवेदिवे छिन्देवउ आउ-तरु' ॥ १०

[७]

णं पुणु वि पघोसइ घडिय-सरु 'हउं तुम्हहुं गुरु उवएस-करु ।
 जगहों जगहों केत्तिउ सुअहों मच्छरु अहिमाणु माणु मुअहों ॥ १
 किण्णं णियच्छहों आउ गलन्तउ णाडि-पमाणोंहिं परिमिजन्तउ ॥ २
 अट्टारह-सय-सङ्घ-पंगासेहिं सिद्धेहिं सडसिएहिं ऊसासेहिं ॥ ३
 णाडि-पमाणु पगासिउ एहउ विहिं णाडिहिं मुहुत्तु तं केहउ ॥ ४
 सत्त-सयाहिएहिं ति-सहासेहिं अणु वि तेहत्तरि-ऊसासेहिं ॥ ५
 ऐक्कु मुहुत्त-पमाणु णिवद्धउ दु-मुहुत्तेहिं पहरच्चु पसिद्धउ ॥ ६
 पहरच्चु वि सत्तद्ध-सहासेहिं अणु वि छायालेहिं ऊसासेहिं ॥ ७
 विहिं अद्धेहिं 'दिणद्धहों अद्धउ वाणवई-ऊसासेहिं वद्धउ ॥ ८
 अणु वि पण्णारहहिं सहासेहिं पहरु पगासिउ सोक्ख-णिवासेहिं ॥ ९

6. 1 P S विच्छारियउ. 2 P सरहिं. 8 °हि. विद्धारियउ. 3 P S परितोसिय. 4 P S करयले. 5 S °इट्टउ. 6 S °पइइउ. 7 A समाहउं. 8 SA लंक्कहि. 9 P S जमपडहउ णं भाइउ (S भाइउ), A °पडहउं. 10 P जाणेऽज्जहो. 11 P हउ, S थिउ.

7. 1 S A omit this word. 2 A किंतु न पेच्छहो. 3 P S 'पगासिहिं, A °पगासहि. 4 P एहउं. 5 P S मुहुत्तु. 6 P पत्तिद्धउं, A पत्तिद्धिउ. 7 P अद्धउं. 8 P मोक्खसहासेहिं glossed as मोक्षसुखासीनैः, S मोक्खसहासिहि.

[६] १ यम-महिषात्. २ घटिका-कुठारेण.

[७] १ घटिका, तस्य प्रमाणं उखा(च्छ्वा)स १८८६ प्रकाशिताः. २ ऊसा(च्छ्वा)सैः ३७७३ मुहूर्तमेकं. ३ उखा(च्छ्वा)स ७५४६. ४ प्रहरमेकं १५०९२ उखासाः. ५ घटिका-पर्यायः.

॥ घत्ता ॥

णाडिहें णाडिहें कुम्भु गउं चउसँट्टिहिँ कुम्भेहिँ रत्ति-दिणु ।
एत्तिउ छिज्जइ आउ-वलु तें कज्जे थुवइ परम-जिणु' ॥ १०

[८]

णिसि-पहरेँ चउत्थएँ ताडियएँ णं जगं-कवाडेँ उग्घाडियएँ ।
तँहिँ तेहएँ कालेँ पगासियउ 'तियडएँ सिविणंउ विण्णासियउ ॥ १
'हलेँ हलेँ लवलिँ लइँ लवङ्गिँ सुमणेँ सुवुद्धिँ तारेँ तरङ्गिँ ॥ २
हलेँ कंकोलिँ कुवलय-लोयणेँ हलेँ गन्धारि गोरी' गोरोयणेँ ॥ ३
हलेँ विज्जुप्पहेँ जालामालिणि हलेँ हयमुहि गयमुहि कङ्कालिणि ॥ ४
" सिविणंउ अज्जु माँ मइँ दिट्ठउ एक्कु जोहु उज्जाणेँ पइट्ठउ ॥ ५
तरु तरु सँवु तेण आकरिसिउ वँज्जे जिह वण-भङ्गु पदरिसिउ ॥ ६
सो वि' णिवद्धउ इन्दइ-राएँ पाव-पिण्डु णं' गरुअ-कसाएँ ॥ ७
पट्टणेँ पइसारिउ वेडेप्पिणु गउ दससिर-सिरेँ पाउ ठवेप्पिणु ॥ ८
पुणु थोवन्तरेँ हरिसिय-गतें किउ घर-भङ्गु णाँ दु-कलत्तेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

" तावऽण्णेकेँ णरवरेँण सुरवहुअ-सुँहासय-चोरणिय ।
उप्पाडेप्पिणु उवहि-जलेँ आवट्टिय लङ्क स-तोरणिय' ॥ १०

[९]

तं वयणु सुणेँवि तियडहेँ तणउ तहिँ एक्कहेँ मणेँ वद्धावणउ ।
" 'हलेँ चङ्गउ सिविणंउ दिट्ठु पइँ रावणहोँ कहेवउ गम्पि मँइँ ॥ १
एउ जं दिट्ठु मणोहरु उववणु तं वइदेहिहेँ केरउ जोवणु ॥ २
णिहरमलिउ जेण सो रावणु जो णिवद्धु सो सत्तु भयावणु ॥ ३
जो दहगीवहोँ उर्वरि पधाइउ सो णिम्मलु जसु 'कहिमि ण माइउ ॥ ४

9 P S कुंभ. 10 P S सन्वु सट्टी glossed as घटिका ६० कृत्वा.

8. 1 P S °पहरि, A °पहर. 2 P णाडिअए, S णाडियइ. 3 P जगे, S जगि. 4 SA कवाड.
5 P SA तहि. 6 P सुइणउं, S सुइणउ, A सुविणउं. 7 A लवलि. 8 P S सुवंधिए. 9 P S
गारि, A तार. 10 P S कंकोलिए. 11 P S मोरि गोरावणे. 12 P S सुइणउ, A सिविणउं.
13 P S तेण सन्वु. 14 P विज्जहिँ, S विज्जहि, A वज्जे. 15 P S वणि वद्धउ. 16 P S जिह.
17 A omits the rest of the Kadavaka.

9. 1 A तणउं. 2 A वद्धावणउं. 3 P S सुइणउ, A सिविणउं. 4 P SA मइ. 5 A उवरे.
6 P S सुवणि ण.

[८] १ वृजदायैः (? त्रिजटया).

जं पुहई-जयघरु विद्धंसिउ
जं परिघित्त लङ्क रयणायरें
तं णिसुणेंवि अण्णेक पवोह्लिय
'अवसें सिविणउ होई असुन्दरु
मुणिवर-भासिउ दुक्कु पमाणहों

तं पर-वलु दहमुहेंण विणासिउ ॥ ५
सा 'मिहिलियं पइसारिय सिरिहरे' ॥ ६
गगर-वयणी अंसु-जलोह्लिय ॥ ७
जिहें पडिवक्खहों पक्खिउ सुन्दरु ॥ ८
जिह लङ्कहें विणासु उज्जाणहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एहु सिविणउं सीयहें सहलु जसु रामहों वि जउ जणहणहों ।
सहुं परिवारें सहुं वलेंण खय-कालु पडुक्कु दसाणणहों ॥ १०

[१०]

तहिं अवसरें पीण-पओहरिणें अरुणुगमें लङ्कासुन्दरिणें । 10
इर-अइरउ विणिण मि पेसियउ हणुवन्तहों पासु गवेसियउ ॥ १
जहिं उज्जाणें परिट्टिउ पावणि सयल-णरिन्द-विन्द-चूडामणि ॥ २
तहिं संपत्तउ विणिण वि जुवंडुउ णं सिव-सासए तवसिरि-सुगइउ ॥ ३
णं खम-दयउ जिणागमें दिट्टउ जयकारेप्पिणु पासें णिविट्टउ ॥ ४
तेण वि ताहिं समउ पिउ जम्पेवि कण्ठउ कञ्ची-दामु समप्पेवि ॥ ५ 15
पुणु विण्णत्त हलीस-मणोहरि 'भोअणु तुम्ह केम परमेसरि' ॥ ६
अक्खइ सीय समीरण-पुत्तहों 'वासर एकवीस मइं भुत्तहों ॥ ७
जाम ण पत्त वत्त भत्तारहों ताम णिवित्ति मज्झु आहारहों ॥ ८
अज्जु णवरं परिपुण्ण मणोरह तं जें भोज्जुं जं सुअ रामहों कह' ॥ ९

॥ घत्ता ॥ 20

तं णिसुणेंवि पवणहों सुएण अवलोइउ मुहु अइरहें तणंउ ।
'गम्पिणु अक्खु विहीसणहों बुच्चइ सीयहें¹⁰ करि पारणउ ॥ १०

[११]

इरें तुहु मि जाहि परमेसरिहें तं मन्दिरु लङ्कासुन्दरिहें ।
लहु भोयणु आणहि मणहरउ जं स-रसु स-णेहउ जिहं सुरउ' ॥ १ 25

7 P S A रयणायरि. 8 A मेहहि. 9 P S सुइणउ एहु, A सिविणउं. 10 P S जं. 11 A पक्खिउं. 12 P S सुइणउ, A सिविणउं.

10. 1 A 'परउ. 2 P S पट्टउ. 3 S जुवयउ, A जुअइउ. 4 P S 'दमउ. 5 P S णवरि. 6 P S भुत्तु. 7 P S राहवकह. 8 P S तहि अवसरि. 9 A तणउं. 10 P S करि सीयहि. 11 A पारणउं.

11. 1 P सल्लोणउं, S सल्लोणउ. 2 P जेह.

[९] १ सीता.

तं णिसुणेवि वे वि^१ संचल्लिउ
 रद्धु भत्तु लहु लेविणु आयउ
 वंहिउ भोयणु भोयण-सेज्जएँ
 सक्कर-खण्डेहिँ पायस-पयसेहिँ
 ५ मण्डा-सोयवत्ति-घियज्जेरेहिँ
 सालणएँहिँ वहु^{१०}-विविह-विचित्तेहिँ
 अल्लय-पिप्पलि-मिरियामलएँहिँ
 चिम्भिडिया-कचोर^{११}-वासुत्तेहिँ
 केलय^{१२}-णालिकेर-जम्बीरेहिँ
 १० तिम्मणेहिँ णाणाविह-वण्णेहिँ
 अण्णु मि खण्डसोल-गुडसोल्लेहिँ
 विज्जणेहिँ स-महिय-दहि-खीरेहिँ

णं सुरसरि-जउर्णउ उत्थल्लिउ ॥ २
 णं सरसई-लच्छिउ विकखायउ ॥ ३
 अच्छएँ पच्छएँ लण्हएँ पेज्जएँ ॥ ४
 लद्धुव-लावण-गुड-इक्खुरसेहिँ ॥ ५
 मुग्ग-सूअ-णाणाविह-कूरेहिँ ॥ ६
 माइणि-मायन्देहिँ विचित्तेहिँ ॥ ७
 लावण-माल्लेरेहिँ कोमलएँहिँ ॥ ८
 पेउअ-पप्पडेहिँ सु-पहुत्तेहिँ ॥ ९
 करमर-करवन्देहिँ करीरेहिँ ॥ १०
 साडिव-भज्जिय-खट्टावण्णेहिँ ॥ ११
 वडवाइज्जणेहिँ कारेलेहिँ ॥ १२
 सिहरिणि-धूमवत्ति-सोवीरेहिँ ॥ १३

॥ घत्ता ॥

अच्छउ ँउ(?) मुहरसिउँ अवियण्हउ उल्हावणउँ किह ।
 १५ जहिँ जेँ लइज्जइ तहिँ जेँ तहिँ गुलियारउ जिणवर-वयणु जिह ॥ १४

[१२]

तं तेहउ भुज्जेवि भोयणउ पुँणु करेवि वयण-पक्खालणउ ।
 समलहेवि अज्जु वर-चन्दणेण विण्णत्त देवि मरु-णन्दणेण ॥ १
 'चडु महु तणएँ खन्धे परमेसरि णेमि तेत्थु जहिँ राहव-केसरि ॥ २
 २० मिलहोँ वे वि^१ पूरन्तु मणोरह फिट्टउ जणवएँ रामायण-कह' ॥ ३
 तं णिसुणेवि देवि गज्जोल्लिय साहुक्कारु करन्ति पवोल्लिय ॥ ४
 'सुन्दर णिय-घरु गर्य-गुण-वहुअहेँ(?) एह ण णित्ति होइ कुल-वहुअहेँ ॥ ५

3 s A. omit. 4 P °जउणा, s °जौणा. 5 P एक, s एक. 6 P S सुरसरि, A सुरसइ corrected as सरसइ. 7 A पायसेहिँ. 8 A लद्धुय°. 9 P S °गुल°. 10 P S विवण्ण-विचित्तिहिँ. 11 P S °कठोर°. 12 P पेउव° corrected as पेउअ°, s पेउव°. 13 A केलसु-णालिकेर°, P °णारिकेर°. 14 P S साडव°. 15 P S चूयवत्ति° 16 P. marginally पत्थउ पाटे, s एवउ with व deleted, A. omits. 16 P °रसिउँ. 17 P अविअण्हउँ, s अविअण्हउ, A अविअण्हउँ. 18 P उल्हावणउँ, A उण्हावणउँ. 19 P लहि जइ, s लिहिजइ.

12. 1 P A भोयणउँ. 2 P किउ तावहि हत्थासोयणउँ, the last word glossed as हस्तसोधन प्रक्षालनेत्यर्थः; s किउ तावहि अच्छा and the rest of the letters wiped out. 3 P S सहल देवि, and P. marginally 'मिलहु वे वि' पाटे. 4 P S महइ गइहि, A सुंदरि.

[११] १ परोसितः, २ सूक्ष्मः, ३ वधारितानि, ४ कांजिकैः.

क० १२, १-१०; १३, १-१०]

सुन्दरकण्ड-एकवणासमो संधि [२३९

गमइ वच्छं जइ वि गिय-कुलहरु
जणवउ होइ दुगुञ्छण-सीलउ
जहिं जैं अजुत्तु तहिं जैं आसङ्कइ
णिहएँ दसाणणें जय-जय-सहें

विणु भत्तारें गर्मणु असुन्दरु ॥ ६
खल-सहाउ गिय-चित्तें मइलउ ॥ ७
मणु रञ्जैवि सक्को वि ण सक्कइ ॥ ८
मइँ जाएवउ सहुँ वलहहें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जाहि वच्छ अच्छामि हउं
लइ चूडामणि महु तणउ

णिम्मल-दसरह-वंसुम्भवहों ।
अहिणाणु सम्पपहि राहवहों ॥ १०

[१३]

अणु वि ओलिङ्गैवि गुण-घणउं

सन्देसउ अक्खु महु तणउं ।

“वल तुज्जु विओएं जणय-सुय

थियं लीह-विसेस ण कह वि मुअ ॥ ११ ”

झीण मयङ्क-लेंह गंह-गहिय व

झीण सुरिन्द-रिद्धि तव-रहिय व ॥ २

झीण कुदेस-मज्झें वासाणि व

झीणाऽवुह-मुहें सुकइ-सुवाणि व ॥ ३

झीण दिवायर-दंसणें रत्ति व

झीण कु-जणवएँ जिणवर-भत्ति व ॥ ४

झीण दुभिव्खें अत्थ-संपत्ति व

झीण बुद्धत्तणें वल-सत्ति व ॥ ५

झीण चरित्त-विहूणहों कित्ति व

झीण कु-कुलहरें कुलवहु-णित्ति व” ॥ ६ ”

अणु वि दसरह-वंस-पगासहों

वच्छत्थलें जय-लच्छि-णिवासहों ॥ ७

रणें दुवार-वइरि-विणिवारहों

तहों सन्देसउ गोहि कुमारहों ॥ ८

बुच्चइ “पइँ होन्तेण वि लक्खण

अच्छइ सीय रुयन्ति’ अलक्खण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णउ देवेंहिं णउ दाणवेंहिं

णउ रामें वंइरि-वियारएँण ।

पर मारेवउं दहवयणु

स इँ भु अ-जुअलेण तुहारएँण” ॥ १०

*

[५१. एकवणासमो संधि]

‘तं चूडामणि लेवि गउ लच्छि-णिवासहों अखलिय-माणहों ।
णं सुर-करि कमलिणि-वणहों मारुइ वलिउ समुहु उज्जाणहों ॥

5 P S जइ वि वच्छ. 6 P S गवणु. 7 S A तणउं.

13. 1 P S आलिङ्गणु. 2 A °घणउं. 3 P तणउं, A त्तणउ. 4 P S थिय. 5 P S भियंक्. 6 A बुद्ध-
(corrected as बुद्ध)त्तणे वल्लसंपत्ति व. 7 P S रुयंती लक्खण. 8 P S असुरं 9 P A मारेवउ.

1. 1 P. omits this stanza; A. omits it except समुहुं उज्जाणहो.

[१३] राहु-पहीतेव.

[१]

- ॥दुर्वई॥ विहुणेंवि वाहु-दण्ड परिचिन्तइ रिउ-जयलच्छि-महणो ।
 'ताम ण जामि अज्जु जाम' ण रोसाविउ मइँ दसाणणो' ॥ १
 वणु भञ्जमि रसमसकसमसन्तु महिवीढ-गाहुँ 'विरसोरसन्तु ॥ २
 १ णायउल-विउल-चुम्भल्ल-वलन्तु रुक्खुक्खय-खर-खोणिणँ खलन्तु ॥ ३
 णीसेस-दियन्तर-परिमलन्तु कङ्केलि-वेलि-लवली-ललन्तु ॥ ४
 तुङ्गल्ल-भिङ्ग-गुमुगुमुगुमन्तु तरु-लग्ग-भग्ग-दुमुदुमुदुमन्तु (?) ॥ ५
 एला-कक्कोलय-कडयडन्तु वड-विडव-ताड-तडतडतडन्तु ॥ ६
 करमर-करीर-करकरररन्तु आसत्थीगत्थिय-थरहरन्तु ॥ ७
 १० मड्डु' मड्डु सय-खण्ड जन्तु सत्तच्छय-कुसुमामोय दिन्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उम्मूलन्तु असेस तरु एक्कु मुहुत्तु एत्थु परिसक्कमि ।
 जोवणु जेम विलासिणिहँ वणु दरमलमि अज्जु जिह सक्कमि' ॥ ९

[२]

- १५ ॥दुवई॥ पुणरवि वारवार परिअञ्जेवि णियर्य-मणेण सुन्दरो ।
 णन्दण-वणें पइहु णं माणस-सरवरें अमर-कुञ्जरो ॥ १
 णवरि उववणालए तेत्थु' णिञ्जाइयासोग-णारङ्ग-पुण्णाग-णागा लवङ्गा
 पियङ्गु-विडङ्गा समुत्तुङ्ग सत्तच्छया ॥ २
 करमर-करवन्द-रत्तन्दणा दाडिमी-देवदारु-हलिदी-भुआ दक्ख-रुहक्ख-पउ-
 १६ मक्ख-अइमुत्तया ॥ ३
 तरु तरुल-तमाल-तालेल-कक्कोल-साला विसालञ्जणा वञ्जुला णिम्ब-सिन्दीउ
 सिन्दूर-मन्दार-कुन्देद-सज्जुणा ॥ ४

2 P s omit. 3 P s °माणो. 4 P s रोसाविउ जाम ण. 5 A. reads धुवकं at the end of this stanza. 6 A महिगाढवेदि. 7 P s णाहुँ. 8 P s चोभल चलंतु. 9 P °कर, s °खर. 10 s A परिमलंतु. 11 After the 4. line, P s read the following extra Pāda: अण्ण(s ण्णो)ण्णफुल्लगो(s गुं)च्छुच्छलन्तु. 12 P s तुंगुं. 13 P s तरुलग्ग glossed as आलस भग्गः(?). 14 P s °कंकोलय. 15 P s करकर करंतु. 16 P असत्थेगत्थिय, s असत्थं गंथं, A आसत्थत्थिय. 17 P महुदुमहु.

2. 1 P परिचितेवि, s परिचितिवि, A परिअञ्चिवि. 2 P णियमणे हणुवु सुंदरो, s णियमणि हणुवु सुंदरो. 3 P s णवर. 4 s तित्थु, A तत्थ. 5 A omits this. 6 P s °करमंद. 7 A °दालिमी. 8 P s °देवदारु. 9 P s °रुदक्खपोमक्ख. 10 A °एयंतया. 11 P कुदेंदु सज्जणा, s कुदेंदु सज्जणा.

[१] १ अनिष्टं सर्वेशब्दं च कुर्वन्.

सुरतरु-कयली-कयर्म्ब-जम्बीर-जम्बुम्बरां^१ लिम्ब-कोसम्ब-खजूर-कप्पूर-
तौरु-भातूर-आसत्थ-णगोहया ॥ ५

तिलय-वडल-चम्पया णागवेली-वया पिप्पली पुप्फली पाडली केयई माहवी
मल्लिया माहुलिङ्गी-तरु^६ ॥ ६

स-फणस-लवली-सिरीखण्ड-मन्दागरु-सिलहया पुत्तजीवा सिरीसेत्थियारि-^५
द्विया कोज्जया जूहिया णालिकेरु^७ई ॥ ७

हरिडइ-हरिया-लकञ्चाललावज्जया पिक्क-चन्दुक्क-कोरण्ट-वाणिक्ख-वेणू-तिस-
ञ्झा-मिरी-अलया ढउ^८अ^९-चिञ्चा-महू ॥ ८

कर्णइर-करणियारि-सेलू-करीरा करञ्जामली-कङ्गणी-कञ्जणा एवमाइत्ति अण्णे
वि जे^{१०} पायवा केण ते बुज्जिया ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आयहुं पवर-महंहुमहुं पहिलउ पारियाउ आर्यामिउ ।
णं धरणिहें जेमणउं करु उप्पाडेप्पिणु णहयलें भांमिउ ॥ १०

[३]

॥दुवई॥ सुरतरु परिधिवेवि उम्मूलिउ पुणु णगोह-तरुवरो । 15

आयामेवि भुएहिं दहवयणे जिह कइलास-गिरिवरो ॥ १
कहिउ वर-पायवु थरहरन्तु णं वइरि रसायलें पइसरन्तु ॥ २
णं णन्दण-वणहो रसन्तु जीउ णं धरणिहें वाहा-दण्डु वीउ ॥ ३
णं दहवयणहो अहिमाण-खम्भु णं पुहइ-पसूयणे पवर-गब्भु ॥ ४
तुइन्त-सयल-घणं-मूल-जालु पारोह-ललन्तु विसाल-डालु ॥ ५
आरत्त-पत्त-परिधोलमाणु ढण्ढर-वर-परियन्दिज्जमाणु ॥ ६
कलयण्ठि-कलावाराव-मुहलु णिम्मउरु वि सप्पुरिसो वं सुहलु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

सो सोहइ णगोह-तरु मारुय-सुय-भुयलट्ठिहिं लइयउ ।
णावइ गंङ्गहें जउणहें वि मज्जे पर्यागु परिट्ठिउ तइयउ ॥ ८ 25

12 P S 'कयवजंबीर'. 13 A जंबुविरा. 14 A 'तरुत'. 15 P S तरु. 16 S A 'वली'.
17 P S 'सिरीखंड'. 18 P S 'मंदागर', A 'मंदागर'. 19 P S 'सिरीसेत्थिया', A 'सिरी-
सित्थिया. 20 P 'रवइ', S 'रवइ. 21 P S 'लावजया. 22 P 'वाणीखवेण', S 'वाणीखवेण'.
23 A 'दोअ'. 24 P A कणइर'. 25 P S 'करणियारिसेल्ल'. 26 P S omit. 27 P S 'महा-
दुमह. 28 A आयामिउं. 29 P जेमणउं, A जोवणउं. 30 A भांमिउं.

3. 1 A तुइत्तु. 2 A वणु. 3 P दइर, S ढइर. 4 A व सहलु. 5 A लइउ. 6 P S गंगहो.
7 P S पयगु. 8 P S तइअउ, A तइउ.

[३] १ पक्षिविशेषः राक्षसा वा.

[४]

॥दुवई॥ वड-पायवु घिवेवि उम्मूलिड पुणु कङ्केलि-तरुवरो ।

उभय-करेहिं लेवि णं वाहुवलिन्दे भरह-गरवरो ॥ १

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| आरत्त-पत्त-पल्लव-ललन्तु | कामिणि-करकमलहुँ अणुहरन्तु ॥ २ |
| उब्भिण्ण-कुसुम-गोच्छुच्छलन्तु | णं महिहेँ घसिणं चच्चिक देन्तु ॥ ३ |
| चञ्चरिय-चारु-चुम्बिज्जमाणु | वहुविह-विहङ्ग-सेविज्जमाणु ॥ ४ |
| कङ्केलि-वच्छु इय-गुण-विचित्तु | णं दहमुह-माणुं मलेवि घित्तु ॥ ५ |
| पुणु लइड गाय-चम्पउ करेण | णं दिस-पायवु दिस-कुञ्जरेण ॥ ६ |
| उम्मूलिड गयणहोँ अणुहरन्तु | अलि-जोइस-चक्कं-परिभमन्तु ॥ ७ |
| १० णव-पल्लव-गह-विकिखण्ण-पयरु | उब्भिण्ण-कुसुम-णक्खत्त-णियरु ॥ ८ |
| सो चम्पउ गयणङ्गण-समग्गु | दहवयण-मडप्फरु णाईं भग्गु ॥ ९ |

॥ घत्ता ॥

चम्पय-पायवु परिघिवेवि
गज्जइ मत्त-गइन्दु जिह

कङ्किय वउल-तिलय महि तोडेवि ।
वे आलाण-खम्भे उप्पाडेवि ॥ १०

[५]

॥दुवई॥ चम्पय-तिलय-वउल-वडपायव-सुरतरु भग्ग जावेहिं ।

चउरुज्जाणपाल संपाइय गलगज्जन्त तावेहिं ॥ १

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| हक्कारेवि पर-वल-वल-गलत्थु | दाढावलि धाइड लउडि-हत्थु ॥ २ |
| जो उत्तर-वारहोँ रक्खवाळु | जो पसरिय-जस-भुवणन्तरालु ॥ ३ |
| २० जो गिल्लगण्ड-गय-घड-घरट्टु | पडिवक्ख-खलणु अखलिय-मरट्टु ॥ ४ |
| सो हणुवहोँ भिडिड पलम्ब-वाहु | णं गङ्गा-वाहहोँ जउण-वाहु ॥ ५ |
| जो तेण पमेळिड लउडि-दण्डु | सो भञ्जेवि गउ सय-खण्ड-खण्डु ॥ ६ |
| 'सिरिसइलु वि पहसिड पुलइयङ्गु | 'वण-भङ्गहोँ वीयउ सुहड-भङ्गु ॥ ७ |
| दरिसावमि' एम चवन्तएण | उम्मूलिड तालु तुरन्तएण ॥ ८ |
| २५ कु-जणु वं सुर-भायणु थङ्ग-भाउ | दूर-हलउ अण्णु वि' दुप्पणाउ ॥ ९ |

4. 1 S A °पायड. 2 P S उहय°. 3 P घुसिणु चच्चिकयंतु, S घुसिणु चच्चिकवसु, A वच्चिक.
4 A °णासु. 5 P S °चंपय णरेण. 6 P A °चङ्कु व. 7 P रिभमंतु, A परिभमंतु. 8 P विच्छिन्न-
पहरु, S विच्छिण्णपहरु. 9 P तोडेवि, S तोडिदि. 10 S चेयालाण°. 11 P °खंसु corrected
as °खंस, S °खंसु. 12 P णं मोडेवि, S णं मोडिदि.

5. 1 A परवलगलसमत्थु. 2 P S °लक्ख°. 3 P साहणु वहु. 4 A कुंजणु. 5 P S व.
6 P दुप्पणासु.

[४] १ अशोकवृक्षः.

[५] १ हनुसंतः. २ दुःखं नमितः.

॥ वृत्ता ॥

तेण गिसायरु आहयणें आयामेवि समाहउ तालें ।
पडिउ घुलेप्पिणु घरणियलें घाइउ देसु णाई दुक्कालें ॥ १०

[६]

॥दुवई॥ अं हणुवेण णिहउ समरङ्गणें दाढावलि स-मच्छरो ।
घाइउ एकदन्तु गलगज्जेवि णं गयवरहों गयवरो ॥ १

जो पुव्व-वारें वण-रक्खवालु संपाइउ णं खय-कालें कालु ॥ २
दिढ-कडिण-देहु थिर-थोर-हत्थु पर-वल-पअओलि-भेल्लण-समत्थु ॥ ३
आयामेवि सत्ति पमुक्क तेण णं सरि सायरहों महीहरेण ॥ ४
सा सामीरणिहें परायणत्थ असइ व सप्पुरिसहों अकियत्थ ॥ ५
हणुवेण वि रणउहें दुण्णिारिक्खु उप्पाडिउ वर-साहारु रुक्खु ॥ ६
कामिणि-मुह-कुहरहों अणुहरन्तु परिपक्क-फलाहरु कुसुम-दन्तु ॥ ७
णव-पल्लव-जीहा-लवलवन्तु कलयण्ठि-कण्ठ-भंहरुल्लवन्तु ॥ ८
महकव-वियारु व दल-णिवेसु पच्छण्ण-परिट्ठिय-रस-विसेसु ॥ ९

॥ वृत्ता ॥

मारुइ-कर-पम्मुक्कएण तेण पवर-कप्पहुम-घाएं ।
एकदन्तु घुम्मन्तु रणें पाडिउ रुक्खु जेम दुवाएं ॥ १०

[७]

॥दुवई॥ ताम कयन्तवक्कु आहवें असक्कु सक्क-सम-वल्लो ।
हत्थि व गिल्ल-गण्डु तियसहुँ पचण्डु कोदण्ड-करयलो ॥ १

जो दाहिण-वारहों रक्खवालु कोक्कन्तु पधाइउ मुह-करालु ॥ २
'वणु भज्जेवि कहिं हणुवन्त जाहि लइ पहरणु अहिमुहु थाहि थाहि ॥ ३
जिहं हउ दाढावलि उत्थरन्तु अणु वि विणिवाइउ एकदन्तु ॥ ४
तिह पहरु पहरु भो पवणजाय दहवयणहों केरा कुद्ध पाय' ॥ ५
पच्चारेवि पार्वणि धणुधरेण विहिं सरेंहिं विद्धु रणें दुद्धरेण ॥ ६
परिअञ्जेवि णिवंडिय पुरउ तासु णमि-विणमि व पढम-जिणेसरसु ॥ ७

6. 1 P S वणे. 2 P S °कालु. 3 P °पउलिहे, S °पउलिहि. 4 P S सामीरणहो वि गय गिरत्थ. 5 S किय गिरत्थ. 6 P S परिपक्क. 7 P S °जीह लवलवन्तु. 8 P S °मुहरु°. 9 P S अहरुव. 10 P S पच्छणु. 11 P S °पमुक्कएण.

7. 1 A भासक्क. 2 P सक्क, S सक्°. 3 P S A 'गंड. 4 P S थिरथोर°. 5 P A °करयले. 6 P A अहिसुहुं. 7 P S जह. 8 A पवणधण. 9 P इणुद्धरेण, A धणुद्धरेण. 10 P S A णिवडिउ.

एत्थन्तरें रणें णीसन्दणेण
आयामेवि उम्भूलिउ तमालु

आरुद्धे पवणहों णन्दणेण ॥ ८
णं दिणयरेण तम-तिमिर-जालु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

उभय-करेहिं भामेवि तरु
विहलङ्गलु घुम्मन्त-तणु

पहउ कयन्तैवकु दणु-दारें ।
गिरि व पलोद्धिउ कुलिस-पहारें ॥ १०

[८]

॥दुवई॥ णिहएँ कयन्तवक्के अण्णेक्कु णिसायरु भय-विवंजिओ ।
वर-करवाल-हत्थु कोकन्तु पधाइउ 'मेहगंजिओ ॥ १

सो पच्छिम-वारहों रक्खवालु
१० रत्तुप्पल-दल-संकास-णयणु
णव-जलहर-लील-समुच्चहन्तु
भउहावलि-किय-धणुहर-पवकु
एत्थन्तरें अणिलहों णन्दणेण
सप्पुरिसु जेम बहु-खम-सरीरु
१५ सप्पुरिसु जेम सीयल-सहाउ
सप्पुरिसु जेम जणवएँ महघु

उंभड-मिउडी-भङ्गुर-करालु ॥ २
अट्टट्ट-हास-मेळन्त-वयणु ॥ ३
खगुज्जल-वर-विज्जुल-लवन्तु ॥ ४
हणुवहों अंभिडिउ विमुक्क-सक्कु ॥ ५
उप्पाडिउ चन्दणु दिढ-मणेण ॥ ६
सप्पुरिसु जेम छेएँ वि धीरु ॥ ७
सप्पुरिसु जेम सामण-भाउ ॥ ८
सप्पुरिसु जेम सबहुँ सलगु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेण पवर-चन्दण-दुमैण
लउडि-पहारें घाइयउ

आहउ मेहणाउ वच्छत्थलें ।
पडिउ फणिन्दु णाईं महि-मण्डलें ॥ १०

२०

[९]

॥दुवई॥ पवरुज्जाणवाल चत्तारि वि हय हणुवेण जावेंहिं ।

सेसारक्खिएहिं दहवयणहों गम्पिणु कहिउ तावेंहिं ॥ १

'भो भो भू-भूसण भुवण-पाल
पवरामर-डामर-रणें रउह
२५ दणु-इन्द-विन्द-महण-सहाव
कामिणि-जण-थण-चड्डुणं-वियह

आरुद्ध-दुद्ध-णिद्धवण-काल ॥ २
णरवर-चूडामणि जय-समुह ॥ ३
सग्गग-मग्ग-णिग्गय-पयाव ॥ ४
लङ्कालङ्कार महागुणह ॥ ५

११ P S उहय°. १२ P S कियंतुवक्क.

८. १ P S 'विवंजिउ. २ P S 'मेहगंजिउ. ३ P S उंभड. ४ A भमहा°. ५ P S धणुहर
व वंकु, A 'धणुहर पवंकु. ६ P S अंभिडु. ७ P S पवणहो. ८ P S सुप्पुरिसु. ९ P S च्छाए
वि, A छेए वि.

९ १ P पवलु°, ८ पवणु°. २ P S 'वहण°.

[८] १ मेघनादः.

क १ ९, ६-१०; १०, १-१०; ११, १-२] सुन्दरकण्ठं-एकवर्णासमो संधि [२४५

णिच्चिन्तु अचछहि काइँ देव वणु भग्गु कु-मुणिवर-हियउं जेवं ॥ ६
एकेण णरेण विरुद्धएण पहरन्ते अमरिस-कुद्धएण ॥ ७
उप्पाडेवि तरल-तमाल-ताल च्यारि वि हय उज्जाण-पाल' ॥ ८
तहिँ अवसरें आयउण्णेक वत्त वज्जाउहु आसाली समत्त ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेपिणु दहवयणु कुचिउ दवग्गि व सित्तु विणुण ।
'को जम-राएं संभरिउ उववणु भग्गु महारउ जेण' ॥ १०

[१०]

॥दुवई॥ तं णिसुणेवि वयणु मन्दोयरि पिसुणइ णिसियरिन्दहो ।

'किण्ण कयावि देव पईं बुज्झिउ धीया-सुउ महिन्दहो ॥ १
जसु तणिय जणणि पवणञ्जएण वारह वरिसइँ परिचत्तएण ॥ २
पच्छण्ण-गब्भ-सम्भूइँ सुणेवि केउमंइँ दुच्चारित्तु मुणेवि ॥ ३
कुलहरहो विसजिय ण गय तहि मि वणवासें पसूइय गम्पि कहि मि ॥ ४
विज्जाहरेंहिँ चउदिसु गविट्ट गिरि-कुहरब्भन्तरेँ णवर दिट्ट ॥ ५
किउ हणुरुहँ-दीवन्तरेँ णिवासु हणुवन्तु पगासिउ णामु तासु ॥ ६
परिणाविउ पईं वि' अणङ्गकुसुम कङ्केलि-लय व उब्भिण्ण-कुसुम ॥ ७
इय उवयारहँ एकु वि णं णाउ अण्णु वि' वइरिहिँ पाइक्कु जाउ ॥ ८
"जं आइँउँ अङ्गुत्थलउ लेवि महु उट्टिउ गलगज्जिउ करेवि' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एकु वि उववणेँ दरमलिऐँ दहमुँह-हुअवहु झत्ति पलित्तउ ।
अण्णु वि पुणु मन्दोयरिऐँ लेवि पलाल-भारु णं वित्तउ ॥ १०

[११]

॥दुवई॥ तं णिसुणेवि वयणु दहवयणेँ पवरान्त किङ्करा ।

अक्क-मियङ्क-सक्क-वर-विक्रम पहरण-कँर-भयङ्करा ॥ १
तो णवर पणवेवि आप्सु मग्गेवि ॥ २
पाइक्क सण्णञ्ज दिट्ठ-परिकरावद्ध ॥ ३

३ P A णिच्चिन्तु. 4 P 'हिअउं. 5 A जेम. 6 P S संभरियउ.

10. 1 P S पिसुणुउ, A पिसुणुइँ. 2 P S परिचत्तणेण. 3 A 'संभव. 4 P किउमइयए
corrected as केउ' and glossed as सासू, S किउ मायए. 5 P कहि मि, S कहेमि.
6 P S हणुरुहु. 7 P णाउं, S णाउ. 8 P S पइ जि. 9 A मणाउ. 10 P इँ, S इ. 11 A जे.
12 P S जायउ. 13 P S उववणु. 14 P S दहमुहु.

11. 1 P S 'राणत'. 2 A 'रण'. 3 P णवरि. 4 P S दह'.

सीहं व संकुञ्ज
पञ्जलिय-मणि-मउड
णिङ्कुरिय-णयण-जुअ
भू-भङ्गुरा-भाल
१ हत्थि व संकुंहिय
जलहि व उत्थल्ल
दणु-देह-दारणइं
अण्णेण हुळिं-हूलु
अण्णेण गय-दण्डु
१० अण्णेण सर-जालु

रिउ-जय-सिरी-लुञ्ज ॥ ४
विप्फुरिय-उट्टुउड ॥ ५
कण्टइय-पवर-भुअ ॥ ६
उग्गिण्ण-करवाल ॥ ७
सूर व बहु-उइय ॥ ८
सेल व संचल्ल ॥ ९
गहिवाइं पहरणइं ॥ १०
अण्णेण झस-सूलुं ॥ ११
अण्णेण कोवण्डु ॥ १२
अण्णेण करंवालु ॥ १३

॥ घत्ता ॥

एव दसाणण-किङ्करहुं
पलय-कालेणं उवहि-जलु

वल्लु सण्णहेवि सयलु संचल्लिउ ।
णिय-मज्जाय मुअन्तुत्थल्लिउ ॥ १४

[१२]

१५ ॥ दुवईं ॥ खोहिउं सायरो व लङ्का-णयरी जाया समाउला ।

रहवर-गयवरोह-जम्पाण-विमाण-नुरङ्ग-सकुला ॥ १

वल्लु कहि मि ण माइउ णीसरन्तु
घय-चवलं-महद्धय-थरहरन्तु
विणु खेवे पहरण-वर-करेहिं
२० णं तारा-मण्डलु णव-घणेहिं
तिह वेदेविं रहवर-गयवरेहिं
'पायारु पलोड्डिउ जिह विसालु
वण-पालं वहिय वणु भग्गु जेम
तं णिसुणेवि धाइउ पवण-जाउ

संचल्लु पंओलिय दरमलन्तु ॥ २
पडु-पडह-संङ्ग-मइल-रसन्तु ॥ ३
वणु वेदिउ रावण-किङ्करेहिं ॥ ४
णं तिहुअणु तिहि मि पहङ्गणेहिं ॥ ५
पच्चारिउ मारुइ णरवरेहिं ॥ ६
वज्जाउहु हउ रणे कोट्टवालु ॥ ७
खल खुइ पिमुण मरु पहरु तेम ॥ ८
कम्पिल्ल-पवर-पायव-सहाउ ॥ ९

२६

॥ घत्ता ॥

पढम-भिडन्ते मारुइण
णं सीहेण विरुद्धेण

रिउ-साहणु वहु-भाय-समारिउ ।
मयगल-जूहु दिसहिं ओसारीउ ॥ १०

5 P S सीहा व. 6 P S उद्ध°. 7 P संहिय, S संकुइय. 8 P हल्लुहल्ल, S हल्लुहल्ल. 9 P S
°सूल. 10 A °जलु. 11 A हल्लु मुसलु.

12. 1 P S खोहिय. 2 P S लंकाउरि जाया सयसमाउला with the gloss in P
सन्मयाकुला प्रजाः. 3 P S पओली. 4 P S धुयधवल°. 5 A एउ पडहसद्°. 6 P S A वेदिवि.
7 A वणमाल. 8 P S विरुद्धेण. 9 P ओसारिउं, S ओसारिओ, A उसारिउ.

[१२] १ बहुभागं कृत्वा.

[१३]

॥दुवई॥ जउ जउ पवणपुत्तु परिसकइ तउ तउ वलु ण थकई ।

कुँइएँ णियय-कन्ते सुकलत्तु व णउ णासइ ण दुकई ॥ १

सु-कलत्तु जेम अडुडु जाइ सु-कलत्तु जेम मिउँडिहिँ ण थाई ॥ २

सु-कलत्तु जेम विवरिउ ण होइ सु-कलत्तु जेम वयणुँ वि ण जोइ ॥ ३

सु-कलत्तु जेम दूरिउ मणेण सु-कलत्तु जेम दुकइ खणेण ॥ ४

सु-कलत्तु जेम ओसारु देइ सु-कलत्तु जेम करयलु धुणेइ ॥ ५

सु-कलत्तु जेम ल्हिक्कन्तु जाइ सु-कलत्तु जेम पासेउ लेइ ॥ ६

सु-कलत्तु जेम रोसेण वलइ सु-कलत्तु जेम सम्पत्तु खलई ॥ ७

सु-कलत्तु जेम संकुइय-वयणु सु-कलत्तु जेम मउँलन्त-णयणु ॥ ८

सु-कलत्तु जेम किय वङ्क-भर्मुँहु सु-कलत्तु जेम धावन्तु संमुहु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रोकइ कोकइ दुकइ वि वेढइ वलइ धाइ परिपेछइ ।

हणुवहोँ वलु सु-कलत्तु जिह पिट्टिजँन्तु वि मग्गुँ ण मेलइ ॥ १०

[१४]

॥दुवई॥ हुलि-हल-मुसल-सूल-सर-सवल-पँट्टिस-फलिह-कोन्तेहिँ ।

गय-मोगगर-मुसुँण्ढि-झस-कोन्तेहिँ सुलेँहिँ परसु-चकँहिँ ॥ १

हउ पवण-पुत्तु रणेँ उत्थरन्तु ॥ २

तेण वि चलेण दिढ-भुअ-वलेण ॥ ३

णिइँलिउ सिमिरु चमरेण चमरु ॥ ४

छत्तेण छत्तु कोन्तेण कोन्तु ॥ ५

खग्गेण खग्गु धउ धएँण भग्गु ॥ ६

चिन्धेण चिन्धु सरु सर्रेण विद्धुँ ॥ ७

रहु रहवरेण गउ गयवरेण ॥ ८

हउ हयवरेण णरु णरवरेण ॥ ९

13. 1 A मज्जइ वलु वि ण. 2 P S कुँइ, A कुँइइ. 3 P S मिउँडेहे, A मिउँडिहि. 4 A डाइ. 5 P वयणइ, S वयणइ. 6 P S जूरिउ. 7 P S रोसेँ वलेइ. 8 After 7. line P S read the following extra Pāda: सुकलत्तु जेम संमुहउं (S संमुहउ) वलइ. 9 P S मउँलन्तु. 10 P मउइ, S मउइ, A मउइ. 11 P A ससुँहुँ, S संसुँहु. 12 P फिट्टिजँन्तु. 13 P S पासु.

14. 1 P S पट्टसि. 2 P कोँतिहिँ, S कोँतिहि, A कोँतिहिँ. 3 P S मुसुँडि, A मुसुँडि. 4 P झससरेहिँ सुपरसु, S झसकोँतिहिँ सरेहिँ सुपरसु, A झसकोँतिहिँ. 5 P S चिद्धिय. 6 P विद्धु, S चिद्धु.

हत्थेण अण्णु	पाएण अण्णु ॥ १०
पण्हियएँ अण्णु	जण्हुयएँ अण्णु ॥ ११
दिट्ठीएँ अण्णु	मुट्ठीएँ अण्णु ॥ १२
उरसा वि अण्णु	सिरसा वि अण्णु ॥ १३
५ तालेणं अण्णु	तरलेण अण्णु ॥ १४
सालेण अण्णु	सरलेण अण्णु ॥ १५
चन्दणेण अण्णु	वेन्दणेण अण्णु ॥ १६
णाणेण अण्णु	चम्पणेण अण्णु ॥ १७
णिम्बेण अण्णु	पक्खेण अण्णु ॥ १८
१० संजेण अण्णु	अज्जणेण अण्णु ॥ १९
पाँडलिँ अण्णु	पुप्फलिँ अण्णु ॥ २०
केअइँ अण्णु	मालइँ अण्णु ॥ २१
अणेण अण्णु	हउ एम सेण्णु ॥ २२

॥ घत्ता ॥

१६ पवण-सुअहोँ पहरन्ताहोँ	पाणायाम-थोमं-परिचत्तइँ ।
रिउसाहण-गन्दणवणइँ	वेण्णि ^{१६} वि रणेँ सरिसाइँ समत्तइँ ॥ २३

[१५]

॥दुवई॥ पाडिय वर-तुरङ्ग रह मोडिय चूरिय मत्त कुञ्जरा ।

वेस व णह-विलुक्कं थिय केवल उक्खय-दुम-वसुन्धरा ॥ १

२० वण-वलइँ दसाणण-केराइँ	सुरह मि आणन्द-जणेराइँ ॥ २
महियलेँ सोहन्ति पडन्ताइँ	णं जिण-पडिमहेँ पणमन्ताइँ ॥ ३
वण-वलइँ णिसण्णइँ धरणियलेँ	जलयरइँ व सुक्कइँ उवहि-जलेँ ॥ ४
वण-वलइँ सु-संतावियइँ किह	दुप्पुत्तेहिँ उभय-कुलाइँ जिह ॥ ५
वण-वलइँ परोपपरु मीसियइँ	णं वर-मिहुणाइँ पदीसियइँ ॥ ६
२५ सामीरणि-णिहँएँ भुत्ताइँ	रणेँ रयणिहिँ मिलेँवि पसुत्ताइँ ॥ ७
वण-वलइँ हणुव-पहराहयइँ	णं कालहोँ पाहुणाइँ गयइँ ॥ ८

7 P S जण्हुइए. 8 P S तारेण. 9 A. omits lines 16 to 18. 10 S. omits this Pāda. 11 S णिणण. 12 A. omits this Pāda. 13 P S पाडलीए. 14 P S पहरंतहो. 15 P धाण. 16 P S विणण. 17 S सम्मत्तइ, A सम्मत्तइ.

15. 1 P S विणक्क and glossed in P. as वेइया नासिकारहिता. 2 S मुक्कइ. 3 P दुप्पुत्ते उइय°, S दुप्पुत्ति उइय°. 4 P णिहइ, A णिहइ. 5 P रयणिहे, S रयणेहि.

[१४] १ एक्षेण. २ उखास-रहितः.

अहवइ णं वलहों हियत्तणेण

वणु भग्गु भडग्गिहें कारणेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

समरें महासरें रुहिर-जलें
मारुइ मत्त-गइन्दु जिह

णर-सिर-कमलइँ दिसहिँ पढोएँवि ।
वेगइ स इँ भु व-जुअलु पजोएँवि ॥ १०

*

[५२. दुवणासमो संधि]

बिणिवाइएँ साहणें भग्गएँ उववणें णं हरि हरिहें समावडिउ ।
स-तुरहु स-सन्दणु दहमुह-गन्दणु अक्खउ हणुवहों अग्भिडिउ ॥

[१]

फुरियाणणुंउ विहुणिय-वाहुदण्डओ ।

णं गयवरउ णिभर-गिल्ल-गण्डओ^१ ॥

तं दहवयणु जयकारेवि अक्खओ ।

णं^२ णीसरिउ गरुडहों समुहुं तक्खओ^३ ॥ १

संचलन्तएँ रह-गय-वाहणें

रणें पडहउ देवाविउ साहणें ॥ २

कड्डिय-हय-संजोत्तिय-सन्दणु

लीलएँ चडिउ दसाणण-गन्दणु ॥ ३

धूमकेउ धय-दण्डें थवेप्पिणुं

कालदिट्ठि सारत्थि करेप्पिणु ॥ ४

परिहिउ^४ माया-कवउ कुमारें

रहु संचल्लिउ पच्छिम-दाँरें ॥ ५

ताव समुट्ठियाइँ दुणिमित्तइँ

जाइँ विओय-मरण-भयइत्तइँ ॥ ६

सिव फेक्कारु करन्ति पटुकइ

सुक्कएँ^{११} पायवें बुक्कणु^{१२} बुक्कइ ॥ ७

पँहु छिन्दन्तु सप्पु संचलइ

पुँणु पडिकूलु पवणु पडिपेळइ ॥ ८

रासहु रसइ कुमारहों पच्छएँ

णावइ सज्जणु लग्गु कडच्छएँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अवगण्णेंवि ताइँ मि

सउण-सयाइँ मि

दुप्परिणामें छाइयउ ।

णक्कूल-पईहहों

सीहु व सीहहों

हणुवहों^{१३} समुहु पधाइयँउ ॥ १०

: 1. 1. P. omits this pāda. 2 P णणउं. 3 After this line P. S. read उ ॥, A reads उ ॥ थइ ॥. 4 P S A नक्खउ. 5 S. omits णं. 6 A नीसरियउ. 7 P सम्मुहु सम्मुहुं, S सम्महो, A समहुं. At the end of this line A. reads थइ ॥ भुवकं ॥. 9 P S थयदंड. 10 P थवेप्पिणु, A डवेप्पिणु. 11 A परिहेवि. 12 S पारें. 13 P S A सुक्कइ. 14 A बुक्कणु बुक्कइ. 15 P S पडिकूलउ वि पवणु, A. omits पवणु. 16 P S A पच्छइ. 17 P कडक्खइ. 17 P ताइँ, S ताइ, A ताइँ मि. 18 P S सगाइ, A सयाइँ मि. 19 P हणुवहँ सम्मुहु, S हणुवहँ सम्मुहु, A हणुवहो सम्मुहुं. 20 S धाइयउ.

[१५] १ रामस्य. २ साहकारः.

[१] १ ककः. २ मार्गः.

स० प० प० १२

[२]

एत्थन्तरे पभणइ पवर-सारहि ।
 'समरङ्गणएँ' केण समंड पहारहि ॥
 णं तुरङ्ग गयं धय-चिन्धइं ण विहावमि ।
 सवडम्मुहउं रहवरु कासु वाहमि" ॥ १

तं णिसुणेवि पजग्गिउ अक्खउ 'जो णीसेस-णिहय-पडिवक्खउ ॥ २
 सारहि समर-सएँहिँ जसवन्तहों रहवरु वाहि वाहि हणुवन्तहों ॥ ३
 रहवरु वाहि वाहि जहिँ रहवर संचूरिय-सतुरङ्ग-सणरवर ॥ ४
 रहवरु वाहि वाहि जहिँ कुञ्जर दलिय-सिरग्ग भग्ग-भुव-पञ्जर ॥ ५
 "रहवरु वाहि वाहि जहिँ छत्तइँ पडियइँ महिहिँ णाईँ सयवत्तइँ ॥ ६
 रहवरु वाहि वाहि जहिँ चिन्धइँ अण्णु पणीञ्जावियइँ कवन्धइँ ॥ ७
 रहवरु वाहि वाहि जहिँ गिद्धइँ परिभमंति वस-मंस-पइद्धइँ ॥ ८
 रहवरु वाहि" वाहि जहिँ उववणु णं दरमलिउ वियहें जोवणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

"सारहि एहु पावणि हउँ सो रावणि विहि मि मिडन्तहँ एँउ दलु ।
 जिमँ हणुवहों मायरि जिम मन्दोयरि मुअइ सुदुक्खउ अंसु-जलु" ॥ १०

[३]

जं जाणियंउ अक्खउ रण-रसाहिउ ।
 रहु सारहिणं हणुवहों सम्मुहु वाहिउ ॥
 "दुक्कन्तु रणे तेण वि दिट्ठु केहउ ।
 रयणायरेंण गङ्गा-वाहु जेहउं ॥ १
 जं णिञ्जाइउ णिसियर-सन्दणु मणे आरुहु समीरण-णन्दणु ॥ २
 वलिउ दिवायर-चक्कहों राहु व रइ-भत्तारहों तिहुवण-णाहु व ॥ ३
 वलिउ तिविट्ठु व अस्सग्गीवहों राहवो व मायासुग्गीवहों ॥ ४
 "दहवयणो व वलिउ सहसक्खहों तिह हणुवन्तु सँमुहु रणे अक्खहों ॥ ५
 दहमुह-णन्दणेण हक्कारिउ णिट्ठुर-कडु-आलावहिँ खारिउ ॥ ६

2. 1 A. places a Daṇḍa after this. 2 A 'सारहि'. 3 P समंड. 4 P S पहरहि. 5 P S णर. 6 P A सवडम्मुहउं. 7 P S विहावमि 8 At the end of the stanza P. S. read यहु ॥ छ ॥, A reads यहु. 9 P S A महिहि. 10 P पणचइयइ, S पणाचइयइ. 11 P S 'मज्ज'. 12 P वाहे वाहे. 13 P S एव. 14 P S जिह.

3. 1 P जाणिय, S जाणिअ. 2 P रणि, S रणे. 3 P S सारहिणा. 4 A सम्मुहु. 5 At the end P. S. छ ॥, A यहु ॥. 6 P S वलिउ. 7 P कडुवा, S कडुवा.

‘बङ्गउ पवण-पुत्त पई जुज्झिउ जिणघर-वयणु कयावि ण वुज्झिउ ॥ ७
अणुवउ गुणवउ णउ सिक्खावउ परधण-वउ सुणामु जिह सावउ ॥ ८
एत्तिय जीव जेण संघारिय ण वि जाणहुँ कहिँ थत्ति समारिय ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मई धई सुकु-लीवहों सबहों जीवहों किय णिविप्ति मारेवाँहों ।
पर एक्कु परिग्गहु णाहिँ अवग्गहुँ पई समाणु पहरेवाँहों ॥ १०

[४]

अक्खँत्तहो वयणु सुणेवि' तणुवेंण ।
पक्कय-मुहेंण सरहसु हसिउ हणुवेंण ॥
'जिह एत्तियहुँ तुज्झु वि भिडन्तहो ।
जीविउ हरमि एत्तिउ रणे रसन्तहो ॥ १

एव चवन्त सुहड-चूडामणि भिडिय परोप्परु रावणि-पावणि ॥ २
णं विणिणं मि' आसीविस विसहर णं विणिणं मि' मुक्कङ्कुस कुञ्जर ॥ ३
णं विणिणं मि' सरहस पञ्चाणण णं विणिणं वि कुलिसहर-दसाणण ॥ ४
णं विणिणं मि' गलगज्जिय जलहर णं वेणिण वि उत्थल्लिय सायर ॥ ५
विणिणं वि रावण-राहवँ-किङ्कर विणिणं वि वियड-वच्छ विहुणिय-कर ६
विणिणं वि रत्त-णेत्त डसियाहर विणिणं वि वंहु-परिवहिय-रण-भर ॥ ७
विणिणं वि णामु लिन्ति अरहन्तहों तरु णिसियरेण मुक्कु हणुवन्तहों ॥ ८
तेण वि तिक्ख-खुरुप्पेहिँ खण्डिउ वलि जिहँ दिसिहिँ विहँअँवि छँण्डिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पुणु मुक्कु महीहर स-तरु स-कन्दरु सो वि पडीवउ छिण्णु किह ।
जण-णयणाणन्दे परंम-जिणेन्दे भीसणु भव-संसारु जिह ॥ १०

8 A निवुज्झिउ. 9 P सुणावउ, S सुणाउ. 10 P S मारेवहो. 11 P. omits this pāda.
12 P S पहरेवहो.

4. 1 P reads दुवई in the beginning. 2 P S जक्खन्तहो. 3 P S जिहुणेवि.
4 A हणुवेण. 5 P विणिण. 6 P S वि. 7 S. omits this pāda. 8 P A वेणिण. 9 P
राहवरांमण, S राहवरावण. 10 P S रण. 11 P S णाउ. 12 P S जिम. 13 P S विहँअँवि.
14 A छण्डिउ. 15 A. omits this pāda.

[५]

अण्णेणु किर गिरिवरु मुअइ जावेंहिं ।

आरुट्टएण पवण-सुएण तावेंहिं ॥

णिय-भुअ-वल्लेण भामेवि णहयलन्तरे ।

सहु रहवरेण घत्तिउ पुव्व-सायरे ॥ १

- सारहि णिहउ तुरङ्गम घाइय आसालियहें महापहें लाइय ॥ २
 अक्खउ गयण-मग्गे उप्पालेवि आउ खणद्धे सिल्लं संचालेवि ॥ ३
 किर परिघिवइ वियड-वच्छ-त्थले हणुवें णवर भमाडोवि णहयले ॥ ४
 घत्तिउ दाहिण-लवण-महण्णवें आउ पडीवउ मिडिउ महाहवें ॥ ५
 ॥ पुणरविं घत्तिउ पच्छिम-सायरे तहि मि पराइउ णिविसम्भन्तरे ॥ ६
 पुणु आवाहिउ उत्तर-वासं पत्तु पडीवउ सहुं णीसासें ॥ ७
 पुणु णहयलहों घित्तु भामेप्पिणु मेरुहें पांसोहिं भामरि देप्पिणु ॥ ८
 पत्तु खणन्तरें णहें गज्जन्तउ 'मारुइ पहरु पहरु' पभणन्तउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

- ॥ (तं) णिसुणेवि पवोल्लिय सुर मणे डोल्लिय 'छण्डहो कइ दूअहो तणिय ।
 दुक्कर जीवेसइ रामहो णेसइ कुसल-वत्त सीयहें तणिय' ॥ १०

[६]

जोयण-सएण जो घल्लिउं आवइ (?) ।

अइ-चञ्चलउ मणु कामिणिहें णावइ ॥

- ॥ जं आहयणे जिणेवि ण सक्किउ अरी ।
 विम्भाविओ मणे हणुवन्त-केसरी ॥ १

- रावण-तणयहो फुरणु पसंसिउ 'वल्लु वड्डन्तरेण महु पासिउ ॥ २
 जसु संचारु सुरेहिं ण बुज्झिउ तेण समाणु केम हूँ जुज्झिउ ॥ ३
 किह जसु लद्धु णिहउ मँइ आहवें कुसल-वत्त किह पाविय राहवें ॥ ४
 ॥ मारुइ मणेण वियप्पइ जावेंहिं मन्दोयरि-सुएण रणे तावेंहिं ॥ ५

5. 1 P. s. read दुवइ in the beginning. 2 A °लन्तरेण. 3 P S विचउ. 4 P S डह्हालिभि. 5 P स्तिर. 6 P S पुणु वि विचसिउ. 7 P S भावहिउ. 8 P S पासें. 9 P दूअइ, 8 दूअहं, A दूअहो. 10 P S सीयहो.

6. 1 P. s. begin the Kadavaka with दुवइ ॥. 2 P S घत्तिउ. 3 P S कामि-
 णिहि, A कामिणिहें. 4 P S A विभाविउ. 5 P S हणुवन्तु. 6 P S A इउ. 7 P जसलद्धु, 8 जस-
 लद्धु. 8 P S किह.

सावदुग्धं भंडु बोलाविउ
णासु णासु जइ पाणहँ भीयउ
तं णिसुणेवि पहञ्जण-जाएं
तेण पहारें णिसियरु मुच्छिउ

'किं भो पवण-पुत्त चिन्ताविउ ॥ ६
इन्दइ जाम ण आंवइ वीयउ' ॥ ७
रिउ वच्छयलें विद्धु णाराएं ॥ ८
पडिउउ दुक्खु दुक्खु ओमुच्छिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ अवसरें झाइय पासु पराइय अक्खहों अक्खय-विज्जं किह ।
देवत्तणें लद्धएँ केवलि-सिद्धएँ परम-जिणिन्दहों रिद्धि जिह ॥ १०

[७]

पभणिय भडेंण 'चिन्तिउ किण्ण बुज्झहि ।

एत्तडउ करें एण समाणु जुज्झहि' ॥

पहसिय-मुहएँ णर-सुर-पुज्जणिज्जए ।

संवोहियँउ अक्खउ अक्खय-विज्जए(?) ॥ १

'अहो मन्दोअरि-णयणाणन्दण
जं पभर्णाहि तं काइँ ण इच्छमि
जइ हउँ अक्खय-विज्जा रूसमि
इन्दहों इन्दत्तणु उहालमि
णर्वरि एँकु गुरु सब्वहुँ पासिउ
पइ मि मइ मि हणुवन्तहों हत्थेँ

लङ्का-णयरि-णराहिव-णन्दण ॥ २

सिरसा वज्जासणि वि पडिच्छमि ॥ ३

तो णिविसद्धेँ सायरु सोसमि ॥ ४

मेरु वि वाम-करगें टालमि ॥ ५

णउ अ-पमाणु होइ मुणि-भासिउ ॥ ६

जाएवउ वज्जाउह-पन्थेँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

एम वि जइ जुज्झहि कज्जु ण बुज्झहि तो पडिवारउ करहि रणु ।
णिम्मवेवि स-वाहणु माया-साहणु होमि सहेज्जी एकु लणु' ॥ ८

[८]

'तो'णिम्मविउ माया-वलु अणन्तउ ।

मेहउलु जिह दस-दिसि-वहु भरन्तउ ॥

जलें थलें गयणें भुवणन्तरे ण माइओ ।

अञ्जण-सुअहों पहरण-करु [प]धाइओ ॥ १

१ १ सो वद्वसविभूह वो'. 10 P S पावह. 11 P S उम्मूच्छिउ. 12 P S विज्जु.

7. 1 P S have दुवइँ ॥ in the beginning. 2 P S करेवि. 3 P S संवोहिउ.
4 P S पभणह. 5 P S read मेरु जि वामकरगें चालमि इंदहो इंदत्तणु पुणु टालमि. 6 P S
णवर, A नवरि. 7 P S एहु. 8 A जत्थेँ.

8. 1 P. S. read दुवइँ ॥ in the beginning. 2 P S ता. 3 P णवज. 4 A वद्वस
कथाइओ, P वाहउ, S धायउ.

[६] १ मंत्री-सारथि-नामेदं (?).

केण वि लैइउ महाकुल-पावउ	केण वि हुववहु जग-संतावउ ॥ २
केण वि उम्मूलिउ वड-पायवु	केण वि तोमसु केण वि वायवु ॥ ३
केण वि जल-धारा-हरु वारुणु	केण वि दिणयरत्थु अइ-दारुणु ॥ ४
केण वि णाग-पासुं केण वि घणु	एम पधाइउ सयलु वि साहणु ॥ ५
तो' पण्णात्ति-विज्ज हणुवन्ते	चिन्तिय अहिणव-वलु चिन्तन्ते ॥ ६
'दई पेसणु' पभणन्ति पराइय	माया-साहणु करेवि पधाइय ॥ ७
वेणिण वि वलइँ परोप्परु भिडियइँ	जल-थलाइँ णं एकहिँ मिलिथइँ ८
उब्भिय-धयइँ समाहय-तूरइँ	णं कलि-काल-मुहइँ अइ-कूरइँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१० हणु-अक्खकुंमारहुँ विक्रम-सारहुँ जाउ जुज्जु पहरण-धेणउ ।
जोइज्जइ इन्देँ सहुँ सुर-विन्देँ णावइ छाया-पेक्खणउ ॥ १०

[९]

वेणिण वि वलइँ जय-सिरि-लैद्ध-पसरइँ ।
पहरन्ति रणेँ जीव-भर्यावण-सरइँ ॥
११ फुरियाँहरइँ भड-भिउँडी-करालइँ ।
ए(के)कमेक्कहोँ पेसिय-वाण-जालइँ ॥ १

कथइ वोलावोलि वरावरि	कथइ दुक्काहुँकि धराधरि ॥ २
कथइ ह्वालाहँलि मरामरि	कथइ कण्डाकण्डि सरासरि ॥ ३
कथइ दण्डादण्डि घणाघणि	कथइ केसाकेसि हणाहणि ॥ ४
१२ कथइ छिन्दाछिन्दि लुणालुणि	कथइ कट्ठाकट्ठि धुणाधुणि ॥ ५
कथइ भिन्दाभिन्दि दलादलि	कथइ मुसलामुसलि हलाहलि ॥ ६
कथइ सेलासेलि णरिन्दहुँ	कथइ पेलापेलि गइन्दहुँ ॥ ७
कथइ पाडापाडि तुरङ्गहुँ	कथइ मोडामोडि रहङ्गहुँ ॥ ८
कथइ लोहालोहि विमाणहुँ	आहर-जाहर णरवर-पाणहुँ ॥ ९

5 P S लइय. 6 P S णागवासु. 7 P S तं. 8 A देहि. 9 A धिडियइँ. 10 A हणुवकुमारहुँ.
11 P S A घणउं. 12 P S विक्रखणउ, A पेक्खणउं.

9. 1 P. S. read हुवइ ॥ in the beginning. 2 P S लुद्धं 3 A पसरइँ. 4 A अवाणवसरसइँ. 5 P S णं फुरिं. 6 P S भिडलिं. 7 P S पिहापिहि. 8 P S हुक्काहुँकि.
9 A दंढादंढि. 10 P आहारं, A एहरवि जाहर णरवरवाणहुँ.

[८] १ अंधकारः. २ इंद्रजालं.

॥ वत्ता ॥

विणिण वि अ-णिविण्णंइँ माया-सेण्णइँ ताव परोप्परु जुज्झियइँ ।
कहिँ गम्पि पइडुइँ कहि मि ण दिट्ठइँ जाव ण केण वि बुज्झियइँ ॥१०

[१०]

उच्चरिय पर दुहम-दणु-विमहणा ।
संगर-समं-गय रावण-पवण-णन्दणां ॥
णं मत्त गय धाइय एकमेकहो ।

सहसोत्थरिय रण-धव देन्त सक्कहो ॥ १

तो आरुडू समीरण-णन्दणु	चूरिउ रणेँ रयणीयर-सन्दणु ॥ २
सारहि णिहउ तुरङ्गम धाइय	वइवस-पुरवर-पन्थेँ लाइय ॥ ३
अक्खकुमार-हणुव थिय केवल	वार्हा-जुज्झेँ भिडिय महा-वल ॥ ४
तो मारुव-सुएण आंयामिउ	चलणेँहिँ लेवि णिसायरु भांमिउ ॥ ५
ताम जाम आमेळिउ पाणेँहिँ	कह वि कह वि णिय-भिच्च-समाणेँहिँ ॥ ६
लोयणइ मि उच्छलियइँ फुट्टेवि	विणिण वाहु-दण्ड गय तुट्टेवि ॥ ७
सिरु णिवडिउ णीलुप्पल-कोमलु	किउ सरीरु तहोँ हड्डुइँ पोट्टलु ॥ ८
एह वत्त गय मय-मारिच्चहुँ	अन्तेउरहुँ असेसहुँ भिच्चहुँ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

तो णिसियर-णाहेँ कोव-सणाहेँ हियउ हणेव्वेँ ठोइयउ ।
रण-रस-सण्णंजुअ 'णिँएवि सयं भु व चन्दहासु अवलोइयउ ॥ १०

*

[५३. तिवण्णासमो संधि]

भणइ विहीसणु 'लइ अज्जु वि कज्जु ण णासइ ।
रामण रामहेँ अप्पिज्जउ सीय-महासइ ॥

[१]

मो भुवणेक-सीह	वीसद्ध-जीह	तउ थाउ एह बुद्धी
अज्जु वि विगय-णामेँणं	समउ रामेँणं	कुणहि गम्पि 'संधी ॥ १
अज्जु वि णिय जाणइ	को वि ण जाणइ	धरणियलेँ ।
अज्जु वि सिय माणाँहि	कुल-खउ माँSSणाँहि	णियय-वलेँ ॥ २

11 P ऋणिवक्कइँ, S ऋणिवण्णइँ.

10. 1 P S. read दुवइँ ॥ in the beginning. 2 P °समरगा, S °संगारसमग्ग.
3 P S °णंणो, A °णंदण. 4 P वाहाजुज्जेहि, A काहाउडे. 5 A भायामिउं; 6 A मामिउं.
7 P S णीलुप्पलु. 8 P S °सखणुदव. 9 P णिववि, S णियवि.

1. 1 A. reads नारणालं in the beginning. 2 P S °णामेण. 3 P S रामेण.
4 At the end P S read उअ, A भुवकं ॥ 5 S A माणाँहि. 6 P S जाणहि, A माणाँहि.

अज्ज वि सं-सां-रएँ	मा संसारएँ	पइसरहि
अज्ज वि उज्जाणेंहिँ	सिविया-जाणेंहिँ	संचरहि ॥ ३
अज्ज वि तुहुँ रावणु	जग-जूरावणु	सा जें सिय
अज्ज वि मँन्दोअरि	सा मन्दोअरि	पाण-पिय ॥ ४
अज्ज वि ते सन्दण	णरवर-सन्दण	ते तुरय
अज्ज वि तं साहणु	गहिय-पसाहणु	ते जि गँय ॥ ५
अज्ज वि करें खण्डउ	करि-सिर-खण्डउ	तं जि तउ
अज्ज वि भड-सायरु	लद्ध-जसायरु	रणें अजउ ॥ ६
अज्ज वि पवराहउ	जाम ण राहउ	औवँडइ
अज्ज वि वहु-लक्खणु	जाम ण लक्खणु	अग्भिडइ ॥ ७
वरि ताम दसाणण	पँवर-दसाणण	पवर-भुअ
अप्पिज्जउ रामहों	जण-अहिरामहों	जणय-सुअ ॥ ८
परयारु रमन्तहों	कहों वि जियन्तहों	णाहिँ सुहु
अच्छहि तमें छूढउ	णिय-मणें मूढउ	काइँ तुहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जाम विहीसणु दहवयणहों हियउ ण भिन्दइ ।
मँहि अँफ्फालेंवि भडु ताव समुट्ठिउ इन्दजइ ॥ १०

[२]

१५ 'भो' दणुइन्द-मइणा	पँइँ विहीसणा	काइँ एव वुत्तं ।
अक्ख-कुमारें घाइए	हणुएँ आइए	'लिहक्किउं ण जुत्तं ॥ १
एवहिँ काइँ मन्तु मन्तिज्जइ	जलें विसट्टें किं वरुणु रइज्जइ ॥ २	
पित्तिर्यं णासु णासु जइँ भीयउ	उत्तर-सक्खि समरें महु वीयउ ॥ ३	
एक्कु पहुच्चइ तोयदवाहणु	अच्छउ भाणुकणु पञ्चाणणु ॥ ४	
अच्छउ मउ मारिच्चि सँहोयरु	अच्छउ अणु मि जो जो कायरु ॥ ५	
१६ महु पुणु चङ्गउ अवसरु वट्टइ	जो किर अज्जु कलें अग्भिडइ ॥ ६	
जेणाऽऽसाल-विज्ज विणिवाइय	वणु भग्गउ वण-पाल वि घाइय ॥ ७	

7 P 'संदण, S णंदण. 8 S तिय. 9 P उव्वइइ, S उव्वइइ. 10 A. omits this hemistich.
11 P S अफालेवि.

2. 1 P S read हुवई in the beginning and so in all the Kāṣṭhakas of 53. Sandhi. 2 A. omits this half. 3 P पइ पइ, S पइ. 4 P S अक्खए. 5 P S हणुवि. 6 P णिहकिउ, S णिहकिउ. 7 A जुत्तु. 8 P S omit पित्तिव. 9 P S जइ पाणहु भीयउ. 10 P S मारिचु. 11 A अज्जे कलें अग्भिडइ.

[१] १ सा-रते. २ क्षामोदरी. ३ आगच्छति. ४ उत्तमावस्थानायकः.

किङ्कर-खन्धावारु पलोद्विड

अखैउ कुमारु जेण दलवद्विड ॥ ८

सो महु कह वि कह वि अग्भिडियउ सीहहों हरिणु जेम कमें पडियउ ॥ ९

दूड भणेपिणु

समरदुगणें जइ वि ण मारमि ।

तो वि धरेपिणु

तुम्हहँ सँमेकखु वित्थारमि ॥ १०

[३]

पुणारवि रिउ-णिसुम्भ

अहिमाण-खम्भ

सुणि वयणु ताय ताय ।

जइ ण धरेमि सत्तु

रणें उत्थरन्तु

ता छित्त तुम्ह पाय ॥ १

अहवइ लङ्केसर

किं परमेसर

वीसरिउ ।

जइयहुँ सुर-सुन्दरें

गम्पि पुरन्दरें

उत्थरिउं ॥ २

तइयहुँ तेत्थन्तरें

छत्त-णिरन्तरें

धवल-धएँ ।

सिन्दूरुप्यङ्किएँ

गिज्जालङ्किएँ

मत्तगएँ ॥ ३

संजोत्तिय-रहवरें

हिंसिय-हयवरें

पवर-थडें ।

धणु-गुण-टङ्कारवें

कलयल-रउरवें

कुइय-भडें ॥ ४

आमेळिय-परियरें

कडिय-सरवरें

गीढ-फरें ।

पडु-पडहँउप्फालिएँ

सह-वंमालिएँ

गँहिर-सरें ॥ ५

रिउ-जय-सिरि-लुउएँ

अमरिस-कुउएँ

जुज्ज-मणें ।

सवल-हुलिं-हूलिहिं

सत्ति-तिसूलेंहिं

वीवरणें ॥ ६

तहिं तेहए साहणें

हय-गय-वाहणें

अग्भिडेंवि ।

सीहेण वं वर-करि

धरिउ पुरन्दरि

रहें चडेंवि ॥ ७

तहिं इन्दइ घोसिउ

णौमु पगासिउ

सुरवरेंहिं ।

विज्जाहर-जकलेंहिं

गन्धव-रक्खेंहिं

किण्णरेंहिं ॥ ८

तो एक्कें हणुवें

अण्णु वि^{१३} मणुवें

को गहणु' ।

रहें चडिउ तुरन्तउ

जय-कारन्तउ

परम-जिणु ॥ ९

॥ वत्ता ॥

हरि धुरें देपिणु

धएँ विजउ जणहों पेक्खन्तहों ।

णिग्गउ इन्दइ

णं वन्धणारु हणुवन्तहों ॥ १०

12 P S अक्खं. 13 P S समक्ख, A समेक्खु.

3. 1 P S read दुवइ in the beginning. 2 P S अग्भिडिउ. 3 P S 'रापं-
किय. 4 P 'टंकरेवि, S 'टंकारिवि. 5 P S 'भरे. 6 P S पड पडहुप्फालिए. 7 P सरोमालिए,
S सरोधमालिए. 8 A गहिए. 9 P S 'हुलहुळहिं, A 'हुलिलिहुळहिं. 10 P S चावरणे. 11
P S वि. 12 P S णउ. 13 P S इ.

[२] १ जळे गते पालि-बंधु. २ प्रत्यक्षः.

[३] १ अशौ.

६० प० प० ३३

[४]

पच्छएँ 'मेहवाहणो गहिय-पहरणो गिगगओ तुरन्तो ।
 णं जुअ-खएँ सणिच्छरो भरिय-मच्छरो अहर-विप्फुरन्तो ॥ १
 सो वि पधाइउ रहवरें चडियउ णं केसरि-किसोरु णिच्चडियउ ॥ २
 संचलन्तएँ तोयदवाहणं तूरइँ हयइँ असेस वि साहणें ॥ ३
 सण्णाज्जन्ति के वि रयणीयर वर-तोणीर-चाण-धणुवर-कर ॥ ४
 के वि तिव्ख-खग्गुक्खय-हत्था के वि गुरुहों ओणामिय-मत्था ॥ ५
 के वि चडिय हिंसन्त-तुरङ्गेहिँ के वि रसन्त-मत्त-मायङ्गेहिँ ॥ ६
 के वि रहेंहिँ के वि सिविया-जाणेंहिँ के वि परिट्टिय पवर-विमाणेंहिँ ॥ ७
 आउच्छन्ति के वि णिय-कन्तउ को वि णिवारिउ रणें पइसन्तउ ॥ ८
 केण वि णिय-कलत्तु णिब्भच्छिउ 'एक्कु सु-सामि-कज्जु पइँ इच्छिउ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अग्गएँ इन्दइ
 वीया-यन्दहों

पच्छएँ रयणीयर-साहणु ।
 अणुलगुं णाइँ तारायणु ॥ १०

[५]

पुच्छिउ णियय-सारही 'अहों महारही दिठइँ जाइँ जाइँ ।
 कहि केत्थियइँ अत्थइँ रणहों सत्थइँ रंहेँ चडावियाइँ' ॥ १
 तो एत्थन्तरेँ पभणइँ सारहि 'अत्थइँ अत्थि देव लुडुँ पहरहि ॥ २
 चक्कइँ पञ्च सत्त वर-चावइँ दस असिवरइँ अणिट्टिय-गावइँ ॥ ३
 वारह झस पण्णारह मोगगर सोलह लउडि-दण्ड रणें दुद्धर ॥ ४
 वीस परसुं चउवीस तिसूलइँ कोन्तइँ तीस सत्तु-पडिकूलइँ ॥ ५
 घण पणतीस चाल वंसुणन्दा वावञ्जासँ तिव्ख अञ्जेन्दा ॥ ६
 सेल्लइँ सट्ठि खुरुप्पइँ सत्तरि अण्णु'वि कणय चडिय चउहत्तरि ॥ ७
 असी तिसत्तिउ णवइँ मुसुंण्डिउ जाउ दिवें दिवें रण-रंस-यट्ठिउ ॥ ८
 सउ णारायहुँ जं परिमाणमि अण्णंहेँ पुणु परिमाणु ण जाणमि ॥ ९

4. 1 P S read दुवइँ in the beginning. 2 P S °खव°. 3 A. omits this Pāda. 4 P S A गुरुहु. 5 P S °इँवहो. 6 P अणुलग्गा, S अणुलग्ग.

5. 1 P S read दुवइँ in the beginning. 2 S दिट्ठइ. 3 A. omits this Pāda. 4 P सत्थइ, S समत्थइ. 5 P रहिहे चडावियाइँ, S रहिहि चडावियाइ. 6 P S जइ. 7 P S °चावइँ, A चावइ. 8 P S फरसु. 9 P S चाउ. 10 P चालपंचासेंतीस; P. marginally notes the reading here accepted. 11 P S अजेदा, A अजेदा. 12 P अण्णइ, S अण्णइ. 13 P S मुसुंण्डिउ. 14 P A °रसि°. 15 A परिमाणमि. 16 P S अण्णइ.

[४] १ घनवाहनः.
 [५] १ अनस्थित (?) गर्वेण. २ फारका.

वारह गियलई
जेहिं धरिअइ

तं गिसुणेवि रावणी
णं मजाय-भेळणो

परिवेह्णु मारुइ दुज्जएहिं
जम्बू-दीवु व रयणायरोहिं
लोयन्तउं व ति-पहञ्जणोहिं
एकलउ सुहडु अणन्तुं वलु
परिसकइ थकइ उल्लइ
आरोकइ दुकइ उत्थरइ
ण वि छिज्जइ भिज्जइ पहरणोहिं
हणुवहो पासेहिं परिभमइ वलु

धरोवि ण सकइ
मेरुहे^{१६} पासेहिं

धाइउ पवण-णन्दणो
हउ रहु रहवरेण
सुहडे सुहडु कवन्धु कवन्धे
वाणे वाणु चाउ वर-चावे
चके^{१७} चक तिसुलु तिसुले
कणएं कणउ मुसलु वर-मुसले
सेले सेलु खुरुपु खुरुपे

॥ घत्ता ॥

सोलह विज्जउ रहे चडियउ ।
समरङ्गणे इन्दु वि भिडियउ^१ ॥ १०

[६]

जेत्थु पावणी तेत्थु^२ रहे पयट्टो ।^६
पुहइ-रेळणो सायरो विसट्टो ॥ १

केवलु व अवहि-मणपज्जएहिं ॥ २
पञ्चाणणो व कुञ्जर-वरोहिं ॥ ३
दिवसाहिउ व^३ णहे णव-घणेहिं ॥ ४
पप्फुल्लु तो वि तहो मुह-कमलु ॥ ५^{१०}
हकारइ पहरइ दणु दलइ ॥ ६
पवियेम्भइ रुम्भइ वित्थरइ ॥ ७
जिह जिणु संसारहो कारणेहिं ॥ ८
णं मन्दर-कोडिहिं उवहि-जलु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वलु सयलु वि उक्खय-पहरणु ।
परिभमइ णाई तारायणु ॥ १०

[७]

दणु विमहणो वलहो पुलइयङ्गो ।
गउ गयवरेण तुरएण व तुरङ्गो ॥ १^{११}

छसे छत्तु चिन्धु हउ चिन्धे ॥ २
खगं खगु अण्णिट्ठिय-गावे ॥ ३
मुगारुं मुगारेण हुलि हूले ॥ ४
कोन्ते कोन्तु रणङ्गणे कुसले ॥ ५
फलिहे फलिहु गय वि गय-रुपे ॥ ६^{१२}

6. 1 P S begin the Kadavaka with दुवइ ॥ 2 A रामणी. 3 P तेत्थ रहो, S तित्थ रहो, A तेत्तहे. 4 P S A 'सिल्लणो. 5 A 'सिल्लणो. 6 P S केवलि. 7 A 'पज्जवेहिं. 8 P जेवसउ वि, S जेवसभो वि. 9 A omits. 10 P S अणंत. 11 P परिअमइ, S परिअमइ. 12 P मंदरकोडिहि, S मंदरकोडिहि. 13 P S मारुइ. 14 P S मंदरहो मारु.

7. 1 P वरतुरंगो, S वरतुरंगो. 2 P S 'गन्धे. 3 P चकइ, S चकइ. 4 P S मोगगर मोगगरेण.

[७] १ गजा (! वा) रूपेण.

जन्तं जन्तु एन्तु पडित्खलियउ
णासइ सयलोणामिर्य-मत्थउ
विबरासुहु ओहुल्लिय-वयणउ

वलु उज्जाणु जेमं दरमलियउ ॥ ७
णिग्गइन्दु णित्तरुं णिरत्थउ ॥ ८
भग्ग-मडप्फरु मउलिय-गयणउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१ वियलिय-पहरणु
रहवरु वाहेंवि

णासन्तु णिएँवि णिय-साहणु ।
थिउ अगएँ तोयदवाहणु ॥ १०

[८]

रावण-राम-किङ्करा
विडसुग्गीव-राहवा

रणे भयङ्करा
विजय-लाहवा

भिडिय विप्फुरन्ता ।
णाइँ 'हणु' भणन्ता ॥ १

॥ वे वि पयण्ड वे वि विज्जाहर

वेणिं वि अक्खय-तोण धणुंद्धर ॥ २

वेणि वि वियड-वच्छ पुलइय-भुअ

वेणि वि अङ्गण-मन्दोयरि-सुअ ॥ ३

वेणि वि पवण-दसाणण-णन्दण

वेणि वि दुहम-दाणव-महण ॥ ४

वेणि पर-वल-पहरणं-चड्डिय

वेणिं वि जय-सिरि-वहु-अवरुण्डिय ॥ ५

वेणि वि राहव-रावण-पक्खिय

वेणि वि सुरवहु-गयण-कडक्खिय ॥ ६

॥ वेणि वि समर-सएँहिँ जसवन्ता

वेणि वि पहु-सम्माणु सरन्ता ॥ ७

वेणि वि परम-जिणिन्दहों भत्ता

वेणि वि धीर वीर भय-चत्ता ॥ ८

वेणि वि अतुल मल्ल रणे दुद्धर

वेणि वि रत्त-णेत्त फुरियाहर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विहि मि महाहवु

जो असुर-सुरेन्देहिँ दीसइ ।

॥ रावणं-रामहँ

सो तेहउ दुकरु होसइ ॥ १०

[९]

अमरिस-कुद्धएण

जस-लुद्धएणं

जयसिरि-पसाहणेणं ।

पेसिय विज्ज हणुवहो

मेहवाहणी

मेहवाहणेणं ॥ १

॥ गम्पिणु णियय-परकमु दरिसहि

जिह सकहि तिह उप्परि वरिसहि' ॥ २

॥ तं णिसुणेप्पिणुं विज्ज वियम्भिय

माया-पाउस-लीलारम्भिय ॥ ३

5 P S जेण. 6 P S °लुण्णामिय.° 7 P नितुरंगु णिरत्थउ, S णित्तरुंगु णिरत्थउ. 8 P S ओहुल्लिय.°

8. 1 P S रामण. 2 P. mostly वेणि, rarely विणि, S. throughout विणि, A. mostly वेणि, rarely विणि. 3 P S वणुहरकर; gloss in P वणुद्धर. 4 A मंदोयरि-अङ्गण.° 5 P S पहरणपरवळ.° 6 P विणि, S A विणि. 7 P सरत्ता, A हरसंता. 8 P S transpose the Pādas in this line. 9 P रावणराहवाहु, S राहवराहवाहो, A रामण.°

9. 1 P S read दुवइँ in the beginning. 2 A. omits this word. 3 P S निसुणेवि. 4 P S पवियंभिय.

कहिं जि मेह-वुगयं
कहिं जि विज्जु-गज्जियं
कहिं जे णीरजं जलं
कहिं जे मोर'-केइयं

इय णव-पाउस-लील पदरिसिय
वाय-सुएण वि वायडु पेसिउ

सुराउहं समुगयं ॥ ४
घणेहिं 'कं विसज्जियं ॥ ५
वहावियं महीयलं ॥ ६
बलाय-पन्ति-तेइयं ॥ ७

थिर-थोरहिं जल-धारहिं वरिसिय ॥ ८
तेण घणागमु सयलु विणासिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

स-धउ स-सारहि
पर एकल्लउ

स-तुरङ्गमु मोडिउ सन्दणु ।
गउ णासेवि दहमुह-णन्दणु ॥ १०

[१०]

'भग्गए मेहवाहणे
मत्त-गइन्द-गन्धेणं

णियंय-साहणे इन्दई विरुद्धो ।
मय-समिद्धेणं 'केसरि व कुद्धो ॥ १

'मारुइ थाहि थाहि कहिं गर्म्मइ
रहवर-तुरय-सौरि-संघडणेहिं
करं-सिर-छेज्जहिं पहरण-दाएहिं
सुरवहु-णइ-सएहिं-परिचड्डिउ
जो विहिं जिणइ तासु लिह दिज्जइ
जिम रामणहो होउ जिम रामहो
जिह उज्जाणु भग्गु हउ अक्खउ
एम भणेवि समीरण-पुत्तहो

सिरइँ समोद्धेवि रण-पंडु रम्मइ ॥ २
मत्त-महग्गय-पासा-वडणेहिं ॥ ३
मरण-गमोहिं खग-चर-संघाएहिं ॥ ४
अक्खइ एउ जुज्ज-पडुं मण्डिउ ॥ ५
जाणइ-धरणंउ मेल्लाविज्जइ ॥ ६
हउं पुणु कुंढे लग्गंउ णिय-णामहो ॥ ७
पहरु पहरु तिहँ आउ कुल-क्खउ' ॥ ८
इन्दइ मिडिउ समरे हणुवन्तहो ॥ ९

॥ घत्ता ॥

शवणि-पावणि
उत्तर-दाहिण

सङ्गामे परोप्परु भिडिया ।
णं दिस-गइन्द अब्भिडिया ॥ १०

5 PS समगयं, 6 P थोरेहिं, 8 थोरेहिं. 7 P मोडिउं, A मोडियं.

10. 1 PS begin with दुवइ ॥ 2 P इदइ, A इदइ. 3 A संघेणं. 4 PS जं केसरि.
5 P A गम्मइ. 6 P A रणपिडु. 7 P A रम्मइ. 8 PS करं. 9 A थोरेहिं. 10 P जुज्ज-
पिडि, 8 जुज्जु पिडि. 11 P A वरणं. 12 PS कुडि. 13 A लग्गं. 14 S हउ. 15
P S अब्भिडिया.

[९] १ जल विसर्जित. २ शब्दित. ३ बलाकापंजितेज.

[१०] १ सारी-पासा. २ शीता.

[११]

पठम-भिडन्तएण असहन्तएण दहवयण-गन्दणेण ।
 सर चेयारि मुक्क अट्टहि विलुक्क उज्जाण-महणेण ॥ १
 जं वाणेहिं वाण विद्धंसिय भामेवि मीम गयासधि पेसिय ॥ २
 धाइय धुद्धुवन्ति हणुवन्तहो करयल्ले लग्ग सु-कन्त व कन्तहो ॥ ३
 पुणु वि पडिल्लं मेल्लिउं मोग्गरु किउ हणुवेण सो वि संय-सक्करु ॥ ४
 पुणु वि' णिसिन्दे चक्कु विसज्जिउ जं सङ्गाम-सएहिं अ-परज्जिउ ॥ ५
 कह वि ण लग्गु पवद्धिर्य-हरिसहो दुज्जण-वयणु जेम सप्पुरिसहो ॥ ६
 जं जं इन्दइ पहरणु घत्तइ तं तं णं सयवत्तु पवत्तइ ॥ ७
 दहमुह-सुएण णिरत्थीहएण हसिउ स-विग्गभमु रामहो दूए ॥ ८
 'चङ्गउ मंइ समाणु ओलग्गउ पहरहि णं उववासोहिं भग्गउ' ॥ ९
 ॥ घत्ता ॥

हणुवहो वयणोहिं
 भय-भीसावणु

सो इन्दइ झत्ति पलित्तं ।
 'सिहि णाइ सिणिद्धे सित्तउ ॥ १०

[१२]

'मरु मरु काइ' एण रणे णिप्फलेण सयवार-गज्जिएणं ।
 किं लङ्गुल-दीहेणं पवर-सीहेणं णह-विवज्जिएणं ॥ १
 णिन्वित्तेण किं पवर-भुअङ्गे किमदन्तेण मत्त-मायङ्गे ॥ २
 किं जल-विरहिएण णहे मेहे किं णीसग्गभावेण सणेहे ॥ ३
 किं धुत्त-यण-भज्जे दुवियहे कवणु गहणु किर कु-पुरिस-सण्हे ॥ ४
 जइ पहरमि तो घाए मारमि किर तुहुं दूए तेण ण विचारमि ॥ ५
 एव भणेवि भुवणे जसवन्तहो मेल्लिउ णार्ग-पासु हणुवन्तहो ॥ ६
 तेहए अवसरं तेण वि' चिन्तिउ 'अच्छमि रिउ संघारमि केत्तिउ ॥ ७

11. 1 P S begin with दुवइ ॥ 2 A पडिवउ. 3 A, omits. 4 A व परज्जिउ. 5 P S पवद्धिय. 6 P S पहरणु इंदइ. 7 A परत्तइ. 8 P S पइ. 9 P S आलगउ. 10 P S वय-णाहि. 11 P S पलित्तइ.

12. 1 P S begin with दुवइ ॥ 2 P S एण काइ. 3 P S A गज्जिएण. 4 P S A दीहेण. 5 P S पवल. 6 P A सीहेण, S सीहिण. 7 A विज्जिएणं. 8 P S मेह, A मेहे. 9 P S सणेह. 10 P S दूएउ तेण विचारमि, with विचारमि glossed as विचारयामि in P. 11 P S णागवासु, A नागपासु. 12 P S तहि. 13 P S वि मणि.

[११] १ इत्यतिना. २ अग्निः घृतेन सिष्ठा(क) इव.

[१२] १ अंकमाला. २ कुस(स)लतास्वरूपं.

तो वरि वन्धावमि अप्पाण्ड
एम भणेवि पडिच्छिउ एन्तउ

जे वोळ्ळमि^{१५} रावणेण समाणउ^{१६} ॥ ८
णाइँ सहोयरु साइउ देन्तँउ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

रण-रसियेहेण
स इँ भु व-यञ्जु

कउसल्लु करेप्पिणु धुत्ते ।
वेढाविउ पवणहोँ पुत्ते ॥ १०

*

[५४. चउवण्णासमो संधि]

हणुवन्त-कुमारु
दहवयणहोँ पासु

पवर-भुअङ्गोमालियउ ।
मलयगिरि व संचालियउँ ॥

[१]

णव-णीलुप्पल-णयण-जुय
‘पवण-पुत्त पइँ विरहियउ
सो अञ्जण-पवणञ्जयहुँ सुउ
संचालिउ लङ्कहोँ सम्मुहउ
‘णिविसद्धेँ पुरेँ पइँसारियउ
एत्थन्तरेँ पीण-पओहरिहिँ
इर-एरउ जाउ पवेसियउ
आयाउ तौउ ससि-वयणियउँ
जाणाविउ तुरियउ ईर-इरेँहिँ
‘सुणु माएँ काइँ दूएण किउ
तं णन्दण-वणु संचूरियउ
अक्खयहोँ जीउ विद्धंसियउ
इन्दइण णवर अवमाणु किउ

सोएँ णिरु संतत्त ।
कवणु पराणइ वत्त^{११} ॥ १
अइरावय-कर-सारिच्छ-भुउ ॥ २
णं णियल-णिवद्धउ मत्त-गउ ॥ ३
णिय-णासु णाइँ हक्कारियउ ॥ ४
वलगेहिणि-लङ्कासुन्दरिहिँ ॥ ५
हणुवन्तहोँ वत्त-गवेसियउ ॥ ६
कुवलय-दल-दीहरं-णयणियउ ॥ ७
पगलन्त-अंसु-गगर-गिरेँहिँ ॥ ८
जं णिसियर-णाहहोँ पाण-पिउ ॥ ९
किङ्कर-साहणु मुसुमूरियउ ॥ १०
घणवाहण-वलु संतासियउ ॥ ११
वन्धेँवि दहवयणहोँ पासु णिउ^{१२} ॥ १२

14 A अप्पाण्डं. 15 P S वोळ्ळावमि रावणु राणउं. 16 P S दिँतउ. 17 P S वेढाविय.

1. 1 P S हणुवन्तु. 2 P S ‘भुअङ्गसु मालियउ. 3 P S छ ॥, A धुवकं. 4 P reads this stanza headed with the word दोहा ॥ in the beginning of the next Kadavaka. s. reads it here as well as in the beginning of the next Kadavaka headed with the word दोहा. 5 P S ‘पवणञ्जयहु, A ‘पवणञ्जयहो. 6 P S संसुहउ, A सम्मुहउ. 7 P S णं णियव-णासु. 8 P S पासु, P. noting वत्त marginally. 9 P S ‘वयणियाउ, A ‘वयणियउं. 10 P S ‘मउलियणयणियाउ, A ‘दीहरनयणियउं. 11 A वर.° 12 P S संतावियउ.

[१] १ निमिषादेन. २ ते द्वे इरा एरा आगते.

॥ घटा ॥

तं वयणु सुणेवि
सीयहें गयणाइँ

णीलुप्यलइँ व डोलियइँ ।
विणिण मि अंसु-जलोहियइँ ॥ १३

[२]

१ 'जं असु दिण्णउ अण्ण-भवे
तासु कि गाँसेवि सकियइ

जीवहों कहि मि थियासु ।
कम्महों पुष-कियासु ॥ १

पुणु रुवइ स-दुक्खउ जणय-सुअ
'खल खुइ पिसुण ह्य दइ विहि
दसरह-कुडुम्बु जं छत्तरिउ

मालइ-माला-सारिच्छ-भुअ ॥ २
पूरन्तु मणोरह होउ दिहि ॥ ३
वेलि जिह दस-दिसिहिँ पविक्खिरिउ ॥ ४

॥ अण्णाहिँ हउँ अण्णाहिँ दासरहि
एहएँ वि कालेँ वसणावडिँ
जो किरं णिच्चूढ-महाहवहों
पँइँ समरेँ सो वि वन्धावियउ
अहवइ किं तुहु मि करहि छलइँ

अण्णाहिँ लक्खणु अन्तरेँ उवहि ॥ ५
वहु-इइ-विओय-सोय-भरिँ ॥ ६
सन्देसउ णेसइ राहवहों ॥ ७
वलहइहों पासु ण पावियउ ॥ ८
एयइँ दुक्किय-कम्महों फलइँ ॥ ९

॥

॥ घटा ॥

अकुसल-वयणेहिँ
णं रवि-किरणेहिँ

सीय वि लङ्कासुन्दरि वि ।
तप्पइ जउण वि सुर-सरि वि ॥ १०

[३]

॥ 'मारुइ-गन्दण भणमि पइँ
तावस जे फल-भोयणा

कुल-वल-जाइ-विहीण ।
ते पइँ सेविय दीण' ॥ १

एत्तहें वि सुहउ-पञ्चाणणहों
वइँसारेँवि कज्जालाव किय
चङ्गउ कुसलत्तणु सिक्खियउ
सुर-डामरु रावणु मुँएवि मइँ

णिउ मारुइ पासु दसाणणहों ॥ २
'हे' सुन्दर काइँ दु-बुद्धि थिय ॥ ३
अह उत्तमु कुलु ण परिक्खियउ ॥ ४
परियरिउ वरायउ रामु पइँ ॥ ५

13 P S A °लुप्यलइँ.

2. 1. P S read this stanza with दोहा॥ prefixed in the beginning of the next Kaḍavaka. 2 P दिच्चउ, A दिण्णउ. 3 A नासण सकियइँ. 4 A किरि निच्चूढ. 5 S सो वि समरे. 6 P S तुहु काइ करहि, A तुहु मि. 7 A. omits णं रवि.°

3. 1 P S A read this stanza at the beginning of the next Kaḍavaka, S reads it here also. 2 P S तावस वणफलभोयणइँ (S इ). 3 P S वइँसारिउ 4 P S वहो. 5 P S अणुत्तरिउ.

[२] १ विस्तारितः अंतरितः वा (?). २ व(व)लि-दत्तं दस-विद्यायाः. ३ आपत्यसिते वधि. ४ हे विधि त्वया.

क० १, ६-१०; ४, १-१०; ५, १]

पञ्चाणणु मेळेंवि धरिउ गउ
जो जसु भायणु सो तं धरइ
जो सयल-काल सुंपहुत्तएँहिँ
पुज्जिँज्जहिँ सो एवहिँ धरिउ

मइँ मुँएँवि सु-सामि
इह-लोँएँ जें ताइँ

‘रावण सुहु भुञ्जन्ताहँ
आणिय सीय ण एह पइँ
अणणु मि’ जो दुग्गइ-गामिँएँहिँ
कुपरियण-कुमन्ति-कुसेवएँहिँ
आएँहिँ असेसहिँ भावियउ
तं वयणु सुणेवि कइँद्धएँण
‘किर काइँ दसाणण हसहिँ मइँ
परदारु होइ चिलिसावणउ
दुक्खहुँ पोट्टलु कुल-लञ्छणउ
दुज्जण-धिक्कार-पडिच्छणउ

संसारहों वारु
लङ्कहें वि विणासु

‘जोवणु जीविउ धणिय धरु
भाँवेंवि एह अणिच्च तुँहुँ

सुन्दरकण्डं-चउवण्णासमो संघि [२६५

जिणु मुँएँवि पसंसिउ पर-समउ ॥ ६
कइँ णालियरेण काँइँ करइँ ॥ ७
मणि-कउय-मउड-कडिसुत्तएँहिँ ॥ ८
लंभियक्कु जेम जणं-परियरिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मारुइ कियइँ जाइँ छलइँ ।
पत्तु कु-सामि-सेव-फलइँ ॥ १०

[४]

लङ्काउरि जिह णारि ।
णिय-कुल-वंसहों मारि’ ॥ १
कुकलत्त-कुमन्ति-कुसामिँएँहिँ ॥ २
कुँतिथ-कुधम्म-कुदेवएँहिँ ॥ ३
सो’ कवणु ण आवइँ पावियउ’ ॥ ४
णिब्भंच्छिउ ‘वेहाविद्धएँण ॥ ५
अप्पणुँ सलग्घु किउ काँइँ पइँ ॥ ६
णाणाविह-भय-दरिसावणउ ॥ ७
इहलोय-परत्त-विणीसणउ ॥ ८
घरु अयसहों जम्महों लञ्छणउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दिट्ठु कवाडु सासय-घरहों ।
अकुसलु अणण-भवन्तरहों ॥ १०

[५]

सम्पय-रिद्धि णरिन्द ।
पट्टवि सीय णिसिन्द ॥ १

6 P S A काह. 7 P S पुज्जिज्जइ. 8 P जणे, S जणि.

4. 1 P. S. read this stanza in the beginning of the 16. Kadavaka; A. reads it in the beginning of the 5. Kadavaka. 2 P S वि. 3 P S मिच्छत्त. 4 P मणु. 5 P S णिब्भंच्छिउ, A निभच्छिउ. 6 P S अप्पउ. 7 P चिलिसावणउं, S चिलिसावणउ. 8 P S A ‘दरिसावणउं. 9 A लंछणउं. 10 P A ‘विणासणउं. 11 A ‘पडिच्छणउं.

5. 1 P S prefix दोहा॥. 2 S A धणु. 3 A. omits this half. 4 P S वहु.

[३] १ सुप्रभुत्वैः मुनेः. २ तस्त(र)कर इव.

[४] १ कोपाविष्टेन.

स० प० च० ३४

पर-धणुं पर-दारु मज्ज-वसणु
 तुहुं धँइँ सयलागम-कल-कुसलु
 जाणन्तु ण अप्पहि जणय-सुअ
 को कासु सव्व माया-तिमिरु
 १ सम्पत्ति समुद्-तरङ्ग-णिह
 जोवणु गिरि-गइ-पवाह-सरिसु
 धणु सुर-धणु-रिद्धिहँ अणुहरइ
 शिज्जइ सरीरु आउसु गलइ

आयरइ को वि जो मूढ-मणु ॥ २
 मुणि-सुव्वय-चलण-कमल-भसलु ॥ ३
 अद्दुव-अणुवेक्ख काइँ ण सुअ ॥ ४
 जल-विन्दुं जेम जीविउ अ-थिरु ॥ ५
 १सिय चञ्चल विज्जुल-लेह जिह ॥ ६
 पेम्मु वि सुंविणय-दंसण-सरिसु ॥ ७
 खणें होइ खणद्धें ओसरइ ॥ ८
 जिह गउ जल-णिवहु ण संभवइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१० धरु परियणु रज्जु
 एयइँ अ-थिराइँ

सम्पय जीविउ सिय पवर ।
 एकु मुएप्पिणु धम्मु पर ॥ १०

[६]

‘रावण अ-सरणु सम्भरेंवि
 णं तो सम्पइ सयल सुय
 १५ अहों केकसि-रयणासवहों सुय
 जावेंहिँ जीवहों दुक्कइ मरणु
 रक्खिज्जइ जइ वि भयङ्करेंहिँ
 मायङ्ग-तुरङ्गम-सन्दणेंहिँ
 जम-वरुण-कुवेर-पुरन्दरेंहिँ
 २० पइसरइ जइ वि पायालयलें
 रणें वणें तिणें णहयलें सुर-भर्वणें
 मञ्जूस-कूवें धर-पञ्जरएँ

पट्टवि रामहों सीय ।
 पइँ तम्वारहों णीय ॥ १
 असरण-अणुवेक्ख काइँ ण सुय ॥ २
 तावेंहिँ जणें णाहिँ को वि सरणु ॥ ३
 असि-लउडि-विहत्थेंहिँ किङ्करेंहिँ ॥ ४
 कमलासण-रुद्ध-जणहणेंहिँ ॥ ५
 गण-जक्ख-महोरग-किणरेंहिँ ॥ ६
 गिरि-गुहिलें हुआसणें उवहि-जलें ॥ ७
 रयणप्पहाइ-दुग्गइ-गमणें ॥ ८
 कट्ठिज्जइ तो वि खणन्तरएँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

२५ तहिँ असरण-कालें
 पर रक्खइ एकु

जीवहों अणु ण काँ वि धर ।
 अहिँसा-लक्खणु धम्मु पर ॥ १०

5 A. omits. 6 P चइ पुणु, S सह पुणु, A प्पइ. 7 P S omit. 8 P विंदुव जेम जीउ.
 9 A सिविणा°.

6. 1 P जणय° corrected as सयल, S जणय°. 2 A कइसिरयणासवहो. 3 P S णत्थि
 कोइ. 4 P पइँ सरइ वि जइ, S पइसरइ वि जइ. 5 P तणि, S तणे. 6 P S °सुवणे. 7 S
 °दुग्गगमणे. 8 P S कूवि, S कूए. 9 P S को

[५] १ सांप्रत. २ श्री: लक्ष्मी च.

[६] १ ब्रह्मा.

[७]

रावण गय-घड भड-णिवहु एत्तिउ छुँवुवि जाँसि तुहुँ	घरु परियणु सुहि रज्जु । पर सुहु दुक्खु सहेज्जु ॥ १
अहों रावण णव-कुवलय-दलक्ख जगें जीवहों णत्थि ^१ सहाउ को वि	किं णं सुइय एकत्ताणुवेक्ख ॥ २
“इउ घरु इउ परियणु इउ कलत्तु”	रइ वन्धइ मोह-वसेण तो वि ॥ ३
एक्केण कणेवउ विहरु-कालें	णउ बुज्झहि जिह सँयलेहिँ चत्तु ॥ ४
एक्केण वसेवउ तहिँ णिगोएँ ^{१०}	एक्केण वसेवउँ जल-वमालें ॥ ५
एक्केण भमेवउँ भव-समुहें	एक्केण रुँएवउँ पिय-विओएँ ॥ ६
एकहों जें दुक्खु एकहों जें सुक्खु	कम्मोह-मोह-जलयर-रउहें ॥ ७
एकहों जें ^{११} पाउ एकहों जें धम्म	एकहों जें वन्धु एकहों जें मोक्खु ॥ ८
	एकहों जें मरणु एकहों जें जम्मु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहएँ विहरें
पर वेण्णि सया इँ

सयण-सयाइँ ण दुक्कियइँ ।
जीवहों दुक्किय-सुक्कियइँ ॥ १०

[८]

‘रावण जुत्ताजुत्त तुहुँ अण्णु सरीरु वि अण्णु जिउ	चिन्तेवि’ णियय-मणेण । विहडइ एउ खणेण’ ॥ १
पुणु वि पडीवउ उववण-महणु अण्णत्ताणुवेक्ख दहगीवहों	कहइ हियत्तणेण मरु-णन्दणु ॥ २
^१ अण्णहिँ तणउँ धण्णु धणु जोवणु	अण्णु सरीरु ‘अण्णु गुणु जीवहों ॥ ३
अण्णहिँ तणउँ कलत्तु लइज्जइ	अण्णहिँ तणउँ सयणु घरु परियणु ॥ ४
कइ वि दिवसं गंय मेलावक्के	अण्णहिँ तणउ तणउँ उप्पज्जइ ॥ ५
अण्णहिँ जीउ सरीरु वि अण्णहिँ	पुणु विहडन्ति मरन्ते एक्के ॥ ६
	अण्णहिँ घरु घरिणि वि अण्णण्णहिँ ॥ ७

7. 1 P °निवद्ध. 2 P छुँवुवि, S च्छुँवुवि, A छुँवुहि. 3 A जहि. 4 P S सहिज्ज, A सहेज्ज. 5 P णहिँ, S णहि. 6 A सयलेण. 7 P A कणेवउ. 8 P सुएवउ जरपयालि recording A's reading marginally, S सुयेवउ जरपयालि. 9 P A वसेवउ. 10 A निओएँ. 11 A. omits the text up to भमेवउ in line 7. 12 P रुइवउ, S रुयेवउ. 13 P भमेवउ 14 A. omits एकहो जे पाउ. 15 P S जि. 16 P सहायइ, A स. 17 A हो. 18 P S सुक्किय-दुक्कियइ.

8. 1 P S तुहु, A तुहु. 2 P S A चित्तिवि. 3 A. omits this Pāda. 4 P तणउँ. 5 P A तणउँ. 6 A तणउँ. 7 P दिअह, S दियइ. 8 P कय.

[६] १ न भुता.

अण्णहिं तुरय महगय रहवर
एहएँ अण्ण-भवन्तेर-वन्तरे

अण्णहिं आण-पडिच्छी णरवर ॥ ८
अत्थ-विडाँविडेँ होइ खणन्तरे ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जणु कज्जवसेण
जिण-धम्मु मुएवि

मुह-रसियउ पिय-जम्पणँउ ।
जीवहों को वि ण अप्पणँउ ॥ १०

[९]

चउ-राइ-सायरेँ दुह-पउरेँ
अप्पहि सिय म गाहु करि

जम्मण-मरण-रउहेँ ।
मं पडि णरय-समुहेँ ॥ १

भो भुवण-भयङ्कर दुण्णिणिकख
जल-थल-पायाल-णहङ्गणेहिं
१० णर-णारि-णपुंसय-रूवएहिं
मायङ्ग-तुरङ्ग-विहङ्गमेहिं
किमि-कीड-पयङ्गेन्दिन्दिरेहिं
हम्मन्तु हणन्तु मरन्तु जन्तु
गेणहन्तु मुअन्तु कलेवराइँ
१५ धरिणी वि माय माया वि धरिणि
पुत्तो वि वप्पु वप्पो वि पुत्तु

सुणु चउगइ संसारणुवेक्ख ॥ २
सुर-णरय-तिरिय-मणुअत्तणेहिं ॥ ३
विस-मेसेहिं महिस-पसुअएहिं ॥ ४
पञ्चाणण-मोर-भुअङ्गमेहिं ॥ ५
विस-वईस-गइन्देँ (?) मञ्जरेहिं ॥ ६
कलुणइँ रुअन्तु खज्जन्तु खन्तु ॥ ७
अणुहवइ जीउ पावहों फलाइँ ॥ ८
भइणी वि धीय धीया वि भइणि ॥ ९
सत्तो वि मित्तु मित्तो वि सत्तु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एहएँ संसारें
अप्पिज्जउ सीय

रावण सोक्खु कहिं तणँउ ।
सीलु म खण्डहि अप्पणँउ ॥ ११

[१०]

चउदह रज्जुय दहवयण
तो इ ण हूइय तित्ति तउ
अहों सुर-समर-सएँहिं सवडम्मुह
जं तं णिरवसेसु आयासु वि

भुञ्जेँवि सोक्खँ-सयाइँ ।
अप्पहि सीय ण काइँ ॥ १
तइलोक्काणुवेक्ख सुणिं दहमुह ॥ २
तिहुवणु मज्जेँ परिट्ठिउ तासु वि ॥ ३

9 P S महागय. 10 P S °वडिच्छा. 11 P S भवंतरे, अंतरे. 12 P S °विडाँविडि. 13 A °जपणडे. 14 A ञप्पणडे.

9. 1 P S °पवरि. 2 P S रावण अप्पहि सीय तुहु. 3 P S मा पडु. 4 P S °समुहि, A रउहे. 5 A नपुंसकरूवेहिं. 6 P S °वेस. 7 P S गयदेँ, A °रायमंदिंदिरेहिं. 8 P. reads संवरसरहरिच्छगोहरिणेहिं and s. reads सम्बरसरहहरिच्छहि हरिणेहि extra after 6. line. 9 A वहिणि. 10 P तणडे, S A तणडे. 11 A ञप्पणडे.

10. 1 P. adds जं marginally after °वयण. 2 P S सुक्ख', A सोक्खु. 3 P S सुणु.

आई णिहणु णउ केण वि धरियउ अच्छइ सयलु वि^१ जीवहँ भरियउ ॥ ४
 पहिलउ वेत्तासण-अणुमाणे थियउ सत्त-रज्जुअ-परिमाणे ॥ ५
 वीयउ झल्लरि-रूवागारे थियउ एक्क-रज्जुव-वित्थारे ॥ ६
 तइयउ, भुवणु मुरव-अणुमाणे थियउ पञ्च-रज्जुअ-परिमाणे ॥ ७
 मोक्खु वि विवरिय-छत्तायारे थियउ एक्क-रज्जुअ-वित्थारे ॥ ८
 इय चउदह-रज्जुएहिँ णिवद्धउ तिहुअणु तिहिँ पवणेहिँ उट्टुअउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहो मज्जे असेसु
 तं कवणु पएसु

जलु थलु णयण-कडक्खियउ ।
 जं ण वि^{१०} जीवे भक्खियउ ॥ १०

[११]

वसेवि^१ चिलिबिले देह-घरे खणे भङ्गुरए असारें ।
 रावण सीयहें लुद्धु तुहँ जिह मण्डलउ कयारें ॥ १
 अहो अहो सयल-भुवण-संतावण असुइत्ताणुवेक्ख सुणि रावण ॥ २
 माणुस-देहु होइ धिणि-विट्टलु 'सरेहिँ णिवद्धउ हड्डुहँ पोट्टलु ॥ ३
 चलु कु-जन्तु मायमउ कुहेडउ मलहो पुज्जु किमि-कीडेहँ मूडउ ॥ ४
 पूअंगन्धि रुहिरामिस-भण्डउ चम्म-रुक्खु दुग्गन्ध-करण्डउ ॥ ५
 अन्तहँ पोट्टलु पक्खिहिँ भोयणु वाहिहिँ भवणु मसाणहो भायणु ॥ ६
 आयएहिँ कलुसिउ जीहिँ अङ्गउ कवणु पएसु सरीरहो चङ्गउ ॥ ७
 सुण्णउ सुण्णहरु व दुप्पेच्छउ कडियलु पच्छाहर-सारिच्छउ ॥ ८
 जोवणु गण्डहो अणुहरमाणउ सिरु णालियर-करङ्क-समाणउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एहएँ असुइत्ते
 सीयहें वरि तो वि^{११}

अहो लङ्काहिव भुवण-रवि ।
 हँउ विरत्तीभाउ ण वि ॥ १०

4 P S अणाह. 5 P S सयलहं. 6 A थियउं. 7 P एक्क, s illegible. 8 s A एक्क. 9 A उदउ. 10 P S जज्ज वि.

11. 1 P S असुइ. 2 P S चिलिबिलि, A चिलिबिलि. 3 A असुइत्ता°. 4 S 'कीडेहु, A कीडेय'. 5 P S पूअंगंध. 6 P भायहु कलुसियओ जिहि, S भायहिँ कलुसियउ जिहि. 7 P S भणु ह, A सुणउं. 8 A अणुहरमाणउं. 9 A 'समाणउं. 10 P S सीयहो. 11 P S ह. 12 P S हह.

[११] १ नसाभिः. २ कुत्सित-मांस-पिण्डः. ३ एतानि पूर्वोक्तैः कल्पितोऽज्ञाः. ४ अन्यदपि अन्य-गृहमिव भयाणं(न)कः. ५ वेढाकारः. ६ गण्डवालः व्रणः, [तद्]वत्.

पञ्च-पयारोहैं दहवयण
 सुहु दुक्खइ जं जेम ठिय
 भो सुरकरि-कर-संकास-भुअ
 वेढिज्जइ जीउ मोह-मएँहिं
 रयणायरु जिहं सरि-वाणिपेँहिं
 णव-दंसणेहिं विहिं वेयणेँहिं
 चउ-विहेँहिं आउ-परिमाणएँहिं
 विहिं गोत्तेँहिं मइल-समुज्जलेँहिं
 छाइज्जइ छिज्जइ भिज्जइ वि
 पिट्ठिज्जइ वज्जइ मुञ्चइ वि

णिय-कम्म-वसेण
 विसहेवउ दुक्खु

भणमि सणेहेँ दहवयण
 संवरु भावेँवि' णियय-मणेँ
 भो सयल-भुअण-लच्छी-णिवास
 रक्खिज्जइ जीउ स-रांगु केमं
 दिज्जइ रक्खणु जो जासु महु
 दम्भहोँ अ-दम्भु दोसहोँ अ-दोसु
 हिंसहोँ अहिंस मोहहोँ अ-मोहु
 णाणु वि अण्णाणहोँ दिढ-कवाडु
 अ-विओउ विओयहोँ दुण्णिवारु
 मिच्छत्तहोँ दिढ-सम्मत्त-पयरु

परियाणेँवि एउ
 वरि रामहोँ गम्पि

12. 1 P °पयारिहि, S °पयारेहि, A °पयारहि. 2 A पासु. 3 P S भुञ्जिच्चउ. 4 A करिकरकर°. 5 P S जेम. 6 A. omits this. 7 P वम्मोहणेँहिं, S वम्मोहणेँहिं. 8 P S पंचवि-हेहि. 9 P अंतराय°. 10 A मुच्चइ. 11 P S रुज्जइ. 12 P विहसेवउ, A विसहेवउ. 13 A जेमइ.

13. 1 P S A भाविवि. 2 P S सराउ. 3 P S केव. 4 P S जेव. 5 P अइंभु. 6 A. omits this Pāda. 7 P S °साइ. 8 P S जेण. 9 P S काइज्जइ.

[१२] १ सुख-दुःख-रूपं सादं. २ सहनीयं.

[१२]

जीवहोँ दुक्कइ पाउ ।
 तं भुञ्जेवउ साउ ॥ १
 आसव-अणुवेक्ख काइँ ण सुअ ॥ २
 पञ्चाणणु जेम मत्त-गएँहिं ॥ ३
 पञ्च-विहेँहिं णाणावरणिपेँहिं ॥ ४
 अट्टावीसहिं वामोहणेँहिं ॥ ५
 ते णउइ-पयारोहैं णामएँहिं ॥ ६
 पञ्चहि मिं अन्तराइयं-खलेँहिं ॥ ७
 मारिज्जइ खज्जइ पिर्ज्जइ वि ॥ ८
 जन्तेहिं दलिज्जइ रुञ्चइ वि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जम्मण-मरणोदुद्धएँण ।
 जेमं गइन्दे वद्धएँण ॥ १०

[१३]

जाणेँवि एउ असारु ।
 वज्जिज्जउ परयारु ॥ १
 संवर-अणुवेक्खा सुणि दसास ॥ २
 णउ दुक्कइ अयस-कलङ्कु जेमं ॥ ३
 कामहोँ अ-कामु सल्लहोँ अ-सल्लु ॥ ४
 पावहोँ अ-पावु रोसहोँ अ-रोसु ॥ ५
 माणहोँ अ-माणु लोहहोँ अ-लोहु ॥ ६
 मच्छरहोँ अ-मच्छरु दप्प-साडुँ ॥ ७
 जसु अयसहोँ दुप्पइसारु वारु ॥ ८
 भेल्लिज्जइ जेमं ण देह-णयरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णव-णीलुप्पल-णयण-जुय ।
 करेँ लाइज्जउ जणय-सुय ॥ १०

[१४]

रावणं णिज्जर भावि तुहुँ जा दयं-धम्महो मूल ।
तो वरि जाणवि परिहरहि 'किज्जइ' तहो अणुकूल ॥ १
लङ्काहिव दणु-दुग्गाह-गाह णिज्जर-अणुवेक्खा णिसुणि णाह ॥ २
छट्टुट्टम-दसम-दुवारसेहिं बहु-पाणाहारोहिं णीरसेहिं ॥ ३
'उथेहिं तिरत्ता-तोरणेहिं पक्खेक्खवार-किय-पारणेहिं ॥ ४
मासोववास-चन्दायणेहिं अवरोहि मि दण्डण-मुण्डणेहिं ॥ ५
वाहिर-सथणेहिं अत्तावणेहिं तरु-मूलेहिं वर-वीरासणेहिं ॥ ६
सज्जाय-झाण-मण-खच्चणेहिं वन्दण-पुज्जण-देवच्चणेहिं ॥ ७
संजम-त्तव-णियमेहिं दूसेहेहिं धोरोहिं वावीस-परीसहेहिं ॥ ८
चारित्त-गाण-वय-दंसणेहिं अवरोहि मि दण्डण-खण्डणेहिं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो जम्म-सएण सञ्चिउ दुक्किय-कम्म-मल्लु ।
सो गलइ असेसु 'वरणे' दु-वड्डेए जेम जलु ॥ १०

[१५]

धम्म अहिंसा दहवयण जाणहि तुहुँ दह-भेउ ।
तो वि णं जाणइ परिहरहिं काइ मि कारण एउ ॥ १
अहो जिणवर-कम-कमलिन्दिन्दिर दसधम्माणुवेक्ख सुणे दस-सिर ॥ २
पहिलउ एउं ताम बुद्धेवउं जीव-दया-वरेण होएवउ ॥ ३
वीयउ महवत्तु दरिसेवउ तइयउ उज्जय-चित्तु करेवउ ॥ ४
चउथउ पुणु लाहवेण जिवेवउ पञ्चमउ वि तव-चरणु चरेवउ ॥ ५
छट्टुउ संजम-वउ पालेवउ सत्तमु किम्पि णांहिं मग्गेवउ ॥ ६
अट्टमु वम्भचेरु रक्खेवउ णवमउ सच्च-वयणु वोलेवउ ॥ ७

14. 1 A रामण. 2 A जहि. 3 P इय° corrected as दय°, S इय.° 4 P S जाणतो वि ण. 5 P किं अण्णहि पडिक्खे, S किं अण्णहि पडिक्खु. 6 A किज्जइ. 7 A. omits this. 8 P °अणुवेक्ख, S अणुवेक्ख वि. 9 P °दुबालसेहिं, S °दुवलसेहिं. 10 P S चउथेहिं. 11 P S वइरापहिं (S °हि) धम्मोपायणेहिं (S °हि). 12 A. omits this. 13 P S °मुण्डणेहिं. 14 S फलु. 15 P वरणि, S वराणि. 16 S वड्डए.

15. 1 A जाणवि. 2 A जो वरि. 3 P S परिहरहिं. 4 P S सुणु. 5 P S एहु. 6 P A read all gerundives with °वउ. 7 P S जिएव्वउ, A जिवेवउ. 8 P लएवउ, S लवेवउ, A चरेवउ. 9 P S सत्तमउं ण किंपि. 10 A णवमउं.

[१४] १ पाली.

दसैमउ मणें परिचाउ करेवउ
धम्मं होन्तएण सुहु केवलु

एँहु दस-भेउ धम्मु जाणेवउ ॥ ८
धम्मं होन्तएँण चिन्तिय-फलु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

धम्मेण दसास
विणु एक्के तेण

घरु परियणु सवडं^{१३}मुहउ ।
सयलु वि थाइ परं^{१०}मुहउ ॥ १०

[१६]

‘मारुइ मण-आणन्दयर
जाणइ जाणिय सयल-जणें
अण्णु वि’ दहवयण मणेण मुणें
॥ चिन्तेवउ जीवें रत्ति-दिणु
भवें भवें लब्भउ समाहि-मरणु
भवें भवें जिण-गुण-सम्पत्ति महु
भवें भवें सम्मत्तु होउ अचलु
भवें भवें सम्भवउ महन्त दिहि
॥ रावण अणुवेक्खउ एयाउ
जो पढइ सुणइ मणें सहइइ

णिय-कुले ससि अ-कलङ्क ।
कह भय-भीएँ मुक्क’ ॥ १
णामेण वोहि-अणुवेक्ख सुणें ॥ २
“भवें भवें महु सामिउ परम-जिणु ॥ ३
भवें भवें होज्जउ सुगइ-गमणु ॥ ४
भवें भवें दंसण-णाणेण सहुँ ॥ ५
भवें भवें णासउ हय-कम्म-मलु ॥ ६
भवें भवें उप्पज्जउ धम्म-णिहि” ॥ ७
जिण-सासणें वारह-भेयाउ ॥ ८
सो सासय-सोक्ख-सयइँ लहइ’ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सुन्दर-वयणाइँ
स इँ भु व-जुवलेण

लगाइँ मणें लङ्केसरहों ।
किउ जयकारु जिणेसरहों ॥ १०

*

[५५. पञ्चवण्णासमो संधि]

‘एत्तहें दुलहउ धम्मु
आयँहँ कवणु लएमि’

एत्तहें विरहग्गि गरूवउ ।
दहवयणु दुवक्खीहूँअउँ ॥

11 A दसमउ. 12 S A हुतएण. 13 P A सवडंमुहउ. 14 A परंमुहउ.

16. P S read this (s. with दोहा ॥ prefixed) at the end of this Kaḍavaka after the words संधिः ॥ ५४ ॥ छ ॥. They read here instead the commencing stanza of 4. Kaḍavaka. 2 P S इ. 3 P S सुणि. 4 P A चित्तेवउ.

1. 1 P S read the commencing stanza of the 4. Kaḍavaka of the previous Sandhi in the beginning of the present Sandhi and the following extra stanza thereafter: एकसि कियउ अक(s. य)जु, जं आणिय रामहों सीय । पुणु गुरुवारी होउ महु, जं भीएँ(s. य)अपीय ॥ छ ॥. 2 P S दुलहु. 3 S आयइ, A आयइ. 4 P °हूअउं, S A °हूयउ. 5 A. reads घुवकं at the end; P. S. have ॥ छ ॥.

[१]

‘एत्तहें जिणवर-वयणु ण चुकइ
 एत्तहें भव-संसारु विरुवउ
 एत्तहें णरएँ पडेवउ पाणोहिँ
 एत्तहें जीउ कसाएँहिँ रुम्भइ
 एत्तहें दुक्खु दुक्कम्महों पासिउ
 एत्तहें हय-सरीरु चिलिसावणु
 एत्तहें दुलहइँ^१ जिण-गुण-वयणइँ
 एत्तहें जिणवर-सासणु सुन्दरु
 एत्तहें असुहु कम्मु णिरु भावइ
 एत्तहें णिन्दिउ उत्तम-जाइहें
 एत्तहें णरउ रउहु दुरुत्तरु
 एत्तहें णारइयहुँ गिर ‘मरु मरु’
 एत्तहें जम-गिर ‘लइ लइ धरि धरि’
 एत्तहें दुक्खु अणन्तु दुणित्थरु
 एत्तहें जम्मन्तरें सुहु विरलउ
 एत्तहें मणुव-जम्मु अइ-विरलउ
 एत्तहें एउ कम्मु ण वि विमलउ
 एत्तहें पाउ अणोवमु वज्झइ
 एत्तहें कुविउ कयन्तु सु-भीसणु
 कँवणु लँएमि कँवणु परिसेसमि

एत्तहें वम्महु वम्महों दुक्कइ ॥ १
 एत्तहें विरह-परँवसिइहअउ ॥ २
 एत्तहें भिण्णु अणङ्गहों वाणोहिँ ॥ ३
 एत्तहें सुरय-सोक्खु काहिँ लँभइ ॥ ४
 एत्तहें जाणँइ-वयणु सुहासिउ ॥ ५
 एत्तहें सुन्दरु सीयहें जोवणु ॥ ६
 एत्तहें मुद्धइँ सीयहें णयणइँ ॥ ७
 एत्तहें जाणइ-वयणु मणोहरु ॥ ८
 एत्तहें सीय-अहरु को पावइ ॥ ९
 एत्तहें केस-भारु वरु सीयहें ॥ १०
 एत्तहें सीयहें कण्ठु सु-सुन्दरु ॥ ११
 एत्तहें सीयहें मणहरु धणहरु ॥ १२
 एत्तहें जाणइ लडह-किसोयरि ॥ १३
 एत्तहें सीयहें रमणुँ स-वित्थरु ॥ १४
 एत्तहें सुललिय-ऊरुव-जुवलउ ॥ १५
 एत्तहें जंघा-जुअलँउ सरलउ ॥ १६
 एत्तहें सीयहें वरु कम-जुअलउ ॥ १७
 एत्तहें विसएँहिँ मणु परिरुज्झँइ ॥ १८
 एत्तहें दुत्तरु मयणहों सासणु ॥ १९
 तो वरि एवहिँ णरएँ पडेसँमि ॥ २०

॥ घत्ता ॥

जाणमि जिह ण वि सोक्खुँ
 जं रुच्चइ तं होउ

पर-तिय पर-दव्वु लयन्तहों ।
 तहों रामहों सीय अँ-देन्तहों ॥ २१

[२]

जइ अप्पमि तो लञ्जणु णामहों
 मणें परिचिन्तेवि जय-सिरि-माणणु

जणु वोलेसइ “सङ्किउ रामहों” ॥ १
 हणुवहों सम्मुहुँ वलिउ दसाणणु ॥ २

6 P S मम्मं, A वम्महे. 7 P S °परावसि°. 8 P S transpose the Pādas. 9 A लक्खइ.
 10 A जिणवर°. 11 P S दुल्लहाइ जिणवयणइँ. 12 P S °जीयहि. 13 P S रवणु. 14 P
 जुअलउ, S जुअलुव, A चारणे जुयलउ. 15 P S परिरुज्झइ. 16 S रुयेवि. 17 P कमणु.
 18 P S पईसमि. 19 P मोक्खु. 20 A ण.

2. 1 A सम्मुहुँ वोह्लिउ.

‘अरें गोवाल वाल घी-व्रज्जिय
लवणु समुद्धहों पाहुडु पेसहि
मेरुहें कणय-दण्डु दरिसावहि
जोण्हावइहें जोणह संपाडहि
इन्दहों देव-लोउ अंफ्फालंहि
तं गिसुणेवि पवोळ्ळिउ सुन्दरु

‘रावण तुज्जु ण दोसु
अण्णहें कईहें दिणेहें

10

दुव्वयणेंहें दहवयणु पलित्तउ
‘मरु मरु लेहु लेहु सिरु पाडहों
खरें वइसारहों सिरु मुण्डावहों
तं गिसुणेवि पधाइय गिसियर
तहिँ अवसरें सरीरु विहुणेप्पिणु
मारुइ भड भञ्जन्तु समुट्टिउ
जउ जउ देइ दिट्ठि परिसक्कइ
भणइ दसाणणु ‘सइं संधारमि

20

वञ्चेंवि सेणु असेसु
मुहें मसि-कुञ्चउ देवि

थिउं वलु सयलु मडप्फर-मुक्कउ
कमल-वणु व हिम-वाएं दहूउ
रयणिहें वर-भवणु व णिहीवउ
भणइ सहोअरु ‘जाउ कु-दूअउ

2 P उप्फालहि, S उप्फालहि. 3 PS मासियउ. 4 PS कहिमि.

3. 1 P विन्डारिमि, S विन्डारेवि. 2 PSA मुंडावहु. 3 P विलहं, S विलह, A वेळइ.
4 PS °करसु. 5 PS इ. 6 P तहं जि सइं मारमि, S तइ जि सइ मारमि. 7 PS °वंस.°
8 PS कुञ्चउ. 9 SA उप्परे.

4. 1 PS थिय. 2 PS मडप्फर. 3 P अविजइउ, S अविजइउ. 4 PS उत्तमु.

[२] १ व्याख्यायसि.

वद्धउ शङ्कहि काइँ अलज्जिय ॥ ३
सासय-थाणें सुहाइँ गवेसहि ॥ ४
दिणयर-मण्डलें दीवउ लावहि ॥ ५
लोह-पिण्डें सण्णाहु भमाडहि ॥ ६
महु अगगएँ कहाउ संचालहि ॥ ७
पवर-भुअङ्ग-वद्ध-भुअ-पञ्जरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लइ दुक्कउ मुणिवर-भासिउ ।
खउ दीसइ सीयहें पासिउ’ ॥ ९

[३]

केसरि केसरगें णं छित्तउ ॥ १
णं तो लहु विच्छोडेंवि धाडहों ॥ २
वेळँएँ वन्धेवि धरें धरें दावहों ॥ ३
असि-झस-परसुं-सत्ति-पहरण-कर ॥ ४
पवर-भुअङ्ग-वन्ध तोडेप्पिणु ॥ ५
सणि अवलोयणें गाइँ परिट्टिउ ॥ ६
तउ तउ अहिमुहु को वि’ ण थक्कइ ॥ ७
जेत्तहें जाइ तं जें मरु मारमि’ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विज्जाहर-भवणं-पईवहों ।
गउ उप्परि दहगीवहों ॥ ९

[४]

जोइस-चक्कु व थाणहों चुक्कउ ॥ १
दुविलासिणि-वयणु व दुवियंइउ ॥ २
किर उट्टवणु करेइ पडीवउ ॥ ३
एत्तडेण किं उत्तिमुं हूअउ ॥ ४

क० ४, ५-९; ५, १-९; ६, १-५]

गिरिवर-उवरि विहङ्गमु जन्तउ
एम भणेवि णिवारिउ रावणु
तावेत्तहें ०वि तेण हणुवन्तें
चिन्तिउ एक्कु खणन्तरु थाएँवि

‘लक्खण-रामहुँ कित्ति
दहमुँह-जीविउ जेम

चिन्तिउण सुन्दरेंण सुन्दरं
स-सिहरं स-मूलं समुक्खयं
स-कुसुमं स-वारं स-तोरणं
मणि-तवङ्ग-सवङ्ग-सुन्दरं
हीर-गहण-तल-उँठभ-खम्भयं
विप्फुरन्त-णीसेस-मणिमयं
इन्दणील-वेरुलिय-णिम्मलं
वर-पवाल-माला-पलम्बिरं

तं घरु पवर-भुएँहिँ
हणुव-वियहें णाँइँ

तहों सरिसाँइँ जाँइँ अणुलग्गँइँ
किउ कडमहँणु पवणाणन्दें
पुणु वि स-इच्छएँ परिसकन्तें
सहइँ संमीरणि णहयलें जन्तउ
तहिँ अवसरें सुरवर-पञ्चाणु

5 P S गुणवंतउ. 6 P S तो वि एत्तहे. 7 P विहंगमे, 8 विहंगमि. 8 P S दहसुहु. 9 P S वर
एचहि घर.

5. 1 A सुंदरे. 2 P S सचरियं. 3 P S उभि. 4 A ०छुंवेकं.

6. 1 P S भग्गाइ, A भग्गउं. 2 A कडवंदणु. 3 P A समीरणे.

[४] १ समस्ते (?).

[५] १ स-शेवरं.

सुन्दरकण्ड-पञ्चवणासमो संधि [२७५

तो किं सो जें होइ वलवन्तंउ' ॥ ५
सण्णज्जन्तु भुवण-संतावणु ॥ ६
णाँइँ विहङ्गे णहयलें जन्तें ॥ ७
कोव-दवग्गि मुहुत्तुप्पाएँवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जगें ०णीसावण्ण भमाडमि ।
वरि एमहिँ घरुँ उप्पाडमि' ॥ ९

[५]

भुअबलेण दहवयण-मन्दिरं ॥ १
स-चलियं (?) स-जाला-गवक्खयं ॥ २ 10
मणि-कवाड-मणि-मत्तवारणं ॥ ३
वलहि-चन्दसाला-मणोहरं ॥ ४
गुमगुमन्त-रुण्टन्त-छप्पयं ॥ ५
सूरकन्त-ससिकन्त-भूमयं ॥ ६
पोमराय-मरगय-समुज्जलं ॥ ७ 15
मोत्तिएक्क-सुम्बुक्क-सुम्भिरं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रसकसमसन्तु णिहलियउ ।
लङ्कहें जोषणु दरमलियउ ॥ ९

[६]

पञ्च सहासँइँ गेहहुँ भग्गँइँ ॥ १
णं सरवरें पइसरेंवि गइन्दें ॥ २
पाडिय पुर-पओलि णिग्गन्तें ॥ ३
लङ्कहें जीउ णाँइँ उडुन्तउ ॥ ४
चन्दहासु किर लेइँ दसाणु ॥ ५ 25

5 P S गुणवंतउ. 6 P S तो वि एत्तहे. 7 P विहंगमे, 8 विहंगमि. 8 P S दहसुहु. 9 P S वर
एचहि घर.

5. 1 A सुंदरे. 2 P S सचरियं. 3 P S उभि. 4 A ०छुंवेकं.

6. 1 P S भग्गाइ, A भग्गउं. 2 A कडवंदणु. 3 P A समीरणे.

[४] १ समस्ते (?).

[५] १ स-शेवरं.

मन्तिहिँ णवर कडँच्छएँ धरियउ
जइ णासइ सियालु विवराणणु
एव भणेवि णिवारिउ जावैहिँ

‘किं पहु-णित्ति देव वीसरियउ ॥ ६
तो किं तहों रूसइ पञ्चाणणु’ ॥ ७
जाणइ मणें परिओसिय तावैहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

४ जं घर-सिहरु दलेवि
सीयहें राहउ जेम

हणुवन्तु पडीवउ आइउ ।
परिओसें अङ्गें ण माइउ ॥ ९

[७]

जं जें पयट्टु समुहु किक्किन्धहों
‘होहि वच्छ जयवन्तु चिराउसु
१० लँच्छी-सइ-सणाहु जिह सरवर
तेण वि दूरत्थेण समिच्छिय
पुणु एकल-वीरु जग-केसरि
मिलिउ गम्पि णिय-खन्धावारएँ
तूरइँ हयइँ समुट्टिउ कलयलु
१५ णिगय अङ्गङ्गय सहुँ वप्पें
तेहिँ मिलेवि पइसँरिज्जन्तउ

पवरासीस दिण्ण कइचिन्धहों ॥ १
सूर-पयाव-हारि जिह पाउसु ॥ २
सिय-लक्खण-अमुक्कु जिह हलहरु’ ॥ ३
सिरु णामेवि आसीस पडिच्छिय ॥ ४
लहु आउच्छेवि लङ्कासुन्दरि ॥ ५
थिउ विमाणें घण्टा-टङ्कारएँ ॥ ६
तारावइ-पुरु पत्तु महावलु ॥ ७
अण्ण वि णिव णिय-णिय-माहप्पें ॥ ८
लक्खिउ लक्खण-रामेहिँ एन्तउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

हिण्डन्तेहिँ वण-वासें
सो पुण्णोदय-कालें

जो विहिँ-परिणामें णट्टउ ।
जसु णाँइँ पडीवउ दिट्टउ ॥ १०

[८]

२० तहों तइलोक-चक-मम्भीसहों
सिरु कंम-कंमल-णिसण्णु पदीसिउँ
वल्लेण समुट्टाविउ संइँ हत्थें
कण्ठउ कडउ मउडु कडिसुत्तउ
२५ अद्धासणें वइसारिउ पावणि
तं अहिणाणु समुज्जल-णामहों
मणि पेक्खेवि सब्बु पहरिसिउ
जो परिओसु तेथु संभूअउ

मारुइ चलणेंहिँ पडिउ हलीसहों ॥ १
णं णीलुप्पलु पङ्कय-मीसिउ ॥ २
कुसलासीस दिण्ण परमत्थें ॥ ३
सयलु समप्पेवि मणें पजलन्तउ ॥ ४
जो पेसिउ सीयएँ चूडामणि ॥ ५
दाहिण-करयलें घत्तिउ रामहों ॥ ६
उरें ण मन्तु रोमञ्जु पदरिसिउ ॥ ७
दुक्करु सीय-विवाहें वि हूयउ ॥ ८

4 A कडिच्छए. 5 P भावइ corrected as आइउ, S भावइ. 6 A पहरिसु.

7. 1 S लच्छीइ. 2 P °टणकारए, S °टणकारइ. 3 A पइसारिउ जंतउ. 4 A लक्खणु 5. P हिंडत्तहुँ, S हिंडत्तहो. 6 A °वासें. 7 A विहिँ परिणामे णट्टिउ. 8 P S A णाइ.

8. 1 A °कर. 2 P S °कमलि. 3 P पदरिसिउ. 4 P S A सह. 5 P S सो.

पभणइ राहवचन्दु
मारुइ अक्खि दवत्ति

॥ घत्ता ॥

‘महु अज्ज वि हियउ ण ‘णीवइ ।
किं मुइय कन्त किं जीवइ’ ॥ ९

[९]

जिण-चलणारविन्द-दल-सेवहों
‘जाणइ दिट्ठ देव जीवन्ती
जहिँ अवसरें गिसियरेंहिँ गिलिज्जइ
इह-लोयहों तुँहुँ सामि पियारउ
झायइ साहु जेम परमप्पउ
मइँ पुणु गम्पि णिएन्तहुँ तियसहुँ
अङ्कुत्थलउ णवेवि समप्पिउ
अणु वि देवँ एउ अहिणाणु

मारुइ कहइ वत्त वलदेवहों ॥ १
अणुदिणु तुम्हहँ णामु लयन्ती ॥ २
तहिँ तेहएँ वि कालें पडिवज्जइ ॥ ३
पर-लोयहों अरहन्तु भडारउ ॥ ४
उववासेहिँ ल्हसाँवइ अप्पउ ॥ ५
पाराविय बाँवीसहँ दिवसहुँ ॥ ६
तार्वहिँ महु चूडामणि अप्पिउ ॥ ७
जं किउ गुत्त-सुगुत्तहँ दाणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिवडिय घरें वसु-हार
अणु मिं तं अहिणाणु

णिसुणिउ अक्खाणु जडाइहें ।
कुँढें लग्गु देव जं भाँइहें ॥ ९

[१०]

तं णिसुणेंवि वलु हरिसिय-गत्तउ
एहएँ अवसरें णयणाणन्दें
‘एयहों केरउ वड्डुउ दह्हुसु
णरु णामेण अत्थि पवणञ्जउ
तासु दिण्ण मइँ अञ्जणसुन्दरि
वारह-वरिसह(हँ) एक्कएँ वारएँ
पवण-जणेरिएँ पुणु ईसाएँवि
मइँ वि ताहें पइसारु ण दिण्णउ
तं जि वइरु सुँमरेंवि हणुवन्तें
णयरें महारएँ किउ कडमहणु

‘कहें हणुवन्त केम तहिँ पत्तउ’ ॥ १
हसिउ णियासणें थिएँणं मैहिन्दें ॥ २
णिसुणें भडारा जं किउ साहसु ॥ ३
पहाययहों पुत्तु रणें दुज्जउ ॥ ४
गउ उक्खन्धें वरुणहों उप्परि ॥ ५
वासउ देवि मिलिउ खन्धारएँ ॥ ६
घल्लिय घरहों कलङ्कुउ लाएँवि ॥ ७
वणें पसविय तहिँ एँहु उप्पण्णउ ॥ ८
तउ आएसैं दूएँ जंतें ॥ ९
हउ मि धरिउ स-कलत्तु स-णन्दणु ॥ १०

9. 1 A °लोयहुँ. 2 P पइँ, S पइ. 3 P S किलामइ. 4 P S बावीसहि. 5 P S ताए वि.
6 P S एउ देव. 7 P °सुगुत्तहिँ, S °सुगुत्तहि. 8 P S इ. 9 P कुडे, S कुत्ति. 10 P S A भाइहो.

10. 1 A थियइ. 2 P S महिँदि, A माहिँदें. 3 P उक्खंधिँ, S उक्खंधें, A उक्खणडे. 4 P
°वरिसहो, S वरिसइ, A °वरिसह. 5 P A दिण्णउं. 6 P एहु तहि, S यहु तहि. 7 A उप्पण्णउं.
8 A णिसुणेवि. 9 A ससंदणु.

[८] १ न शीतलतामायाति.

भगइँ सुहड-सयाइँ
एयहों रण-चरियाइँ

- ५ तं णिसुणेवि ति-कण्ण-सहाएं
‘अप्पुणु जइ वि पुरन्दरु आवइ
वेण्णि महारिसि पडिमा-जोएं
अण्णेक्केत्तेहें अञ्जासण्णउ
ताम हुआसणेण संदीविउ
॥ धगधगधगधगन्त-धूमन्तएँ
तहिँ अवसरेँ हणुवन्तेँ छाँएँवि
सो दावाणँलु पसमिउ जावेँहिँ

- तहिँ कण्णाएँ समाणु
॥ अप्पुणु लङ्कहें संमुहु

- दहिमुह-वयणु सुणेवि गञ्जोल्लिउ
‘णिसुणे भडारा णहयलें जन्तेँ
पुणु वज्जाउहु णरवर-केसरि
२१ गरुव-सणेहें दिट्ठु विहीसणु
कडुवालाव-कालें अवणीयँहुँ
णन्दण-वणु मि भग्गु हउ अक्खउ
एण वि वन्धाविउ अप्पाणँउ
णवरि विरुद्धें कह वि ण घाइउ

10 P S दिसिहि. 11 A रणे चरियाइँ.

11. 1 P A तणउं, 2 P चरिउं. 3 P S पडिम'. 4 P S अण्णेकें तहें. 5 A अञ्जासण्णउं.
6 P S चउदिमु पुणु. 7 P S थाएँवि. 8 P S वइसाणरु. 9 P S तिहि कण्णेहिँ (S °हि).
10 P सम्मुहु, S तेण, A समुहु.

12. 1 P S पिहुवइ. 2 P S A °सणेहिँ. 3 P अविणीयहु, S अविणीयहो. 4 P S जुज्जांनु.
5 A अप्पाणउं. 6 P S उवसममि, A उवसमइँ. 7 P S दसाणणु. 8 P A राणउं. 9 P S णवर,
A नवरि. 10 S A आयउ.

[११] १ अत्यासजः. २ संप्राप्तः.

[१२] १ दधिमुञ्जल पृथुमति-मंत्री.

॥ घत्ता ॥

गय-जूहइँ दिसिँहिँ पणट्ठइँ ।
एत्तियइँ देव मइँ दिट्ठइँ ॥ ११

[११]

- पुणु पोमाइउ दहिमुह-राएं ॥ १
एयहों तणउ चरिउँ को पावइ ॥ २
अट्ठ दिवस थिय णियय-णिओएं ॥ ३
महु धीयउ इमाउ ति-कण्णउ ॥ ४
वणु चाउदिसुँ जालालीविउ ॥ ५
छुडु छुडु गुरुहुँ पासेँ दुक्कन्तएँ ॥ ६
माया-पाउसु गहें उप्पाएँवि ॥ ७
हउ मि तेत्थुँ संपाइउ तावेँहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मइँ तुम्हहुँ पासेँ विसज्जेवि ।
गउ सीहु जेम गलगज्जेवि' ॥ ९

[१२]

- ‘पिहुमइ हणुवहों मन्ति पवोल्लिउ ॥ १
पढमासाली हय हणुवन्तेँ ॥ २
कलहेंवि परिणिय लङ्कासुन्दरि ॥ ३
तेण समाणु करेँवि संभासणु ॥ ४
अन्तरें थिउ मन्दोअरि-सीयहुँ ॥ ५
इन्दइ किउ पहरन्तु विलक्खउ ॥ ६
किर उवसमइँ दसाणण-राणँउ ॥ ७
तहों घर-सिहरु दलेप्पिणु आइउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय चरियाइँ सुणेवि
अवरुण्डिउ हणुवन्तु

वँड-दुम-पारोह-विसालेँहिँ ।
राहवेंण स इं भु व-डालेँहि ॥ ९

*

[५६ छप्पणासमो संधि]

हणुवागमें दिवसयरुगमें
गज्जेवि दहवयणहोँ उरुपरि

दसरह-वंस-जंसुअभवेण ।
दिण्णु पयाणउ राहवेण ॥

[१]

हयाणन्द-भेरी दंडी दिण्ण सङ्गा
जयं गन्दणं गन्दिघोसं सुघोसं
वरङ्गं वरिङ्गं गहीरं पहाणं
सिवं सन्तियत्थं सुकलाण-धेयं
पसण्णज्जुणी दुन्दुही गन्दिसहं
विवाहपियं पत्थिवं णायरीयं
मङ्गल-तूरइँ णामेँहिँ एएँहिँ
डउँडउँ-डउँडउँ-डमरुअ-सहेँहिँ
धुम्मकु-धुम्मकु-धुम्मकु-तालेँहिँ
तक्किस-तक्किस-सरेँहिँ मणोज्जेँहिँ
गेगदु-गेगदु-गेगदु-धाएँहिँ

करप्फालियाणेय-तूराण लक्खा ॥ १
सुहं सुन्दरं सोहणं देवघोसं ॥ २
जणाणन्द-तूरं सिरीवद्धमाणं ॥ ३
महामङ्गलत्थं णरिन्दाहिसेयं ॥ ४
पवित्तं पसत्थं च भइँ सुभइँ ॥ ५
पयाणुत्तमं वद्धणं पुण्डरीयं ॥ ६
पुणु अण्णण्णइँ अण्णेँहिँ मेएँहिँ ॥ ७
तरडक-तरडक-तरडक-णहेँहिँ ॥ ८
रुं-रुं-रुं-रुञ्जन्त-वमालेँहिँ ॥ ९
दुँणिकिटि-दुणिकिटि-धरिमदि-वज्जेँहिँ
एँयाणेय-भेय-संघाएँहिँ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

तं^{१०} तूरहँ सह सुणेपिणु
सरि-सोत्तेँहिँ आवेँवि^{१८} आवेँवि

राहव-साहणु 'संमिलेँइ ।
सलिलु समुदहोँ जिह मिलइ ॥ १२

11 P णवपरोहपचंडिहि, S णवर परोहपचंडेहि. 12 P S दंडेहि.

1. P S समुदभवेण. 2 P S उपरे. 3 A पयाणउं. 4 A has धुवकं at the end of the stanza. 5 P S दाडिं. 6 P S जया. 7 P S बरीहं. 8 P S पहारं. 9 P S पसण्णाण्णी. 10 P णामहिँ, S णामहि, A णामिहिँ. 11 S धुम्मकु, A धुम्मकु. 12 P दुणिकिटि, S णिकिटि, A दुणिकिटि. 13 P S धरिमदि, A धरिमदि. 14 P गेगेगेदुगेगेगेदुगेथरिगिथएँहिँ, S गिगिदुगिगि-गिदुगिथरिगिथएँहि. 15 A. omits this pāda. 16 P. S. omit this word. 17 P संमेलइ, S संचलइ. 18 P S पिहिमिहि णाणेवि.

[१] १ एकीभवति.

[२]

सण्णद्धु केइद्धय-पवर-राउ
 सण्णद्धु हणुउ पहरिस-विसट्टु
 सण्णद्धु गवउ अण्णु विं गवक्खु
 १ सण्णद्धु विराहिउ सीहणाउ
 सण्णद्धु णीलु णलु परिमियद्धु
 सण्णद्धु सीहरहु रयणकेसि
 सण्णद्धु स-तणउ महिन्दराउ
 चन्दप्पहु चन्दमरीचि अण्णु

10

अण्णेक्कु वि सण्णज्झन्तउ
 लक्खिज्जइ लक्खणु कुद्धउ

अण्णेक्कु सुहउ सण्णद्धु के वि
 15 अण्णेक्कहो धण तम्बोलु देइ
 'मइं कन्ते समाणेवउ दलेहिं
 णरवर-संचूरियं-चुण्णएण
 अण्णेक्कहो जाइं सु-कन्त देइ
 'ण समिच्छमि हउं तुहुं लेहि भज्जे
 20 अण्णेक्कहो धण भूसणउ देइ
 'किं गन्धे किं चन्दण-रसेण

अण्णेक्कहो धण अप्पाहइ
 करि-कुम्भइं णाह दलेप्पिणु

सण्णद्धु अद्धु अद्धय-सहाउ ॥ १
 रावण-गन्दणवण-मइयवट्टु ॥ २
 जम्बुण्णउ दहिमुहुं दुण्णिगिरिक्खु ॥ ३
 सण्णद्धु कुन्दु कुमुएं सहाउ ॥ ४
 सण्णद्धु सुसेणुं ई रणे अभद्धु ॥ ५
 सण्णद्धु वालि-सुउ चन्दरासि ॥ ६
 भद्धु लच्छिभुत्ति पिहुमइ-सहाउ ॥ ७
 सण्णद्धु असेसु वि राम-सेणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उप्परि जय-सिरि-माणणहो ।
 णं खय-कालु दसाणणहो ॥ ९

[३]

णिय-कन्तहं आलिङ्गणउ देवि ॥ १
 अण्णेक्कु समप्पियउ वि ण लेइ ॥ २
 गयं-पण्णेहिं रहवर-पोप्फलेहिं ॥ ३
 रिउ-जय-सिरि-वहुअए दिण्णएण ॥ ४
 ओहुल्लइं फुल्लइं णरु ण लेइ ॥ ५
 एत्तिउ सिरु णिवडइ सामि-कज्जे ॥ ६
 अण्णेक्कु तं पि तिण-समु गणेइ ॥ ७
 मइं अद्धु पसाहेवउ जसेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हिम-ससि-सद्ध-समुज्जलइ ।
 आणेज्जहि मुत्ताफलइं' ॥ ९

2. 1 A मइयपट्टु. 2 P S इ. 3 A जंबुण्णउ. 4 P S दहिमुहु, A दहिमुहुं. 5 P S णल,
 A नल्ल. 6 P S सुसेण. 7 A. omits. 8 P A सतणउ. 9 P S मरीचि.

3. 1 P S कंतहु आलिङ्गण करेबि; A आलंगणउ देवि. 2 P S समप्पिउ पिउ ण. 3 P S
 इयं. 4 A संचुण्णियदुण्णएण. 5 A इंतउ. 6 P भूसणइं, S भूसणइ.

[२] १ सुप्रीवः

[३] १ सदलैः (?). २ वांछति आढवति वा.

[४]

अण्णेकैत्तहें वि सुहङ्कराई
घण्टा-टङ्कार-मणोहराई
ससि-सूरकन्त-कर-णिभराई
पवल्लय-माला-रङ्गोलिराई
मणि-पउमंराय-वण्णुज्जलाई
मुत्ताहल-माला-धवलियाई
धूवंत-धवल-धुअ-धयवडाई
सुग्गीवें रयणुज्जोवियाई

सज्जियई विमाणई सुन्दराई ॥ १
रुण्टन्त-मत्त-महुअर-सराई ॥ २
वहु-इन्दणील-किय-सेहराई ॥ ३
मरगय-रिञ्जोलि^१-पैसोहिराई ॥ ४
वेदुज्ज-वज्ज-पह-णिम्मलाई ॥ ५
किङ्किणि-घग्घर-सर-मुहलियाई ॥ ६
वज्जन्त-सङ्ख-सय-सँङ्खडाई ॥ ७
विहिं^४ विणिण विमाणई ढोइयाई ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वन्दिण-जण-जय-जयकारेण
सुर-परिमिय-पवर-विमाणोहें

लक्खण-रामारूढ किह ।
वेणिण वि इन्द-पडिन्द जिह ॥ ९

[५]

अणेक-पासें किय सारि-सज्ज
अलि-शङ्कारिय गय-घड पयट्ट
सिन्दूर-पक्क-पङ्किय-सरीर
उम्मेट्ट णिरङ्कुस जाइ थाइ
अण्णेक-पासें रह रहिय-थट्ट
स-तुरङ्ग स-सारहिं^१ स-कइचिन्ध
अणेक-पासें वल-दरिसणाई
आयड्ढिय-चाव-महासराई

सुविसाल-सुघण्टा-जुवल-गोज्ज ॥ १
विहलङ्खल णिभर-मय-विसट्ट ॥ २
सिक्कार-फार-गज्जण-गहीर ॥ ३
मल्हन्ति मणोहर वेस णाई ॥ ४
चूरन्त परोप्परु पहें पयट्ट ॥ ५
णाणाविह-वर-पहरण-समिद्ध ॥ ६
वज्जन्त-तूर-सर-भीसणाई ॥ ७
उग्गामिय-भामिय-असिवराई ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णेक-पासें हिंसन्तउ
सुकलत्तु जेव्व सुकुलीणउ

हयवर-साहणु णीसरइ ।
पय-संचारु ण वीसरइ ॥ ९

4. 1 P S अण्णेकै. 2 P S रिञ्जोलिण सोहिराई (S° ए). 3 P S पोमराय, ° A ° पउ-
राय. ° 4 P S A विहि. 5 P ° णरिंदजयकारेण, S णरेंदजयकारेण.

5. 1 A ° घंटा°. 2 P S A णाह. 3 P S सतुरंगमसारहिं°. 4 S ° णरवर°. 5 P S पहरणाई
(S° ह). 6 P जेव, S जेव. 7 A अकुलीणउ.

[४] १ आदोलिता [नि]. २ पक्तिभिः. ३ शोभितानि. ४ संघट्टानि. ५ रामलक्ष्मणौ.

[६]

अण्णेकेसहें अण्णेक वीर
एकेण वुत्तु 'सोसमि समुद्दु'
अण्णेकु भणइ 'हउँ धरमि सेणु'
अण्णेकु भणइ 'महु मेहणाउ'
अण्णेकु भणइ 'भो णिसुणि मित्त
अण्णेकु भणइ 'किं गज्जिएण
सयलु वि जाणिज्जइ त्तिहिं जि कालें
अण्णेकु वीरु णिय-मणें विसणु

॥

अण्णेकु सुहडु ओवगइ
'जं वूढउ मइँ सिरु खन्धेण

अण्णेक-पासें सुविसालियाउ
॥ पण्णात्ती वहुव-विरुविणी

सामुद्दी रुही केसवी
वम्भाणी रउरव-दारुणी
बन्दी सूरी वइसाणरी
॥ हरिणी' वाराहि तुरङ्गमी
पव्वइ मय्यरइय-रुविणी

सण्णन्दु असेसु वि साहणु
णं जम्बूदीउ पयट्टउ

गज्जन्ति समर-संघट्ट-धीर ॥ १
अण्णेकु भणइ 'महु णिसियरिन्दु' ॥ २
अण्णेकु भणइ 'महु कुम्भयणु' ॥ ३
अण्णेकु भणइ 'महु भड-णिहाउ' ॥ ४
हउँ वलहोँ स-हत्थेँ देमि कन्त' ॥ ५
अज्ज वि सज्जाम-विवज्जिएण ॥ ६
पर-वलें ओवडियेँ सामि-सालें' ॥ ७
'मइँ सामिहें अर्वसरें काइँ दिणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अगएँ थारेँवि हलहरहोँ ।
तं होसइ पहु अवसरहोँ' ॥ ९

[७]

विज्जउ विज्जाहर-पालियाउ ॥ १
वेयाली णहयल-गामिणी ॥ २
थम्भणियाकारिसणि मोहणी ॥ ३
भुवइन्दी खन्दी वासवी ॥ ४
णेरिस्ती वायव-वारुणी ॥ ५
मायङ्गि मयन्दी वाणरी ॥ ६
वल-सोसणि गरुड-विहङ्गमी ॥ ७
आसाल-विज्ज वहु-रुविणी ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रामहोँ सुग्गीवहोँ तणंउ ।
लङ्कादीवहोँ पाहुणंउ ॥ ९

6. 1 P S अण्णेक°. 2 P S गज्जंत. 3 P. omits these pādas. 4 P S तहि सि.
5 A परिवलि. 6 P अवसरु. 7 A अष्टाए. 8 P S खंधिं.

7. 1 P S अण्णेकु. 2 P बहुरुवणी वे वि corrected as वडरुवणीय वे वि, S वडरुवणी
वे वि. 3 P S वेयाली. 4 P S थंभणिया°. 5 A वेसवी. 6 P S °रुहाणी. 7 P S णेरुत्ती, A
नेरिस्ती. 8 P S वारुणवायवी. 9 P S हरणी वाराही. 10 P S पव्वय. 11 A महरुदी. 12 P S
आसाली विज्जु (S° ज्) विडरुविणी. 13 A तणउं. 14 A पाहुणउं.

[६] १ गज्जति. २ वाहितं धृतं वा.

[७] १ (P.'s reading) विडरुवणाकारिणी.

[८]

संचल्ले णिय-वंसुम्भवेण
गन्धोवउ चन्दणु सिद्ध-सेस
दप्पणउ सु-सङ्ग सु-सहसवत्तु
पण्डुरउ हत्थि पण्डुरउ भमरु
सवालङ्कार पवित्तं गारि
णिद्धमु जलणु अणुकुलु वाउ
सुणिमित्तं णिँएवि जसुण्णएण
'धण्णोऽसि देव तउ सहलु गमणु

दिट्ठुँ सु-णिमित्तं राहवेण ॥ १
जिण पुँएवि वाहु सुवेस वेस ॥ २
णिगन्ध-रुउ पण्डुरउ छत्तु ॥ ३
पण्डुरउ तुरउ पण्डुरउ चमरु ॥ ४
दहि-कुम्भ-विहत्थी वर-कुमारि ॥ ५
पियमेलावउ कुलुगुलइ काउ ॥ ६
वलएउ वुत्तु जम्बुण्णएण ॥ ७
आयइँ सु-णिमित्तं लहइ कवणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

विहसेप्पिणु बुद्धइ रामेण
जग-लग्गण-खम्भु भडारउ

सइँ सु-णिमित्तं जन्ताहुँ ।
जिणवरु हियएँ वहन्ताहुँ ॥ ९

[९]

संचल्ले राहव-साहणेण
चिन्धेण चिन्धु रहु रहवरेण
तुरएण तुरङ्गमु णरु णरेण
वलु रण-रहसद्धिउ णहेँ ण माइ
थोवन्तरे दिट्ठु महा-समुहु
मच्छोहरँ-णक्क-ग्गाहँ-घोरु
वेला-चह्वन्तु पदूहणन्तु
तहोँ उँवरि पयट्टउ राम-सेणु

संघट्टिउ वाहणु वाहणेण ॥ १
छत्तेण छत्तु गउ गयवरेण ॥ २
चलणेण चलणु करयलु करेण ॥ ३
संचल्लिउ देवागमणु णाँइँ ॥ ४
सुंसुअर-मयर-जलयर-रउहु ॥ ५
कल्लोलावन्तु तरङ्ग-थोरु ॥ ६
फेणुज्जल-तोय-तुसार देन्तु ॥ ७
णं मेह-जालु णहयल्लेँ णिसणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णरवइँहिँ विमाणारूढेँहिँ
सिद्धेँहिँ सिद्धालउ जँन्तेँहिँ

लद्धिउ लवण-समुहु किह ।
चउगइ-भव-संसारु जिह ॥ ९

8. 1 A दप्पणउ. 2 A सभासवत्तु. 3 A पिँडुरउ. 4 A पण्डुरउ. 5 A तुरउ. 6 A पवत्त नारि.
7 PS सुणिमित्त, A सुणिमित्तइ. 8 PS विहसेप्पिणु. 9 A राहवेण. 10 S स्त्तं. PS take
this with the previous pāda.

9. 1 P रहसिद्धिउ, A रसिययद्धिउ. 2 PS संचारिणु. 3 PSA हउ. 4 PS ग्गाहु.
5 A वन्तु. 6 PS वरुतठ. 7 PS सुहुहुहँतु. 8 PS उवरे. 9 PS रुढेहि, A रुढएहिँ. 10
A जंतएहिँ.

[१०]

थोवन्तरे तहो सायरहो मज्जे
 विजाहर सेउ-समुद्द वे वि
 'मरु तुम्हहँ कुइउ कयन्तु अज्जु
 १५ को पइसइ भीसणे जलण-जाले
 को सेस-फणा-मणि-रयणु लेइ
 पच्चारिय सयल वि अमरिसेण
 अहो कुमुअ कुन्द सुणि मेहणाय
 दहिमुह माहिन्द महिन्द-राय

बेलन्धर-पुरे तियसहँ असज्जे ॥ १
 थिय अगए दारुणु जुज्जु देवि ॥ २
 को सकइ सकहो हरेवि रज्जु ॥ ३
 को जीवइ दुक्कए पलय-काले ॥ ४
 को लक्कहँ अहिमुहु पउ वि देइ ॥ ५
 'अहो किक्किन्धाहिव अहो सुसेण ॥ ६
 गल गील विराहिय पवण-जाय ॥ ७
 अवर वि जे' णरवर के वि आय ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

लइ वलहो वलहो जइ सकहो
 कहिँ लक्का-उवरि पर्याणउ

'हेवाइय पोरक्कएहिँ ।
 सेउ-समुद्देहिँ थक्कएहिँ ॥ ९

[११]

एत्यन्तरे जयसिरि-लाहवेण
 15 'एए जे दणु दीसन्ति के वि
 तं वयणु सुणेवि पणमिय-सिरेण
 सुग्गीवे पभणिउ रामचन्दु
 दहवयणहो केरउ णामु लेवि
 आयहुँ पडिमल्लु ण को वि समरे
 20 तं णिसुणेवि रामहो हियउ भिण्णु
 पणिवाउ करेप्पिणु ते पयट्ट

सुग्गीउ पपुच्छिउ राहवेण ॥ १
 कसु केरा थिय पहरणइँ लेवि ॥ २
 पुणु पुणु थोसुग्गीरिय-गिरेण ॥ ३
 'एहु सेउ भडारा एहु समुहु ॥ ४
 पाइक्काचारें थक्क वे वि ॥ ५
 जइ दिन्ति जुज्जु गल-गील णवरे ॥ ६
 णिविसेण विहिँमि आएसु दिण्णु ॥ ७
 रोमञ्च-उच्च-कञ्चुअ-विसट्ट ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णलु धाइउ समुहु समुद्दहो
 गउ गयहो मइन्दु मइन्दहो

सेउहँ गीलु समावडिउ ।
 जिह 'ओरालेवि अग्भिडिउ ॥ ९

10. 1 P S तिभसहु, S तियसहु, A तिसहं. 2 P S जलणे. 3 P S णियय°, P marginally 'पलयकाले' पाटे. 4 P A अहिमुहुं, S अहिसु. 5 P S सुणि. 6 P णरवइ जे, S णरवर जे. 7 A पर्याणउं. 8 P S सेव°.

11. 1 A के. 2 P S णाउ. 3 P S विहि वि, A विहिँ मि. 4 P S रोवच° 5 P S कञ्चुइ° 6 P ओरालवि, S उरालवि, A ओरालिवि.

[१०] १ गर्व नीताः, शक्ति प्रापिताः. २ शत्रुजनैः.

[११] १ गलगर्जनं कृत्वा.

[१२]

ते भिडिय परोप्परु रणे रउह
विण्णणेहिं करणेहिं कररुहेहिं
पहरन्ति धन्ति विप्फुरिय-वयण
एत्थन्तरे रावण-किङ्करेण
धाइय गज्जन्ति पगुलुगुलन्ति
एत्तहे वि णलेण विरुद्धएण
आयामेवि महिहर-विज्ज मुक्क
तं माया-सायरु दरमलेवि

विज्जाहर वेण्णि वि णल-समुह ॥ १
अणणेहिं अंसेसेहिं आउहेहिं ॥ २
रत्तुप्पल-दल-संरिच्छ-णयण ॥ ३
मेळिय मयरहरी विज्ज तेण ॥ ४
वेला-कल्लोल्लोर्ल देन्ति ॥ ५
समरङ्गणे जयसिरि-लुद्धएण ॥ ६
जलु सयलु वि पडिपूरन्ति दुक्क ॥ ७
विज्जाहर-करणे उल्लेवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णलु उप्परि 'डीणु समुहहो' णीलु वि सेउहे' सिर-कमले ।
विहिं वेण्णि मि मण्ड घरेप्पिणु धल्लिय रामहो पय-जुअले ॥ ९

[१३]

सेउ-समुह वे वि जं आणिय
तेहि' मि' पवरं पसाहेवि कण्णउ
सच्चसिरी कमलच्छि विसाला
पञ्च वि कण्णउ देवि कुमारहो
एक्क रयणि गय कह वि विहाणउ
साहणु पत्तु सुवेलु महीहरु
धाइउ जिह गइन्दु ओरालेवि
भिडइ ण भिडइ रणङ्गणे जावेहिं

णल-णीलेहिं समाणु सम्माणिय ॥ १
तहो लक्खणहो स-हत्थे दिण्णउ ॥ २
अण्ण वि रयणचूल गुणमाला ॥ ३
थिय पाइक्क सीय-भत्तारहो ॥ ४
पुणु अरुणुगामे दिण्णु पयाणउ ॥ ५
तहि^{१०} मि सुवेलु णेवर विज्जाहरु ॥ ६
भीसणु करे धणुहरु अप्फालेवि ॥ ७
सेउ-संमुहेहिं वारिउ तावेहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'एएहिं समाणु जुज्झन्तहं जइ पर-अणवए जम्पणउ ।
पडु पापेहिं राहवचन्दहो मं मारावहि अप्पणउ ॥ ९

12. 1 P विसेसहिं, S विसेसहि. 2 P S 'संकास'. 3 A गज्जगुलुगुलन्ति. 4 P 'लोल्लु, S 'लोल्लु. 5 P S सेउहो सिरि कमले.

13. 1 P S सेय°. 2 P A तेहिं, S तेहि. 3 P S वि. 4 A परम. 5 A कण्णउ. 6 P S दिण्णउ. 7 P S अण्णु. 8 A विहाणउ. 9 A पयाणउ. 10 P S तहि वि, A तहिं मि. 11 P S णउ, A नवर. 12 P S सेयसमुहे. 13 P जुज्झन्तहो, S जुज्झन्तहु. 14 P S जे. 15 A जंणउ. 16 P अण्णणउ, A अप्पणउ.

[१२] १ उचित्वा.

वलेवहों पर्णमिउ ता सुवेळु
णिसि एक वसेवि संचळु सेणु
णं लीलएँ जिण-समसरणु जाइ
५ थोवन्तरु वळु चिकमइ जाम
आरामेहिं सीमेहिं सरवरेहिं
पायार-वार-गोउर-घरेहिं
कामिणि-मन्दिरोंहिं सुहावणेहिं
दीहिय-विहार-चेइय-हरेहिं

१०

धय-णिवहु पवण-पडिकूलउ
णं लक्खण-रामागमणेण

जं दिट्ट लक्क विजाहरेहिं
१५ हंसरहु रणङ्गणें णिज्जिणेवि
आवासिय भड पासेइयङ्ग
खच्चियइँ विमाणइँ वद्ध गोणं
णाणाविह-विजाहर-समुहु
सहुँ वम्मं रुहें केसवेण
२० तहिं सुहड के वि पभणन्ति एव
अण्णेक्कु भणइ 'भो भीरुं-चित्त

२५

अणेक्क के वि णिय-भवणेंहिं
आराहेवि अञ्जेवि पुज्जेवि

सुन्दर - कण्डं समत्तं ॥

[१४]

णं पढम-जिणहों सेयंस-धवलु ॥ १
णं पङ्कय-वणु 'धुवर्गाय-ऊणु ॥ २
पुणुरुत्तेहिं देवागमणु णाई ॥ ३
लक्खिज्जइ लक्काणयरि ताम ॥ ४
वहु-णन्दणवणेंहिं मणोहरेहिं ॥ ५
रह-तिक्क-चैउकेहिं चच्चरेहिं ॥ ६
चउहट्टेहिं टेण्टाहिं आवणेहिं ॥ ७
धुवन्तेहिं चिन्वेहिं दीहरेहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दूरत्येहिं विहावियउ ।
रामण-मणु डोलावियउ ॥ ९

[१५]

किउ हंसदीवे' आवासु तेहिं ॥ १
'णं थिय रिउ-सिरेँ असि णिक्खणेवि ॥ २
रह मेळिय उज्जोत्तिय तुरङ्ग ॥ ३
सण्णाह विमुक्कं स-कवय-तोण ॥ ४
णं हंसदीवेँ थिय हंस-जूहु ॥ ५
णं मुक्कु' पयाणउँ वासवेण ॥ ६
'जुज्जेवउ सुन्दरु अज्जु देव' ॥ ७
उत्तावलिहूअउ काई मित्त' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

समउ कलसेँहिं सुहु रमहिं ।
जिणु पणमन्ति स इं भु एँहिं ॥ ९

✽

14. 1 A पणमिउं. 2 P S तो. 3 P S परम°. 4 A जिणेंवहो. 5 P धुवर्गाय°, S धुवर्गाय°. 6 S P सीमेहिं (S°हिं). 7 P तिक्कहिं, S तिक्कहिं, A तिक्क°. 8 P टेडेहिं, S टिट्टिहिं. 9 P S चामरेहिं (S°हिं). 10 P S वि विहाविय (P. °अ°)उ.

15. 1 P S °दीउ. 2 P marginally, S णं थिय रिउसरवरे पहरवेवि. 3 P णिक्खणेवि. 4 P S वेण. 5 P S मुक्क सकवय सतोण. 6 P S वम्मं. 7 P S मुक्क. 8 A पयाणउं. 9 P S भीरु°. 10 P S सयं. 11 P समत्तं, S सम्मत्तं.

[१४] १ भ्रमरा गायनाश्व. २ गच्छति. ३ मार्गः. ४ त्रिमार्गः, ५ चतुर्मागः. ६ रास-स्थानं
७ हृदयोभाभिः. ८ अवलोकितः

[१५] १ तटे हृदयेभिः प्ररोहणश्व (?)

GLOSSARY

GLOSSARY.

Abbreviations. abs.—absolute. agent.—agentive. Bh.—*Bhavisattakaha*. caus.—causative. D.—*Deśināmamālā*. den.—denominative. dial.—dialectal. enl.—enla. ged. f.—feminine gender. fut.—future. gl.—gloss in Ms. P. G.—Gujarati. H.—Hindi. Ho.—Hemacandra's Prakrit Grammar. Hp.—*Harivamśapurāṇa* edited by L. Alsdorf. Hp. gl.—gloss in Hp. imper.—imperative. indef.—indefinite pronoun. inf.—infinitive of purpose. m.—masculine gender. M.—Marathi. Mp.—*Mahāpurāṇa* of Puṣpadanta. MW.—Monier William's Sanskrit-English Dictionary. n.—neuter gender. nom. prop.—nomen proprium. opt.—optative. part.—participle. pass.—passive. Pischel—*Grammatik*, pl.—plural. p. p.—preterite participle. pres.—present. pret.—preterite. PSM.—*Pāiasaddumahaṅgavo*. quali.—qualifying. s.—singular. s. v.—sub verbo. Sk.—Sanskrit. w. r. t.—with reference to. I.—Index of the First Volume of the *Paumacariu*. ?—doubtful in form or sense. [] phonetic equivalent or phonetically akin. ? ()—Sense-equivalent. °—Compounded. *—reconstructed. √—root.

Though *y* in Apabhraṃs'a is a glide and not a full consonant, and as such its place in the alphabetical order should be between vowels and consonants, following the general practice it has been considered here as identical with the consonant *y*. This is a departure from the order adopted in the first volume.

- अह्य 34 11 7, 36 2 8 आगत (cf. अइ °अद्विय (f.) 37 1 [आद्य enl.] पूर्ण, युक्त.
'come' PSM). अणिट्टिय 53 5 3 अ-नष्ट [cf. I णिट्टव].
अखेर्वे 21 5 5 [अक्षेमेन] कालक्षेपं विना, सीघ्रम्. अणुणन्त 30 7 2 अनुनयत्.
अनगलय 21 11 9 अधिक. अणुपच्छर् 26 1 4 पश्चात्.
अन्नामय 34 13 3 [अग्नि enl.] gl. सूप- अणुपच्छिम 33 14 3 अत्रा.
मुद्गादि. (cf. G. अगमाणुं). अणुभड 40 7 11 [अनुद्भट] अनुद्धत.
अङ्कुरथलय 45 15 14, 46 1, 49 9 10 अणुवाहन 23 3 3 [for अणुवाहन] अनु-
(D. 131 अङ्कुरथल; Persian *angush-* पानत्क.
taī) अङ्कुरीयक (cf. G. अङ्कुरी). अणुणुणु 37 14 9 अन्योऽन्यस्.
°अङ्कि 36 14 8 अङ्कि. अणुणुणुण 22 5 5 अन्यान्य.
°अङ्गणिय 32 8 2 [अर्चना enl.] पूजा. असावण 24 4 10 आतापन.
अङ्गन्तन्त° 26 18 8 ? gl. अत्यन्त-रक्त. अत्यक्षर् 32 14 9 immediately.
अङ्गदभुज 24 2 6 अत्यद्भुत (cf. G. अर्चभो). अत्यन्तय 25 20 3, 41 1 1, 49 15 2
अच्छन्त 26 2 4 म्रियमाण (see I). सूत (cf. I अच्छन्तय).
अच्छिड 29 7 7 स्थितम् i. e. स्थितिः. अद्धरत्ति° 26 4 10 अर्धरात्र (G. अधरात).
अजोप्वि (?) 49 19 9 ? अद्धोअद्धि 26 3 6, अद्धोअद्धि 43 6 2 अर्धार्धं
अङ्गिय 29 5 1 अर्चित. half to half. (cf. G. अरधोअरध;
अङ्गयणा 37 7 2 पुंश्वली, असती (D. 1 18). PSM अद्धेअद्ध).
अङ्गुड 51 13 2 crossways (with अन्तर-वष्ट 31 12 7 अन्तर-पट cross cur-
अङ्ग cf. G. आङ्ग 'across'). tain.
°अङ्गोहिय° (v. l. °उङ्गोहिय) 31 3 3 आवी- अन्दय 41 17 5 दर्पण ? (cf. अद्वाअ D. 1
रुन muddling (see I आरुह). 14, Telugu अद्दु).

- √ **अन्दोल** [आन्दोल] swing; pres. 3. s. अन्दोल् 26 7 8.
अन्धलय 34 2 6 (Hc. 2 173) अन्य (G. आंधलो).
अपूर 41 2 7 अपूर्ण (G. अपूरं).
 √ **अप्पाह**=सम्+दिश्. (Hc. 4 180)
 -pres. 3. s. अप्पाह् 56 3 9 gl. inco-
 rrectly वाञ्छति आहवति (=आरभते) वा;
 pret. part. अप्पाहि 49 5 10.
अप्याणु 23 5 2, 26 18 1 आत्मानम्.
अप्पुणु 22 3 9, 26 2 8 स्वयम्.
 √ **अप्फाल**=कथ् (cf. उप्फाल Hc. 4 2;
 उप्फाल Hc. 2 174; अप्फालिय I)
 -pres. 2. s. अप्फाल्हि 55 2 7; pres.
 3. s. अप्फाल् 29 8 7.
 °**अम्भह्य** 24 12 6 corrupt for अम्भहिय
 =अभ्यधिक ?
अम्भपिसाय 28 11 3 [अम्भपिशाच] राहु
 (D. 1 42).
अम्भहिय 26 5 5, 36 2 8 अभ्यधिक.
अत्तिभट्ट 46 5 1 encounter.
 °**अमयवाह** 25 13 8 [अमृतवाह] चन्द्र.
अमियतणु 27 10 6 [अमृततनु] चन्द्र.
अम्माहीरय 24 13 8 lullaby.
अयंगम 22 1 8 ?
अरहट्ट 31 6 8 अरघट्ट.
अह्वनिय 21 5 8, 21 13 3 दत्त. gl. समर्पित.
अवख (?) 42 1 2 चिन्ता (?).
 √ **अवठम्भ** 40 14 2 अव+लम्भ्
 -pres. 1. s. अवठम्भसि 40 14 2.
अवणीय 55 12 5 ?
अवयजिय 39 1 1, 47 4 1 दृष्ट (cf.
 अवयज्ज=दृक् Hc. 4 181).
अवल्लोय 30 7 9 [अवल्लोक] अवल्लोकन.
 √ **अवल्लोव** [अवल्लोक]
 -pres. 2. s. अवल्लोवहि 37 6 8.
अवसवण 35 4 5 अपशकुन ill-omened.
 √ **अवहेर**=अवधीर्
 -abs. अवहेरैर्वि 28 11 9
अवहेरि 42 6 1 अवधीरणा (see I).
अविअण्ह 34 5 8 [अ-वित्ण] gl. अत्त.
अविओल 49 13 7, 49 19 6 अ-खिच
 (see I).
असक 51 7 1 [अ-शङ्क] निर्भय ?
असगाह 21 10 6, 35 3 6 [असद्ग्राह]
 अतिनिर्बन्ध (FSM).
असण-वेल 25 11 6 अशन-वेला.
असणि 23 6 9 (f. ?) अशनि.
असराल 35 14 3, 42 5 5 बहुल (see I).
असीसा 28 12 3 आशिस.
अहिखित्त 31 10 1 अधिक्षित्त.
अहिवन्दण 26 1 6 अमिवन्दना.
अंहि 36 14 6 अंहि.
आह्वय 35 4 9 [आविद्ध] fasten (as
 an ornament)
आउद्ध 31 14 7 आयुध.
आउल्लिहुय 29 3 2 आकुलीभूत.
आऊरह 29 3 2 आपूर्यते.
 √ **आडोह** muddle
 -pres. 3. s. आडोह् 5 (v. l. आडोह्)
 26 7 1
आणत्ती 35 9 7 [आणत्ति] आज्ञा.
आण-वडिच्छय 24-11 3, 25 1 3, 26 2 9
 आज्ञा-पालक.
आणा-विहेय 22 9 7 आज्ञाविधेय.
आयल्लिय 27 3 7 gl. पीडित (cf. आयल्लिया
 restlessness, आबल्ल disease-PSM)
 √ **आरोक्क**=नि+रुक् stop, obstruct. (cf.
 G. रोकवुं)
 -pres. 3. s. आरोक्क 53 6 7.
आलण-सम्भ 25 15 10 आलानस्सम्भ.
 °**आलिद्ध** 22 8 2 gl. आलिक्षित्त.
आलीढय 26 9 9 ?
आवह 35 11 2 आपद्.
आवग्गी 21 8 1 completely one's
 own, gl. स्वाधीन, समस्त-कण्टक-रहित.
आवजिय 29 1 1 [आवजैत्त] दृष्ट.
 √ **आवह**=विलयं प्राप् disappear (PSM)
 -pres. 3. s. आवह् 29 9 9 विलीन, नष्ट;

- caus. pret. part. आवट्टिय 50 8
10 caused to disappear (cf. I
आवट्टिय 17 3 4 and pres. part.
enl. आवट्टन्त्य 17 3 4; the meaning
of आवट्ट there is to be revised).
आवाह 31 6 7 gl. इच्छुवाटी sugarcane
plantation.
√ आसङ्ग=आ+श्रि.
-pres. 1. s. आसङ्गमि 40 14 2.
°आसङ्ग 21 6 2 (f.) आशंसा (PSM).
आसाहय 44 9 4 आसादिन, प्राप्त.
आहयण 41 15 9 आहव (see I).
आहर-जाहर 52 9 9 गमनागमन ?
आहाणय 43 6 9, °44 12 1 [आभाणक]
illustrative anecdote.
आहिन्दोलन 41 1 4 प्रक्षोभक.
आहिन्दोलित 25 18 12 प्रक्षोभित.
आहुट्ट 40 18 10 अर्धचतुर्थ (cf. G. ऊँट,
ऊँठुं).
आहेड्य 27 3 1 आखेट (enl.) hunting.
इ 38 19 3 वि.
°इह 33 6 4 [इष्टा] इष्टका (G. ईट).
इहाल° 25 7 3, 26 1 5 इष्टकामय.
इन्द-दिस 24 14 9 [इन्द्र-दिशा] पूर्व-दिशा.
इन्दवह 38 14 8 इन्द्रमह (see I).
√ ईसाञ्ज=ईर्ष्य bear ill-will.
-abs. ईसाण्वि 55 10 7.
√ ईह wish;
-pres. 2. s. ईहहि.
√ उक्कण्ड (for उक्कण्ड ? cf. PSM उक्क-
डिअ=खण्डित) खण्ड् (?);
-pres. 3. s. उक्कण्डइ 37 14 9 (gl.
renders it as पतति which is not
satisfactory).
°उक्कोयण-मारय 41 10 3 [उक्कोपन-कार
enl.] उद्दीपक.
√ उक्कोव [उक्कोपय्] उद्दीपय्.
-pres. 3. s. उक्कोवइ 36 11 9 gl.
उत्पादयति.
√ उक्खण्ण attack (see below);
-abs. उक्खण्णैवि 25 19 7 (gl
incorrectly धृत्वा).
उक्खण्ण 30 1 5, 55 10 5 आक्रमण
attack (see also 10 9 6, 11 13
5; cf. उक्खन्द and ओक्खन्द=अवस्कन्द.
'siege' 'attack' PSM).
उक्खय 21 8 7 उदत्त.
उक्खल 24 12 5 उदत्तल attack
√ उग्गाम raise (G. उग्गामवुं);
-pres 3. s. उग्गामइ 25 14 8; pret
part. उग्गामिय 25 17 3.
°उग्गाविर 48 8 2 [उद्वमक] raising.
उग्गिण्ण 51 11 2 उद्विण्ण (see I उग्गीरिय).
उग्घवियय (v. l. अग्घवियय) 49 11 6 पूर्ण
(उग्घव He. 4 169, अग्घव He. 4
69=पूर्य).
उच्चलिय 24 11 1, 26 9 4, 30 1 उच्चलित
started, marched.
उच्चाइय 25 11 2 made to carry.
उच्चिट्ट 33 11 5 [उच्चिष्ट] stale.
उच्छ' 26 17 2 इच्छु.
उच्छाह 31 16 8 [उत्साह] sort of fest-
ive songs in the utsāha metre.
उज्जोत्तिय 56 15 3 [उज्जोत्तित] unhar-
nessed.
°उज्जोव 35 2 8 उज्जोव.
उज्जर 34 10 6 निर्जर (see I).
उह 25 10 8 उह्.
उह्द 21 5 9, 49 5 7, enl. उह्दय 25
20 7, 46 6 6, 54 10 9, 54 12 10
नियन्त्रित subdued, subjected. (see
उह्दय 7 11 9 and ओह्दय 17 17 4
where the meaning is to be
revised).
उहु (or उरुहु ? cf. उल्लुउंठिअ=प्रलुठित,
विरेचित) get pierced (?)
-pres. 2. s. उहुहि (उरुउहुहि ?) 38
8 7; pres. part. उहुन्त (उरुउहुन्तइं)
23 11 4.

- उष्णविज 28 3 6 (1) made to exh-
ale fumes? (2). उष्णीकृत.
- उष्णहालय 24 1, 24 4 10, 28 12 5
[उष्णकाल enl.] summer [G.
उनाळो].
- उत्तर-सर्विल 53 2 3 ?
- उत्तार 33 12 9 तरणोपाय.
- उत्तावलिख 36 15 2 त्वरणशीला (G. उतावळी).
- उत्तावलिहृतय 56 15 8 त्वरायुक्त in a
hurry.
- √ उत्थर= आ+कम् (see I)
-pres. 3. s. उत्थरइ 30 6 9; 3. pl.
उत्थरन्ति 43 15 7; inf. उत्थरहुँ 48 6
5; pret. part. उत्थरिय 29 4 1.
- °उत्थल 31 3 2 jump.
- °उत्थलिय 30 4 7 jumped.
- °उत्थनुर 26 19 4 having projecting
teeth.
- उद्धसिय 26 13 8, °34 10 3, 41 9 7
पुलकित (cf. उद्धसिय D. 1 115 and
उद्धोस=पुलकोद्गम; Hemacandra gi-
ves उद्धवित as the Sk. original;
Apte has उद्धृषण horripilation;
all probably go back to उद्+हृष्य्).
- °उत्थलिय 26 11 3, 30 4 6 (पङ्क)लित.
- उत्परन्ते (v. l. उत्परन्ति; उपरन्ते). 44 12
6 in the end? (cf. G. H. उपरान्त
moreover).
- °उत्पाड 33 7 3 [उत्पाट] उन्मूलन.
- √ उत्पाल fly (?)
-abs. उत्पालेवि 52 5 3.
- °उत्पील° 31 2 1 संघात (see I)
- √ उत्पेक्ष [उद्+प्रेक्ष] glance above
-pres. 1. s. उत्पेक्षामि. gl. ऊर्ध्व
पश्यामि.
- उत्सह 31 6 10, 40 2 3 उद्भट form-
idable
- °उत्सन्ती 29 5 7 उद्भ्रान्ता.
- उत्सन्ती 29 5 7 उद्यमाना.
- उत्सर्ग 21 7 8 उन्मार्ग.
- उन्मत्तिय 33 3 9 [उन्मार्ग+इमत्] विषय-
गमन.
- √ उन्मह [उन्मथ्=नाशय्] लय
-pres. 3. s. उन्महइ 34 8 8.
- उन्मायण° 27 3 6 [उन्मादन] one of
cupids arrows.
- उन्माहय 27 15 1, 31 1, 38 5 1
[उन्माथ enl.] विरहोत्कण्ठा (see I)
- उन्माहिजनतय 24 1 1 being made to
yearn in separation.
- उन्मिल्ल 32 6 9 (=उन्मीलित) उदित; f.
उन्मिल्लिय 49 7 10.
- उन्मूढय 44 4 3 [उद्+मूढ enl.] नष्टमोह.
- उन्मेष्ट 25 14 7, 39 10 7, 43 1 9,
56 5 4 enl. उन्मेष्टय 49 5 9 [उद्+
मेष्ट] हस्तीपक-रहित.
- उन्वर-भवणु (v. l. यत् वर-भवणु, उवर-भवणु)
36 11 6 ?
- उरगमण 21 6 9, 27 10 6 उरग.
- √ उल्ल 56 12 8 उन्+प्लु (G. उल्लवुं).
-abs. उल्लेवि 56 12 3.
- °उल्लो 26 8 2, 31 3 5 heaving, un-
dulating; 24 2 5 कोलाहल.
- √ उल्हाव extinguish (G. ओलवुं,
होलवुं);
-pres. 3. s. उल्हावइ 24 1 6.
- उवयासिय 35 2 6 आलिङ्गित? (cf. अवया-
सिय=आलिङ्गित PSM).
- °उववस 30 10 9 उपवास.
- उवसोह° 25 5 3 [उपशोभा] adorn-
ment ?
- उवहाणय 24 1 10 उपधान enl. 'pillow',
gl. गन्दुकम् (?).
- √ उव्वड=उत्+पत्.
-pres. 3. s. उव्वडइ 29 9 5.
- °उव्वरियय 40 3 10 अवधिष्ट (see I
उव्वरिय).
- उव्वीरण° 47 4 5 विदारण, चूर्णन.
- °उव्वुण 40 17 7 उत्वन (D. 1 123);
gl. टप्पर (कर्ण).

- उम्पेक्खिय (v. L. उम्पेक्खिय) 26 2 4
उपेक्षित.
- उम्पेढाविय 21 7 4 उद्वेष्टित freed from
siege.
- √ उम्पेह्व=वृत् dance, move quickly
as in a dance.
-pres. 3. s. उम्पेह्वइ 34 3 8, 42 10
7, 30 6 6; pret. part. उम्पेह्विय
46 1 4; pass. pr.s. 3. s. उम्पेह्विज्जइ
24 1 2.
- उहु 26 12 6, 29 3 6, 32 2 4, 32 5
3, 4 yonder, that one. cf. ओहु
(H. वह).
- उणय 45 10 10 [ऊन enl.] gl. उत्सुक,
निःसाधार.
- उरुव° 55 1 15 उरु enl.
- एकल-वीर 55 7 5 unaided hero (अ.
एकल वीर).
- एकरोवर 33 1 3 [एकोदर] सहोदर.
- एज 37 13 3 एहि come.
- एत्त 30 5 2 इयत्.
- एत्तड 27 10 3, fem enl. एत्तडिय
30 8 7 इयत्.
- एवहु 34 3 9 एतावत् (see I).
- एवं 35 6 4 एवम्.
- √ ओअर=अव+त्.
-abs. ओअरेवि 33 1 6.
- ओए 38 7 8 एते those
- ओकार 24 1 3.
- ओज्जर 31 3 7 निर्जर (see उज्जर)
- ओहुद्वय 46 11 10 नियन्त्रित (see उद्वय).
- ओणह्वय 29 5 5 अवनत्, gl. पतित (Mp.
अघःपातित).
- ओमालिय 25 7 6, 28 6 4, [उपमालित]
विभूषित, शोभित; enl. ओमालियय 36 3 4
- ओमुच्छियय 27 3 7 उन्मूर्छित enl.
- ओरसिय° 27 4 6 उग्रसित.
- √ ओराल=गर्ज
-abs. ओरालेवि 38 9 5, 56 11 9,
56 13 7.
- ओरालि° 34 10 8, 37 14 5, 40 17 5
rumbling roar (cf. D 1 154
ओराली=दीर्घमधुरध्वनि and ओराली PMS)
- ओलग 25 3 10 सेवा.
- ओवइय 24 12 6 अवपतित ?
- √ ओवइ [from अप+वक्] turn away
face in di-like;
-imp. 2. s. ओवइहि.
- √ ओवड [अव+पत्] fall upon;
-pres. 3. s. ओवडइ 53 1 7; gl.
renders vaguely as आगच्छति; pret.
part. ओवडिय 23 11 5 gl. निपतित.
- √ ओहट्ट [अप+घट्ट] push back;
-pres 1. s. ओहट्टमि 49 2 6.
- ओहट्ट 42 11 8 diminished (cf.
ओहट्ट ह्. 4 419; G ओट ebb).
- ओहर° 23 13 9 जलचर-विशेष.
- ओहावण° 37 8 5 [अवभावना] परिभव.
- ओहु 40 18 1 that one cf. उहु
(H. वह).
- ओहुलिय 26 12 1, 31 1 9 म्लान (see I)
- कइकेय 48 13 6 [कपिकेत] कपिध्वज.
- कइइ° 46 9 1 [for कइइय ?] कपिध्वज ?
- कइवार 35 8 9 स्तुतिपाठ panegyric; gl.
wrongly guesses the meaning as
कृतादर (Old G. कइवार).
- ककड° 35 1 53, 37 15 4, (corrupt
for ककखड ?) कर्कश (qual. केश).
- ककडय 26 14 5 कर्कटक the sign
cancer.
- ककर 24 3 9 कर्कर (H. कंकड, G. कांकरो).
- क-का 27 15 5 the syllables क and का.
- कङ्काल 27 4 9, 44 15 6 gl. वर्षाकाल.
- कचोर° 50 11 9 dried and fried pi-
ckles (cf. Bh. कचरा, G. काचरी).
- कण 22 10 8 काच.
- कणोल 25 11 3 bowl.

°कहु° 26 11 6 कसुक.
 °कडसय 45 12 14 क्षीणत्व ? (कड=क्षीण D. 2 51).
 °कडमरण 36 5 3, 40 7 4, 41 1 6, 46 9 2, 48 8 9, 55 6 2 विनाश, विध्वंस; 37 13 1 विनाशक.
 °कडयडन्त 51 1 6 (ono.) cracking (G. कडकडतुं).
 कडिलय 46 5 6 कटिवज (D. 2 52).
 कडुभाविय 25 15 7, 25 17 10, 29 9 7 प्रहत, पीडित, पराभूत (quali. 'forces'; see I).
 √ कडकडकड (intensive of कड=कथ) boil intensely.
 -pres. 3. pl. कडकडकडन्ति 27 5 6.
 कड्ढाकड्ढि 52 9 5 [कर्षार्कषि] fight involving mutual tugging and pulling.
 कणिक (f.) 45 12 4 dough. (cf. कणिका, कणिका D. 1 37; G. कणक, घणक).
 कण्डाकण्डि 52 9 3 [काण्डाकाण्डि] a fight employing arrows.
 कण्णारय 43 6 11 [from कर्ण+आर] goad or goader.
 कण्णारियय 27 10 1 (enl.) goaded.
 कण्णावत्तल 26 11 7 कर्णावर्तवत्.
 कडिड 29 2 6 when? gl. कस्मिन् दिवसे (cf. G. कडी some day).
 कडिवसु 45 7 10 some day.
 कन्दिदवसु 47 3 5 some day.
 कप्पइ 26 8 5 is cut.
 °कप्परिय 39 6 9, 39 7 7 दारित (D. 2 20); gl. विदारित, once विध्वंस्यते; 40 2 10 कृत.
 °कप्पिय 39 7 5 कृत (see I कप्प).
 कप्पुरिस 39 4 8 कापुरुष.
 कयार 54 11 1 तृणाशुत्कर refuse (D. 2 11).
 करन्विय 26 6 7 [करन्वित] मिथित.
 ककवाव 27 15 6, 36 1 6 [कलाप] gl. मयूर.

कलियारय 21 1 8, 21 10 1 [कलिकारक] कलह-कारक.
 कलूरिय 45 12 4 (f.) कान्दविकी, gl. अन्न-पाक-स्त्री (cf. कुलूरिअ=कान्दविक D. 2 41).
 कल्लोलावन्त 56 8 6 कल्लोत्वत्.
 कसण 26 1°, °27 8 2 कृष्ण black.
 कहकह° 28 12 1 (ono.) sound of laughter.
 कहकहन्ति 32 9 8 (ono.) laughing noisily.
 कं 53 9 5 जलम्.
 कं दिवसु 22 3 4, 38 19 3, 40 14 5 some day.
 कंसाल 24 2 3, 29 11 7 [कांसाल] वायविशेष.
 काइं 34 1 1, 2, 4, 5, 6, 7 किम्.
 काणीण 34 2 7 [कानीन] कुमारी पुत्र.
 कामिह 41 10 5 (f.) कामेच्छा(?)
 °कायम्भरि 38 11 4 [कादम्बरी] मदिरा.
 कायर 32 2 7 कातर (G. कायर).
 कारावियय 30 11 7 (enl.) कारित.
 काविट्टि 45 4 9 gl. वामचूर्ण.
 कि (ण) 32 14 3, 4, 5, 6, 8, 36 9 4 कि (न).
 किडिकिडिजन्त° 47 5 1 (ono.) emitting rattling sound (as of dry bones) (cf. किडिकिडिया PSM.)
 किण 28 12 5 किम् (cf. किण Hc. 3 69)
 किण्ण 28 8 1 कि न.
 √ किलकिल (ono.) scream with joy, chuckle कलरवं कृ (cf. G. किल-किलार shout of joy)
 -pres. 3 pl. किलकिलन्ति 32 3 9, 32 9 8; pres. part. किलकिलन्ति 29 5 9; pret. part. किलकिलिय 33 13 9.
 °किलिबिण्डि° 23 11 5, 46 4 3, °किलि-विण्डिय 40 7 5 ?
 °किसलय 27 15 5 शिशु ?
 कीसा 28 12 3 कीदशम्.

- कुडीरय 22 6 4 [कुटीरक] gl. तृणग्रह.
 कुतुक-वयण 25 10 7 ?
 कुण्ट 34 2 6 hunch-back (cf. a. कौटियो).
 कु-मारि 31 5 7 [कु-मारी] gl. पृथिव्यां मृत्यु.
 कुम्मुणय 26 10 3 gl. कूर्मोन्नत.
 कुरुड 25 18 7, 26 18 8, 27 13 8, 38 17 10, 40 2 3, 47 5 9. कूर (D. 2 63). (cf. a. कुरुडं harsh).
 कुलय 23 1 6 कुलक.
 √कुलुगुल (on.) caw (cf. a. कळकळवुं).
 -pres. 3. s. कुलुगुलइ 56 8 6.
 कुसुमाल 25 3 2 चोर.
 √कुह=कुथ् rot (a. कोहवुं)
 -pres. 3. pl. कुहन्ति 33 7 9.
 कुहिणि 38 10 5, 38 12 8 मार्ग (see I).
 कुहेडय 54 11 4 ? (The meanings चमत्कार उपजानेवाला मन्त्र-तन्त्रादि ज्ञान or वक्रोक्तिविशेष, आभाणक given in PSM., though inapplicable here, vaguely point the direction).
 °कूर° 25 11 7 ओदन.
 कूवार 23 4 11, 37 3 9, 37 4 1, 38 13 2, 42 3 7, enl. कूवारय 40 18 3 urgent call for help in extreme distress.
 केहय 53 9 7 केका, gl. शब्दित.
 केसडय 21 1 कियत.
 केसिय 21 11 9 कियत.
 केसाकेसि 52 9 4 केशाकेशि.
 कोट्टवाल 51 12 7 नगररक्षक (a. कोटवाळ).
 कोडु 36 11 7 (corrupt for कोडु ?)
 कौतुकम्.
 कोडुवाणय 36 1, (f.) कोडुवाणिय 29 5 9 कौतुकोत्पादक (see I).
 कोमाणय 25 19 9, 40 14 10 म्लान (cf. कुम्भण D. 2 40).
 कोवणड° 29 1, 32 2 11 कोदण्ड.
 कौं वि 25 15 7, 44 14 2 कोडपि.
 °क्रिय 46 6 2 कृत.
 √खञ्ज hesitate (cf. a. खंचावुं)
 -imper. 2. s. खञ्जि.
 √खज (passive of √खा) be eaten
 -fut. 1. pl. खजेसहुँ 32 6 6.
 खट्ट 39 6 6 खट्टा.
 °खट्टावण 50 11 11 sort of curry of sour taste (cf. खट्ट=तीमन D. 2 67; a. खाट्टं, H खट्टा sour).
 खडक° °31 3 6°, 43 17 6 rock; gl. पर्वत (a. खडक).
 खडइड 23 1 7 छन्दोविशेष.
 °खणखणाकार° 46 4 3 (ono.) rattling (of swords).
 °खण्ड-पयार 25 11 3 (खण्ड-प्रकार) मिष्टान्न-भेद.
 खण्डय 52 1 6 खण्ड enl. (a. खांडुं).
 खण्डसोळ° 50 11 2 sort of sweet prepared with sugar (सोळ=पक्क) cf. गुडसोळ.
 खड 34 8 2 खादित (see I खडय).
 खन्धय 23 1 6 [रक्न्धक] छन्दोविशेष.
 खलखलखलन्ति 31 3 6 gurgling (cf. a. खळखळती).
 √खव (क्षप्य्) destroy (karmas)
 -pres. 3. pl. खवन्ति 30 10 9.
 खाइय° 23 9 9, 28 5 3 [खातिका; D. 2 73] परिखा (a. खाई).
 खिलिहिलन्त 40 16 5 (ono.) neighing.
 खीलिय 25 17 8 कीलित pinned down.
 खुजय° 26 4 8 कुज enl.
 √खुण्ट=त्रोटय (cf. खुट्ट Hc. 4 116)
 -abs. खुण्टेवि 40 9 11
 √खुड=त्रोटय [Hc. 4 116]
 -abs. खुडेवि 40 10 5;
 -pres. part. खुडन्त 41 7 6; pret. part. खुडिय 36 4 8; agentive °खुड 44 13 9 विनाशक.
 खुत्त 33 11 7 निमम (see I).

- खुप्पन्त 23 6 7, 25 4 4, °40 16 7°, enl
 खुप्पन्तय 30 8 9, fem. खुप्पन्ती 23 6 7
 मज्जत् (see I खुप्प).
 खेड 31 16 7 (काल)क्षेपः
 खेड्ड 30 4 1 खेल, क्रीडा.
 °खेरि 40 16 3 शोभ uneasiness, anxiety (see I).
 गङ्गाहिसेय 43 9 6 [गङ्गाभिषेक] शङ्कर.
 गङ्गोद्धिय° 26 1 1 पुलकित.
 °गणियारि° 26 13 8 करिणी.
 गण्ण 27 2 9, 42 7 8. (m.) गणना.
 गन्तय 29 11 9 (enl.) गायत्.
 गन्धव 25 18 8, 27 1 6, 53 3 8 गन्धर्व.
 गन्धोवय 22 1 2, 22 2 6 गन्धोदक.
 °गदिभण 25 2 4 गर्भवत्.
 गन्धिणु 27 14 9 गत्वा.
 गयासणि 25 14 8, 43 16 1 [गदाशानि]
 f. गदा (cf. वजासणि, सरासणि).
 गह्वत्तणय 34 4 9 (enl.) गुरुत्.
 गरुवय 55 1 गुरुक enl.
 °गल्° 29 2 9?
 ✓गलगज्ज [गल+गर्ज] grunt;
 -abs. गलगज्जे 25 12 9; pres. part.
 rt. गलगज्जन्त.
 °गलत्थ 51 5 2 क्षेपक, विनाशक.
 गलत्थण 48 7 7 क्षेपण (गलत्थिअ=क्षिप्त D.
 2 87).
 गलत्थल्लण 41 1 5 क्षेपण (cf. गलत्थलिअ=
 क्षिप्त D. 2 87).
 गलिण्णय 44 1 9 कण्ठाभरणविशेष ?
 गह-कल्लोल 27 10 6 [ग्रह-वैरिन्] राहु
 (see I).
 गहवइ 25 1 2 [गृहपति] गृहस्थ, gl. कुटुम्बिन.
 गहिर° 27 4 6 गभीर.
 °गायण 30 3 4, 30 5 2 [गायन] गायक.
 गायन्ती 23 6 4 गायत्री, gl. गावित्री (cf.
 G. गवतरी cow).
 °गुड° 40 6 10 कवचविशेष (PSM).
 °गुडसोल्ल 50 11 12 (गुड+सोल्ल=पक्) sort
 of sweet prepared with *gul*
 (molasses). cf. खण्डसोल्ल.
 °गुप्पन्त° 46 4 3, f. °गुप्पन्ती 23 6 7
 व्याकुल (D. 2 102).
 गुसुगुसुगुमन्त 40 16 6, 51 1 5 (ono.)
 humming.
 गुलगुलन्त 26 13 1, 37 14 4 (ono.)
 grunting (elephants).
 गुलियारय 50 11 14 मधुरतर (comp.
 enl. of गुलिय from गुल=गुड; cf. G.
 गल्लुं sweet).
 ✓गुलुगुल (onom.) grunt.
 -pres. 3. pl. गुलुगुलन्ति 32 3 7.
 गुहिल° 27 14 9 गहन.
 गेग्गदु° (v. l. गेगेगेदु, गिगिगुगि) 56 1 11
 (ono.) sort of rhythmic sound
 (of beating drums).
 °गेज्ज 56 5 1, °गेजा° 26 13 3 प्रैवेयक
 (cf. गेज्जल D. 2 94).
 °गेण्हण° 25 17 3 ग्रहण.
 गो° 26 10 10 नेत्र.
 गोण 56 15 4 गो.
 गोन्दल 24 2 2, 24 2 6, 40 17 3
 hubbub and confusion; 40 7 3
 confused mass; 26 5 8 gl. सुरत-
 व्यापारसंग्राम.
 गोपय 49 2 4 गोप्यद.
 °गोल° 27 14 5 f. गो (गोला D. 2 104).
 °गोव 34 11 2 गो enl.
 गोसीर° 34 12 9 [गोशिरस्; or corrupt
 for गोसीस=गोशीर्ष] चन्दनविशेष.
 गोइ 29 5 8 जार (PSM).
 घई 28 8 4, 31 5 9, 34 4 5, 34 5 3,
 6, 8, 9, 34 7 4, 34 8 8, 35 6 2,
 38 9 7, 52 3 10; 54 5 3 exple-
 tive particle; gl. once 'शीघ्रवाची'
 इति देशीनाममालायाम्; elsewhere साप्र-
 तम्.

- घग्घर° 46 1 3 क्षुद्रघण्टिका (see I).
 घङ्गल 45 7 8 ? कलह and मोह recorded
 in PSM. are inapplicable. Some
 meaning like 'desert' 'parched
 land' may suit.
 घणाघणि 52 9 4 घनयुद्ध a fight using
 large hammers.
 घरवार 24 12 8 [गृहद्वार] household,
 property (G. घरवार).
 घरसउ 22 11 3 गृहाश्रमम्.
 घवघववन्ति 31 3 5 roaring (river
 stream).
 घवघवन्त° 46 1 3 tinkling.
 °घारणिय 21 8 9 inducing toxic
 coma.
 घिणि° 32 6 3, 39 7 6, 54 11 3 (at
 all the three places compoun-
 ded with °विट्टल) ?
 घिणिहिणन्त 39 6 9 (onom.) humm-
 ing.
 °घिप्पन्त 37 3 4 (corrupt for थिपन्त ?)
 विगल् (cf. थिप्प=वि+गल् Hc. 4 175)
 °घियउर 50 11 6 [घृतपूर] मिष्टान्न-विशेष
 (G. घेवर).
 √ घिव=क्षिप् ;
 -pres. 3. s. घिवइ 27 14 3.
 √ घुम्म=घूर्ण ;
 -pres. 3. s. घुम्मइ 26 7 5.
 घुम्मइय 21 9 2 घूर्णित.
 °घुम्मन्त° 24 2 2 (onom.) emitting
 the *ghum* sound (cf. घुमघुमय PSM).
 √ घुरूघुर (onom.) grunt (w. r. t.
 pigs) (cf. G. घुरकलु)
 -pres. 3. pl. घुरूघुरन्ति 32 3 8.
 °घुरूघुरूरन्ति 31 3 3 (onom.) repea-
 tedly emitting *ghurughuru*
 sound; roaring.
 √ घुल=घूर्ण ;
 -pres. 3. s. घुलइ 26 7 6; abs.
 घुलेपिणु 38 17 7.
 स० प० च० ३८
 √ घुसल=मथ (Hc. 4 121);
 -pres. 3. s. घुसलइ 37 1 4.
 √ घोट्ट=पा drink (Hc. 4 10);
 -pres. 1. s. घोट्टमि 38 6 3; pret.
 part. घोट्टिय 49 4 6.
 °घोट्ट 46 10 9 drinker.
 घोट्ट 38 6 3 gulp (cf. घुण्ट Hc. 4
 423; G. घूट, घूटडो).
 घोण-वङ्किय 46 5 7 वक्रितघोण with the
 nose turned away.
 °घोणल 32 5 10 [गोनल] सर्पविशेष.
 घोल 24 2 5 घूर्णन.
 चइतालय 24 6 1 चैत्यालय.
 °चउक्य 28 6 6 (1) चतुष्क square,
 (2) sort of decoration (G. चोक);
 चउप्फलिय 39 8 7 [चतुष्फलिक] having
 four parts or slices ?
 चउरङ्ग 38 1 10 chess.
 चउरइ 24 14 9 अर्धचतुर्थ.
 °चकल 26 10 7 [चकल] rounded.
 चकलय 23 1 6 चकलक.
 °चकहय 24 1 3 from [चकाहय ?] gl.
 चकत्राक.
 चकार 34 3 7 ?
 चक्षर 56 14 6 [चत्वर] gl. रास-स्थान.
 चक्षरि 28 6 7, 38 11 4 चर्चरी.
 °चञ्जरिय 40 16 6, 51 4 4 चञ्जरीक.
 °चच्चिक 51 4 3 विलेपन.
 °चच्चिकिय 40 2 7 विलिप्त.
 °चच्चिकिय 34 10 4 विभूषित (cf. चच्चिक=
 विभूषित D. 3 4).
 चडक 43 15 9, 43 17 8 विद्युत् (cf. Hc.
 4 406)
 °चडुण° 51 9 5 मर्दन.
 चडिय 26 11 4 °चडियय 43 11 2 आरूढ.
 °चडिय 37 9 5, 53 8 5 पिष्ट, मृदित
 (Hc. 4 126, 185).
 चन्द° 38 14 5 (?).
 चन्दिणय 33 11 6 चन्द्रिका.
 √ चप्प press, crush (cf. चम्प);

- pres. 1. s. चप्पमि 29 4 3, चप्पइ 21 3 6; abs. चप्पेवि 49 10 10;
-agent. °चप्प 31 15 3 विनाशक.
चप्पणय 21 1 10 crushing.
✓ चप्प crush (cf. चप्प; g. चांपवुँ press, shampoo).
-abs. चप्पेवि 30 8 4.
चयारि 21 4 8 चत्वार.
°चरण 37 4 3 भक्षण.
चलवल्लय 40 16 5 चञ्चल (cf. चलवल्लण=चञ्चलता PSM; g. चळवळ f. agitation)
°चलिय 55 5 2 (for वलिय? g. वळी) rafter?
चाडरिसु 29 8 9 चातुर्दिशम्.
°चाडल 24 12 6 तण्डुल (g. H. चावल).
चामियर 26 16 4 चामीकर.
चामीयर 26 15 1 चामीकर.
चाल 59 5 6 forty?
चाहिय 46 8 6 दृष्ट.
✓ चिकम=चंकम् walk, move about
-pres. 3. s. चिकमइ 56 14 4 (gl. गच्छति); pres. part. f. चिकमन्ति 29 4 8.
चिञ्चइय 32 3 13 अलङ्कृत (चिचअ=मण्डय HC. 4 115).
चिन्तावण्ण 23 3 1 चिन्तापत्र
चिरिडिहिल्ल 34 11 3, 'चिरिडिहिल्ल 37 1 4 दधि (चिरिडिहिल्ल D. 3 14; छीहिडिभिल्ल D. 3 30).
चिलिडिवल 54 11 1; अशुचि-लिप्त?
(cf. चिलिचिल्ल=आर्द्र D. 3 12) enl. चिलिडिवल्लय 39 6 2.
चिलिसावण 39 7 9, 55 1 6, enl. चिलिसावणय 39 7 2, 54 4 7 जुगुप्सोत्पादक?
°जुमुजुमुजुमन्त 40 16 6 humming.
जुम्मल 46 4 6, °51 1 3° शेखर, अवतंस (see I जुम्मल).
जूढि 49 13 6?
✓ जेय=ज्ञा.
-pres. 3. D. जेयइ 26 8 8.
- चेयारि 51 9 8 four.
चोक्ख 26 15 9 चोक्ष.
चोज 23 8 5 आश्चर्य.
°छइ 41 5 9 (=अच्छइ) is.
°छइय 40 16 7 समूह.
छत्तरिय 56 2 4? gl. विस्तारित, अन्तरित.
छप्पणय 30 4 5 विदग्ध; gl. छल्ल (D. 3 24).
छाण 44 11 9 शकृत् (g. छाण).
छाया पेक्खणय 52 8 10 [छाया-पेक्षणक] छायानाटक, gl. इन्द्रजाल.
छार 35 11 5 [छार] ashes.
°छारय 32 3 5 ऋक्ष bear; gl. wrongly रक्षा or छायारक्त (D. 3 26).
छाहि 26 13 7 छाया.
°छित्तय 26 4 2 (enl.) स्पृष्ट.
छिन्दाछिन्दि 52 9 5 a fight involving on both sides piercing with weapons.
छुड 21 6 4, 40 15 10 यदि; 24 12 4, 25 2 11, 33 1 9, 44 4 9, 44 13 9 शीघ्रम्.
छुड छुड 24 8 5, 26 7 2, 27 13 4 49 10 2-4 क्रमेण; 31 1 1-4? छुड जें छुड जें 36 2 2 क्रमेण; छुड.....छुड 35 2 7?
छुछुच्चुल्लय 45 10 10 अधीर; gl. शीघ्र.
°छुह 33 6 4 सुधा.
छुहाल्लय 28 6 7 (1) सुधावत्, (2) क्षुधावत्.
छुह 32 12 9 क्षिप्त.
°छेय 26 17 3 पर्यन्त, एकदेश (D. 3 38).
°छोह 25 3 9, 48 5 3 [क्षोम] आघात; loosing throw (in gambling)?
जइउ 40 4 7 यदा.
जउ जउ 25 16 10 यत्र यत्र.
जगडन्त 33 9 9, 39 10 7, enl. जगडन्तय 25 18 4 quarreling.
जच्चन्ध 27 12 4 जालन्ध.
जड 29 1 4 (1) जड, (2) जटा.
जडहारिय 24 11 6 जटाधारिन् enl; जड-विनाशित?

- जणेर 22 6 8 जनयित् father.
जण्डुय 51 14 11 (fem.), जण्डुव° 38
11 7 जातु (see जुष्ण-जोत्त I).
जमकरण 36 3 5 [यमकरण] मरण (see I).
जम्पण 25 19 1 मुख.
जम्पणय 49 3 10, 56 13 9 public
gossip, slander.
जम्बू 38 10 6 जम्बुक.
जर-जजरिहोह 33 6 8 जैराजर्जरीभवति.
जरठ 24 7 2 जरठ 'aged', hence
'setting'.
√जलजलजल burn furiously (onom.)
-pres. 3. pl. जलजलजलन्ति 27 5 7.
जलजलजलजलजल 28 2 5 (onom.)
sound emitted by burning
things.
जलद् 22 5 5, 26 8 7 [जलद्रा] wet
cloth.
जन्वेल 37 13 3 at the time when,
when.
जाईसर 35 2 1 [जाति-स्मर] remembe-
ring former existences (see
PSM); 22 5 9 पूर्वभव-स्मरण.
जाण्वय 38 16 7 गमन going (cf. a.
जवुं).
जीवाहाह 25 18 1, 30 6 9 जीवद्ग्राह
capture while alive.
जीवाड 22 3 6 ?
जुज्जविय 25 15 7 (was) fought
with.
°जुवल 32 7 10 युगल.
जूषार 42 10 5 दूतकार (cf. a. जूआरी).
जूरवणी 41 4 4 खेदयित्री.
जैम-जैम 25 3 10 either...or.
जेमन्त° 48 10 6 दिनः.
जेमणय 51 2 10 दक्षिण (-कर) (a. जमणो).
जेम्मह (v. b. जिम्मह) 21 2 2 [जेम्यते]
भुज्यते.
जेवं 35 6 4 यथा.
जेवा 25 7 1 (pl.) like (a. जेवा).
जोहसिय-चक 26 14 8 ज्योतिश्चक.
जोकारिय 24 10 1, 40 4 3 hailed.
°जोत्त 38 11 7 ? (cf. जुष्ण-जोत्त I).
जोह 39 10 6 [योध] gl. पुरुष (cf. the
meaning 'सुभट' and 'पुरुष' given
for जोह in PSM).
जै (after सो) 25 19 6 एव (a. ज).
√झङ्ग=प्र+लप् prattle;
-pres. 2. s. झङ्गहि 52 2 3.
°झड 27 1 2, 3 sudden onslaught,
crash.
झडक 25 15 7, 31 3 6°, 32 10 2°,
37 9 8 sudden rushing on-
slaught.
झडझडझडझडन्त 28 2 7 (onom.) str-
iking so as to produce *jhada-
jhada* sounds.
√झडप्प to catch hold of (a. झडपुं
snatch)
-pres; 3. s. झडप्पि catches hold
of (in attack), strikes; pret.
part. °झडपिय 32 12 6 caught
within (Bh.=अच्छिन्न).
झम्प 37 4 8 झम्पा.
झलरि 26 14 3, °झलरी° 24 2 4 झलरी.
झसर 35 12 4 आयुषविशेष. (see I).
झसाल° 32 3 1 तट-युक्त ?
झाण 29 1 11 [ध्यान] (1) चिन्ता, (2)
ध्यान.
झिन्दुअ (v. l. झेन्दुअ) 23 4 8 कन्दुक.
झुणिज्जद् 24 13 8 घन्यते.
°झुम्बिर 46 1 7, 55 5 8 लम्बमान (cf.
a. झसतुं hang).
°झुम्बुक° 55 5 8 स्तवक (cf. a. झसतुं)
or sort of chandelier (cf. a.
झुम्बर) ?
°झुलुक्किय° 46 5 7 ज्वलित (cf. झुलुक
'sudden flare-up' PSM).
झेन्दुलिय 36 15 5 gl. पुंश्ली.
टकर 25 15 5 संघट्टन or लता.
°टङ्कारव 24 2 5 tinkling sound.
°टट्टी° 40 17 4 वार्त्तविशेष.

- टणटणन्त 46 1 2 (onom.) chiming.
 °टणटणन्त° 24 2 2 beating (tabor).
 टालिय 23 7 7 विनाशित.
 टिविल° 24 2 2 (fem.) sort of tabor.
 टेण्ट 56 14 7 (f.) द्यूतस्थान (D. 4 3)
 डउँडउँ 56 1 8 (onom.) sound of Damaru.
 °डक° 25 6 8 battle cry.
 °डकार° 40 3 5 battle cry; gl. लीला-गर्जित.
 डङ्क 21 6 9 दशति (cf. G. डंखतुं).
 °डमर 22 4 5, rebellion 33 3 10.
 °डमरकर 29 1 भयकर.
 डर °27 2 3, 29 1 10 (1) [दर] भय (G. H. डर), (2) वृषभविशेष, gl. वृषभ.
 √ डस=दंश (G. डसतुं);
 -abs. डसेँवि 26 19 3.
 डह 21 6 9 दहति.
 °डामर 27 1, 29 1 भयकर (see I).
 डामरिय 33 9 9 revolter.
 डाल 26 12 6, 29 4 6, शाखा.
 डिण्डीर 23 13 7°, °27 4 4, 31 3 4° फेन.
 °डिम्भ° 23 13 5 शिशु.
 °डिविडिक्रिय 34 10 4 अलङ्कृत, gl. अनुलित (cf. टिविडिक्रिय=अलङ्कृत PSM; टिविडिक्र=मण्ड Hc. 4 115; and meanings of चञ्चिक्र).
 डीण 56 12 9 डीन.
 °डुम्भिय° 23 13 5 gl. विदोलित i. e. आन्दोलित.
 °डुहडुहन्ति° 31 3 3 emitting *duha-duha* sound while splashing.
 √ डेव=उद्+लङ् (PSM);
 -pres. 3. pl. डेवन्ति 25 6 5.
 °डोय° 46 10 7 दारुहस्त wooden laddle (D. 4 11; G. डोयो).
 डोलन्त 26 5 11 swinging.
 √ डोह=muddle (G. डोतुं mix in a liquid);
 -abs. डोहैँवि 26 11 3.
 √ डङ्क=cover (cf. ढक Hc. 4 21; G. ढांकतुं);
 -abs. ढङ्कैँवि 23 11 9; pret. part. enl. ढङ्किय 33 6 4 आच्छादित.
 ढङ्कस 49 17 3, 55 10 3 धैर्य (cf. G. ढाढस f.).
 ढण्ढर° 51 3 6 gl. पक्षिविशेष or राक्षस (D. 4 16=पिशाच).
 ढुकाढुकि 52 9 2 fight at close quarters (from ढुक approach, G. ढुकतुं).
 ढेकार 24 13 3, 27 1 7, 32 10 2 bellowing.
 ढोह्य 31 9 2 [ढौकित] brought near.
 ढोर 33 11 7 पशु (G. ढोर).
 णकुड 23 1 7 [नकुँट] छन्दोविशेष.
 णकलच्छोडी 36 12 8 [नखच्छोटिका] crackling of fingers.
 णट्ट° 45 12 8 gl. (1) कूटद्यूत, (2) नृत्य.
 णडिय 33 11 3 व्याकुलीकृत.
 णण्डिक 30 2 3 gl. व्याध.
 °णथ्य° 47 1 11 नासारञ्जु [D. 4 17; cf. G. नथ nose-ring).
 णन्दणवणिय 33 3 7 [नन्दनवणिक]; उद्यानपाल; gl. वनपाल.
 √ णयणकडक्ख look at with a side glance [from नयन+कटाक्ष];
 -pres. 3. s. णयणकडक्खइ 38 13 6;
 abs. णयणकडक्खेँवि 37 7 7, pret. part. णयणकडक्खिय 23 13 9, 26 11 2, 38 3 1; agent. °णयणकडक्खण 44 16 11.
 णयणामेलय 31 12 10 [नयन+आमेलक] दृष्टिमिलन.
 णवली 31 8 5 नवा (G. नवली).
 °णाइँत see पुर-णाइँत.
 णाडय 31 7 2 रञ्जु (G. नाडुं).
 णाडय° 27 12 8 [नाटक] नर्तन.
 णायड 31 2 5 न आयातः
 णाव 37 9 2 नौ (G. नाव).
 णाहिँ° 54 6 3 न (G. H. नाहिँ).
 णिकिड 30 1 निष्कृपः

√ गिक्खण=नि+खन् thrust deep;
-abs. गिक्खणेवि 56 15 2.

गिग्गय 26 19 8 निर्गज.

गिघोस 23 2 1, 31 15 9 निर्घोष.

गिक्खन्दाइच्चय 23 5 8 निश्चन्द्रादित्यक.

गिच्चूयय 47 4 2 (1) चूत-रहित, (2) चूचुक-
रहित (चूअ=स्तनशिखा D. 3 18).

गिज्जन्तिय 35 13 5 [निर्यञ्चित] नियञ्चित.

°गिज्जहरण 21 2 3 निर्झर.

गिज्झाइय 27 13 1 [निध्यात] closely
observed.

गिज्जरिय °25 2 6°, 25 5 6°, 25 9 3°,
°32 6 3°, 36 10 2°, °37 15 6°
भयोत्पादक (usually quali. नयन).

°गिणइ 32 12 3 निनाद.

गित्त° 22 8 3 ? gl. नत.

गित्तंसिय 25 6 5 ?

गित्तुरङ्ग 26 19 8 निस्तुरङ्ग.

गिहरमलिय 50 9 3 परिमृदित.

गिहण 39 11 8 भार्या-रहित.

गिद्धाडिय 33 5 8 निस्सारित.

°गिप्पसर 36 3 8 [निष्परर] gl. निप्रताप ?

गिप्फणालय 40 12 3 फणा-रहित.

गिप्फरिसय 35 13 2 [*निष्परर enl.] gl.
रुक्ष (cf. D. 4 37 गिप्फरिस=निर्दय).

गिमिय 33 10 6 स्थापित.

गिम्माइय 23 9 1 निर्मित ?

√ गियत्त=निवर्तय;
-abs. गियत्तेवि 31 3 1.

गियमत्थ 36 10 9 gl. नियमत्थ.

गिरञ्जण 27 13 2 gl. (1) अलिञ्जररहित,
(2) पाप-रहित.

गिरन्ध 22 2 3 अत्यन्ध.

गिरारिड 48 13, निश्चितम्.

गिरिण 22 12 3 अट्टण.

गिरुम्भ=नि+रुध्;
-abs. गिरुम्भेवि 28 4 4.

गिवट्टिय 36 6 8 चूर्णित (cf. वट्टिय=चूर्णित
PSM, and G. वाटुं=चूर्ण).

√ गिक्खट्ट (from निरु+वृत् ? circular)
fly over in a circle ?

-pres. 3. s. गिक्खट्टइ 41 15 7.

√ गिक्खड 27 9 9 निम्+पद्, सिध्;

-pres. 3. s. गिक्खडइ 27 9 9, pret.
part. enl. गिक्खडियय 53 4 2.

√ गिक्खाड=select (M. गिक्खणं);

-abs. गिक्खाडेवि 21 13 4.

गिक्खाहण 23 9 8 [निर्वाहन] वाहनरहित.

°गिक्खुड 22 12 7, 23 1 10 कृतनिर्वहन,
पारप्राप्त.

°गिसण्ड 41 16 8 समूह ?

°गिसाम 25 20 6, 26 1 8, 31 16 1
(=निःशामक) विनाशक.

√ गिसुम्भ=नि+शुम्भ्;

-pres. 3. s. गिसुम्भइ 38 2 6; pret.
part. गिसुम्भिय 25 15 5.

गिसेणि 22 4 3, 33 8 9 [निःप्रेणि] ladd-
der (cf. G. नीसरणी).

√ गिहस=नि+घृष् scrape:

-pass. pres. 3. s. गिहसिजइ 21 2 5;
pret. part. गिहट्ट 37 8 3 निघृष्ट.

गीरज 53 9 6 नीरजस्क.

गील° 43 11 4 (1) Nīla, (2) इन्द्रनील.

√ गीव [निरु+वा] become tranquil;
-pres. 3. s. गीवइ 55 8 9 gl. शीत-
लतामायाति.

गीसङ्ग 24 13 4 'without horns' or
'without halter' (gl. संग=शृङ्ग or
रज्जुबन्धन; cf. संग=वल्गा D. 8 2).

गीसन्दण 26 19 8 निःस्यन्दन without
chariot.

गीसावण्ण 23 7 9, 41 11 5 [निःसामान्य]
without a rival claimant; gl.
समस्त; 31 9 9 असामान्य.

गीसाहण 23 9 8 [निःसाधन] (1) सैन्यरहित,
(2) gl. प्रसाधन-रहित; अनलङ्कृत.

गेत्त 45 4 10, 47 1 9 (second
meaning) [नेत्र] वस्त्रभेद fine silken
cloth.

- षेवावह 36 5 9 नाययति.
 षोखी 31 12 3 अपूर्वा (cf. षोक्ख PSM;
 षवली Hc. 4 420; G. H. अनोखा).
 षहन्ति 26 15 5 क्षान्ति.
 तहउ 40 4 7 तदा.
 तउ तउ 25 16 10 तत्र तत्र.
 तक्षिसतक्षिस 56 1 10 (onom.) the
 rhythmic sound *takkisa* (of
 musical instruments).
 तडुव° 28 8 3, 48 2 9 [तर्कुं] gl.
 याचक.
 °तच्च 24 10 3 तत्त्व.
 तज्ज=तर्ज.
 -abs. तर्जेवि 25 12 9.
 तट्टी 21 8 5 तस्ता.
 °तडक 37 9 8 भञ्जक, विनाशक; gl. भञ्जन.
 तडतडतडन्त 50 1 6 emitting *tadu-
 tada* sound while breaking.
 √ तडयड (onom). crackle (w. r.
 to lightning).
 -pres. 3. s. तडयडइ 28 1 8; pres.
 part. तडयडन्ति.
 तणु-अङ्गि 29 3 7 तन्त्रज्ञी.
 तणुलुहण 26 6 3 towel.
 तहूण° 27 3 2 तद्द्विगुणित.
 तम्वार 54 6 1 विनाश.
 तम्बोल 23 6 7 ताम्बूल.
 तरणडय 24 8 7, 45 13 10 नौका.
 तरडकतरडक 56 1 8 the rhythmic
 sound *taradaka* (of musical
 instruments).
 तरेप्पिणु 31 16 4 (corrupt?) having
 alighted.
 तलप्य 31 9 6, 38 13 7, 40 12 10
 stroke, slap.
 तलार 35 6 9 नगर-रक्षक (D. 5 3)
 तल्लवेळ (v. l. तल्लविळ 38 5 8 व्याकुलता
 (cf. तल्लोविळ P S M and G. तालावेली).
 °तवङ्ग° 55 5 4 गृहविभागविशेष (occurs
 also in Bh.).
 तव्वेल 37 13 3 तदा.
 तामस 52 8 3 तिमिराक्ष.
 तालवत्त 26 19 7 तालपत्र.
 तिक्खसिक्खय 32 3 11 [तीक्ष्णशृङ्ग . n.]
 gl. महिष.
 °तिडिक्क 48 9 3 (fem.) gl. अमिकणिका
 (cf. G. तणखो spark, तडको sunshine).
 तिट्ट 30 3 8 तिष्ठ.
 तिमुण्ड° 23 15 4, 37 5 6 त्रिपुण्ड्र.
 तिम्मण° 25 11 8, 34 11 5, 34 13 5,
 50 11 11; enl. °तिम्मणय 26 16 7
 sort of curry D. 2 35. eqates
 कुसण wuith तीमन which is rend-
 ered by Ramanujaswami as
 'sauce'; PSM. gives तीमण=कडी
 'curry'; Apte records तेमन
 'sauce', 'condiment'.
 °तिय 27 14 5 (enl.) स्त्री.
 ति-यण 26 4 2 स्त्रीजन.
 तियमह 39 4 7, 9 स्त्री.
 °तिरिडिक्किया 24 2 4 वायविशेष.
 तिसाइय 26 6 4, 27 11 7 तृषित.
 °तुणव° 26 14 3 (D. 5 16) झुल्लाख्यतूर्य-
 विशेष. gl. मेरी.
 तुलमोहिं 48 13 2 यदच्छया (cf. तुलमं=
 काकतालीयम् D. 5 15 and तुलमगा=यदच्छा
 P S M).
 तुलाकोडि° 22 8 2 [तुलाकोटि] नूपुर.
 तुल-लग 30 2 5 तुलालम.
 तुहारी 21 11 3 त्वदीया.
 °तेहय 53 9 7 योतित.
 तेज्जा 34 3 7 ?
 °तेण्णा 34 3 7 ?
 तेत्तडय 22 5 1 तावत्.
 तोण 27 4 8, तोण° 26 13 2 तूणीर, gl.
 भन्ना (cf. G. भाथो).
 तोसावण 25 17 5 तोषक.
 तोणीर° 27 4 6 तूणीर.
 तोर 35 14 8 [तुवर] कषाय (cf. G. तूरं).
 √ थक्क=स्था;
 -abs. थक्केवि 22 5 7.

- थट् °25 5 8°, °25 10 2 समूह (cf. G. डट्.
थट् °23 6 6, °25 6 3, °29 4 7, 40 2
3 row, battalion, group; gl.
wrongly equates with वन.
थत्ति 23 5 5 विश्राम halt? (cf. थत्तिअ D.
5 16; from स्थाप्+ति?).
°थद्धय 34 13 6 [स्तब्ध enl.] dense,
thick.
थरथरथरन्त 27 9 2 trembling.
°थरिमहि (v. l. थरुमहि) 56 1 10 (onom.)
particular sound of tabor.
थाह 22 4 6 स्थाप.
थेरासण 36 14 1 कमल (see I).
दह 31 14 5, 52 8 7 देहि give (G. दे).
दहच्च 29 6 7 दैल.
°दहक 25 15 7 तर्जना?
°दडि° 26 14 3, दडी 51 1 1 वाद्यविशेष.
दण्डादण्डि 52 9 4.
°दत्ति° 39 1 4 alms given at one
time.
°दुदुर° 27 4 6 वाद्यविशेष.
दयावणिय 36 12 4 दयनीया (G. दयामणी).
√ दरमल=सृद्;
-pres. 1. s. दरमलमि 51 1 9; pres.
part. दरमलन्त 25 15 4 pret part.
दरमलिय 43 2 6.
दरिय° 31 7 8 दस.
√ दलवट्ट=चूर्ण (see I).
-pres. 3. s दलवट्ट 20 8 6; pret.
part. दलवट्टिय 40 4 2, enl. °दलवट्टिय
36 6 8; agent. °दलवट्टण 41 5 5.
दलादलि 52 9 6 flight involving mut-
tual pounding.
दवत्ति 21 1 9, 55 8 9 शीघ्रम्.
दाडिय 38 5 7 a hair of the beard
(D. 2 101).
दाय 53 10 4 turn to play (in a
game), a throw?
दिवि 23 8 5 वीत्ति (cf v. l. दित्ति).
दिवें दिवें 23 3 3, 4 etc. 36 5 3 प्रतिदि-
नम् (see I).
दिसेव 38 7 5 [दिग्+सेव?] gl. पथिक.
°दुभह 48 2 1 द्विपदी.
दुह 33 7 6 द्रौ+अपि.
दुक्खोयर 27 10 8, 27 11 5? gl दुःखोदर
दुगुञ्छण 50 12 7 जुगुप्पन.
दुग्ग 24 3 7 दुर्गत, दरिद्रिन.
दुग्घोष्ट° 25 5 8, 32 13 9, 37 6 3, 40
16 6 द्विप, गज (see I).
दुणाम 31 5 6 (from दुर्+नामन्) (fem.)
gl. डाकिनी.
दुणिकिटि (v. l. इणिकिटि, ङणिकिटि, दुणिकिटि)
51 1 10 (onom.) particular
sound of tabor.
°दुधर° 32 7 6 दुर्धर.
°दुप्पइसार 23 13 9 दुष्प्रवेशा.
दुप्पेक्खिय 23 13 9 दुष्प्रेक्षा enl.
दुमुदुमुदुमन्त 50 1 5 (onom) crash-
ing with the *dumu-dumu*
sound.
दुरुदुरुदुरन्ति 31 3 4 (onom.) prod-
ucing *duruduru* sound (from
croaking of frogs).
°दुल्लह 22 12 4 [दुर्लभ] पुत्र (cf. H.
दुलार from दुर्लभतर).
दुल्लह-लम्भ 26 17 2 [दुर्लभ+लम्भ] दुष्प्राप.
दुवक्खीहूअय 55 1 [द्विपक्षीभूत enl.]
द्विधाप्रस्त.
दुवारस 45 8 7 द्वादश.
दुग्वाइ 32 2 2 दुर्वत or दुर्वा+आदि?
दुम्बिवरेरय 48 10 3 [from दुर+विवरेरय
=विपरीत] difficult to be reversed.
देवङ्ग 26 16 9, 26 17 1 [देवाङ्ग] दिव्य-
वृत्त.
°देसि° 25 9 1 देशी.
√ दोच्छ=जुगुप्स, निन्द्, तिरस्क;
-pres. 3. s. दोच्छ 42 1; दोच्छिय
29 4 1, 38 19 1.
दोडु° 34 11 7? gl. हस्त-द्वय-उद्दिन (?)
दोस° 29 1 1 (1) दोष, (2) [दोषा] राज्ञी.
दोहाइय 21 7 6, दोहाविय 43 2 8 द्विधाकृत,
विनाशित.

- दूव 25 14 3 दूत.
 दूवत्तण 31 11 7 दूतत्व.
 धगधगधगधगन्त 28 2 4, 31 11 2 bur-
 ning fiercely.
 धगधगधग (onom.) burn hot;
 -pres. 3. pl. धगधगधगन्ति 27 5 6;
 pres. part. धगधगधगन्त 27 9 2.
 धगधगन्ति 31 11 7 (enom.) f. burn-
 ing hot. (g. धगधगतुं).
 धग 23 14 7, 29 4 9, 36 6 2, 37
 3 9, voc. धगे 27 12 5 भार्या (Hc.
 4 330; g. धग).
 धगिजा 37 6 2 भार्या.
 धगुहर 21 7 6, 25 1, 25 20 3 धनुष्.
 °धगणन्दुल 34 11 4 [धान्यतण्डुल] ?
 धर 25 15 1 पर्वत.
 °धरण 53 10 6 stake ?
 धराधरि 52 9 2 fight involving mu-
 tual seizure.
 धव 52 10 1 (f.) आह्वान.
 धवल 29 11 7 sort of auspicious
 festive song (g. धोळ).
 ✓ धाड=निष्फास्;
 -imper. 2. pl. धाडहों 25 14 4;
 abs. धाडैवि 42 2 4.
 धाडीसर 24 11 7 (1) gl. तीर्थयात्रागमिन् ?
 (2) ?
 धाणुक्क 24 12 1 धानुष्क.
 धाह 23 4 11, 37 6 9 f. distressed
 cry for urgent help.
 धिधि 39 7 9 धिक्धिक्.
 धीश 40 1 1 [धीश] बुद्धीश.
 ✓ धुगधुग=ज्वल (cf. धगधग);
 -pres. 3. s. धुगधुगइ 29 3 4.
 धुगाधुगि 52 9 5 fight involving
 vigorous shaking on both sides.
 धुदुवन्त° 46 3 3 blowing (quali,
 conches).
 धुदुवन्ति 53 11 3 (f.) roaring.
 धुमुक 51 1 9 particular sound of
 tabor.
 धुवगाय° 56 14 2 अमर (see I).
 धुवन्त 25 4 3 धूयमान.
 धूमदय 23 7 2, 27 13 7 [धूमध्वज]
 अभि.
 धूमवन्ति 50 11 13 seasoned savoury?
 gl. वधारित (cf. g. वधार, fumigated
 seasoning; cf. धूस=sort of sea-
 soning with asafotida etc).
 °धोरणि 25 13 10 धारा.
 °धोरिय 25 2 5 धौरेय.
 पइज 25 2 1, 25 3 6, 27 9 8, 30 1
 9, 30 2-1, 30 11 6 प्रतिज्ञा.
 पइठ 25 12 10, 26 5 2, 26 6 9, 26
 14 4, 30 5 8, 30 11 9, 45 12
 16, 48 15 2 प्रविष्ट.
 पइण्णय 39 8 3 [प्रकीर्ण enl.] क्षिप्त.
 °पइद्ध 52 2 8, f. °पइद्धी 41 12 5, enl.
 °पइद्धय 50 6 5 [from प्रयद्ध ?] हेवा-
 यित addicted (g. पेधुं, पेंधुं addict;
 seasoned).
 ✓ पइसर=प्रविश; (see I).
 -pres. 3. s. पइसरसि 23 14 5.
 ✓ पइस=प्र+विश;
 -pres. 1. s. पइसमि 25 3 6; 3. s.
 पइसइ 25 8 12, 38 2 7; imper. 2.
 pl. पइसहों 32 1 8.
 पडराणी 41 4 5 [पौराणा] पुराणा.
 पडरुस 23 8 8 पौरुष.
 °पओलि 23 9 9 प्रतोली.
 °पओह 23 13 5 [प्रवह ?] प्रवाह ?
 पओह 26 9 5 पदौघ.
 पकन्दियय 29 6 1 प्रकन्दित enl.
 °पकल° 33 13 5 समर्थ (see I).
 पक्खियय 33 8 7 पक्खिन् enl. twice.
 पक्खोडिय 21 9 3 कम्पित (PSM).
 पखालिय 34 12 8 प्रक्षालित (g. पखाल्युं).
 पगुलुगुलन्ति 56 12 5 [प्र+pres. part.
 fem. from ✓ गुल्लुल onom.]
 roaring fiercely.
 पङ्कुत्त 33 11 7 buried, concealed
 (see I).

- पङ्कुरन्त 38 10 6 ? (The usual meaning 'covering' does not suit here).
- पचलन्तय 25 4 7 प्रचलन्त enl.
- पचह 23 2 11 पच्यते.
- °पचल 33 4 7 gl. समर्थ (D. 6 69).
- ✓पचार=उप+आ+लभ् taunt (cf. Hc. 4 156);
-abs. पचारेवि 51 7 6; pret. part. पचारिय 35 15 1, 38 16 8, ६८ 17 8, 50 4 2.
- पचेलिड 43 3 4 प्रत्युत (see I).
- पचल्ले 24 5 8, 26 12 4 पश्चान्त.
- पचल्लणय 24 1 10 प्रच्छादनक.
- पचल्लामुहड 27 14 7 (enl.) पराङ्मुखम्.
- पचल्लार° 54 11 8 place of ease ?
gl. वेढाकार(?).
- पच्युत्ताविय 35 15 10 [पश्च+उत्तापित] penitent.
- पजोयह 23 11 7 प्रपद्यति.
- °पञ्जिय 28 5 6 ? gl. संस्कृता.
- पट्टवन्धण 25 16 1 [पट्टवन्धन] पट्टवद्ध.
- °पडाह्य 41 7 1 पताका enl. (cf. G. पडाई kite).
- °पडिकूलण 26 13 5 opposing.
- पडिपाणिय° 4 11 10 ?
- पडिल्लड 53 11 4 again.
- पडिवा° 26 1 4 प्रतिपदा.
- पडिवायण 23 4 3 (fem.) fanning ?
- पडिवारड 52 7 8 again.
- ✓पडिह [प्रति+भा] रुच् be liked;
-pres. 3. pl. पडिहन्ति 22 5 4.
- पडीवड 43 7 5, 45 8 7 again, back.
- पडीवी 41 1 प्रति, उद्दिश्य towards.
- पणह° 24 2 8 [प्रणयिन्] याचक.
- पणतीस 53 5 6 thirtyfive.
- °पणव° 26 14 3 पटहविशेष.
- पत्तल° 26 12 6 पत्रवत्.
- °पत्तिय 30 11 9 पत्नी enl.
- पत्तिय 35 8 4-9, 36 13 1-4, 6-7
प्रतीयेत it can be believed;
- स० प० च० ३९
- °पत्थरण 21 2 3 [प्रस्तरण] bedding
(G. पाथरणुं floor-covering).
- पथुण्ड 32 4 3 प्रकर्मण स्तुतः.
- पदूहणन्त 56 9 7 ?
- पन्ति 39 8 10 [पङ्क्ति] oil-press ? cf.
gl. तेलिवलीवर्दवत्.
- पत्कुल्लिय °31 1 6°, 49 12 8 प्रकुल्लित.
- पमयद्धय 45 11 7 कपिध्वज.
- पमेल्लह 26 8 4 प्रमुञ्चति.
- पम्मुक 31 13 6, 48 6 8; enl. पम्मुकय
25 15 8, °51 6 10 प्रमुक्त.
- पयहत्तिय 28 6 5 (1) प्रजावत्, (2) पदवत्.
- पयपूरण 22 9 8 [पदपूरण] निरर्थक.
- पयथ 35 13 8 [प्रदर] बाण (D. 6 14).
- पयहिण 23 10 3, 25 7 5, 26 1 6, 32
14 9 प्रदक्षिणा.
- परदार° 24 6 6 (1) परा एव दारा; gl.
मुक्ति; (2) परदारा, परकीया.
- °परायण 27 8 1 पराजित्.
- पराहिपर 43 19 6 [पराधिपर] परात्पर.
- परिभञ्जिय 29 5 1 gl. प्रदक्षिणीकृत.
- परिभन्दिद्य 29 6 1 (enl.) rocked in
a cradle ?
- °परिचड्डण 47 10 9 परिमर्दक.
- परिचड्डिय 28 10 9, 30 5 8 आरूढ (cf.
चड=आ+रूढ् Hc 4 236; G. चडुं);
23 1 2, 45 7 6 पारंगत, ज्ञात (cf.
चडु=मृद्, पिप, मुञ् Hc. 4 126;
185, 110).
- परिछेय 38 4 2 [परिच्छेद] अन्त, gl.
समाप्ति.
- ✓परिता [परि+त्रै];
-imper. 2. s. परिताहि 28 4 2.
- परित्त 43 8 5 (fem.) परित्राण.
- परिभन्निय 36 12 3 परिभूता.
- परिमिस 36 5 9 [=परिवेष] served food ?
- परिमिय 26 14 9 परिवृत.
- ✓परियन्द rock (as in a cradle);
-pass. pres. 3. s. परियन्दिज्जह 24
13 8; pres. part. परियन्दिज्जमाण
51 3 6.

- परियल° 25 11 3 स्थाल, भोजनभाण्ड (D. 6 12; Bh.).
- परिचायण 29 5 2; gl. जल्पन and नियणक (i. e. निदान ?).
- परिचेडावेढि 33 3 4 f. वारंवारं परिवेष्टनम्.
- परिहृच्छ° 23 13 4 gl. वेगवत्.
- परिहृत्थ 48 5 2 दक्ष.
- परिहास 38 14 2 [परिभाषा] promise ?
 ✓ परिस=परि+विष् serve (dishes);
 -abs. परीसवि 34 12 11.
- परुणय 23 4 11 प्ररुदित (enl.).
- पलिप्पह 35 11 7 प्रदीप्यते.
- पलेवणय 45 6 4 [प्रदीपन enl. ?] दाह.
- पलोष्टिय 31 9 5, 51 12 7 पातित (Hc. 4 200).
- पलोवह 36 10 6 प्रलोकयति.
- ✓ पल्लट्ट=व्यावृत् return;
 -imper. 2. s. पल्लट्टहि 21 7 1; pret. part. पल्लट्ट 21 6 8.
- पवणुद्धुअ° 23 1 6 [पवनोद्धुत] छन्दोविशेष.
- पवल्य° 56 4 4 प्रवाल ?
- पवियम्भइ 25 15 2, 53 6 7 प्रविजृम्भते.
- पविरल 37 5 2 ?
- ✓ पवोल=अति+कम् pass;
 -abs. पवोलोवि 23 9 9; pret. part. पवोलिय 26 5 1.
- ✓ पध्वाल=गावय (Hc. 4 41);
 -pret. part. 31 2 1, 45 7 1 (see I); pass. pres. part. enl. पध्वाल्लि-
 जन्तय 24 7 1.
- पसवण 34 2 9 [प्रशमन] प्रशामक.
- पसाहियत्त 45 3 4 ?
- पसुभय 54 9 4 पशुविशेष ?
- पसुइय 51 10 4 प्रस्ता.
- पसूयण 46 2 6 [प्रसूदन] विनाशक.
- पहिलारी 33 14 3 प्रथमतरा.
- ✓ पहुच्च=प्र+भू suffice;
 -pres. 1. s. पहुच्चमि 21 6 8; 3. s. पहुच्चइ 53 2 4.
- पाडापाडि 52 9 8 fight involving mutual pulling down.
- पाणिय-हारि 24 1 9 पानीयहारी (cf. H. पनीहारी]
- पारक्कय 56 10 9 पर enemy (cf. a. पारकुं).
- पासण्डिय 32 15 10 पाषण्डिक.
- पासिड 22 11 3 better than.
- पासेइजइ 26 8 6 प्रस्विद्यते.
- पासेड 29 3 3 प्रस्वेदः.
- पाहण 32 2 2 पाषाण.
- पिङ्गलय 38 10 7 [पिङ्गल enl.]
 gl. खुमरिका ?
- पिट्टिज्जन्त 51 13 10 आहन्यमान being beaten.
- पिण्डवास 25 10 4 सेवक.
- पित्तिय 53 2 3 पितृव्य.
- पियमाहविय 27 15 7, 41 4 2
 [प्रियमाधविका] कोकिला [D. 6 51]
- पिव 25 11 4, 5, 26 11 6, 7 इव.
- पिसिवय 39 6 7 bag ? (cf. m. पीशवी).
- पीहय (v. l. पीहिय) 36 1 5 पीठक pre-
 paration administe.ed to a
 new-born baby (cf. पीहय PSM).
- पुक्खर-जुज्ज 26 15 9 [पुक्कर-युद्ध] ?.
- पुज्जय 49 8 14 ?.
- पुण्णालि 37 12 8, 45 10 10 पुंश्चली
 (see I).
- पुर-णाइत्त 31 7 1 gl. नगरव्यवहारक (cf. नाइत्त, नाइत्तग 'a marine trader' PSM.)
- पुध्वक्किय 33 2 9 पूर्वकृत.
- पुध्वयण्ण° 29 8 6 [पूर्वचीर्ण] पूर्वकृत.
- पूसमाण 44 12 3 स्तुतिपाठक ? (PSM).
- पेडअ° 50 11 9 सालणक-विशेष sort of pickles.
- पेज्ज 34 12 11, पेज्जा 25 11 7 पेया.
- पेट (v. l. पिट्ट, देह) 48 3 9 belly (a. पेट)
- पेह्हापेहि 52 9 7 fight involving mutual pushing.

- °पेसण° 28 9 6 [प्रेषण] 40 4 10 सेवा.
पेसण-बुद्धी 23 12 2 (fem.) dead?
(see I).
पेसणवारय 24 11 3, 26 2 9 [प्रेषणकारक]
सेवक.
पोमाहय 26 2 2, 32 13 10 प्रशस्त, स्तुत
(see I).
°पोडरिय° 49 8 4 पिण्डी calf?.
पोडल 52 10 8, enl. पोडलय 39 6 3
bundle (see I).
पोल्यासित्य 23 9 10?.
°प्पय° 31 6 2 पद.
°प्फर 40 2 5 [स्फर] shield.
°फर 53 3 5 फलक shield.
फर 40 2 5 स्फार? gl. स्फारीभूत.
फन्दन्तय° 38 14 1 (enl.) स्पन्दमान.
°फम्फाव° 24 2 8 चारण.
°फार° 28 2 9, °56 5 3° [स्फार] अतिशय.
✓ फिट्ट=भ्रंश, नश् (G फीटवुं);
-pres. 3. s. फिट्ट 22 5 6, 31 8 5;
pret. part. फिट्ट 45 2 1.
✓ फिर=भ्रम् (G. फरवुं, H. फिरना);
-abs. फिरेंवि 33 9 1.
फुरण 52 6 2 [स्फुरण] स्फूर्ति.
फुल्लन्धुम° 26 2 6, °26 11 8°, 26 14
4, 31 1 4 भ्रमर.
फुसन्त 23 11 6 मार्जत.
✓ फेक्कार (onom.) howl;
-pres. 3. s. फेक्कार 27 2 6.
भक्खर 45 8 7, °45 9 9 भास्कर.
°भजिय° 50 11 11 [भर्जिका] शाकविशेष
(G. H. भाजी).
भजणय 26 16 5 (enl.) भजक.
भणद्धण 27 2 6, 36 5 4, 46 4 7 संग्राम.
✓ भमाड=भ्रामय (G. भमाडवुं);
-imper. 2 pl. भमाडहों 25 14 4.
भम्म° 24 2 4 [भम्मा] मेरी (D. 6 100).
°भम्मीस° 24 2 4, 40 17 4 वायविशेष.
भय-सीस 21 1 7 भय-सीषित.
- भयाडरय 28 3 9 [भयातुर enl.] भयोत्पा-
दक.
भयाणण 25 12 10 [for भयावण?]
भयानक.
भयावहुल 27 4 5?.
°भवित्ति 37 3 5, 38 12 6 [भवित्ती] भवि-
तव्यता evil fate, gl. भृत्य.
भसल 33 12 8 भ्रमर.
भामरि 47 7 7 परिभ्रमण (see I).
°भायणय 36 10 4 [*भागिनक] भागिनेय
(G. भाणो).
भायणि 12 1 6 (fem.) भाजन subject to.
भासुर 26 19 4 भयङ्कर.
मिडन्तय 28 2 8 (enl.) encounter-
ing in battle.
मिन्दामिन्दि 52 9 6 fight involving
mutual breaking (of limbs).
मिम्भल 42 11 1 विह्वल (see I).
मिसिणि° 26 4 2 विसिनी.
✓ मी (v. l. भा) fear;
-imper. 2. s. मीहि (v. l. भाहि)
33 8 4.
मीसाण 49 16 9 (for मीभावण) मीषिका.
भुक्खा 25 10 9 बुभुक्खा (G. भूख).
भूवावल्लय 45 4 11 (quali. गेय)?
भेट्ट 46 4 2 encountered.
✓ भेल्ल=भिट्ट;
-pass. pres. 3. s. भेल्लिज्ज 54 13 9;
pret. part. भेल्लिय 46 7 5 खण्डित
(cf. मिल्लिअ P.M.); agent. °भेल्लण° 53
6 1; action noun °भेल्लण° 51 6 3.
°भेसइ° 29 6 6 बृहस्पति.
भो 26 3 13 भोस.
भोग्ग °26 3 11° भोग्य; 28 9 3 भोग.
°मह्यवट्ट 24 10 7, 30 8 4, 31 6 2,
48 13 4, 56 2 2 विनाशक, मर्दक (cf.
°मह्यपट्ट 15 6 5).
मङ्गल 29 11 7 sort of festive aus-
picious song (H.).

- °मच्छर 34 13 6 [मत्सर] milk cream; gl. मलाई (G.).
- मज्जयाल 25 2 2 मध्यकाल.
- मज्जार 38 3 3, 45 2 8° मध्य, कटि (cf. मज्जाजार D. 6 121).
- मञ्जुड 25 20 3, 28 6 9, 36 9 9, 37 7 3, 37 12 5, 38 10 2, 38 16 6, 40 16 10, 41 12 5, 41 18 8, 44 7 3, 50 3 3 probably, perhaps.
- मञ्जरिय° 23 1 7 [मञ्जरिका] छन्दोविशेष.
- मङ्गफर °27 5 8, 38 13 7, °39 12 1, 42 2 2 गर्व (see I).
- °मडय 26 19 6 मृतक (G. मडुं).
- मडुडुमडु 51 1 8 criss-cross, disorderly (cf. अड्ड across, G. आडुं).
- मडुणै forcibly (cf. मड्डा PSM).
- मणुस 24 15 7 मनुष्य.
- मण्ट 34 2 6 विकलाङ्ग (cf. ण्ट PSM).
- मण्ड 22 5 8, 37 8 9, 46 8 10, मण्डणै 38 7 5, 39 19 4, 41 8 4, 44 8 9, intensive मण्ड मण्ड 47 4 5 हटान् forcibly, perforce (see I) (G. मॉड, मॉड मॉड).
- मण्डल 31 11 4, 32 10 4 धन (D. 6 114)
- मण्डलि 31 3 4 [मण्डली] श्रेणी.
- मण्डा° 50 11 6 [मण्डक] मिष्टान्नविशेष.
- मण्डिय 49 8 5 knee? (cf. मंडी 'lid', D. 6 111).
- °मह्व 40 3 8, 40 16 7 gl. घन dense.
- मह्वत्त 54 15 4 [मार्दवत्व] मृदुत्व.
- मन्तणय 30 3 3 [मन्त्रणक] मन्त्रणा.
- मन्दल 24 2 2, 26 5 8 [मर्दल] मृदङ्ग.
- मन्दुर 21 10 8 मन्दुरा.
- मप्य 41 2 7 measure (G. माप).
- √मम्भीस=आश्राम्य (see I);
-pres. part. मम्भीसन्ति 28 7 9;
pret. part. मम्भीसिय; caus. pres. 3. s. मम्भीसावद् 29 7 2.
- मयकरि° 24 12 4 [मदनकरिन्] मत्तहस्तित्त्वं.
- मयगल 25 10 8 गज (G. मेगळ) (see I).
- मयङ्गम (v. l. अयंगम) 40 15 8 ?
- °मयण 27 3 6 [मदन] one of Cupid's arrows.
- मयमुक्° 27 1 5 मृगमद; gl. कस्तूरिका.
- °मयवाह 28 1 4 [अमृतवाह] चन्द्र.
- मयासव 24 14 6 [मदासव?] intoxicating, making proud ?
- मरट्ट 22 6 3 दर्प.
- मरामरि 52 9 3 fight involving dying on all sides.
- मरिण्वडं 37 10 4 मर्तव्यम् (G. मरवुं).
- √मरुस=मृष् pardon;
-opt. 2. s. मरुसेज्जहि 31 14 9.
- मलहर 36 12 1, °40 13 4 तुमुल-ध्वनि; gl. शब्द (D. 6 120).
- मलहन्त 27 12 6, fem. मलहन्ति 23 13 8, 56 5 5, मलहन्ती 23 6 6, enl. मलहन्तय 26 12 8 moving sportively, rejoicing (cf. मलह PSM; G. महालवुं rejoice).
- °मसक 31 7 8 gl. चूरक (cf. G. मसळवुं crush).
- मसि-कुञ्जय 26 4 6 मपीकूर्चक.
- महल्ल 25 8 11 महत्.
- महाइणि 38 3 8 gl. पृथुल.
- महाइय 23 9 4, 21 11 1, 25 7 2, 25 12 8 महात्मन (see I).
- महारय 21 11 3 मदीय (G. मार्क).
- महु 26 7 5 [मधु] सुरा.
- महु-विन्दु 24 3 9 मधुविन्दु.
- मं 27 12 5 मा; मं मं 25 9 8 मा मा.
- °मा° 31 1 1 लक्ष्मी.
- माइणि 50 11 7 sort of fruit used for pickles.
- °माउय 24 14 5 gl. मञ्जीरा वृक्षाद्य.
- माणै 32 2 7, 36 5 4 used as familiar address to females.
- °माणदण्ड 27 8 4, 27 9 6 मानदण्ड.
- साम 21 3 6, 38 15 5 श्वशुर.
- °मायरी 45 9 2 मातृ.
- मायाम 39 6 4 मायामय,

- मारुव 25 18 9 मारुत.
 मासाहारिय 24 6 6 (enl.) (1) मांस+आहारि-
 रिन्; (2) मांस+आहारिन.
 मासुरि 37 15 5, enl. °मासुरिय 36 15 9
 इमश्रु (D. 6 130).
 मिलिभिमलि° 47 5 1 gleaming (cf.
 मिलमिलमिल 'shine' PSM).
 √ मुण=ज्ञा;
 -pass. pres. 1. s. मुणिज्जमि 26 18 6.
 मुरव °24 1 2, 26 15 6, °29 1 4, 34
 3 8 मुरज.
 मुसलामुसलि 52 9 6 fight involving
 mutual use of pestles.
 मुसुमूर=चूर्ण;
 -pres. 1. s. मुसुमूरमि 38 6 5; pret.
 part. मुसुमूरिय 25 6 3, 25 15 5;
 agent. °मुसुमूरण 26 6 2.
 मुहलारव 24 2 5 कोलाहलरव (cf. मुहलरव,
 PSM).
 मुह-वड 31 12 7 मुख-पट veil.
 मुह-वुण्णय 23 4 11 विम-मुख.
 मुहियणं 47 5 6, मुहिवणं 36 4 9 [मुधिकया]
 मुया; gl. एवमेव (cf. मुहिआ D. 6 134)
 मूडय 54 11 4 वृहत्-परिमाण-विशेष (cf. a.
 मूडो).
 मेट्ट 24 11 8, °26 13 5° मेण्ट.
 मेरय 45 15 14 मरीय (H. मेरा).
 मेलावक 54 8 6 मेलापक, मिलन.
 मोडामोडि 52 9 8 fight involving
 mutual spraining or twisting.
 मोहण 27 3 6 मोहन one of Cupid's
 arrows.
 °रइ (in रोमरइ) 36 15 4 (for राइ ?)
 राजि.
 रङ्गोलिर 49 11 8, 56 4 4 प्रेङ्गोलयत्.
 swinging (see I).
 रङ्गावलि 21 14 8, °45 12 15 auspi-
 cious decorative designs dra-
 wn at the entrance of the
 house (G. रंगोळी, M. रंगोळी).
 रणडह 29 8 9 रणमुख battle front.
 रणरणन्° 46 1 3 (onom.) tinkling
 (cf. G. रणकतुं).
 रण्ण 27 15 3 अरण्य.
 रत्तिहिड 34 1 6 रात्रिदिवम्.
 रत्तिदिणु 34 5 3 रात्रिदिनम्.
 °रद्धय 21 2 2 [रद्ध enl.] cooked (G.
 रांथुं).
 रमणच्चल 29 5 8 जघनचपला.
 रमहिं 56 15 9 (pres. 3. pl.) रमन्ते.
 °रमाडल° 42 6 7, 46 2 1, 48 15 2
 [रमाकुल] समृद्ध abounding in.
 रवण्णी 32 8 4 रमणीया.
 रसमसकसमसना 35 10 8, 40 16 4, 51
 1 2 (onom.) emitting hissing
 and creaking sound.
 रसय° 26 7 6 [रसक] gl. मद्यभाजन.
 रह° 21 14 6, 40 18 8, 56 14 6
 रथ्या.
 रामायण 23 1.
 रायवार 31 7 6 राजद्वार.
 रासालुद्धय 23 1 6 [रासालुद्धक] छन्दो-
 विशेष.
 रासि 28 1 6 [रसिम] किरण.
 राहवचरिय 23 1 9 राधवचरित.
 रिञ्छोलि °33 2 4°, °38 3 4, °56 4 4°
 आवली (see I).
 रिणिय 46 1 1 [from ऋण+इक] अधमर्ण
 (cf. G. रणियो).
 °रिह 36 14 13 रेखा.
 रुक्ख 26 12 6 वृक्ष.
 √ रुञ्ज tear asunder (cf. √ रब्ज
 'card' PSM, रुञ्जणी=घरट्टी D. 7 8).
 -pres. 3. s. रुञ्ज 54 12 9.
 √ रुणुरुण=कन्द (PSM);
 -pres. 3. s. रुणुरणइ 36 11 4.
 °रुणुरुणन्त 42 9 7 humming.
 √ रुण्ट=ध्वन् (H. 4 57) hum;
 -pres. 3. pl. रुण्टन्ति 27 1 5; pres.
 part. रुण्टन्त 40 17 5.
 रुह 24 11 8 [रौद्र] रुद्रदेवताक, gl. रुद्रो
 देवता येषाम्.

- रहङ्कुस 24 11 8 gl. अङ्कुटिका (?)
 रुन्द °26 10 9, °31 12 2° विस्तीर्ण.
 °रुप्प 53 7 6 लोह (PSM).
 रहिर-वड 36 8 5 ?
 रुद्° 33 11 4 रूपिन् or corrupt for
 ल्य=रूप.
 रेकारिय 31 14 9 [from रेकार] addressed insultingly ?
 °रेल्लण 53 6 1 परिप्रावक (G. रेल्लुं=प्राव्य).
 रेहद् 26 1 4 शोभते.
 √ रोक्क=रुध् (G. रोकवुं);
 -pres. 3. s. रोकद् 25 15 2.
 रोग 28 9 3 रोग.
 रोमन्ती 36 7 1 (=रोवन्ती) रोदमाना.
 र्ह 26 3 13 गृहाण (G. लें).
 र्ह 31 15 2 expletive (G. लें).
 लउडि 43 15 9 (fem.) लकुटी.
 °लगण-खम्भ° 25 15 8, 26 13 5 tying post; 56 8 9 supporting pillar.
 लजिया 23 4 2 दासी.
 लणह 26 17 5 ऋक्षण.
 लम्पिक 30 2 4, 54 3 9 चोर (cf. लम्पिक्ख D. 7 19).
 °लल्लक 25 6 8, enl. °लल्लकय 46 4 5 युद्धाह्वान-नाद (cf. G. ललकार).
 लल्लि 36 13 5 flattery (PSM; cf. G. लल्लोपत्तो, H. लल्लोपत्तो, लल्लोचप्पो, M. लल्लुपत्तु).
 लहुवय 33 8 5 लघुक enl.
 लाहण° 30 10 5 gift of food (D. 6 73, 7 21; G. लहाणी 'distribution of gift').
 °लाहव 46 4 1 लाभ (cf. G. लहावो).
 °लीच 52 3 10 बाल ? (D. 7 22).
 लुक 37 6 9 भ्रम; gl. विदारित (लुक=तुड Hc. 4 116).
 लुगालुगि 52 9 5 fight involving mutual chopping.
 लुद्=लृत् (Hc. 4 105);
 -imper. 2. s. लुहि 23 5 2.
 लेप्यमय 21 1 10 लेप्यमय plaster-cast.
 लोद्दालोद्दि 52 9 9 fight involving rolling for both sides.
 °लोद्दावण 25 5 8 causing to roll.
 लोद्दाविय 25 5 5°, 25 6 3 caused to roll.
 लोडद् 45 11 10 ?
 °लोणिय° 37 1 5 नवनीत (M. लोणी).
 लोद्धा 33 8 8 (हे) लुब्धक.
 लोहल्लण्ड 31 7 5 iron (G. लोखंड).
 ल्हसिय 22 2 1, 34 8 3 सस्त withered (ल्हस=संस् Hc. 4 197).
 ल्हसावह 55 9 5 क्षपयति, म्लापयति (see ल्हसिय).
 ल्हिक्क=नि+ली hide (Hc. 4 55)
 -pres. part. ल्हिक्कन्त 51 13 6; abs. ल्हिक्केवि 39 1 6; infin. ल्हिक्किउं 53 2 1.
 °वह° 24 15 5 (1) पति, (2) वृत्ति hedge.
 वहड 26 9 9, वड्ड 25 7 5 उपविष्ट.
 वहतरणि 35 13 5, 35 14 6 वैतरणी.
 वहल्ल 39 8 10 वलीवर्द (D. 6 91) (H. बेल).
 वहसद् 25 13 4 उपविशति.
 √ वहसर=उप+विश ;
 -imper. 2 3. वडसर 40 5 1.
 वहसारिय 26 1 2 उपवेशित.
 वहसणय 22 8 9, 22 10 2 आसन.
 √ वहस=उप+विश ;
 -pres. 3. s. वडसद् 23 4 7, 25 8 12;
 imper. 2. pl. वडसहो 37 8 9.
 °वगलामुह 37 9 6 वडवानल (see I).
 वच्चद् 23 2 11 व्रजति (Hc. 4 225).
 °वच्छ 29 5 1 वृक्ष.
 °वच्छच्छया° 22 8 4 [वृक्षच्छद enl.] पर्ण.
 वच्छहण 24 13 4 वत्स-धन.
 वच्च 33 5 6 [वज्र] diamond.
 वट्टद् 25 3 7 निश्चितम्.
 वडाय 28 4 4 [=पडाय] पताका.

- वङ्ग 26 17 5, fem. वङ्गी 24 1 5 महत्
 (D. 7 29).
 वङ्गारय 21 11 7, 31 15 5 (वङ्ग+तर
 enl.) महत्तर.
 वङ्गिमय 45 2 10 [वङ्गिमत् enl.] supe-
 rior (cf H. बढिया).
 वढ 42 8 2 मूर्ख term of address in
 mild rebuke (nc. 4 362, 420,
 422).
 वण 29 1 11 (1) व्रण, (2) वृक्षविशेष.
 वणकुक्कुड 27 15 6 वनकुक्कुट.
 वणवस 27 3 9, 28 8 2, fem. वणवसि
 27 3 9 वनवासिन्.
 वणस्सइ 29 6 2 वनस्पति.
 वणिया° 30 9 1 वनिता.
 √ वद्ध=वृध् ;
 -imper. 2. s. वद्धु.
 वन्दिण 26 5 3 वन्दिन्.
 वन्धणार 53 3 10 वन्धयित्.
 °वन्धालिय 33 13 4 वद्ध fashioned ?
 वप्प 21 12 1, 24 2 9 पिता (वप्प nc.
 6 88).
 वप्पीह 27 15 7 चातक (वप्पीह D. 6 90;
 G. वपैयो; II. पपीहा).
 वमाल 23 12 4 (m.), °30 11 9, 45
 8 2 कोलाहल (see I).
 वम्भण्ड 27 6 7 ब्रह्माण्ड.
 वम्भारिय 23 15 4 ब्रह्मचारिन् enl.
 वम्म 29 3 4 मर्मन्.
 वय 26 11 7 वचस्.
 वय° 27 12 7 (for वद्) (1) hedge;
 gl. वाटी (G. वाड); (2) gl. चर्मवर्षा.
 वरइत्त 31 1 9 (1) वर (see I), (2)
 वरवत्.
 वरण 54 14 10 bund; gl. पाली (G. पाल).
 वरावरि 52 9 2 fight involving sele-
 ction (of the opponent ?)
 वरि 31 7 4 gl. उपरि.
 वरिसालय 24 4 9 वर्षाकाल enl. (Old G.
 वरिसालउ).
 वरहिण° 26 5 3 वर्हिन्.
 वरण 53 2 2 (for वरण) तट, सेतु en-
 bankment, gl. पालि.
 वरुहिणि 21 8 1, 21 11 5 वरुथिनी.
 वल 27 1 7, 32 3 2 gl. वृषभ (cf. वलय=
 वृषभ PSM).
 √ वल=ज्वल् (cf. G. वळवुं);
 -pres. part. वलन्त 29 4 2; pret.
 part. वलिय 32 14 8 [ज्वलित] दग्ध
 worthless, wretched (G. वळ्यु).
 वल्लिमण्डल° 27 3 9, 29 9 9, 30 9 5
 बलान्कारेण.
 वल्लिवण्ड-मण्ड° 25 2 6 forcibly ?
 °वसण 28 7 2 [व्यसन] सङ्कट.
 वसन्त-राय 26 5 2 वसन्तराज.
 वसुणन्द 53 5 6 असिविशेष, gl. फारक (=शस्त्र-
 विशेष).
 बहुगुण 37 14 9 बहुगुण.
 बहुत्तय 38 8 9 (enl.) प्रभूत (II. बहुत).
 बहुव° 34 7 7 [वधू enl.] अप्सरस्.
 वंस 31 7 3 [वंश] back (cf. G. वांसो)
 वंसारि 31 7 3 [वंश+अरि ?] गज.
 वाउलि° 27 15 5 पक्षिविशेष.
 °वाउलि 28 2 6, वाओलि 32 2 2 [वात+
 ओली] strong wind.
 °वाढिय 49 8 11 ?
 °वाणासणि° 28 3 1 [वाणाशनि] वाण, cf.
 सरासणि.
 वाथइ 26 20 1 वाचयति.
 °वार 25 9 1 द्वार.
 वारण-वार 28 11 1 सिंह, gl. हरि.
 वारापेक्ख-करण 22 11 6 [द्वारापेक्षा-करण]
 waiting at door for a guest ?
 gl. अतिथि-द्वाराप्रेक्षण.
 वारि° 27 10 7, 29 2 4, 30 8 3 (गज-
 बन्धन) गर्ता; gl. at 30 8 3: वारण-
 पाली कृत्वा तटाक-जलमिव वद्धः.
 वारिय 38 18 9 क्रम turn, gl. परिपटी
 (G. वारी).
 वालालुञ्चि 23 11 6 pulling of hairs

- °वावण 26 5 3 वामन.
 ✓वावर-[व्यापृ] ' use weapon '
 ' fight ' ' attack ' ;
 -pres. 3. pl. वावरन्ति 43 15 7; pres.
 part. वावरन्त 40 2 4, 48 5 7.
 वासइ 26 7 8 वाशते.
 वासव-दिस 28 8 5 [वायव-दिशा] पूर्वदिशा.
 वासव-पुर 28 7 7 अमरावती.
 वासिय 28 10 1 [वासित] भावित.
 °वासुत्त 50 11 9 sort of pickles ?
 वाह' 24 15 7 व्याध.
 °वाहण 40 1 3 [वाधन] वाधक.
 वाहिर° 54 14 6 वहिस.
 वाहिरय 39 9 6 [वाह्य] अज्ञात strange
 (cf. 9 9 2).
 वाहिल्ल 34 2 6 व्याधिवत.
 ✓विकिखर [विकिखर] विकृ disperse,
 spread;
 -pres. 3. pl. विकिखरन्ति 31 6 4.
 विक्री° 42 11 6 वीचि.
 °विच्छङ्कु° 40 2 8 gl. समुदाय (D. 7 32)
 विच्छन्त (vl. विच्छङ्कुय) 32 1 2 ? gl. (on
 विच्छङ्कुय) म्लान.
 विच्छाङ्गय 26 6 4 [विच्छाय enl.] निष्प्रभा.
 ✓विच्छार [वि+क्षार] besm. ar (head)
 with ashes;
 -ab. विच्छोरंवि 25 14 4; pret. part.
 enl. विच्छारियय 30 1 3.
 °विच्छोम 45 15 9, °विच्छोय 33 2 5
 विरह (cf. विच्छोह D. 7 62; G. चछोहो).
 विच्छोङ्गय 41 18 7, enl. विच्छोङ्गय 39 3
 5 विरहित (see विच्छोम).
 विज्जा-पाण 38 17 3 [विद्या-प्राण ?] विद्या-
 शक्ति (see 19 7 11).
 विज्जण °25 11 10°, 50 11 13,
 enl. °विज्जणय 26 16 7 con. lim. ent.
 °विट्टल 54 11 3, enl. °विट्टलय, 39 6 3
 bundle ? (cf. विट्ठलिआ, विट्ठिआ,
 विट्ठी ' bundle ' PSM; G. वीटलो, वीटो
 bundle).
 विडप्प 29 2 8 राहु (D. 7 65).
 °विडाविड 54 8 9 निर्मित ? (cf. विडविडु=
 रच् He. 4 94).
 °विड्डिरिल्ल 37 1 4 gl. विक्षित (cf. विड्डिर=
 आडम्बर, भयङ्कर).
 विणइ=व्याकुलय्, विडम्बय् bother, delude
 -imper. 2. He. विणइहो°-fut. 3. s.
 विणडेसइ 40 14 5.
 विणासयर 27 1 [विनाशकर] विनाशक.
 ✓विण्णास=वि+न्यास् display, show;
 -imper. 2. s. विण्णासहि 25 12 2.
 विण्ह 25 5 2, 36 12 7 द्वयोः.
 वित्थक्क 40 16 7 निरुद्ध (cf. ✓वित्थक्क=
 वि+स्था PSM).
 वित्थड 40 2 3 विस्तृत.
 ✓वित्थार [विस्तारय्] show in the
 presence of, u-her ?
 -pres. 1. sing. वित्थारमि 53 2 10.
 वित्थिय 26 13 4 संबद्ध ?
 विद्ध्य 28 9 4 [विदय] gl. निर्दय.
 विद्धान 21 13 7, enl. 23 3 6, 24 7 2
 etc; fem. विद्धानी 23 4 4 म्लान, शोकानुर.
 विप्पय 36 13 9 (for विप्पिय) अहित.
 विभुत्तिकर 30 1 7 विभूतिकर.
 विम्भय 28 7 1 विस्मय.
 विम्भल 46 8 4 विद्वल.
 विम्भाविय 29 7 7 विस्मापिता.
 वियावडमत्थय 25 20 9, 26 5 11, 26
 7 6 [व्यापृत-मस्तक ?] नतमस्तक ?
 'वियावड 46 3 3 [व्यापृत] व्याकुल abou-
 nding in, gl. व्यापित.
 विरल्लिय (v. l. विरेल्लिय) 40 3 1 pier-
 c-d ? (But PSM. records विरल्ल,
 विरिल्ल, विरेल्ल=वि+स्तृ, तन, cf. the obs-
 cure use of वित्थारमि at 53 2 10).
 विरसउह° 36 15 7 [विरसमुख] काक (cf.
 विरसमुह D. 7 49).
 विरिञ्चवेय 43 10 6 [विरिञ्च-वेद] ब्रह्म-वेद.
 विरिल्लिय° 41 2 1 [=विस्तृत] विशाल.
 विरुअय 36 8 2, विरुयय 24 5 2, विरुवय
 31 2 2 [विरुप enl.] कुत्सित bad
 (विरुअ D. 7 63, G. वरवु).

- विहङ्ग= [विहङ्ग] to object, bc displeased.
- विरोलिय 25 18 12 विलोडित, मचित.
- °विरोलण 41 1 4 मन्थक, विनाशक.
- °विलय 24 4 4, 28 9 9 विनता.
- °विलविलन्त ((v. l. बुडबुडन्ति) 39 7 2 (from विलविल onom.) wriggling.
- °विलासिणि° 23 1 7 [विलासिनी] छन्दोविशेष.
- °विलुक् 51 15 1 bruised (cf. विलुक्= विलुञ्जित PSM).
- विवरम्मुह 25 17 10, 28 2 3, विवरासुह 29 9 7 पराङ्मुख.
- विसडण 27 2 9 अपशकुन.
- °विसट्ट° 27 1 4 विसृष्ट; 53 6 1 विघटित; 53 2 2 विनष्ट.
- विसमणयण 43 18 5 [विषमनयन] शिव.
- विसन्धुल 25 1 1, °25 19 10 [विसंढुल] विह्वल.
- विसहर 24 6 5 (1) वृष-धर, (2) विषधर.
- विहङ्गफड 37 8 7, 37 11 3 व्याकुल (see I).
- √ विसूर=खिद् ;
-pres. 3. s विसूरइ 27 14 8; agent. विसूरण 22 9 8.
- विहफड 43 9 7, विहफड 45 8 9 वृहस्पति.
- विहय 23 12 4, 27 15 4 विहग.
- विहलङ्गल 25 5 5, 26 13 6, 39 4 1 विह्वल (see I).
- विहाणय 26 19 9 प्रभात (see I).
- √ विहाव [विभावय] इम् ;
-pres. 3. s. विहावइ 25 4 8, 35 4 9.
- विहुर 33 8 5 [विधुर] सङ्कट; °39 1 8° वेदना.
- वीया° 26 4 9, 37 3 3 द्वितीया.
- वुक्कइ 52 1 caws.
- वुक्कण° 27 15 5, 52 1 7 gl. काक (D. 6 94).
- वुदत्तण 50 13 5 वृद्धत्व.
- वुण्ण-कण्णय 32 3 12, वुण्णयण 25 20 1 (for वुण्णयण?) अवनतकर्ण? But the gloss on 25 20 1 equates
- the word with भुली 'gone astray' and वुण्ण is recorded in the senses मीत, उद्विग्न only.
- °वुवुव° 37 1 4 बुद्धद.
- वे 29 5 4 द्वि (ग. वे).
- वेज्ज 26 13 7 push (see I).
- वेडुज्ज° 56 4 5 वैदूर्य.
- वेड्डिय 25 4 11 वेष्टित.
- °वेणि 41 14 2 gl. तट (cf. वेण=विषम-घाट D. 7 74).
- वेणह 38 9 2 s e विण्ह.
- °वेयण्ड° 40 11 1 [वेतण्ड] गज.
- °वेयडिय 26 15 2 खचित (वेअड=खच् HC. 4 89).
- वेयायर 28 12 4 [वेदादर] gl. ब्राह्मण.
- √ वेयार=प्रतारय् ;
-pres 2 s वेयारहि 39 12 2; pret. part. वेयारिय 33 5 7, enl. वेयारियय 39 12 5.
- वेयालिय 43 18 1 [वैतालिका] विद्याविशेष.
- वेलु 29 1 10 (1) तस्कर (D. 7 94); gl. मूर्ख, वातूल; (2) ? gl. नमे (=नभसि) प्रसिद्धः.
- वेल् 55 3 3 वल्ली (D. 7 94 वेल्हा=वल्ली; G. वेल्).
- °वेल्हल 30 5 8 (1) gl. ललित-गर्भेश्वर; (2) बिन्वफल; gl. बिन्वीफल (?).
- वेह (v. l. पतिणेहे for पुत्ते वेहे) 46 6 7 ?
- वेहाविद्धय 54 4 5 क्रोपाविष्ट (see I).
- °वोज्ज 45 2 3 [उद्य] burden (G. बोझ).
- वोराहिउ (v. l. गोराहिउ) 47 4 5 gl. सूकर्यः sows (explained as बेरि-अधिकाः =बहु-पुत्राः; possibly corrupt for वाराहिउ=वाराह्यः)
- °वोल (in कल्लोल-बोल) °23 13 6, °25 11 8 समूह (see बोल PSM).
- √ बोलाव=व्यावर्तय् ;
-abs. बोलावेवे 23 15 1.
- बोलिय 23 7 1 अतिक्रान्त.
- बोल्ह (fem.) 23 9 1, 25 20 8, 30 8 7, 41 10 5 वार्ता, गोष्ठी, वाच्, वचन.

बोह्लावाव 40 9 4 [बोह्ल+आलाप] संभाषण.
बोह्लावोह्लि 52 9 2 fight involving
words on both sides (cf. g.
बोलाबोली verbal quarrel).
बोहिय 23 9 5 [बोधित] प्रवीणित.

सह 34 3 8 शची.

सह 56 8 9 सदा.

सहत्तण 22 11 8 (for सयत्तण) [स्वक+
त्तण=त्वं] आत्मीयत्व, gl. सहदयेण.

सहवर 43 17 5 स्वयम्बर.

सउणय 27 2 8 (enl.) शकुन.

सउत्तर 34 4 9, f. सउत्तरिय 34 6 3
गरीयस् superior.

√सक्खिकर=साक्षीक keep as witness
-abs. सक्खिकेरेवि 29 11 3.

सङ्गच्छियय 47 2 7 (enl.) खीकृत (see
संगच्छ PSM).

सङ्गदल 27 1 7 gl. शृङ्गुगल.

सच्च 22 12 3, 23 2 12, 23 5 4, 23
8 9, 24 5 9, 24 10 3, 24 10 5
[सत्य] promise, boon, truth,
pledged word.

सज्जीउ 46 8 8 मजीवः

सज्जस 2. 8 6 साध्वस.

सणिच्छर 25 13 1 शनैश्वर.

सण्ण 31 12 8 संज्ञा.

°सण्णद्धुअ (v. l. °सण्णद्धय) 52 10 10 संनद्ध ?

सण्णिमिय 33 7 1 संस्थापित.

सपुज्जणिय (v. l. समुज्जणिय) 36 14 6 ?

°सफरि° 26 14 6 शफरी.

सत्तावीसंजोयण 41 4 3 [from सत्तावीस=
सप्तविंशति+जोयण=हृष्टा] चन्द्र (D. 8 22).

√समहु=सज्जीक, make ready ?

-समोहुँवि (v. l. समोहुँवि) 33 8 6 (see
I √समहु).

√समलह [समालभ] वि+लिप्र;

-abs. समलहेँवि 50 12 1; pret. part.

समलद्ध 45 11 9, enl. समलद्धय 26 7
3; action noun समलहण 42 9 9.

समल्लिय (v. l. समुल्लिय) 49 12 8 समाश्रित.

समसरिस 34 6 5 [समसदश] अतिशय-तुल्य.

समसुत्त 26 17 6 (1) [समसूत्र] of uni-
form texture (2) [समसुत्त] सहसुत्त ?
समंसलिय 36 15 2 [स+मांसल enl.] (f.)
gl. अतिस्थूला.

√समार [समारच्] निर्+मा;

-imper. 2, s. समारहि 25 12 3, 26
2 8; pret. part. °समारिय 28 6 2.

समिह 28 7 9 समिम्.

°समुच्चय 26 4 6 समूह.

समुबभड° 24 15 8 [समुद्रट] highly
formidable.

समुल्लविय 30 10 6 (for समल्लविय ?)

समर्पित (see √समल्लव I).

°समुच्छसन्ति 23 13 6 (fem.) rejoicing.

समुह 51 13 9 संमुख.

समोहुइ (in खन्धु समोहुइ) 45 2 3 puts
(his shoulder to) ?

√समोड, समोहु prepare, arrange
strategically व्यूह्य ?

-abs. समोडेँवि (v. l. समडेँवि) 48 1 1

समोहुँवि 53 10 2 (cf. समुहु I and समहु).

सम्बरि (v. l. संवरु, संवरु) 48 11 8
gl. आदिय (from शाम्बरुपुत्रि ?).

सरासणि° 26 8 3, 28 2 9, 48 11 1
[शराशनि] शर.

सरासरि 52 9 3 fight involving
arrows on both sides.

°सरुञ्जा° 40 17 4 वायविक्षेप (cf. √रुञ्ज=
He. 4 57)

°सरोह 23 13 5 [सरस+ओष] rows of
lakes; gl. लहरीमङ्गात.

सल 43 8 9 शलाका ?

सलग्घ 51 8 9 श्लाघ्य.

सल्लोण 25 11 10 (1) सलवण, (2) सुन्दर.

सवट्टण° 39 5 9 ?

सस 22 6 8, रासा 22 8 2 खसु.

ससङ्कुउ 28 6 8 स-संक्रम, स-शङ्क enl.
etc. see gl. on the word.

सहस 25 15 10 सहस्र.

सहारण 44 1 (for साहारण=संधारण)
comfort.

°सहेजय 31 15 9 सहाय enl.

- संकडिह्य 46 5 7 निच्छिद्र; gl. wrongly
=संकलिकायुक्त (cf. संकडिह्य n. 8 15).
- संघड 56 4 7 समूह, gl. संघट्ट.
- °संचारण 25 17 4 संहारक.
- संचारिम° 33 8 2 spy; gl. हेरिक (cf.
संचारी=दूती PSM).
- संथ 45 12 6 [संस्था] market, row of
shops ?
- °संथार 28 9 7 [संस्तार] (तृण)शब्दा.
संदाणिय 32 12 7 [संदानित] gl. निरुद्ध.
- संदीवण° 27 3 6 संदीपन Cupid's arrow.
- °संमज्जण 34 1 7 [संमार्जन] gl. न्नान.
- संसगिग 29 3 7 संसर्ग (PSM).
- सं-सा-रथ 53 1 3 अतिशय-लक्ष्मी-रत.
- संसूडिय 39 1 7 संभ्रम (cf. सूड=भञ्ज Hc.
4 106; G. सूडवुं 'thrash').
- साह्य 26 1 1, 44 9 4, 53 12 9 gl.
आलिङ्गन (G. सांइ).
- साड 54 12 1 सर्वम्; gl. wrongly
खादम्.
- °साम 24 15 6 (from °साम्य ?) gl. सदश.
- सामिसाल 26 12 7 स्वामिश्रेष्ठ (see I).
- साडिव° 50 11 11 sort of curry ?
- साडिय 36 4 9 विनाशित (see साड I).
- सारथि 52 1 4 सारथि.
- °सारि° 53 10 3 द्यूतविशेष.
- °सारि° 25 5 1 गजपर्याण.
- सालण° 25 11 9, 34 13 4, enl.
सालण्य 50 11 7 dried and fried
pickles.
- सासय-लक्ष्ण 28 7 1 [शाश्वत-लक्ष ?] gl.
निष्पन्द-नेत्र=यक्ष.
- सासुरय 30 3 9 श्वाशुरक-(गृह) (G. सासरं).
- साहम्मिय 23 9 7 gl. सा(शा ?)स्वामितौ
=विभिन्न-जननी-जातौ.
- साहार 40 3 10, 40 18 7 समाश्वासन.
- √ साहार=संधारयु comfort;
-abs. साहारौवि 42 8 6.
- साहुकारिय 26 1 8 साधुवाद-संमानित.
- °सिक्कार 26 13 6 सित्कार.
- °सिक्किय (v. l. °सिक्किय) 39 6 5 ?
- सिक्क 29 6 4 सिद्ध.
- √ सिक्क=सिक्क be cooked;
-pres. 3. pl. सिक्कन्ति 45 12 4.
- सिणिद्ध 53 11 10 स्निग्ध-द्रव्य.
- सिप्पीर 47 6 1 gl. शुष्कतृण (तृणविशेष PSM).
- सिमिर 25 13 3, 40 16 8 gl. स्कन्धावार,
संन्य.
- सिमिसिमिसिमिसिमन्त° 42 5 3 (onom.)
wriggling with *simisimi* sound
(cf. G. गमसमतुं).
- सिलिम्मुह 39 12 9 शिजीमुख.
- सिह्य 45 12 3, °51 2 7 गन्धद्रव्यविशेष.
- सिसिर 24 13 5, 34 13 6, 39 8 5°
[शिशिर] दधि (see I).
- सिहरिणि 50 11 13 [शिखरिणी] मार्जिता
a dainty of sweet curds.
- सीय-त्र 27 4 (1) [श्रीवर] लक्ष्मीपति (?),
(2) शीतपर (?).
- सीयालय 34 13 7 [शीत+आल enl.]
शीतल.
- सीयालय 24 4 9, 28 12 5 शीतकाल enl.
(G. शीयाळो).
- सीस 31 6 4 शिष्य.
- सुअन्धय 25 11 5 सुगन्धि.
- सुकु-लीव 52 3 10 ? सुवाल-कुवाल ?
- सुजन्त 39 7 4 swelling ? cf. H. मूजना,
G. सूजवुं swell).
- सुण्णहर 54 11 8 शून्यगृह deserted
house.
- सुण्णासण 42 12 8 [शून्यासन ?] अर्थशून्य,
hollow ?
- सु-पच्चल 25 15 7 सुसमर्थ (see पच्चल).
- सु-पच्छय 26 12 3 (enl.) सुपथ्य.
- सुमच्छर 26 10 4 सुमरण ?
- सुमहल्लय 23 2 7 सुमहत्क.
- सुर-तूर 28 1 6 दुन्दुभि.
- सुरयक्खित्थिय° 29 15 7 ?
- सुरायर 31 7 4 [सुराकर] सुर-समूह.
- सुरेह 31 9 6 [सुरेभ] ऐरावत.
- सुवित्थय° 28 7 3 [सुवित्तृत] सुप्रसिद्ध.
- √ सुव [ख्व] (G. सुवुं);
-fut. 3. s. सुवेसइ 23 4 7.
- सुसच्च° 24 14 5 सुनिबद्ध ?

- सुहृच्छिय 38 4 9 [सुखासिका] ease, sense of comfort.
- सुहृल 26 5 11 सुफल.
- सुहासिय 24 13 7 सुखासीन ? gl. शोभितम्.
- सुंसुभर° 31 3 3°, 56 9 5 शिशुमार (see सुंसुआर I).
- °सूभ° 50 11 6 सप.
- °सूह° 24 13 5 [सूची] धान्यमञ्जरी.
- सूखिय° 24 7 5, 40 12 4 gl. त्रुटित (सूड=भञ्ज HC. 4 106.)
- सुसह 26 5 7, 29 3 3 शुष्यति.
- सेज्ज 42 7 1 गृह.
- सेय 26 11 5°, 30 6 5° खेद.
- सेरी 49 12 7 (1) खैरा, (2) भद्राकृति (D. 8 57).
- सेह्लासेह्लि 52 2 7 fight involving lances on both sides.
- °सेवाल° 26 11 8 पङ्क (D. 8 43).
- सोच 38 17 7 [लोतस्] देहद्वार.
- सोत्तिय 38 14 5 (1) श्रोत्रिय, (2) सौत्रिक made of yarn.
- °सोयवत्ति° 50 11 6 मिष्टान्नविशेष.
- °सोवीर 50 11 13 [सौवीर] काञ्जिक.
- सोसण 27 3 6 शोषण one of (upid's arrows.
- सोहल 33 1 7 उत्सव (Old a.)
- हक° 25 6 8, 25 15 7 call, challenge.
- हृद-मग 23 11 8 [हृदमार्ग] gl. आपण.
- हृद-सोह 45 11 8 [हृद-शोभा] decoration of streets, squares and market places.
- हृदहृद° 24 15 8 gl. अतीव-मुक्त-केशो, भोजन-वस्त्रादि-रहितो वा (PSM records अनुराग, ताप and onomatopoeic senses for this word, while it has हडाहड meaning अत्यन्त).
- हृद 52 10 8 अस्थि (a. हाड-कुं).
- हृदुरि 31 5 8 अस्थिगिरि.
- हणहणाकार 46 4 2 (onom.) roaring with hana-hana sound.
- हणाहणि 52 9 4 fight involving mutual killing.
- °हण्डिय 34 11 4 [हण्डिका] earthen or glass jar (a. हांढी).
- √ हथुत्थल्ल [हस्त+√ उत्थल्ल] order by a gesture of hand, order; -imper. 2. s. हथुत्थल्लहि 21 6 4 आदेशं प्रयच्छ; pret. part. हथुत्थल्लिय 24 8 1
- °हर 39 6 6 गृह.
- हरिणदेह 40 13 5 gl. चन्द्र.
- °हलबोल° 24 2 5 कोलाहल (D. 8 64).
- हलाहलि 52 9 6 fight using ploughs as weapons on both sides.
- हलुव 26 17 4, 35 3 6 लघु enl. (a. हळवुं).
- हलुवारय 34 13 1 लघुकतर enl.
- हल्लावह 29 7 4 चालयति (a. हलावे).
- हल्लियय 39 12 7 (enl.) चलित (D. 8 62; a. हल्ल्युं).
- हवि 29 11 3 [हविस्] अग्नि.
- हसहसहसन्ति 27 5 7 (pres. 3. pl.) become ablaze.
- हसहसहसहसन्त 28 2 4, 42 5 2 ablaze
- °हार° 29 15 9 gl. अङ्गहार.
- हालाहल 27 14 9.
- हाहा° 34 3 7 गन्धर्वविशेष.
- हाहाकार 26 20 5.
- हिण्डि 23 11 5 परिभ्रमण.
- हियत्तण 41 7 1 [हितत्व] हित.
- हिलिहिलन्त 40 16 5 neighing.
- °हिसिय° 27 1 4 हेपित.
- हुभासणिय 43 8 9 [हुताशनिका] चिता.
- °हुडुका° (or हुडुका°) 40 17 4 वाद्यविशेष.
- °हुण्ड° 38 3 5 gl. मुखहीन.
- हुहुहुहुहुहुहुदन्त 42 5 3 emitting hulu-hulu sound.
- हूलाहूलि 52 9 3 fight using the hūla weapons on both sides (see हुल I).
- हेह 27 8 7 [हेति] आयुध.
- हेट्टामुह 25 13 3 अघोमुख.
- हेचाहय 56 10 9 gl. गर्व नीताः, रुद्धि प्रापिताः (a. हेवायो) become used to frequent.
- हेसन्त° 23 13 1 हेपत्.
- होज्ज 27 6 2 भवेत्.

Proper Names

(Real geographical names are spaced out).

- अहर 48 8 3, °50 10 1, अहरा 48 7 9
अचिरा.
अ इ च कु उ 45 4 4 gl. श्रीमद्वहिलपत्तनस्य
(नगर).
अह्वीर 30 7 9, 30 9 6 [अतीवीर्य] अन-
न्तवीर्य.
अ उ ज्ञा 21 1 2, 22 4 9, अ उ ज्ञा 21 4
3 etc. अयोध्या (नगर).
अक्खय 41 11 1, 52 1 1, 52 3 1;
अक्षत; अक्खयकुमार 40 15 4, 52 10
4 अक्षतकुमार.
अक्खत्त 52 4 1 अक्षत.
अग्गिकेउ 33 9 10, 33 13 7 अग्गिकेतु.
°अङ्ग °40 15 6°, °42 12 2.
अङ्गय °40 15 6°, °42 12 2 अङ्गद.
अङ्गार 47 8 8, enl. अङ्गारय 47 2 5
अङ्गार(क).
°अजय° 30 2 6, 30 10 4.
अजिय 25 8 2 अजित.
अज्जणा 46 8 1 अजना.
अज्जणय 49 9 6 आज्जनेय.
अणङ्गकुसुमा 45 5 4, 51 10 7 अनङ्गकुसुमा.
अणन्त 25 8 8, °31 1 [अनन्त] लक्ष्मण.
अणन्तवीर 30 1 2°, 30 3 5, 39 2 6°,
41 8 3 अनन्तवीर्य.
अणरण 21 3 7, 22 11 1, 39 2 6°
अनरण्य.
अणिल° 45 10 1 [अनिल] पवनञ्जय.
अणुद्धर 33 9 3, 33 9 9 अनुद्धर.
°अणुद्धरि 44 11 5 अनुद्धरा.
°अणुराह° 40 6 3, अणुराहा 40 5 10
अनुराधा.
अपरजिय 21 4 9, अपराइय 23 3 9, 38
15 6 अपराजिता.
अमियसर 33 1 6, 33 2 4 अमृतसरस्.
अर° 25 8 10.
अरिट्टउर 33 9 2 अरिष्टपुर (नगर).
अरिदमण 31 4 2, 31 5 6°, 31 8 1, 31
10 1, 31 13 9 अरिदमन.
अरुणगाम 27 12 7, 9 अरुणग्राम (ग्राम).
अलङ्कार-णयर 40 4 8, 40 5 4, 40 16
1, 8, 41 1 2 [अलङ्कार-नगर] gl.
पाताल-लङ्का (नगर).
अपराइय 23 6 8 अपराजिता.
अ वु अ° 45 4 5 अर्बुद (देश).
अस्सग्गीव 51 3 4 अश्वघ्रीव.
अहिणन्दण 25 8 3 अभिनन्दन.
°आ ण ट्ट 30 2 8 आनर्त (देश).
°आहीर° 30 2 11 आमीर (देश).
इक्खकु 31 15 5 इक्ष्वाकु.
इक्खाउ (v. l. इक्खुक्क) 38 11 7 इक्ष्वाकु.
इन्दइ 40 15 3, 41 11 1° इन्द्रजित्.
इन्दजइ 52 1 10 [इन्द्रजयिन] इन्द्रजित्.
इन्द-वायरण 45 4 11 ऐन्द्र-व्याकरण.
इर° 50 10 1, 54 1 6, 8 इरा.
इरिणप्पह 27 2 2 कनकप्रभ (इरिण=कनक.
D. 1 79).
उइय° 33 1 8, 33 2 6, 33 7 3, 33 7
6, 33 9 5 उदित.
उज्जेणय 49 8 13 of Ujjayinī (नगर).
उज्जेणि° 25 17 2 उज्जयिनी (नगर).
उज्ज 23 1 10, 23 12 1, 23 14 3, 24
1 अयोध्या (नगर).
°उत्तम 23 15 8.
उवउवाएवि 33 2 7, उवओवादेवी 33 1 7
gl. उपयोगादेवी.
एक्कदन्त 51 6 1 एकदन्त.
°एर 54 1 6 अचिरा.
एल उ रि या 49 8 9 (f.) of Elāpura.
कइकसि° 49 1 6 कैकसी.
कउतुकमङ्गल 21 2 1, 21 4 6 कौतुकमङ्गल
(नगर).
कङ्कोलिया 50 18 13 कङ्कोलिका.
कङ्कालिणि 50 8 4 कङ्कालिनी.

- कङ्काली 49 16 6.
 कच्छायण 49 8 10 of कच्छ ? (नगर).
 कञ्जी 45 4 10 काञ्ची (नगर); 4 9 8 6
 of Kāñci
 कठोर 23 15 6 कठोर.
 कणय 21 6 1, 21 7 4 कनक.
 कणयप्पह 33 9 3 कनकप्रभा.
 कण्णाडजय 49 8 14 कान्यकुब्जक (नगर).
 °कण्णाड 30 2 11 कर्णाट (देश); कण्णाडय
 45 4 5, (f) कण्णाडिय 49 8 4 of
 Karnāṭa.
 कण्ह 21 14 4, 31 8 8, 31 11 9 [कृष्ण]
 लक्ष्मण.
 कण्हपह 27 2 2 कृष्णप्रभ.
 कण्हवण्ण° 36 1 3 कृष्णवर्णा (नदी).
 कप्पूरचन्द 43 12 4 कर्पूरचन्द्र.
 कमलच्छि 56 13 3 कमलाक्षी.
 कमलोच्छव 33 10 5, 9 कमलोत्सवा.
 कम्बूदीव 44 6 6, 44 7 1 कम्बूद्वीप.
 कयन्तवक्क 51 7 1 कृतान्तवक्त्र.
 करहाडय 45 4 3 of करहाटक (देश).
 कल्याणभुत्ति 47 2 7 कल्याणभूति.
 कल्याणमाल 26 9 7, 26 14 1, 26 19 1,
 26 20 4, 20 10 4, 42 2 3 कल्याणमाल
 ('ला).
 कवडसुग्गीव 43 18 9 कपटसुग्रीव.
 कविल 27 12 9, 28 7 6 कपिल.
 काओल (v. l. काविल) 49 8 15 of
 Kāola (देश).
 काकुत्थ 21 13 6 [काकुत्स्थ] राम.
 कामकुसुम 45 9 2 [कामकुसुमा] अनङ्गकुसुमा.
 °कामरुव° 30 2 10 कामरूप.
 कामलेह° 25 3 3, 26 3 7 कामलेखा.
 कारोहण 49 8 11 of Kāyāvoraḥaṇa
 (नगर).
 कावेरि° 48 10 4 कावेरी (नदी).
 कासव° 33 1 2, 6 काश्यप; gl. wrongly
 कर्षक.
 कासिय 49 8 14 of Kāśī country.
 °किक्किन्ध° 31 1 8, 43 10 9 किक्किन्ध
 (पर्वत); किक्किन्ध 47 10 2, किक्किन्धणयिरि
 43 11 1 किक्किन्धनगरी.
 किक्किन्धपुर 43 1 किक्किन्धपुर.
 °कीर° 30 2 11.
 कुकूर 30 10 4.
 कुलभूषण° 32 5 8, 33 10 4, 33 11 1,
 33 14 8, 34 4 1 कुलभूषण.
 कुण्डलमण्डिय 22 6 2 कुण्डलमण्डित.
 कुन्थु 25 8 10.
 कुमार 25 8 12, 25 13 5, 25 15 1, 25
 17 11, 25 19 7, 25 20 5 लक्ष्मण.
 कुवलयलोयणा 50 8 3 कुवलयलोचना.
 कुवेरभट्ट 22 6 3 कुवेरभट्ट.
 कुव्वर° 26 7 9, 26 17 7, 26 18 5, 26
 11 9, 27 10 9; कुव्वरणयर 26 4 11,
 26 7 1, 27 1 1, कुव्वरपुर° 26 10 2,
 26 20 1 कूवर.
 °कुसुम° 29 10 4.
 केडमइ 51 10 3 केतुमती.
 केक्कह 21 3 8, 21 4 3, 9, 38 15 6;
 केक्कय 21 2 8, 22 7 9, 22 11 2, 22
 12°3; केक्कया 22 8 6, 22 9 4 कैक्कयी.
 केक्काणय 45 4 8 of Kekkāṇa (देश).
 केसरि° 30 2 8 केसरिन.
 °केसव 32 2 11 [केशव] लक्ष्मण.
 कोक्कण° 26 4 3, 30 2 8.
 कोञ्जणह 36 1 9 कौञ्जनी.
 कोसलणन्दण 22 1 [कोसलनन्दन] राम.
 कोसलदुहिया° 22 12 4 [कोसलदुहितृ] अप-
 राजिता.
 खर 36 6 2, 37 7 7, 38 9 3, 40 4
 10, 40 6 2, 40 7 7, 40 9 7 etc.
 °खस° 30 2 11.
 खीरोवमहणव 22 12 8 क्षीरोदमहार्णव.
 खेमङ्कर 33 10 3, 33 12 1 क्षेमङ्कर.
 खेमञ्जलि 31 4 1, 31 10 9, 31 15 1°
 42 2 6° क्षेमाञ्जलि (नगर).

- गङ्गा 23 6 3, °30 2 9°, 31 11 6, 51 3 8; गङ्गा° 26 1 गङ्गा.
 गन्धारि 50 8 3 गन्धारी.
 °गम्भीर 30 2 10 देशविशेष.
 गम्भीरिय 49 8 6 of Gambhira country,
 °गय° 30 2 6 गज.
 गयसुह 28 4 1, °30 2 6 गजमुख.
 गयसुहि 49 16 8, 50 8 4 गजमुखी.
 गरुडद्वय° 30 2 7, 30 10 3 गरुडध्वज.
 गवय° 40 15 6, 44 6 4.
 °गवक्ष 40 15 6, 44 6 4 गवाक्ष.
 गिष्वाणरवण 41 9 8, 42 8 7 गीर्वाणरमण
 (उद्यान).
 गुज्जर° 30 2 9 गूर्जर (देश).
 गुणमाला 56 13 3.
 गुणवद् 44 11 4 गुणवती.
 गुप्त° 34 11 7, 35 1, 42 3 1 गुप्त.
 गोग्गडिय (v. l. कोकणिय) 49 8 10 of
 Goggada (or Konkana) country.
 गोपाल° 29 10 5.
 गोरि 50 8 3 गौरी.
 गोरियणा 50 8 3 गोरिचना.
 गोला 31 3 2 गोदावरी (D. 2 104) (नदी)
 गोल्लिय 49 8 3 of Golla country.
 गोवद्धण 38 7 7 वासुदेव.
 गोविन्द 32 7 10, 37 12 9, 38 11 1
 लक्ष्मण.
 घणवाहण 40 15 4, 41 11 1 घनवाहन.
 घोडु 42 6 9 ?
 °चन्द° 30 10 4 चन्द्र.
 चन्द्रकान्त 44 11 5 चन्द्रकान्त.
 चन्द्रकिरण 43 6 5 चन्द्रकिरण.
 चन्द्रकेतु 21 10 3 चन्द्रकेतु.
 चन्द्रगङ्ग 21 5 7, 21 10 1, 8, चन्द्रगमण
 21 11 2 [चन्द्रगमन]; चन्द्रप्रस्थान 21
 11 6 [चन्द्रप्रस्थान]; चन्द्रायण 22 7 8
 [चन्द्रायण] चन्द्रगति.
 °चन्दण 30 2 7, 30 10 3 चन्दन.
 चन्दणहा 40 18 1, चन्दणहि 36 6 3, 36
 15 11, 37 1, 41 1, 45 3 6 etc.
 चन्द्रनसा, शूर्पणखा.
 चन्द्रपह 25 7 6°, 25 8 5 चन्द्रप्रभ.
 चन्द्रमरीचि °56 2 8 चन्द्रमरीचि.
 चन्द्रलेह 47 2 3 चन्द्रलेखा.
 चन्द्रहास 38 13 5 चन्द्रहास (खड्ग).
 चन्द्रोभर° 40 5 10, 40 11 8°, चन्द्रोयर
 °30 2 7, °30 10 3°, 40 11 8°, 40
 13 7, 40 14 1, 40 18 6° चन्द्रोदर.
 चवलवेय 21 10 6, 10 चपलवेग.
 चामुण्ड° 32 9 4.
 चारित्तसुर 28 8 8 चारित्तयश्वर.
 चारुलच्छि 44 11 5 चारुलक्ष्मी.
 चित्तउड 24 15 1, चित्तकूड 24 14 9 चित्र-
 कूट; चित्तउडय 45 4 3, चित्ताऊडय
 49 8 13 of Citrakūṭa.
 चीणय 42 6 9, 45 4 10 चीनदेशीय.
 चेउल्लय 45 4 2 of Ceulla country.
 जउण °26 1, 51 3 8 यमुना.
 जकखथाण 33 1 1, 33 8 7 यक्षस्थान (नगर).
 जडाइ 38 13 2, 9, 38 14 1, 39 1 6,
 39 2 8, 43 2 9 जटायु.
 जणहण 24 10 1, 25 12 6, 37 13 1
 जनादेन.
 जणय 21 1 4, 7, 10, 21 6 1, 21 7 4,
 21 10 4, 21 11 4, 22 6 8, 38 15
 5. etc. जनक.
 °जमघण्ट 30 2 8 यमघण्ट.
 जम्बव 42 12 2°, 44 14 9, जम्बवन्त 40
 15 5 जाम्बवन्त; जम्बुणय 44 14 1,
 56 2 3, 58 8 7, जाम्बूनद.
 जम्बुदीव 38 18 2°, 44 2 1 जम्बुद्वीप.
 जय° 33 3 1 पर्वतविशेष; °30 2 6°, 30 10
 4 नृपविशेष.
 जयघण्ट° 30 10 4.
 जयन्तपुर 30 11 9 नगरविशेष.
 जयन्धर 33 2 2.
 जयमाल° 29 10 4.

°जयमुह 30 2 6 जयमुख.

जाणह 21 7 9, 22 6 6, 23 6 3, 25 7 1, etc. [जानकी] सीता.

°जालन्धर 30 2 11.

जालामालिणि 50 8 4, जालामालिणी 49 16 6 ज्वालामालिनी.

जिणयास 39 3 9 जिनदास.

जिणवह 44 11 6 जिनवती.

जियपडम 31 5 6°, 31 6 9, 31 7 8, 31 9 1, 31 16 5, 48 14 7; जिणपोम 31 12 2 जितपद्मा.

जीवन्तणयर 29 1 जीवन्तनगर.

क्षीणपह 27 2 2 क्षीणप्रभ (पर्वत).

टक्क° 30 2 11 देशविशेष.

णन्दावत्त 30 1, 30 4 1, 30 9 9° नन्दावर्त (नगर).

णन्दिद्यड 30 6 2? gl. अनन्तवीर्य.

णन्दु र वारी 45 4 9 (f.) of Nandara-bāra (नगर).

णमि° 27 11 2, 51 7 7.

णम्मय 27 1 1, 42 2 3, 45 4 13, णम्मया 48 9 4 नर्मदा (नदी).

णरसद्दल° 30 2 6 नरशार्दूल.

णल 40 1 5, °42 12 2°, 43 6 8°, 56 12 1° नल.

णारय 21 1 8, 21 8 4, 21 10 1, 33 1 3; °णारा 34 3 7 नारद.

णिप्पह 27 2 2 निष्प्रभ (पर्वत).

णिप्पालय 49 8 5 of Nepāla country.

णील 40 15 5, °43 6 8°, 56 12 9. नील.

णेवाल 45 4 7 of Nepāla country.

तक्खय 38 6 6 तक्षक.

तजिय° 30 2 10 ताजिक.

तम 21 7 5 तमस.

तरङ्गमह 42 2 1 तरङ्गवती.

तरङ्गमाल 47 2 3 तरङ्गमाला.

तरङ्गिय 50 8 2 तरङ्गित.

तार 43 6 6, तारा 43 1, 43 3 12°, 50 8 2 तारा.

तावि 27 11 7, 27 12 1 तापी (नदी).

तिकूड 42 8 9, 44 10 10 त्रिकूट (पर्वत).

तिजगविहूषण 42 6 1 त्रिजगद्विभूषण (हस्तिन).

तियह 49 10 1, 50 8 1 त्रिजटा.

तिलोत्तिम 34 3 8, 44 11 8 तिलोत्तमा.

तिविट्ट 46 4 10, 52 3 4 त्रिपृष्ठ.

तिसिर 37 14 3, enl. तिसिरय 37 14 8, 9, 38 1, 49 4 2 त्रिशिरस.

तिहुषणतिलय 28 8 5, 28 10 7 त्रिभुवन-तिलक (जिनालय).

तुङ्गविसय 49 8 12 तुङ्गविषय.

तुम्बुरु 33 1 3°, 34 3 7 तुम्बुरु.

तोयदवाहण 53 2 4 तोयदवाहन.

दण्डय 35 6 1°, 35 8 3° दण्डक (नृप विशेष) 36 1 9, 37 6 4 (अरण्य).

दण्डाउर 35 4 2 दण्डकपुर.

दण्डारण 38 1 9, 34 9 9, 41 2 9 दण्डकारण्य.

दसउर° 24 15 1°, 25 1 4, 25 4 8, 25 9 6, 10; 26 1 8, 26 2 6, 26 3 4, 26 4 11, 42 2 2 दशपुर (नगर).

दसणावलि 49 16 7 दशनावलि.

दसरह 21 1 2, 7, 10; 21 14 5, 22 3 9, 23 2 5, 24 5 9, 24 10 1, 38

15 5, 40 1 etc.; दससन्दन 22 11 1, 40 10 10 [दशस्यन्दन] दशरथ.

दससयगह see सहसगह.

दससिर see रावण

दसाणण see रावण.

दसास see रावण.

दहमुह see रावण.

दहवयण see रावण.

दहिसुह 47 1 12, 47 1 1°, 47 8 8°, 47 9 9° दधिसुख (द्वीप).

दावावलि 51 5 2 दंष्ट्रावलि.

दामोदर 32 2 7 [दामोदर] लक्ष्मण.

दासरहि 28 1, 48 15 9 [दाशरथि] राम.

°हुज्जय° 30 2 4, 30 10 4 हुज्जय.
 दुण्णयसामिणि 35 7 5, 35 9 3, 35 12
 9, 35 13 10 दुर्नयन्वामिनी.
 दूषण °37 2 10°, 37 3 5°, °37 11 9°,
 40 4 10, 40 10 1, 40 18 6, 41
 2 6, °42 3 7, °43 1 8 etc. दूषण.
 देउलवाडय 45 4 1 of देवकुलयाटक
 (नगर).
 देवद्वणन्दण 31 13 5 [देवकीन्दन] द्वण्ण.
 °देसविहूसण 32 5 8, 32 9 9, 33 10 4
 देशविभूषण.
 दोण 21 2 8, 21 14 4 द्रोण; दोणराय 22
 8 2 द्रोणराजन्.
 धरणीधर see महीधर.
 धीर 23 15 7.
 पइठाणय 45 4 4 of Pratiṣṭhāna
 (नगर).
 पइविय° 30 2 9 ?
 पउणारय 49 8 2, (f.) of Paunāra
 country.
 पउम 31 16 6 [पन्न], पउमणाह 44 2 3
 [पन्ननाथ] राम.
 पउमावह 33 9 7, 44 11 4 पद्मावती.
 पउमप्पह 25 8 4 पद्मप्रभ.
 °पउमिणिपुर° 33 2 1 पद्मिनीपुर.
 पङ्कयराय 45 5 6 पङ्कजरागा.
 °पचण्ड 30 10 3 प्रचण्ड.
 पञ्चामुह 40 15 3, 42 12 9 पञ्चमुख.
 पञ्चाल 30 2 9 पाञ्चाल (देश).
 °पण्डि° 26 4 3, पण्डिय 30 2 8 पाण्ड्य.
 पभञ्जणि 48 3 3 [प्राभञ्जनि] हनुमत्.
 पमउज्जाण 42 9 8 प्रमदोद्यान.
 पयाग 51 3 8 प्रयाग.
 पवणञ्जह 45 15 5 [पावनञ्जयि] हनुमत्.
 पवणञ्जय 43 7 2 पवनञ्जय.
 पवणि 48 3 9, 48 14 4 (= पावणि) हनुमत्.
 पहञ्जणि 48 11 1 [प्राभञ्जनि] हनुमत्.
 पायाललङ्का 36 6 2, 36 9 1, 37 3 7, 37
 11 7, 43 3 11 पाताललङ्का (नगर).
 °पारसीय° 30 2 10 पारसीक.

पारियत्त 23 13 2 पारियात्र (देश): °30 2
 9° (नृपविशेष).
 °पाल 29 10 5.
 पिङ्गल 21 5 8; 22 6 3.
 पियवद्वण 23 15 7, 25 1 4, 26 1 7,
 प्रियवर्धन.
 पियव्वय 33 9 4, 8 प्रियवत्.
 पिहुमह 48 2 1°, 48 5 4, 55 12 1
 पृथुमति.
 पिहुलप्पह 27 2 2 पृथुलप्रभ (पर्वत).
 पिहुसिरि° 21 2 7, 21 4 1 पृथुश्री.
 पुण्णवइ 21 5 8, 22 6 7 पुण्यवती.
 पुण्णयन्त 25 8 6 पुण्यदन्त.
 °पुरिसुत्तम 23 15 8 पुरुषोत्तम.
 °पुण्डरीय° 23 15 8 पुण्डरीक.
 पुत्तम° 24 15 8 पुत्रव.
 पूयण 32 8 4, पूयण 28 4 5, 9 पूतन.
 पूवण see पूयण.
 पोमाणि 41 4 5 (= पद्मा ?) इन्द्राणीविशेष.
 भद्° 47 4 8, 47 7 9 भद्र.
 भरह 21 4 9, 23 8 4, 24 6 7, 24 10
 2, 25 13, 25 12 4, 38 15 7. etc.
 भरत.
 भरह 32 8 8 [भरत] नृत्यशास्त्र.
 भरह 32 8 8 भरत (सुनि)
 भरहेसर 40 17 9 भरतेश्वर.
 भाणुकण्ण 40 15 3, 41 11 1 भानुकर्ण.
 भामण्डल 21 5 4, 21 8 9, 21 12 4, 22
 5 2, 22 7 4, 38 15 7, 38 16 3,
 38 17 5.
 महवद्वण 33 5 1 मतिवर्धन.
 मगह 22 4 7 मगध.
 मङ्गाल 30 2 9.
 मज्झिम देसय 49 8 8 [मध्यमदेशक] of
 Madhyadeśa.
 मणवाहीणि 44 11 5 मनोवाहिनी.
 मन्दोअरि 4 9 16 5, मन्दोयारि 37 3 6, 41
 4 1, 41 7 1, 49 11 1, 51 10 1,
 मन्दोवरि 49 19 10 मन्दोदरी.

मय° 40 15 3°, 41 11 1.
 °मयरद्धय° 30 10 3 मकरध्वज.
 मयरहरावत्त see समुद्रावत्त.
 मयवद्धण 35 7 6, 35 8 2, 35 9 4, 35
 14 9 मदवर्धन.
 मरु° 30 2 11 मरुत्.
 मरुभुत्ति 30 1 7 मरुभूति.
 °मलय° 26 4 3 देशविशेष, 30 2 8 नृपविशेष
 मल्लि 25 8 11.
 महद्धय 30 2 7, 30 10 4, महाध्वज.
 महाणइ 23 13 3 महानदी.
 माहिन्द 46 1 10, 46 2 1, 46 12 5
 महेन्द्र.
 °महिवच्छ° 30 2 7 महीवत्स.
 महिहर 30 2 2, महीहर 23 15 6, 29 2
 3, 29 6 9 महीधर; धरणीधर 29 8 5,
 42 2 5 महीधर.
 महुमह 23 8 7 [मधुमथ] विष्णु.
 मायन्दिय 49 8 4 of Mākandī (नगर).
 मायासुग्रीव 43 1 2, 43 6 3, 43 15 9
 मायासुग्रीव.
 °मारिचण्ड° 30 2 8, 30 10 3 मारीचण्ड.
 °मारिच्च° 41 11 1, 42 12 4 मारीच.
 मारीचि 48 15 6, मारिचि 40 15 3 मारीचि.
 मारुव 52 10 5 मारुत्.
 माहिन्द 49 9 3 माहीन्द्र; माहिन्दि° 46 4 7,
 46 12 5 माहीन्द्रि.
 मिहिला 21 5 3, 21 10 3, 21 10 10°
 21 12 7 मिथिला.
 °मुद्ध्य 33 1 8, 33 2 6, 33 7 3, 33 7
 6, 35 9 5.
 °मेरु 23 15 6 नृपविशेष, 24 2 7
 पर्वतविशेष.
 मेहगजिय see मेहणाय.
 मेहणाय 43 3 8, 51 8 10 मेघनाद; मेहग-
 जिय 51 8 1 [मेघगर्जित] मेघनाद.
 मेहवाहण 53 4 1 [मेघवाहन] घनवाहन.
 रक्ख-दीव 44 10 7 रक्षोद्वीप.
 रणुग्मिय 23 15 8?

रणण °23 10 5°, °26 14 9 [रत्ना]
 आदित्यभार्या.
 रम्भ 23 6 5, 44 11 8 रम्भा.
 रयणचूल 56 13 3 रत्नचूड.
 रयण (रह) 33 9 79 रत्न(रथ).
 रयणकेसि 44 7 2, 44 8 9 रत्नकेशिन.
 रयणावलि 44 11 4 रत्नावलि.
 रहणेउरचक्कवाल 21 5 6, 22 5 1 रथसुपूर-
 चक्कवाल (नगर).
 रहुवंस 21 1 2 रथुवंश.
 रहु-सुभ 21 3 6 [रथुसूत] दशरथ; 22 12
 9 राम.
 राम 23 7 9, 23 14 5, 24 1 11, 24
 7 9, 24 11 9, 25 8 12; रामएव 31
 16 7 [रामदेव]; रामचन्द 21 4 9
 [रामचन्द्र]; रामभद् 31 15 7 रामभद्र.
 रामउरि 28 5 1, 28 6 9, 32 8 4, 42
 2 5 रामपुरी (नगर).
 रामउरय 45 4 4 of Rāmapura.
 रामण see रावण.
 रामायण 31 11 5.
 राहव 21 7 1, 22 3 9, 24 10 9, etc.
 [राघव]: राहवचन्द 23 6 1, 24 10 9
 29 8 1 राघवचन्द्र.
 रावण 23 1, 36 6 1, 36 9 2, 36 10
 4, 38 16 6; रामण 31 11 5, 48 2
 4, 49 16 4, 53 1 रावण: दसाणण 21
 1, 37 4 8°, 38 1 3, 38 12 3
 [दशानन]; दहवयण 23 6 9 [दशवदन];
 दसास 38 6 1, 41 5 2 [दशास्य]; दहमुह
 38 5 1 [दशमुख] रावण.
 रिसह° 25 1 3, 25 8 2, 25 9 10, 26 2
 9 ऋषभ.
 रुद्भुत्ति 26 18 9, 27 9 1, 27 10 9
 30 1 7, 42 2 4, रुद्भुत्ती° 26 18 4
 रुद्भूति.
 रुद्दवच्छ° 30 2 7 रुद्दवत्स.
 रेवय 27 1 9, रेवा° 40 10 10 रेवा (नदी)
 रोहिणि° 26 14 9 रोहिणी.

- लहय 50 8 2.
लक्ष्मण 23 8 2, 23 12, 2, 24 1 4,
24 11 9, 25 13 3, 25 16 1,
25 20 3 etc. लक्ष्मण
लङ्क 36 6 2, 37 3 7, 38 12 6, 38 19
5, 48 4 2 लङ्का; °लङ्काउर 36 9 1
लङ्कापुर; लङ्कागयरी 44 10 9 लङ्कानगरी;
लङ्कादीव 44 10 9 लङ्काद्वीप.
लङ्कासुन्दरि 48 7 2, 48 8 1, लङ्कासुन्दरी
48 14 3.
लच्छिभुक्ति 45 3 1, 45 9 1 लक्ष्मीभूति.
लच्छीणयर 45 3 9 लक्ष्मीनगर.
लवङ्गिय 50 8 2 लवङ्गिका.
लवलिया 50 8 2 लवलिका.
लाड °30 2 11° लाट, 42 6 9 लाटदेशीय.
वहदेहि 21 14 5, 22 5 3 etc. [वदेही]
सीता.
वहरायरय 15 4 7 of Vajrākara.
°वङ्ग° 30 2 9 देशविशेष.
वज्रयण 25 1 2, 25 3 1, 2, 7, 25 5
9, etc., 26 1 2, 26 3 1 etc., 30
1 6, 40 1° वज्रकर्ण.
वज्ररय 45 4 8 of Vajjara country.
वजाउह 48 4 3, 48 7 1 वज्रायुध.
वजावत्त 21 12 3, °21 13 5, 23 14 4,
27 1, 32 2 8, 38 9 5 वजावर्त (धनुष्).
वडायरय 45 4 6 [वडू=महत+आकर+क]
of Vadāyara (cf. G. वडागहं scil.
माहुं 'mineral salt').
वणमाल 29 2 6, 29 3 1, 29 6 9, 29
10 4, 48 15 4 वनमाला.
वल 25 8 1, 21 14 10, 22 7 6, 23
2 4, 25 5 10, etc. [बल]; बलएव 21
1 3, 21 8 2, 23 9 7 etc. [बलदेव];
बलहद् 23 5 1 [बलभद्र] राम.
बच्चर 30 2 11 बच्चर.
बसन्ततिलय 26 5 10 बसन्ततिलक (उद्यान).
बसु 23 2 12.
बसुमुद् 33 2 5, 8, 33 7 6, 33 9 2
बसुभूति.
वंसथल 32 6 9, 34 9 3, 36 31 etc.
वंशथल.
वारमई° 49 3 9 द्वारावती.
वालि 43 6 5.
वालिविल 26 12 1°, °26 18 5°, 27
10 4, 8, 27 11 1, 30 1 6, 42 2
4 वालिविल्य.
वास 23 1 3 व्याम.
वासुएव 21 1 3, 21 8 2, 23 9 7 etc.
वासुदेव.
वासुपुज 25 8 7 वासुपूज्य.
°बाहुवल 40 17 9 बाहुबलि.
विडल 23 15 8, 30 2 6 विपुल.
विजोय 23 15 7 विजोग.
विचित्तरह 33 9 7, 9, 30 10 1 विचित्ररथ.
विजय 23 15 7, °30 2 6°, 30 10 4°.
विजयमहीहर 33 2 1, 33 3 7 विजयमहीधर
[पर्वत].
विजुप्पह 47 2 3, 49 16 7, विजुपहा 50
8 4 विद्युतप्रभा.
विजुलङ्क 25 2 1, 11, 25 3 1, 25 4 9,
26 1 4, 26 3 8 विद्युदङ्क.
विञ्च 21 5 9, 27 1, 27 3 3, 27 6 1,
28 4 6, 30 1 5, 42 2 3, 44 7 9,
48 3 9 etc. विन्ध्य; विञ्चदरि 27 2 1,
40 10 10 विन्ध्यगिरि.
विडसुगगीव 43 15 2, 43 3 12 विटसुग्रीव.
°विणमि 27 11 2, 51 7 7 विनमि.
विणहु 37 12 4, 40 4 3 विण्यु.
विदेह 21 5 3, 21 20 7°, 22 6 6, 22
6 8 विदेहा.
विमल° 25 8 8,
विमल° 33 10 3 विमला.
विमहण 23 15 7 विमर्दन.
विद्यद् 23 15 7 विदग्ध.
विद्यद्पुर 22 5 9 विदग्धपुर.

विराहिय 40 2 1, 40 5 10, 40 7 1, 44
11 6, 42 12 3, 43 9 13 etc.

विराहित.

°विसह्रं 30 2 5 विशाल्य.

विसाल 23 15 8 विशाल.

विसाला 56 13 3 विशाला.

विहीसण 21 1, 21 1 5, 9, 40 15 4, 41
11 1, 49 1 3, 52 1 10 etc. विभीषण.

विसगह्रं 26 2 6 विशङ्गति.

विसह्रा 21 14 4 विशाल्या.

वीसपाणि 38 18 1 [विशतपाणि] रावण.

वे उ ह्यि य 49 8 3 of वेउह्यदेश (cf. चेउह्य)

वेलन्धर-पुर 56 9 1.

सच्च 4इ 22 4 6, 22 7 2 सत्यभूति.

सच्चसिरी 56 13 3 मत्यश्री.

स ज्ञा ण य 45 4 8 of Sañjāna (नगर).

सह 23 15 6 सह.

सत्तुदमण 31 8 7, 31 14 6, सत्तुदवण 42
2 7 [शत्रुदमन] अरिदमन.

सत्तुहण 21 4 9, 22 7 4, 22 10 9, 24
8 8, 38 15 7 etc. शत्रुघ्न.

सन्ति° 2 8 9 शान्ति.

समीरणि 48 15 2 [समारणि] हनुमत.

समुह 56 10 2, °56 10 9, °56 11 4,
°56 12 1 समुद्र.

समुद्रावत्त 21 12 3, 34 11 1, 38 7 2
समुद्रावर्तः मयहरावत्त 50 2 1 [मकरगृ-
हावर्त]: साथर 21 13 5, 23 14 4, 27
1, 32 2 8 [सागर] समुद्रावर्त (धनुष).

सम्बु 37 9 9; सम्बुकुमार 36 3 5, 37 4 9,
40 5 3, 40 18 1, 41 1 9, 42 3 3,
45 9 1, 44 4 2 etc. शम्बुकुमार;
सम्बुकः 44 14 4 शम्बुक.

सह्र° 30 2 5 शल्य.

ससिकेड 22 6 4 [शशिकेडु] चन्द्रध्वज.

ससिपह 27 2 2 शशिप्रभ.

ससिवद्धण 21 14 1 शशिवर्धन.

सहसकूड 25 7 2, 26 1 5 सहसकूट [जिना-
लय].

सहसगह 43 18 6 सहस्रगति; दससयगइ 47
8 9 [दशशतगति] सहस्रगति.

सहसवाहु 30 9 7 सहस्रवाहु.

सहसमह 40 15 4, 42 11 4 सहस्रमति.

संभव 25 8 3.

साथर° see समुद्रावत्त.

साथरबुद्धि 21 1, 21 1 1 नागरबुद्धि.

सारङ्गधर 26 16 1 [शार्ङ्गधर] लक्ष्मण.

साहसगह 47 2 9, 47 3 2, 47 9 6, 47
10 4, 49 4 6 साहस्रगति.

सिङ्गा रिया 49 8 7 of Singāra city ?

सिङ्गल 45 4 7, 49 8 2 सिंहल.

सिद्धकूड 23 9 9, 24 6 1 सिद्धकूट (जिना-
लय).

सिद्धत्थपुर 33 10 2 सिद्धार्थपुर.

सिन्धव° 30 2 10 सिन्धव.

सिन्धव 49 8 9 सिन्धव of Sindhu
country.

सिरिकन्त 44 11 5 श्रीकान्त.

सिरिवच्छ 27 21, 36 4 1 [श्रीवत्स] लक्ष्मण.

सिरिसह्र 45 5 2, 51 5 7, सिरिसेल 46 8
4 [श्रीशैल] हनुमत.

सिरिहर 28 11 1 [श्रीधर] लक्ष्मण.

सीय 21 5 4, 22 7 7, 21 11 9, 25 20
6 etc. सीता: सीयाएवि 23 6 2, 9 सीतादेवी.

सीयल 25 8 6 सीतल.

सीरकुडुम्बिय 24 15 7, 25 1, 25 6 9
सीरकुडुम्बक.

सीरप्पहरण 24 10 2 [सीरप्रहरण]; सीराउह
26 18 9 [सीरायुध] राम.

°सीहविकन्त 30 2 5 सिंहविकान्त.

सीहोयर 25 1 3, 25 5 9, 25 8 12, 25
12 3, 25 16 2, 25 17 5, 25 20
7, 26 3 4, 30 1 6 etc. सिंहोदर.

सुग्गीव 40 15, 42 12 2, 43 3 12, 44
7 7, 44 16 9 etc. सुग्गीव.

°सुगुत्त 34 11 7, 35 1, 42 3 1 सुगुत्त.

सुघोस 28 7 3, 32 8 3 सुघोषा (वीणा).

सुण्ड 40 17 1, 2, 40 18 4; सुन्द° 40
17 9, 40 18 2, 41 1 2.
सुन्दर 48 10 8 हनुमत.
सुन्दरि 44 11 5.
सुपास 25 8 5 सुपार्थ.
सुप्पह 21 4 9 सुप्रभा.
सुप्पह 22 1 3, 5, 9, सुप्पहा 22 9 4, 38
15 6 सुप्रभा.
°सुभद् 47 4 8, 47 7 9 सुभद्र.
सुभृत्ति 27 7 1, 30 1 7 सुभृत्ति.
सुमह° 25 8 4 सुमति.
सुमणा 50 8 2 सुमना.
सुमिन्ति 21 4 9, 23 6 8 सुमित्रा.
°सुगाल° 29 10 4 सुकाल.
सुरव 33 1 2, 6 ग्ल. सूरप.
सुरवद् 44 11 4 सुरपति.
सुरसेहर 31 4 8 सुरशेखर (उद्यान).
°सुवर्णमाल 29 10 4 सुवर्णमाल.
सुवीर 23 15 7.
सुबुद्धिय 50 8 2 सुबुद्धिका.
सुवेल 56 13 6, 55 14 1 (वियाधरविशेष);
56 13 6 पर्वतविशेष.
सुव्वय 23 1, 25 8 11 सुव्रत.
सुहमद् 21 2 6, 21 3 6, 21 4 4°, 22
11 8° शुभमति.
°सूर° 30 10 4 सूर.
सूरहास 36 3 6, 37 2 7, 40 8 10, 44
14 3 सूर्यहास (खड्ग).
सेठ 56 10 2, 9, 56 11 4, 56 1 2, 9
सेतु.
सेयंस° 25 8 7, 26 2 9, 56 14 1° श्रेयांस.
सेस 38 6 5 शेष.
सोमिन्ति 21 4 9, 23 5 5, 23 7 3, 25
17 1° [सौमित्रि] लक्ष्मण.
सोम्म 28 10 3 सौम्या.

हणुभ see हणुव.

हणुरुहदीव 45 3 10, 51 10 6 हणुरुह-द्वीप.
हणुव° 46 4 7, 47 10 1, 48 14 9, °52
10 4; हणुभ 43 3 3; हणुवन्त 40 15
5, 42 12 6, 43 7 4, 48 6 3, 48
7 1 etc. हनुमत.

हणुवन्त see हणुव.

हयगीव 46 4 10° हयग्रीव.

हयसुह 48 5 4 हयसुख.

हयसुहि 49 16 8, 50 8 4 हयमुखी,

हरि 21 13 2, 22 7 7, 23 5 10, 24
11 5, 25 11 9°, 25 18 9 etc. लक्ष्मण.

हरिकेलय 45 4 6, हरिकेलिय 42 6 9
of Harikeli country.

हरिवाहण 21 2 10, 21 3 4, 21 4 2
हरिवाहन.

हरिसेण 23 15 5 हरिषेण.

हलहर 23 4 6, 24 11 5, °25 11 9
[हलधर] राम.

हलहेइ 23 12 8, 26 13 1, 44 10 7
[हलहेति] राम.

हंसदीव 56 15 1 हंसद्वीप.

हंसरह 56 15 2 हंसरथ.

हिन्दोलय 26 7 5 हिन्दोल enl. (राग).

हि म इ रि 23 9 11 हिमगिरि.

हिमपव्वइ 43 18 5 [=हंसपर्वती] पार्वती.

हि म व न्त 21 5 9, 23 6 3, 31 11 6
हिमवत.

हिययवम्म 44 11 4 हृदयवर्मका.

हिययावलि 44 11 4 हृदयावलि.

°हूह° 34 3 7.

हेमप्पह 21 2 10, 21 4 2 हेमप्रभ.

वनस्पतिनामानि

- °अहमुत्तय° 51 2 3 अतिमुक्तक.
 °अज्जुण 51 2 4 अर्जुन.
 अञ्जण 51 2 4 [अञ्जन] ?
 अञ्जय 52 2 8 ?
 °अरिष्टिया 51 2 7 अरिष्टिका.
 °अव्वई 51 2 7 ?
 असत्थ 32 5 2, °आसत्थ 51 2 5 अधत्थ.
 असोग° 51 2 2 असोक.
 °उम्बर 51 2 5 उदुम्बर.
 °पुत्थिया 51 2 7 अगस्ति ?
 'ककोल° 51 2 4.
 °कङ्कुणी° 51 2 8.
 °कञ्चाल° 51 2 8.
 °कञ्चण° 51 2 9 काञ्चन.
 कण्डूर° 51 2 9 करवीर (G. कणेर, करेण).
 कम्पिल्ल° 51 12 9 (G. कंपीलो).
 कयली 51 2 5 कदली (G. केळ).
 करञ्ज° 52 2 9.
 °करमर° 50 11 10, 51 2 3.
 °करवन्द° 51 2 3 करमर्द (G. करमदी).
 कारेल्ल 50 11 12 (G. कारेल्ले).
 °कुन्द° 43 11 7.
 °कुन्देद° (v. l. कुन्देदु) 51 2 4 ? (cf. कुन्देन्दु, v. l. कुन्देद 3 1 7).
 केलय 38 11 3 कदलक (G. केळ्ळे).
 कोजय 51 2 7 कुञ्जक.
 चिञ्जा 51 2 8.
 चिञ्चिडिया 50 11 9 चिञ्चिटिका (G. चीमडी).
 दडम° 51 2 8 see I.
 णगोह 29 5 8 न्यग्रोध.
 णाग° 51 2 2 नाग.
 णागवेल्ली 51 2 6 नागवल्ली.
 णायचम्पय 51 4 6 नागचम्पक.
 णालियर 54 3 7 नालिकेर.
 °णिम्ब° 51 2 4 निम्ब.
 तारूर° 51 2 5 = तालूर ?.
 °तालूर 49 7 6 कपित्थ (cf. D. 5 21 तालूर).
 तिलय° 51 2 6 तिलक.
 तिसम्मा 51 2 8 त्रिसन्ध्या (कुसुम)
 तेन्दुह 32 4 11 तिन्दुकी.
 दाटिमी° 51 2 3.
 पक्ख° 32 4 11, 51 14 18 पक्ष.
 पिप्पली 51 2 6.
 पुण्णग 49 7 5, °पुण्णग° 51 2 2 पुञ्जाग;
 पुण्णाय (1) पुञ्जाग, (2) gl. राक्षस.
 पुप्फली 51 2 6 पूष्पली
 °फणस° 51 2 7 पनस (G. फणस).
 भुभ 51 2 3, भुव 47 1 9 ?
 मन्दागरू 51 2 7 ?
 महू 51 2 8 मधूक.
 मालूर° 31 1 6 बिम्बफल (see I).
 °माहुलिङ्ग° 49 7 6 मातुलिङ्ग.
 °मिरी° 51 2 8 मरीच.
 रत्तन्दण 51 2 3 रक्तचन्दन (PSM).
 °लवली° 51 1 4.
 °लाव° 51 2 8 लाव.
 लिम्ब 51 2 5 निम्ब.
 वञ्जुल° 51 2 4.
 वड° 50 11 12 ?
 °वन्दण 32 3 4, 49 7 9, 51 14 16 अधत्थ
 °वन्दुक° 51 2 8 ?
 °वाइङ्गण 50 11 12 वृन्ताक (G. M. वेंगण).
 वाणिकख 51 2 8 ?
 °वेणू° 51 2 8 वेणु.
 सज 51 2 4 सर्ज.
 °साल 51 2 4 साल.
 सिरीस° 51 2 7 शिरीष (G. सरसडो).
 °सीसव 38 19 8 शिशपा (G. शीशम).
 °सेल्लू° 51 2 9 सेल, शेल.
 हरिडइ 51 2 8 हरीतकी (G. हरडे).
 °हलिदी° 51 2 3 हरिद्रा.

ADDITIONS AND CORRECTIONS

*

p.	l.	Correct	p.	l.	Correct
२	22	पिँ	५२	17	गय (P.'s reading) is to be preferred.
,,	28	Add after footnote 8 "PSA पिये"	,,	20	-णावई
६	9	'आणित जणय-गराहिवइ'	५३	11	वज्ज-
८	16	गन्धोवयाई.	,,	12	चैकहयँ
१२	7	Should we have णिण्ण-(=निण्ण) for णित्त-?	५८	5	वल्लेण
१३	16	अच्छहुँ (i. e. Δ's reading).	५९	21	-उवविस-विण्णउ
१४	2	एउं is a better reading.	६०	19	कलाव
,,	21	-मत्थ-परिचड्डियहुँ	६२	20	पडायउ
,,	28	Add after the 8th note 'PSA परिचड्डियाहुँ'	६४	5	पूअण-
१९	4	-रुहिरावलि-	,,	10	वोळ
,,	11	-गन्ध-	,,	20	जो घई
,,	18	-भय राय-	,,	21	तिहुअणतिलउ
२०	15	-पहारहँ	६५	16	-वहुलाई
२१	21	-लील णाई	,,	17	फलाई
,,	24	दुत्तर दुप्पइसार	,,	25	तिहुयणतिलउ
२२	20	-सच्च-	६७	15	जडउ (P.'s reading).
२४	11	महु-विन्दुहँ	,,	23	कित्तित्त १०णिव
२६	24	The inverted coma before तिह is to be omitted	६९	5	उरु
२७	20	-मइयवहु	७१	heading	एगुणतीसमो
२८	17	जाय-विवाहउ	७७	9	णिय-संताणहँ
२९	1	दिट्ठई	७८	6	मुणिवरु
३२	6	"वट्ठइ	,,	11	जियन्तपुरे (P.'s read- ing)
,,	7	-वीवउ"	८०	24	-मइयवहु
३६	6	दिट्ठेण.	८१	12	पुरणाइतेण
३७	10	रामचन्देणं	८६	4	Should it be पउम- चलण for पउम-णयग ?
३९	7	कौं वि	८७	10	१तोणीरहिँ
४०	25	रुण्ड-णिरन्तरु	,,	11	१विहरु
५१	10	अह ३संमत्तई	८८	10	एहु पियहु
			९०	3	-मन्दर-
			९२	13	१गहिउं
			९३	14	उप्पण्णए
			९६	24	अप्फालिय-धणुहरु

p.	l.	Correct	p.	l.	Correct
१६	footnote	11 to be shifted to the next page.	१५४	17	गवेसहुं
१८	21	-रत्तुपलई	१५५	20	-चिन्धावली-
„	22	पेक्नेवेवि	१५७	6	-पवणां
१९	7	सुर्ये	१५८	7	णं
„	19	उप्पाइएण	१६६	26	previously as the Ghattā of 40. Sandhi
„	24	मैउ	१६७	11	तक्खणेण
१००	25	-पोसहए	१७१	11	दसाणणे
१०१	15	मुण्ट	„	18	किमोहट्टु
१०२	7	एवहु	१७६	15	भुज-दण्ड
„	14	It should be जोणिँ	१८९	2	वयणुण्णएण, जम्बुण्णएण
„	15	-दुक्किय-कम्म-	१९७	18	णर माणइँ
१०५	12	-दुरिमुह-	२००	17	घळ्ळियञ्जण पस्यणे
१०६	3	दोह-	२०८	12	पइट्टउ
१०९	6	मुणिवर-कण्ठे	२१०	12	हसन्ति
११३	3	तिसुलें	२११	24	-परिचङ्गणु
„	17	ते लोह-	२१४	19	थक्कु थक्क
१२०	11	कोहु	२२१	23	-सहासइँ
१२२	18	दाढियउ	२२३	14	णट्टउ
१३३	9	वुत्तु दसाणणेण	२२९	14	रामहेँ
„	21	ण वहिय	२३१	10	-वाहेँहिँ
१३६	20	-फन्दन्तउ (A's reading)	२३३	27	'माणवेँण
१३८	24	It should be कम्बूदीव	२३४	13	विहसेप्पिणु
१४६	5	गयाग-संधीसं,-पाव-तासं	२३८	12	सिहरिणि-ध्रूमवन्ति-सोवीरोँहिँ
„	6	णएण,-घोर-सासं	२४२	5	घुसिण
१५०	6	दुद्धर	२५०	4	धय-चिन्धइँ विहावमि
१५१	9	-सिमिर-चूरु	२५६	16-17	This is a Catuṣpadi, not a Satpadi
१५४	16	करेसहुँ	२६८	2	अण्ण-भवन्तरवन्तरेँ

